

नेपाली क०

भानुभक्त रामायण

(मूलपाठ सहित हिन्दी अनुवाद)

डॉ. विनोद चन्द्र पाण्डे सा
नेपाली क० में उत्तराधिकारी से
नेपाली क० के अमर रचयिता
श्री भानुभक्त
सन्तान पुस्तकालय को भेंट स्वरूप प्राप्त।

अनुवादक

श्री नन्दकुमार आमात्य
सुश्री तपेश्वरी आमात्य

प्रकाशक

भुवन वाणी ट्रस्ट

वर्तमान पता:— मौसम बाग (सीतापुर रोड), लखनऊ-२२६०२०



' प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की बानी ।
सम्पूर्ण विश्व में घर-घर है पहुँचानी ॥ '

प्रथम संस्करण— १९७६ ई०

पृष्ठसंख्या— $१८ \times २२ \div ८ = ३४४$


मूल्य— ३०.०० रुपया

मुद्रक

बाणी प्रेस

'प्रभाकर निलयम्', ४०५/१२८, चौपटिया रोड, लखनऊ-२२६००३

ग्रन्थ - विमोचन



कर्नाटक प्रदेश के महामहिम राज्यपाल
श्री पं० उमाशंकर दीक्षित के
कर-कमलों द्वारा ।

डॉ. विनोद चन्द्र पाण्डे सा
श्री स्मृति में उत्तराधिकारी से
प्राकृत भारती अकादमी जयपुर
श्री स्मृतिकालय को श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
ग्रन्थ-विमोचन—महामहिम राज्यपाल श्री उमाशंकर दीक्षित	३
विषयसूची	४
मात्कार्पण डॉ० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी	५
समर्पण	६
भारत-नेपाल मैत्री युग-युग सम्म अमर रहोस्	७
उपहार	८
प्रकाशकीय	९-१६
आमुख—अनुवाद	१७
ग्रन्थारम्भ एवं ' श्रीरामपञ्चायतन ' का चित्र	१८
बालकाण्ड	१९
अयोध्याकाण्ड	५४
अरण्यकाण्ड	८४
किष्किन्धाकाण्ड	११२
सुन्दरकाण्ड	१४७
युद्धकाण्ड	१८५
उत्तरकाण्ड	२८१

परमविदुषी डॉ० राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी

को

माल्यार्पणा



*
मा
नु
भ
क्त
रा
मा
य
ण

*
मा
नु
भ
क्त
वि
र
चित

:-* *:-* नेपाली काव्य *:-* *:-

माननीया स्वायत्तशासन मंत्री, उत्तरप्रदेश, परमविदुषी डॉ० राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी को भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ की ओर से, अपने अद्वितीय भाषाई-सेतुबन्ध में नवीन शिलार्पण स्वरूप 'नेपाली' का यह अनुपम ग्रन्थ 'भानुभक्त रामायण' सादर माल्यार्पित ।

२९ जून, १९७६
स्थयात्रा दिवस

रामेन्द्र कुमारी वाजपेयी

प्रतिष्ठाता—भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ—३



श्री भानुभक्त !

संस्कृत भाषा में ही परिसीमित पुष्कल रामचरित्र को, विभिन्न भाषाई अञ्चलों के अन्य रामायण-रचयिताओं की भाँति, आपने भी जनभाषा में प्रस्तुत करके, सामान्य जनता के प्रति अनन्य उपकार किया है ।

हे नेपाल के तुलसी !

आपके अनुपम काव्य का मूल नेपाली पाठ सहित यह हिन्दी अनुवाद 'भानुभक्त रामायण' आपही को सादर समर्पित है ।

नन्दकुमार अवस्थी
मुख्यन्यासी सभापति
भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ-३

भारत-नेपाल मैत्री
युग-युग सम्म अमर रहोस्



श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र विक्रम
शाहदेव, नेपाल को भारत की
ओर से सस्नेह उपहार ।



.....

.....

.....

.....


.....

प्रस्तावना

वाणी, भाषा और लिपि.

मन के भावों और उद्गारों को मुख से प्रकट करना, यही वाणी है। पशु, पक्षी अथवा मनुष्यों में जब कोई वर्ग, एक प्रकार की वाणी बोलता है, उस बोली से परस्पर भावों को कहता, सुनता और समझता है, तब वाणी के उस 'प्रकार' को उस विशिष्ट-वर्ग की भाषा की संज्ञा दी जाती है। और उसी भाषा को जब चिह्नों-आकृतियों में लिखकर प्रकट किया जाता है, तब उन्हीं चिह्नों और आकृतियों को उस भाषा-विशेष की लिपि कहा जाता है।

कुछ विद्वानों के मत से धरातल पर पृथक्-पृथक् भूखण्डों में विभिन्न



समयों पर मानवों की सृष्टि और विकास होता रहा है। वे सब एक ही स्थान पर एक ही मानव से उत्पन्न नहीं हैं। फलतः उन सब की भाषाएँ भी एक दूसरे से बिलकुल पृथक् और स्वतंत्र हैं। इन पृथक् कुलों को ये विद्वान् आर्य, मंगोल, सेमेटिक, हेमेटिक, द्रविड आदि की संज्ञा देते हैं।

किन्तु भारतीय मत की घोषणा इसके विपरीत है, और इस्लामी तथा ख्रीष्ट मान्यता भी उसका अनुमोदन करती है। इस मत के अनुसार सारी मानव जाति एक ही मूल पुरुष

मनु अथवा आदम की सन्तान होकर मानव अथवा आदमी कहलायी। कालान्तर में विभिन्न भूखण्डों में फैलने, एक दूसरे से अलग-थलग होने, और वहाँ की विशिष्ट जलवायु और संस्कारों से प्रभावित होने के फल-स्वरूप वह मानव जाति अनेक रूप, रंग, आकार और बोलियों में विभक्त होती गयी। यह परिवर्तन लाखों वर्षों से चलते आ रहे हैं और इसलिए उन मानव-समूहों के रूप, रंग, आकार और बोलियों के अन्तर भी इतने जटिल हो गये हैं कि ज्ञान की उपेक्षा करनेवाले और केवल तर्क,

अनुमान, प्रयोग, अनुसंधान आदि भौतिक साधनों को ही ज्ञान मानकर उन पर निर्भर रहनेवाले पाश्चात्य विद्वानों तथा उनके अनुवर्ती भारतीयों का भ्रमित हो जाना स्वाभाविक ही है। यह बात इनसे ओझल हो जाती है कि कितना भी बड़ा वैषम्य इन जातियों के लक्षणों में दिखाई देता हो, उनकी आकृतियों और भाषाओं में कुछ ऐसे तथ्य लाखों वर्ष बाद भी झलकते हैं जो सारी मानव जाति को किसी पुरातन काल में एक मूल मानव का पितृत्व प्रदान करते हैं।

भारतीय वाङ्मय के सृष्टिक्रम-सम्बन्धी विशाल-ज्ञानकोश को विस्तार-भय से किनारे भी रख दें, तो भी जन-साधारण की समझ में आनेवाली कुछ बातें तो हमारे मत की पुष्टि करती ही हैं। उदाहरण के लिए— (१) द्रविडकुल की भाषाएँ आर्यकुल की भाषाओं से पाश्चात्य मत में मूलतः पृथक् मानी गयी हैं। किन्तु संस्कृत की वर्णाक्षरी, उनका वर्गीकरण तथा लिपि का बायें से दाहिने लिखा जाना दोनों कुलों में समान ही है। इसके विपरीत, आर्यकुल की फ़ारसी जैसी अनेक भाषाओं का खरोष्ठी लिपि में (दायें से बायें) लिखा जाना और वर्णों की संख्या, क्रम, वर्गीकरण आदि में बड़ा अन्तर है। (२) अरबी और संस्कृत की शब्दावली और लिपि में नाममात्र को भी मेल नहीं है, किन्तु उनकी व्याकरण में बड़ी समानता है, जबकि संस्कृत का अपने आर्यकुल ही की अन्य भाषाओं के व्याकरण से साम्य नगण्य सा है। (३) उत्तर-पश्चिम में सुदूरस्थ ईरान की अवेस्ता और गाथाओं की भाषा में असुर का अहुर उच्चारण है। बीच के पूरे आर्यावर्त में इसका अभाव होने के बाद उत्तर-पूर्व में असम प्रदेश में फिर दस को दह और गोसाईं को गोहाईं बोलते हैं। (४) नेपाल के आदिम निवासी तथाकथित आर्यकुल के रूप, आकृति से सर्वथा भिन्न हैं। किन्तु वहाँ कुछ ही समय से आवाद आर्यकुल के राज-परिवार तथा राना-परिवार की आकृतियों पर नेपाली प्रभाव प्रत्यक्ष है; आदि, आदि।

भारतीय भाषाएँ

अस्तु, जब मानव मात्र एक मनु (आदम) की सन्तान हैं और आज पृथ्वी पर उपलब्ध विविध भाषाओं और बोलियों का आदि-स्रोत एक है, तब भारत के निवासियों और भारतीय भाषाओं को मूलतः पृथक् मानना, उनका बुनियादी वर्गीकरण करना कहाँ तक समुचित है? जहाँ तक हिन्दी, गुरुमुखी, सिन्धी, राजस्थानी, ओड़िया, बंगला, असमिया, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, सिंहली आदि भाषाओं, लिपियों अथवा बोलियों का सम्बन्ध है इन सब की वर्णमाला, शब्दावली, व्याकरण आदि में इतना अधिक साम्य है कि उनको एक परिवार से बाहर समझने

की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। ये सभी प्राचीन संस्कृत की पौत्री और भारतीय जनपदों में शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि प्राकृत अथवा उनके अपभ्रंशों की पुत्रियाँ हैं।

उर्दू को तो हिन्दी से पृथक् मानना ही भूल है। उसका तो हिन्दी से वही सम्बन्ध है जो एक रूह का दो कालिब से—एक प्राण का दो शरीर से। अरबी लिपि में लिखी जाने अथवा अरबी-फ़ारसी भाषाओं के शब्दों के अधिक समाविष्ट हो जाने से उसे ग़ैर भाषा समझना भूल है। कदाचित् लोगों को कम पता है कि नगरों में नहीं, ग्रामों तक में नित्य बोली जानेवाली और हिन्दी कही जानेवाली भाषा में एक तिहाई से अधिक शब्द अरबी, फ़ारसी, तुर्की आदि के बार-बार बोले जाते हैं। उनमें ऐसे भी अरबी शब्दों की भरमार है जिनको लोग ठेठ हिन्दी की सम्पत्ति समझने लगे हैं, उनके अरबी-फ़ारसी होने की कल्पना भी नहीं करते। जैसे हलुआ, साइत (मुहूर्त), मेहरिया, हमेल, तरह, अन्दर, अगर, अचार, अजगर, अतलस, अबीर, अमीर, गरीब, अरक, मेवा, मल्लाह, मसखरा, मक्कर, लाला, लहास, स्याही, सँदूक, रुमाल आदि।

अलबत्ता भारत की दक्षिणी भाषाओं—मलयाळम, तेलुगु, कन्नड और तमिळ—का शेष भारतीय भाषाओं और लिपियों से भेद अधिक दूर का है। किन्तु उनके अक्षरों का वर्गीकरण देवनागरी वर्णमाला के समान है। इसके अलावा संस्कृत के शब्द तत्सम और तद्भव रूप में इतने अधिक दक्षिणी भाषाओं में घुलमिल गये हैं कि उनका अत्यन्त भारतीय भाषाओं से तादात्म्य प्रत्यक्ष है, भले ही कलेवर पृथक् दिखाई दे।

उद्देश्य

उपर्युक्त भाषाई पहलुओं के अलावा, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक दृष्टि से भी सारा देश परस्पर—ऐसा गुथ गया है कि उसमें एकात्म-भावके सर्वत्र दर्शन होते हैं। उसके प्रभावकी छाप सभी भाषाओं के साहित्य पर मौजूद है। इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न लिपियों के फलते-फूलते रहने के बावजूद, यह जरूरी है कि राष्ट्र में सबसे अधिक सुपरिचित और व्याप्त देवनागरी लिपि के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा और साहित्य को भारत के कोने-कोने तक पहुँचाया जाय। भारत भूमि के हर कोने में प्रस्फुटित वाङ्मय को हर भारतवासी तक पहुँचाया जाय। लिपि और भाषा के सेतुकरण द्वारा सारे राष्ट्र का एकीकरण—यही 'भुवन वाणी ट्रस्ट' का उद्देश्य है।

उद्देश्य-पूर्ति का माध्यम देवनागरी लिपि

आसेतु हिमालय, सारे देश के साहित्य, संस्कृति, आचार-विचार और सन्तों की वाणी को, किसी एक क्षेत्र अथवा समुदाय तक सीमित न रहने देकर, सारे भारतीयों की सामूहिक सम्पत्ति बनाना ही राष्ट्रीय एकीकरण की उपलब्धि है। नरसी मेहता के भजन, टैगोर की गीताञ्जलि, तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरुळ और सन्त नानक की अमर वाणी क्रमशः गुजरात, बंगाल, तमिळनाडु और पञ्जाब को ही नहीं, अपितु सारे देश को प्राण प्रदान करे, यह उनके अनुवाद मात्र के द्वारा संभव नहीं। जिस भाषारूपी सुधाभाण्ड से यह अमृत प्रवाहित हुए हैं उस भाषा के बोध के बिना वह प्राण सुलभ नहीं। किन्तु यह भी सत्य है कि एक व्यक्ति के लिए इतनी लिपियों को सीखकर उन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त करना संभव नहीं।

प्रत्यक्ष-प्रणाली (डाइरेक्ट मेथड)

अस्तु एक ही मार्ग है। देवनागरी लिपि, जो सारे देश में अपेक्षाकृत सर्वाधिक व्याप्त है, भारतीय प्राचीन वाङ्मय की भाषा—देवभाषा संस्कृत की अपनी लिपि है, उसके माध्यम से हम आरंभिक ज्ञान प्राप्त करें। देवनागरी लिपि में क्षेत्रीय भाषाओं की वर्णमाला, उनके विशेष अक्षर, उच्चारण, मात्राएँ, सामान्य व्याकरण, वाक्यरचना, देशज शब्द एवं संस्कृत से प्राप्त तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण आदि का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषा के किसी मान्य लोकप्रिय ग्रंथ को चुनकर उसके अध्ययन द्वारा अपने अर्जित उपर्युक्त ज्ञान का अभ्यास किया जाय। धीरे-धीरे, अभ्यास के द्वारा उस भाषा में अभीष्ट ज्ञान सुलभ होगा। ग्रन्थ के चयन में यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसका कथानक देश के दूसरे क्षेत्रों में पूर्वपरिचित हो। रामायण, महाभारत, इस्लामी हदीस, पारसी गाथा, सिख गुरुओं की वाणी आदि ऐसे विषय हैं जिनमें वर्णित कथानक और उपदेश सारे देश की जनता को भली-भाँति मालूम हैं। अक्षर-बोध, सामान्य शब्द-परिचय और व्याकरण-बोध के साथ-साथ, कथा का विषय जाना-समझा होने पर शिक्षार्थी को—लिपि, भाषा और साहित्य के माध्यम से अपने को—सारे राष्ट्र का व्यावहारिक दृष्टि से सच्चा नागरिक बनने के अभिलाषी को—उस भाषा अथवा ग्रन्थ को समझने में सरलता होगी। इस मार्ग से एक क्षेत्र का निवासी, सब अथवा अधिक से अधिक क्षेत्रों की भाषाओं और वहाँ के लोक-साहित्य को आत्मसात् कर सकता है। अलबत्ता यदि किसी भाषा-विशेष में अधिक पारंगत होने की अभिलाषा है, तो उस भाषा के विशेष अध्ययन का मार्ग अपनाना जरूरी होगा।

यह तो हुई भावात्मक एकता की बात । देवनागरी लिपि के माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं के पढ़ने-समझने की एक और जरूरत भी पैदा हो गयी है । बहुत बड़ी संख्या में एक क्षेत्र या राज्य के निवासी दूसरे क्षेत्र अथवा राज्य में स्थायी तौर पर बस गये और बसते जा रहे हैं । वह अपने परिवार और सक्षेत्रीयों के साथ परस्पर तमिळ, बंगला, सिन्धी आदि अपनी मातृभाषाएँ बोलते हैं, और परम्परा के अभ्यास से सदैव बोलते भी रहेंगे, किन्तु उस क्षेत्र-विशेष में शिक्षा-दीक्षा पाने के कारण बच्चे अपनी लिपि के ज्ञान से अपरिचित रह जाते हैं । फलतः नित्य की बोलचाल को छोड़कर अपनी मातृभाषा के सम्पन्न और बहुमूल्य वाङ्मय से वे अपरिचित होते जा रहे हैं, और इस प्रकार अपनी क्षेत्रीय संस्कृति से दिन-प्रतिदिन दूर होते जायेंगे । अन्य क्षेत्रों में आवासित उन परिवारों, जिनकी संख्या आज के आजाद भारत में अपरिमित है, के लिए तो अनिवार्यतः आवश्यक है कि देवनागरी लिपि में अपनी मातृभाषा के अमूल्य साहित्य को पढ़कर अपनी क्षेत्रीय साहित्यिक निधि को अपने बीच संजोये रखें ।

उपर्युक्त प्रयास से यह किसी प्रकार अभीष्ट नहीं कि भारत में प्रयुक्त अन्य लिपियों के शिक्षण अथवा प्रचार में ज़रा भी कमी हो । वह वैसे ही, वरन् अधिक फलती-फूलती रहें । किन्तु यह भी न भूलना चाहिए कि अन्य भाषाओं और लिपियों से सम्बन्धित जन, अथवा आपकी लिपि और भाषा के ही लोग जो परिस्थिति-वश दूसरे क्षेत्रों में स्थायी तौर पर बस गये हैं, उनको आपके प्रचुर साहित्य से वञ्चित होने की परिस्थिति पैदा न होने पाये । दो हजार वर्ष पूर्व तमिलनाडु के अमर सन्त तिरुवल्लुवर का 'पञ्चम वेद' समझा जानेवाला नीति-ग्रन्थ 'तिरुक्कुरळ्' अपनी लिपि के साथ-साथ, देवनागरी लिपि के कलेवर में राष्ट्र के कोने-कोने में लोकप्रिय होने के स्थिति में आ जाय, यह संकल्प भी कम पुनीत नहीं ।

नेपाली लिपि और भाषा

हिमाञ्चल में सरोवर-स्वरूप नेपाल का भव्य राष्ट्र शोभायमान है । भगवान् पशुपतिनाथ और माता गुह्येश्वरी का पावन धाम है । उस पुनीत क्षेत्र में एक बार मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । वहाँ की आदिम लिपि और भाषा नेवारी है । किन्तु धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों के फलस्वरूप संस्कृत भाषा और नागरी लिपि का बोलबाला हुआ; और कोने-अंतरे के अञ्चलों में 'नेवारी' के वर्तमान रहने के बावजूद, नागरी लिपि और संस्कृत भाषा से उद्भूत नेपाली भाषा का ही प्राचुर्य है ।

ज्ञातव्य है कि नागरी लिपि को नेपाली लिपि की संज्ञा वहाँ दी जाती है । एक अति मनोरञ्जक प्रसङ्ग है । विगत फरवरी १९७४ ई०

में पवनार आश्रम (वर्धा) में होनेवाले 'नागरी लिपि' समारोह में भारत में नेपाली दूतावास के सांस्कृतिक सहचारी प्रो० श्री मानन्धर धूसवां सायमि ने भाग लिया था। उन्होंने अपने भाषण में चर्चा की कि प्रथम बार दिल्ली आने पर, उनकी धर्मपत्नी ने हिन्दी साइनबोर्डों पर दृष्टि डालकर बड़े कुतूहल से कहा, "अरे! यहाँ तो ये सारे बोर्ड 'नेपाली' में लिखे हुए हैं!"। सारांश यह कि नेपाल की सम्प्रति लिपि नेपाली है, उसका रूप वही है जो नागरी लिपि का।

भानुभक्त रामायण

जन साधारण की यह धारणा है कि नेपाल में शिव और शक्ति की उपासना का ही प्राधान्य है। भगवान् राम की चर्चा, यदि है भी तो नगण्य सी। संयोग से उत्तरप्रदेश ग्रन्थ अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष प्रख्यात विद्वान् डॉ० रामकुमार वर्मा जी से एक बार भेंट हुई। मेरे और भुवन वाणी ट्रस्ट के भापाई सेतुबन्ध के विपुल कार्य को देखकर वे अति मुग्ध हुए। उन भापाई कार्यों में, देश के समस्त भापाई रामायण-साहित्य की नागरी लिपि के माध्यम से, एक मञ्च पर आते देखकर, उन्होंने 'भानुभक्त रामायण' की मुझसे चर्चा की। उनके सुझाव पर ही नेपाली का यह ग्रन्थरत्न 'भानुभक्त रामायण', आज पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है।

नेपाल में भगवान् शिव के अतिरिक्त राम की भी इतनी विशद चर्चा और भक्ति है, इसकी पुष्टि इसी वर्ष के आरम्भ में दिल्ली में पुनः हुई। नेपाली दूतावास के सांस्कृतिक सहचारी प्रो० धूसवां सायमि ने चर्चा की कि न केवल नेपाली में भानुभक्त रामायण, वरन् नेवारी भाषा में भी एक रामायण लिखी गयी है, और उसकी प्रति काठमाण्डू जाने पर भेजने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है।

भक्तशिरोमणि भानुभक्त

नेपाल राज्य के एक छोटे से पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में सप्तगण्डकी सलिला द्वारा सिञ्चित 'तनहूँ' उपत्यका के 'रम्घा' नामक ग्राम में विक्रम संवत् १८७१, आषाढ २९ गते के पुण्यदिवस पर 'भानु' का उदय हुआ। परमविद्वान् ब्राह्मण-कुल के प्रख्यात आचार्य श्रीकृष्ण के छः पुत्रों में ज्येष्ठ धनञ्जय जी के एकमात्र पुत्र श्रीभानुभक्त जी हुए। इनका अधिकांश समय पितामह के साथ व्यतीत होने के फलस्वरूप वे संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित हुए। किशोरावस्था के आरंभ होते-होते व्याकरण, ज्योतिष एवं पुराणादि पर अधिकार प्राप्त कर लिया था।

किंवदन्ती है कि २२ वर्ष की आयु में, एक दिन एक वृक्ष की छाया में

उनका एक श्रमिक घसियारे से साक्षात् हुआ। वह अपनी दीन-हीन अवस्था में भी अपने ग्राम में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक कुआँ बनवाने हेतु, कठिन कमाई में से धन सञ्चित कर रहा था। इसने भानुभक्त के मन में सार्वजनिक सेवा की प्रवृत्ति को जन्म दिया। उस समय बालमीकि, अध्यात्म आदि संस्कृत रामायणों का ही सर्वत्र आदर था। क्षेत्रीय भाषाओं में धार्मिक चरित्रों का गान पवित्र नहीं समझा जाता था। यह बात कुछ नेपाल में नई नहीं थी। हिन्दी में तुलसी, बंगला में कृत्तिवास, तेलुगु में कुम्हारिन मोल्ल आदि सभी के सामने संस्कृताभिमानी पण्डितों की ओर से यह अवरोध उपस्थित हुआ।

किन्तु इन्हीं सब के अनुसार, श्री भानुभक्त ने भी जनभाषा में रामायण की रचना करके समाज-कल्याण का व्रत लिया। इस सद्भावना का स्रोत वही श्रमिक घसियारा था। अस्तु, भानुभक्त-रामायण की रचना हुई। लिपि नागरी, भानुभक्त रामायण की भाषा नेपाली, किन्तु छन्द-रचना में संस्कृत छन्दों का अनुकरण है। शिखरिणी, शार्दूलविक्रीडित, वसन्ततिलका आदि संस्कृत छन्दों की शैली पर ही काव्य की रचना है। पाठकों को पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि हलन्त और सस्वर को लेखानुसार पाठ करें। 'राम' और 'राम्' का भेद ध्यान में रखना आवश्यक है। हिन्दी के अनुसार 'राम' लिखकर 'राम्' जैसा उच्चारण करने पर छन्दोभङ्ग हो जायगा। 'भानुभक्त रामायण' का आधार अध्यात्म रामायण है।

नेपाल के तुलसी, भानुभक्त महाराज की पुण्यलीला वि० सं० १९२५ आश्विन शुक्ल पञ्चमी के दिन ५४ वर्ष की अवस्था में समाप्त हुई। प्रति वर्ष १३ जुलाई को उनकी जयन्ती मनाई जाती है।

काशी में कुछ नेपाली प्रकाशकों ने भी भानुभक्त रामायण के संस्करण प्रकाशित किये हैं। किन्तु उनमें उन्होंने व्यवसायिक लक्ष्य से जनरुचि को अधिक आकर्षित करने के लिए अनेक अन्तर्कथाएँ प्रक्षिप्त कर दी हैं; अपनी ओर से भानुभक्त की शैली पर रच कर जोड़ दी हैं। दूसरे उनमें हिन्दी अनुवाद का अभाव होने से वे नेपाली पाठक के ही प्रयोजन की रह जाती हैं। अस्तु, प्रस्तुत ग्रन्थ 'सानुवाद भानुभक्त रामायण' को पाकर हिन्दी-जगत् धन्य है। 'भुवन वाणी ट्रस्ट' के भाषाई सेतुबन्धन में एक और शिलारोपण हुआ।

अनुवाद

नेपाली रामायण के अनुवादक को सुलभ करने में कुछ कठिनाई हुई। हम श्री नन्दकुमार आमात्य और उनकी धर्मपत्नी सुश्री तपेश्वरी

आमात्य के अनुग्रहीत हैं कि उन्होंने इस कार्यभार को सुचारु ढंग से सम्हाला। यह हिन्दी अनुवाद उन्हीं की देन है।

विमोचन

श्री उमाशंकर जी दीक्षित, महामहिम राज्यपाल, कर्नाटक प्रदेश की, इन पंक्तियों के लेखक पर एक बड़े समय से कृपा रही है। ट्रस्ट के कार्यक्रम को भी उनसे सराहना प्राप्त है। एक साथ हमारे तीन प्रकाशनों— १. (मराठी) श्रीराम-विजय, २. (तमिळ) तिरुवल्लुवर कृत तिरुक्कुडळ् और ३. (नेपाली) श्रीभानुभक्त रामायण— का विमोचन अपने पुष्कल कर-कमलों से उन्होंने स्वीकृत किया। वे हमारे अनन्य सहायक हैं, अनन्य अनुग्रहकर्ता हैं।

आभार-प्रदर्शन

ट्रस्ट को, कई उदार सदाशयों, विद्वानों, एवं उत्तरप्रदेश शासन से प्राप्त सहायता से बड़ा सहारा मिलता रहा है। अन्य ग्रन्थों के साथ, नेपाली 'भानुभक्त रामायण' भी अपनी सहज गति से प्रकाशित हो रहा था। सौभाग्य से केन्द्रीय उपशिक्षामंत्री माननीय श्री डी० पी० यादव, भारत सरकार के राष्ट्रभाषा सलाहकार बहुभाषामर्मज्ञ श्री रमाप्रसन्न नायक और शिक्षा एवं समाजकल्याण मंत्रालय के शिक्षानिदेशक एवं उपसचिव श्री सनत्कुमार चतुर्वेदी जी की अनुकम्पा हुई। उसके परिणाम-स्वरूप ग्रन्थ परिपूर्णता को प्राप्त हुआ। हम उनके अतिशय अनुग्रहीत हैं। हम विश्वास के साथ निवेदन करते हैं कि-भुवन वाणी ट्रस्ट की भाषाई सेतुकरण की विशाल और अद्वितीय योजना उत्तरोत्तर फलवती होकर शासन और जनता को संतुष्ट करती रहेगी।

श्री रघुमल ट्रस्ट, कलकत्ता के भी हम अत्यन्त आभारी हैं। उन्होंने पाँच हजार रुपये की राशि से ट्रस्ट की सहायता की। उसका उपयोग इस ग्रन्थ में किया गया। प्रशंसित ट्रस्ट एवं न्यासीगण के प्रति हम अतिशय कृतज्ञ हैं।



मुख्यन्यासी सभापति,
भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ-३

भानुभक्त-रामायण

(नेपाली काव्य)

[अनुवादक—नन्दकुमार आमात्य]

आमुख

संतकवि भानुभक्त का जन्म विक्रम संवत् १८७१ आषाढ़ २९ गते कृष्णाष्टमी तदनुसार १३ जुलाई १८१४ को पश्चिम नेपाल के तनहुँ उपत्यका के रम्घा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम धनञ्जय आचार्य था। उनके पितामह श्रीकृष्ण आचार्य संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् थे, फलस्वरूप भानुभक्त को प्रारम्भिक शिक्षा संस्कृत में उन्हीं से प्राप्त हुई।

उस समय अधिकांश कवि अपनी रचनादि संस्कृत में ही करते थे और पर्वतीय अथवा क्षेत्रीय भाषा में रचना करनेवाले कवियों का मान नहीं था। परन्तु भानुभक्त को इसकी परवाह नहीं थी। मन में दृढ़ संकल्प था। इसलिए उन्होंने जनसाधारण के समझ में आनेवाली भाषा में शार्दूलविक्रीडित और वसन्ततिलका जैसे संस्कृत छन्दों के ढंग पर सुन्दर और सुमधुर ग्रामीण शैली में, अध्यात्म रामायण के सातों काण्ड का अनुवाद कर नेपाली जगत् के हृदय को जीता।

स्व० मोतीराम भट्ट ने अथक परिश्रम से इस सम्बन्ध में खोज की है। उन्होंने कवि की जीवन-कथा में लिखा है कि भानुभक्त को कविता रचने की प्रेरणा एक गरीब घसियारा से मिली थी। इस प्रसंग पर विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। भानुभक्त ने लगभग २०-२२ वर्ष के अथक परिश्रम से अन्य रचनाओं के साथ रामायण के सातों काण्डों का मञ्जुल काव्य पूर्ण किया। सरल भाषा और सरल शैली में भानुभक्त-कृत रामायण की उपलब्धि से नेपाली जगत् कृतार्थ हुआ है। सवत् १९२५ आश्विन शुक्लपक्ष पंचमी के दिन ५४ वर्ष की अवस्था में अमर कवि भानुभक्त का देहावसान हुआ। प्रतिवर्ष, १३ जुलाई उनका जयन्ती-दिवस है।

सौभाग्य से भुवनवाणी ट्रस्ट, लखनऊ के प्रतिष्ठाता श्रीनन्दकुमार अत्रस्थी से भेंट होने पर 'वाणी सरोवर' त्रैमासिक के माध्यम से राष्ट्र की समस्त भाषाओं के सद्ग्रन्थों और विशेष कर रामायणों के हिन्दी अनुवाद सहित देवनागरी लिप्यन्तरण के उनके महान् आयोजन को देखा। नेपाली की भानुभक्त-रामायण को भी नेपाली क्षेत्र से बढ़ाकर समग्र देश के सम्मुख प्रस्तुत कर देने का पुनीत संकल्प और प्रस्ताव उन्होंने मेरे सामने रखा। सुतरां भगवान् का ध्यान कर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर, नेपाली रामायण का मूल-सहित हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आशा है पाठकवृन्द मेरी कमियों की ओर ध्यान न देकर पावन ग्रंथ का प्रसाद ग्रहण करेंगे। जहाँ तक नेपाली लिपि और भाषा की बात है, वह हिन्दी-भाषी के लिए अपने ही परिवार जैसी है। उच्चारण के सम्बन्ध में एक बात उल्लेखनीय है कि किसी शब्द के अन्तिम अक्षर में हलन्त-चिह्न न लगा होने पर उसे सस्वर ही पढ़ें। हिन्दी के समान हलन्त न पढ़ें। 'राम' लिखा होने पर 'राम्' नहीं, वरन् राम + म (Rama) उच्चारण करें।

—नन्दकुमार आमात्य

श्रीराम-पञ्चायतन



भानुभक्त-रामायण

बालकाण्ड

ब्रह्मा-नारद-संवाद

एक दिन् नारद सत्यलोकं पुगिगया लोकको गरूँ हित भनी ।
ब्रह्मा ताहि थिया पन्या चरणमा खूशी गराया पनि ॥
क्या सोछौ तिमि सोध भन्छु म भनी मर्जी भयेथ्यो जसै ।
ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले विन्ती गन्या यो तसै ॥१॥
हे ब्रह्मा ! जति हुन् शुभाशुभ सबै सूती र ह्याँछु कछु ।
बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले इच्छा म यो गर्दछु ।
आऊला जब यो कली बखतमा प्राणी दुराचार भई ।
गन्याछिन् सब पाप अनेक तरहका नीचका मतीमा गई ॥२॥
साँचो बात गरेन कोहि अरुकै गर्नन् ति निन्दा पनि ।
अर्काको धन खानलाइ अभिलाष गर्नन् असल हो भनी ॥
कोही जन् त परस्त्रिमा रत हुनन् कोही त हिंसामहाँ ।
देहैलाइ त आत्म जानि रहनेन नास्तिकपशु झैं तहाँ ॥३॥

ब्रह्मा-नारद-संवाद

एक दिन नारदजी लोकहित के लिए स्वर्गलोक पहुँचे । ब्रह्माजी वहाँ विराजमान थे, तत्काल उनके चरणों में झुककर नारद ने उन्हें प्रसन्न किया । ब्रह्माजी द्वारा जैसे ही आज्ञा हुई, तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछो, तैसे ही ब्रह्माजी की अनुकम्पा समझकर ऋषि ने इस प्रकार विनती की । १ हे ब्रह्मा ! [संसार में] जो कुछ भी शुभाशुभ हो रहा है वह मैं सुन रहा हूँ, मुझे सुनने को कुछ भी बाकी नहीं है । फिर भी मैं इस सम्बन्ध में जानने का इच्छुक हूँ कि जब कलियुग का समय आयेगा तो प्राणी दुराचारी और बुद्धिभ्रष्ट होकर अनेक प्रकार के पाप करेंगे । २ सच्ची बातों का कुछ भी पालन नहीं करेंगे वरन् औरों की निन्दा करेंगे । दूसरों के धन को हड़पना ही ठीक समझकर उसकी कामना करेंगे । कुछ लोग तो परस्त्री पर आकर्षित होंगे । नास्तिक लोग पशु के समान शरीर को ही आत्मा समझते रहेंगे । ३ भोग-विलास के सेवक बनकर स्त्री को देवता

काम्का चाकर झैं भयेर रहनन्
मान्नन् पितृ र मातृलाइ बुझि खुप्
ब्राह्मण् भैकन वेद बेचि रहनन्
धन् ठूलो छ पनी भन्या सहज धन्

जाती धर्म रहैन क्षत्रिहरुमा
शूद्रादी त तपस्वि होइ रहनन्
स्त्री-धेर् भ्रष्ट हुनन् पतीर ससुरा-
यस्ता नष्ट कसोरि मुक्त त हुनन्

यो चिन्ता मनमा भयो र अहिले
आयाको छु दयानिधान ! कसरी
यस्तालाइ उपाय तर्न सजिलो
मेरो चित्त बुझाइवक्सनुहवस्

नारदले दुनियाँउपर् गरि दया
ब्रह्माजी पनि खुप् प्रसन्न हुनुभै
हैं नारद ! सब पाप हर्नकन ता
आर्को मुख्य उपाय छैन सबको

स्त्रीलाइ द्यौता सरी ।
शत्रु सरीको गरी ॥
कोही पढुन् तापनि ।
आर्जन गरौला भनी ॥४॥

जो छन् इ नीचाहरू ।
ब्राह्मण् सरीका वरु ॥
को द्रोह ठूलो गरी ।
संसार सागर् तरी ॥५॥

सोधूँ उपायै भनी ।
तर्न सहज ई पनि ॥
कुन् हो उ आज्ञा गरी ।
क्याले इ जान्छन् तरी ॥६॥

विन्ती गन्या यो जसै ।
मर्जी भयो यो तसै ॥
रामायणैले सरी ।
हित यै छ अमृत सरी ॥७॥

के समान मानेंगे । माता-पिता की उपेक्षा कर उन्हें शत्रु के समान मानेंगे । ब्राह्मण होकर भी वेदों को बेचकर [अर्थात् लोभवश वेदों के अर्थ का अनर्थ कर] धनोपार्जन को ही सब कुछ समझेंगे । ४ क्षत्रियों में व्याप्त जाति-धर्म भी नहीं रहेगा वरन् शूद्र लोग ब्राह्मणों की तरह तपस्वी बनेंगे । पति और ससुर से द्रोह कर अनेक स्त्रियाँ भ्रष्ट होंगी । इस प्रकार नष्ट हुए लोग किस तरह संसार-सागर को पार करके मुक्त हो सकेंगे ? ५ यही चिन्ता मेरे मन में उत्पन्न हुई है, अतः मैं आपसे इसका उपाय पूछने आया हूँ । हे दयानिधान ! ये प्राणी सहज ही कैसे पार होंगे ? ऐसों के लिए वह कौन सा उपाय है, आज्ञा करके मेरे चित्त को समझाइए कि ये कैसे पार होंगे । ६ नारद ने जैसे ही संसार की इन समस्याओं के त्रिषय में विनती की, ब्रह्माजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर इस प्रकार आज्ञा दी । हे नारद ! सब के पापों को मिटाने के लिए रामायण के सिवा और कोई मुख्य उपाय नहीं है । अमृत के समान सबके हित इसी में निहित है । ७ महादेवजी से [उपर्युक्त] इन सब तत्व की बातों को सुन कर पार्वती जी राम-नाम की अपार महिमा जानकर गान करती हैं और आनन्दित

शम्भू देखि सुनेर तत्त्व सब यो
 रामको नाम अपार जानि बहुतै
 जस्ले गान्कन गर्दछन् त ति सहज्
 कालैको पनि ताप् हुँदैन भय सब
 यो सब शास्त्रविषे बडो छ रघुनाथ-
 जो छन सब इ पुराण् हरू इ सबमा
 गर्छन् कीर्तन सुन्दछन् पनि भन्या
 तिनको पुण्य बखान गर्न त सबै
 सून्याथ्यां शिव देखि यसकि महिमा
 भक्तीले यदि यो पढ्यो पनि भन्या
 जो एक चित्त गरेर पाठ खुशि भै
 जीवन्मुक्त तिनै त हुन् नर भई
 पूजा पुस्तकको गन्या पनि त फल
 पाउँछन् सुनि यो कहीं पनि भन्या
 जो ती पुस्तकका नजीक् गइ नमस्-
 तेस्ता जन् सब देवता पुजि हुन्या
 चारै वेद पढेर शास्त्रहरूको
 पाई दैन उ फल त पाउँछ सहज्

गान् पार्वती गर्दछिन् ।
 आनन्दमा पर्दछिन् ॥
 संसार पार् तर्दछन् ।
 तिनका सहज् टर्दछन् ॥८॥
 को रूप जनाईदिन्या ।
 यै मुख्य जानीलिन्या ॥
 यो पाउँछन् फल भनी ।
 सक्तीन मैले पनि ॥९॥
 एक श्लोक पढुन् तापनि ।
 पाप् छुट्छन् सब भनी ॥
 गर्छन् सदा यै भन्या ।
 ईश्वर सरीका बन्या ॥१०॥
 एक अश्वमेधका सरी ।
 पाप् छुट्छन् तेस् घरी ॥
 कारै फगत गर्दछन् ।
 फल भोगमा पर्दछन् ॥११॥
 व्याख्यान गर्दा पनि ।
 पुस्तक दिनाले पनि ॥

होती है । जो उनका गुण-गान ध्यान से करता है वह सहज ही संसार-
 सागर से पार उतर जाता है । उसे काल का भी भय नहीं होता । र
 रघुनाथ का परिचय कराने वाले ये सब शास्त्रादि महान् हैं । पुराण में
 जो भी है उसी को मुख्य मानकर जो कीर्तन करते हैं और सुनते हैं या
 जानते हैं कि उन्हें अवश्य फल प्राप्त होगा, उनके पुण्यों का पूरा वर्णन
 करने में मैं समर्थ नहीं हूँ । ९ इसकी महिमा मैंने शिवजी से सुनी
 थी जो कि प्रसन्नतापूर्वक सदैव एकाग्र मन से (रामचरित का) पाठ करते
 है । भक्ति भाव से [रामचरित का] एक ही श्लोक पढ़ने पर सब पापों
 से छुटकारा मिलता है और जीवन से मुक्त होकर पुरुष ईश्वर के समान
 हो जाता है । १० (रामचरित की) पुस्तक-पूजा से भी एक अश्वमेध
 यज्ञ के समान फल मिलता है, उसी क्षण पाप मिट जाता है । जो उस
 पुस्तक के निकट जा कर केवल नमस्कार ही करते हैं वे जन भी सब
 देवताओं के पूजन से मिलने वाले फल को भोग करते हैं । ११ चारों

भक्तीले कंहि, भक्तका घर गई एकादशीमा कह्या ।
 चौबीस पल्ट पुरश्चरण गरि हुन्या गायत्रिका फल भया ॥१२॥
 जसले रामनवमी उपासि खुशिले जाग्रन् समेत गरी ।
 यो रामायण पाठ गरोस् कि तसुनोस् तन् मन यसैमा धरी ॥
 उसले तीर्थपिछे तुलापुरुष दान् सूर्य-ग्रहणमा गन्यो ।
 यस्मा संशय छैन जान्नु सवले आनन्दमा त्यो पन्यो ॥१३॥
 रामायण कन गाउन्या पुरुषको आज्ञा त इन्द्रै पनि ।
 मान्छन् श्रीरघुनाथका प्रिय इ हुन् मान्नया इनै हुन् भनी ॥
 रोज्-रोज् यस कन पाठ गरेर जनले सत् कर्म गछन् जति ।
 कोटीगुण फल बढति मिल्छ सवको घट्टैन तिनका रति ॥१४॥
 यस्मा राम हृदयै छ पाप् हरि लिन्या क्वै ब्रह्मघाती पनि ।
 शुद्धात्मा बनिजान्छ तीन दिन पढ्या गछन् कृपा राम धनी ॥
 रोज्, रोज् तीन पटक अगाडि हनुमान् राखेर पाठ गछ जो ।
 जस्तो भोग्कन गर्न खोज्दछ उ भोग् सम्पूर्ण पाऊँछ सो ॥१५॥
 जो यो पाठ तुलसी पिपल् वरिपरी गछन् प्रदक्षिण् गरी ।
 तिनका पाप् सव जन्मका जति त छन् छुट्छन् ति तेसै घरि ॥

वेदों को पढ़कर व्याख्या करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो केवल पुस्तक का दान करने से प्राप्त होता है । एकादशी में भक्तों के घर जाकर भक्तिपूर्वक (कथा) कहने से तथा चौबीस वार गायत्री का पुरश्चरण जाप करने से प्राप्त होने वाले फल के समान पुण्य प्राप्त होगा । १२ रामनवमी में उपवास करके तथा प्रसन्नतापूर्वक जागरण करके जो व्यक्ति इस रामायण का पाठ करे अथवा ध्यान देकर इसे सुने, उसको (सूर्यग्रहण में) तीर्थ के पश्चात् तुलादान करने के तुल्य पुण्य तथा परम आनन्द प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । १३ रामायण गाने वाले पुरुष को श्रीरघुनाथ का प्रिय जानकर इन्द्र भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं । मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ कर, जितने भी सत्कर्म करते हैं उन सबके फल की करोड़ों गुणा वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसमें किञ्चित् मात्र भी कमी नहीं होती । १४ इसमें ब्रह्मघातक के पापों को भी नष्ट करने वाला राम-हृदय है । राम की कृपा से तीन दिन पाठ करने पर आत्म-शुद्धि होती है । प्रतिदिन हनुमान का आवाहन करके जो पाठ करते हैं वे जिस प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे सभी भोग उन्हें पूर्णतया प्राप्त होते हैं । १५ जो तुलसी तथा पीपल

तेस्मा रामगिता छ ज्ञन् अति ठूलो
सब जान्नया शिवमात्र छन् अरु त को
आधा पार्वति जान्दछिन् म त सबै
गीता पाठ गरेर नाश नहुन्या
राम्ले वेद मथन् गरीकन झिक्या
लक्ष्मण लाइ दिया यही पढिलिया
माछू निश्चय कार्तवीर्य भनि खुप्
पढथ्या श्रीशिवथ्यै गयी परशुराम्
पढथिन् पार्वति रामगिता तहि सुनी
रामगीता तहि देखि पाठ गरि लिया
मैह्ना दिन् यहि रामगिता पढिलिया
छुट्छन् निश्चय छुट्छन् सकल पाप्
शालिग्राम् तुलसी पिपल् कि त बडा
रामगीताकन पाठ गन्यो पनि भन्या

जस्को महात्म्यै पनि ।
जान्नया छ यस्तो भनी ॥१६॥
चौथाइ पो जान्दछु ।
पाप् छैन यो मान्दछु ॥
गीता र अमृत सरी ।
जाइन्छ संसार तरी ॥१७॥
ठूलो इरादा गरी ।
दिन्-दिन् चरण मा परी ॥
पाठ गर्न लागी गया ।
नारायण ती भया ॥१८॥
सब ब्रह्महत्याहरू ।
भन्या बखान् कया गरू ॥
संन्यासिथ्यै जो गई ।
ठूलो महात्मा भई ॥१९॥

के चारों ओर घूमकर इसका पाठ करते है उनके सब जन्मों के किये हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं । इसमें अत्यन्त महान् और माहात्म्यपूर्ण रामगीता है । [ब्रह्मा ने कहा] इसको पूर्णरूप से जानने वाले केवल शिव ही हैं । १६ [इसकी महिमा का] अर्द्धांश पार्वती जानती हैं, मैं तो केवल चौथाई ही जानता हूँ । मैं यह मानता हूँ कि संसार में कोई ऐसा पाप नहीं जो रामगीता का पाठ करने से नष्ट न हो । राम ने वेदों का मथन कर गीता और अमृत को निकाला और लक्ष्मण को दिया, इसे पढ़ने से सभी प्राणी संसार सागर से तर जायेगे । १७ कार्तवीर्य (तथा उसके वीरों) को मारने का निश्चय कर बहुत बड़ी इच्छा ले करके परशुराम प्रतिदिन श्रीशिव के चरणों की वन्दना करने गये । वहीं पार्वती रामगीता पढ़ती थीं, इसी को सुनकर वे भी रामगीता का पाठ करने लगे और [फलतः] नारायण-रूप हो गये । १८ जब एक महीना यह राम गीता पढ़ने से ब्रह्महत्यादि सभी पाप समाप्त हो जाते हैं तो और सभी पापों के मिटने के बारे में क्या वर्णन करूँ । शालग्राम, तुलसी, पीपल या महान् संन्यासियों के पास जाकर रामगीता का पाठ करने से भी बहुत से लोग महात्मा बन गये हैं । १९ जिस फल के बारे में मुँह से वर्णन नहीं किया जा सकता है उसी फल का वह [रामगीता को पढ़ने वाला] भोग करता

जुन् फल् छन मुखले भनी न सकिन्या
कोही श्राद्धविषे पढुन् त तिनका
पैल्हे खूब नियम् गरी दशमिमा
आसन् वाँधि अगस्ति-वृक्ष-मुनि पाठ्

राम्गीता उपवास् गरीकन बहुत्
तेसलाई त नभन्नु मानिस भनी
दान् ध्यान तीर्थ कदापि केहि नगरी
बस्छन् जो ति अनन्तका पदविमा

धेरै वात गरेर हुन्छ अब क्या
पाप् हर्नाकन छैन केहि बुझियो
जो छन् तन्त्र पुराण् श्रुति स्मृति इ ता
पुग्दैनन् त वखान् कहाँतक गरूँ

जो रामायणको महात्म्य विधिले
जुन् सूनीकन चित्तले बुझिलिदा
पाठ् गछुन् कित सुन्दछन् यदि भन्या
जान्छन् सब उहि विष्णुका पुरिमहाँ

सो फल् ति भोग् गर्दछन् ।
पितृ सबै तर्दछन् ॥
एकादशीमा पनि ।
गछूँ म गीता भनी ॥२०॥

आदर् गरी पढ्छ जो ।
रामै सरीको छ त्यो ॥
यो रामगीता पढी ।
पुग्छन् सहज् पार्तरी ॥२१॥

रामायणै हो जवर् ।
येसै सरीको अबर् ॥
सोह्रै कलामा पनि ।
यो फेरि ठूलो भनी ॥२२॥

नारदजिलाई कह्या ।
नारद पनी खुश भया ॥
यो येति सुन्दा पनि ।
खुप् पूज्य सब्का बनी ॥२३॥

है । कोई श्राद्ध के वारे में भी पढ़े तो उसके सब पितर तर जाते हैं । प्रथम नियमों का पालन करके दशमी या एकादशी में आसन बाँधकर अगस्ति वृक्ष के नीचे बैठकर मैं रामगीता का पाठ करता हूँ । २० जो उपवास करके रामगीता को बहुत आदर के साथ पढ़ता है उसे मनुष्य नहीं कहना चाहिए वह तो राम के समान है । दान, ध्यान, तीर्थ आदि कुछ भी न कर केवल इसी रामगीता को पढ़कर जो रहता है वह अनन्त-पदों को सहज ही पार करके तर जाता है । २१ अधिक वात क्या करना जब यह जान लिया कि रामायण ही बलिष्ठ (सर्वश्रेष्ठ) है और इसके समान पाप को हरण करने वाला (दूसरा) कुछ नहीं, जो भी तन्त्र, वेद, पुराण और धर्मशास्त्रादि हैं वे इसकी सोलहवीं कला के भी समान नहीं, तो फिर इसकी महत्ता का कहाँ तक वर्णन करूँ ? २२ विधिवत् कहे गये रामायण के इस माहात्म्य को चित्त से समझकर नारद अत्यन्त प्रसन्न हुए और इतना कहा कि जो भी इसका पाठ करते अथवा सुनते हैं वे सबके अत्यन्त पूज्य बनकर विष्णुलोक में जाते हैं । २३ भगवान् सदाशिव कैलाश में बैठे हुए, बायीं ओर अपनी गोद में अति प्रिय तथा हितैषिणी

कैलास्मा भगवान् सदाशिव थिया
बायाँ काखमहाँ पियारि हितकी
एक् दिन् पार्वतिले तहीं शिवजिथ्यै
आफू ता सब जान्दथिन् तर दया

हे नाथ ! विन्ति म गर्दछू हजुरमा
राम्देखी अरु कोहि छैन जनका
जस्मा भक्ति गन्यो भन्या अति गँभीर्
नौका झैं तरिजान्छ झटपट गरी

यस्ता राम्कन लोकमा जनहरू
कोहि तत्त्व नपाइ मूर्खहरू ता
क्या भन्छन् ति कि राम ईश्वर भया
सीता रावणले जसै हरिदियो

ईश्वरलाइ त शोक हुँदैन र भनू
इन्मा यो सब देखियो त कसरी
लोक यस्तो पनि भन्छ कोहि भगवान्
जस्तो हो सब यो बताउनुहवस्

ध्यान्मा बहुत् मन् दिई ।
श्री पार्वतीजी लिई ॥
सोधिन् चरणमा परी ।
सम्पूर्ण लोकमा गरी ॥२४॥

राम् हुन् जगत्का पति ।
संसार तर्न्या गति ॥
संसार सागरमहाँ ।
तेस् नरको देहै तहाँ ॥२५॥

एक् ईश्वरै मान्दछन् ।
मानिस सरी जान्दछन् ॥
शोक क्यान तिनले गन्या ।
ठूलै विपत्मा पन्या ॥२६॥

हुँदैन अज्ञान पनि ।
जान्नु इ ईश्वर भनी ॥
यस्मा विचार खुप् गरी ।
सन्देह मेरो हरी ॥२७॥

पार्वती जी को बैठाये अत्यन्त ध्यानमग्न थे । एक दिन पार्वती जी ने चरणों में झुककर, स्वयं सब जानते हुये भी, सम्पूर्ण लोक के प्रति दयालु होकर कहा— २४ हे नाथ ! मैं विनती करती हूँ कि राम जगत्पति हैं । राम के सिवा [भक्त-] जनों को संसार से तारने वाला और कोई नहीं है । उनकी भक्ति रूपी नौका के सहारे मनुष्य अत्यन्त गंभीर संसार-सागर से तुरन्त पार हो जाता है । २५ ऐसे राम को जगत् में (बुद्धिमान्) मनुष्य केवल ईश्वर ही मानते हैं । पर मूर्ख लोग तो कोई तत्व न पाकर [उनको] मनुष्य की तरह ही जानते हैं । उनका कहना है कि यदि राम ईश्वर हैं तो रावण के सीताहरण करने पर उन्होंने शोक क्यों किया और इतनी विपत्ति में क्यों पड़ गये ! २६ ईश्वर को शोक नहीं होता और अज्ञान भी नहीं होता । राम में शोक, अज्ञान-दोनों ही देखा गया, फिर इन्हें ईश्वर कैसे मानें—कोई मनुष्य ऐसा भी कहते हैं । भगवन् ! इस पर विचार करके, जैसे भी हो, मेरे मन के सदेह को दूर करने के लिए यह सब बताने की कृपा करें । २७ पार्वतीजी के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए । राम ऐसे ही प्रभु हैं, यह कहते

यस्ता प्रश्न सुन्या र पार्वतिजिको
 राम् यस्ता प्रभु हुन् भनेर शिवले
 सून्यौ पार्वति ! राम् अनादि परमे-
 सब् ढाकीकन वस्तछन् अधिविराट्
 जस्तै चुम्बकका नजीक् परिगया
 तैस्तै जस्कन पाइ नाचछ जगत्
 यस्तो तत्त्व नजानि मानिस सरी
 संसारका इ अनन्त ताप्हरु तिनै-
 बादल्ले अरु ढाक्छ ढाक्छ अरु क्या
 लोक् ता भन्छ उठयो र बादल ठुलो
 त्यस्तै तत्त्व न जानि बोल्छ जन जो
 योगी ज्ञानि त चिन्दछन् इ रघुनाथ्
 जस्लाई रिडटा छ भन्छ उ फगत्
 घुम्दैन् इ त घुम्छ तेहि रिडटा
 अज्ञान् रूप् रिडटा हुन्या जनहरू
 राम् ता हुन् परमेश्वरै सकल यस्

शम्भू खुशी खुप् भया ।
 सब् तत्त्व ताहीं कह्या ॥
 श्वर् हुन् ति आकाश् सरी ।
 सम्पूर्ण सृष्टी गरी ॥२८॥
 नाच्छन् इ लोहा पनि ।
 नाना प्रकार् को वनी ॥
 राम्लाइ जो गर्दछन् ।
 लाई सदा पर्दछन् ॥२९॥
 श्रीसूर्यलाई पनि ।
 सब् सूर्य ढाक्यो भनी ॥
 सो भन्छ मानिस् पनि ।
 त्रैलोक्यका नाथ् भनी ॥३०॥
 घुम्छन् उ पर्वत् भनी ।
 जान्दैन् कोहि पनि ॥
 भन्छन् ति मानिस् पनि ।
 चौधै भुवन्का धनी ॥३१॥

हुए शिवजी ने सब तत्व कह सुनाया । सुनो पार्वती, राम आकाश की भाँति अति महान् हैं और सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके सबको आच्छादित कर रहने वाले अनादि परमेश्वर हैं । २८ जैसे चुम्बक के निकट जाने पर लोहा नाचने लगता है, वैसे ही जिसके आधार पर जगत् अनेक प्रकार के रूपों में होकर नाच रहा है, ऐसे तत्व को न जानकर, जो लोग राम को मनुष्य की भाँति समझते हैं उन्हीं को संसार की ये अनन्त पीड़ाएँ सदा दुखी करती रहती हैं । २९ बादल सबको तो ढक ही लेता है । यहाँ तक कि सूर्य को भी ढक लेता है । जग तो कहता है कि घना बादल उठा है और उसने पूरे सूर्य को ढक लिया है । जो जन तत्व को नहीं जानते वेही ऐसा कहते हैं । योगी ज्ञानी तो इन रघुनाथ को त्रिलोक के नाथ कहकर ही पहचानते हैं । ३० जिसको चक्कर आता है वही कहता है कि पर्वत घूमता है, परन्तु वह घूमता नहीं । कोई नहीं जान पाता कि वही स्वयं चक्कर में घूमता है । अज्ञानरूपी चक्कर से युक्त मनुष्य ही राम को मनुष्य कहते हैं । राम तो इन चौदह भुवनों के स्वामी साक्षात् परमेश्वर ही है । ३१ सूर्य में भी कही अंधेरा है, क्या ऐसा ही

सूर्य्यमा पनि अन्धकार छ कहिं क्या तस्तै छ राममा पनि ।
शोक अज्ञान् रति छैन जानु सबले आत्मा इनै हुन् भनी ॥
आर्को गोप्य रहस्य भन्छु सुन यो सम्वाद सितारामको ।
भूभार हर्नु थियो हन्या जब सब छिन्छान् भयो कामको ॥३२॥

भूमीको सब भार हरेर रघुनाथ राज् गर्न लाग्या जसै ।
देख्या श्रीहनुमानलाइ र दया आयो प्रभूको तसै ॥
सीतालाइ हुकूम तहाँ दिनुभयो सीते ! हनुमान् बडा ।
हाम्रा भक्त भया इ तत्त्व लिनका खातिर यहाँ छुन् खडा ॥३३॥

इन्लाई तिमि तत्त्व देउ भनि यो हुकूम भयेथ्यो जसै ।
सीताले हनुमानलाइ दिनुभो जुन् तत्त्व हो सो तसै ॥
आर्को तत्त्व त कहि छैन हनुमान् कुन् आज आर्को कहूँ ।
राम् हुन् ब्रह्म इनैकि शक्ति बलियो माया भन्याकी म हूँ ॥३४॥

रामको सन्निधि पाइ गर्छु सबको सृष्टी र पालन् पनि ।
आरोप रामविषे गरिन्छ सब यो गर्न्या इनै हुन् भनी ॥

राम के संबंध में भी नहीं है ? शोक, अज्ञान आदि दोषों का उनमें लेशमात्र भी नहीं । सभी यह जान लें कि वही सबकी आत्मा हैं । दूसरा गोपनीय रहस्य कहता हूँ, यह सीताराम का सम्वाद सुनो । पृथ्वी के भार को हरण करने वाला कौन था । जब उन्होंने ही पृथ्वी को भार से रहित किया तभी सब कार्य पूर्ण हुए । ३२ [असुरों को मार कर] पृथ्वी के भार को हरण करके जब श्रीरघुनाथ राज्य-सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने श्रीहनुमान को देखा । उन्होंने कृपा करके उसी समय सीता को आज्ञा दी, हे सीते ! हमारे महान् भक्त हनुमान तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए खड़े हैं । ३३ जैसे ही राम का यह आदेश हुआ कि इन्हें तुम तत्त्वज्ञान दो, वैसे ही सीता ने जो भी तत्त्व था हनुमान को प्रदान किया । हे हनुमान ! राम के अतिरिक्त संसार में और कोई दूसरा तत्त्व नहीं । हे हनुमान ! और क्या कहूँ, राम ही साक्षात् परब्रह्म हैं और मैं इन्हीं की शाक्ति-स्वरूप हूँ । ३४ राम का आश्रय पाकर [प्रकृति-स्वरूपा] मैं सब प्राणियों की सृष्टि करती हूँ, सबका पालन करती हूँ । वास्तव में सब कुछ करने वाले राम ही हैं— विद्वान् लोगों का ऐसा ही कथन है । [किन्तु राम ब्रह्मस्वरूप हैं । पृथ्वी पर जो कुछ उनकी लीलाएँ है, वे तो उनकी प्रकृति-स्वरूपा मैं कर रही हूँ ।] अत्यन्त पवित्र रघुवंश में प्रभु रामचन्द्र जी ने जन्म

यस्निर्मल् रघुवंशमा प्रभुजिले
विश्वामित्र निमित्त यज्ञहरुमा

जो पाप् गौतमपत्निका हरिदिया
जो मैलाइ बिहा गन्या सब कुरा
जो ता गर्व हन्या ति वीर् परशुराम्-
बाहै वर्ष बिहा गन्यापछि बसी

यस्ता काम् जति काम् भया ति सब काम्
भन्छन् लोक त रामलाइ सबका
अन्तर्यामि अनादि साक्षि तिनिहुन्
मेरा गुण लिदा त लोकहरुले
येती ताहिं सिताजिबाट उपदेश
आफै राम् प्रभुले पनी दिनुभयो
यस्तो हुन्छ परात्म आत्म यहि हो
आत्मा और परात्मलाइ बुझदा

जो जन्म याहीं लिया ।
राखी दया मन् दिया ॥ ३५ ॥

जो भाँचिदीया धनु ।
यस्ता कहाँ तक भनू ॥
का जो अयोध्या बस्या ।
जो ता वनैमा पस्या ॥ ३६ ॥

गन्या म हूँ तापनि ।
कर्ता इनै हुन् भनी ॥
कर्ता कहाँ ती थिया ।
कर्ता भनी पो दिया ॥ ३७ ॥

पाई सक्याथ्या जसै ।
फेर् तत्त्वको ज्ञान् तसै ॥
यो हो अनात्मा भनी ।
पाइन्छ मुक्ती पनि ॥ ३८ ॥

आत्माको र परात्मको छ कति फेर् त्यो एक जानीलिनू ।
जुन् जड् चीज अनात्म हुन् उ त झुटा जानेर छोडीदिनू ॥

लिया, जिन्होंने विश्वमित्र द्वारा आयोजित यज्ञों में दया कर मन को अर्पित किया । ३५ जिन्होंने गौतम-पत्नी (अहिल्या) के पापों का निवारण किया, जिन्होंने शिवधनुष तोड़ा और जिन्होंने मुझे विवाहा—इस प्रकार की सब बातों को कहाँ तक कहूँ । जिन्होंने उन वीर परशुराम के दर्प को शांत किया, जिन्होंने विवाह के पश्चात् ही बारह वर्ष के लिए वन में प्रवेश किया । ३६ इस प्रकार के जितने कार्य हैं उन सबको वास्तव में मैं ही करती हूँ । जग कहता है कि राम इन सभी कार्यों के कर्ता हैं । वे तो अन्तर्यामी, अनादि, द्रष्टा [मात्र] हैं, वह कर्ता कहाँ ? मेरे इन [प्रकृति के] गुणों को जानकर ही संसार ने [द्रष्टा राम को] कर्ता कह दिया । ३७ जब हनुमान सीता से इतना ज्ञानोपदेश प्राप्त कर चुके तो स्वयं प्रभु ने भी उन्हें पुनः तत्व का ज्ञान दिया । आत्मा ही परमात्मा है । आत्मा और परमात्मा को समझने से ही मुक्ति प्राप्त होती है । ३८ आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है इसे ज्ञात कर लेना और जो जो वस्तुएँ जड़ और आत्मा से परे हैं उन्हें मिथ्या जान कर छोड़ देना [यही तत्वज्ञान है] । आत्मा और परमात्मा को विचार कर

आत्माको र परात्मको गरि विचार एक तत्त्व जान्यो जसै ।
 अज्ञान सब छुटिजान्छ ती पुरुषको मै तुल्य हुन्छन् तसै ॥३९॥
 यो मेरो हृदयै त हो प्रिय छ यो खुप् गुप्त राख्नु पनि ।
 तत्त्वज्ञान भनि यै कहिन्छ बुझिल्यौ सून्यौ हनुमान् ! भनी ॥
 तत्त्वज्ञान हनुमानलाइ रघुनाथ- ले यै दिनुभो तहाँ ।
 सोही ज्ञान तिमिथ्यै कहीकन सक्याँ सम्पूर्ण मैले यहाँ ॥४०॥
 सून्यौ पार्वति ! रामको हृदय यो जो जो त पाठ गर्दछन् ।
 जो छन् जन्म सहस्रका सकल पाप् तिनका सबै टर्दछन् ॥
 जाति भ्रष्ट अधम् हवस् तपनि लौ यस्लाइ खुप् पाठ गरी ।
 रामको ध्यान् पनि गर्छ यो पनि भन्या त्यो जान्छ संसार तरौ ॥४१॥
 सुनिन् पार्वतिले अपार महिमा यो रामजीको जसै ।
 फेर विस्तार गरी सुन्नलाइ मन भो ती पार्वतीको तसै ॥
 बिनती फेर शिवथ्यै गरिन् पनि तहाँ हे नाथ ! सबै रामको ।
 लीला सुन्न मलाइ मन् हुन गयो येही बुझ्याँ कामको ॥४२॥

सूनोस् राम-लीला भनेर म उपर माया बहूतै धरी ।
 सब लीलाहरु फेर बताउनु हवस् जो छन् ति विस्तार गरी ॥

[उनके] एक तत्त्व होने का जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही उस पुरुष की सारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है और वह मेरे समान हो जाता है । ३९ यह जो तत्त्वज्ञान मैंने दिया है यह मेरा हृदय है, यह मेरा प्रिय है; इसे अत्यन्त गुप्त रखना । यह समझ लो कि तत्त्वज्ञान इसी को कहते हैं । [शंकर ने कहा—] राम ने हनुमान को यही तत्त्वज्ञान दिया था । हे पार्वती, वही मैंने तुमसे कहा । ४० हे पार्वती, सुनो जो लोग इस राम-हृदय का पाठ करते हैं उनके सहस्र जन्मों में किये गये सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं । जातिभ्रष्ट तथा अधर्मी होने पर भी इसका पाठ करके जो राम का ध्यान करता है वह संसार से तरा जाता है । ४१ पार्वती ने जब श्रीरामजी की इस अपार महिमा को सुना तो पुनः विस्तारपूर्वक सुनने का उनका मन हुआ । फिर उन्होंने शिवजी से बिनती की, हे नाथ ! मुझे राम की लीला को श्रवण करने की पुनः इच्छा हुई है; मैं इसे ही कल्याणकारी समझती हूँ । ४२ रामलीला की कथा सुना कर आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है । फिर भी राम की यह लीला विस्तारपूर्वक सुनने की मुझे उत्कण्ठा है । पार्वती जी का यह प्रेमाग्रह सुनकर शिवजी ने बड़े प्रेम के साथ सम्पूर्ण

यो प्रेम् पार्वतिको सुन्या र शिवले
 जो जो हुन् सब राम्-चरित्र शिवले
 ई भूमिकन रावणादि विरले
 भारी भै ति हँदै गइन् उहिँ जहाँ
 पापी धेर भइ भार् भयो मकन ता
 आयाँ आज दयानिधान् चरणमा
 यस्तो विन्ति सुनी दया पनि उठ्यो
 दौडी क्षीर समुद्रका तिर गया
 इन्द्रादीहरू साथमा लिइ स्तुती
 सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न हुनु भै
 देख्या सुन्दर रूप जसै प्रभुजिको
 भक्तीले स्तुति खुप् गरेर खुशि भै
 हे नाथ, रावण दुष्ट भै सकल लोक-
 इन्द्रादीहरूको त तेज सहजमा
 यस्लाई अव मारिबक्वसनु हवस्
 मानिसदेखि मन्यास् भनेर वरदान्

खुप् प्रेम राखिन् भनी ।
 ताहाँ वताया पनि ॥४३॥
 भारी वनाई दिया ।
 ब्रह्मा वस्याका थिया ॥
 यो भार छूटोस् भनी ।
 यो विन्ति पारिन् पनि ॥४४॥
 ती भूमिमाथी तहाँ ।
 विष्णु रहन्थ्या जहाँ ॥
 ताहाँ गन्याथ्या जसै ।
 दर्शन दिनूभो तसै ॥४५॥
 ब्रह्मा चरणमा पन्या ।
 हात् जोरि विन्ती गन्या ॥
 लाई विपत्ती दियो ।
 खँचेर तेस्ले लियो ॥४६॥
 मानिस् सरीका वनी ।
 दीई रह्याँछु पनि ॥

राम-चरित्र का वर्णन किया । ४३ इस धरती को रावण जैसे [दुरात्मा] वीरों के पाप ने बोझिल बना दिया । [निदान्] जहाँ ब्रह्माजी बैठे थे, पापों के बोझ से व्याकुल होकर धरती रोती वहाँ गई । पापियों की वृद्धि होने से मुझ पर भार अधिक पड़ा है । इस भार से छुटकारा तो मिले, हे दयानिधान ! इसी आकांक्षा से आज मैं आयी हूँ । यह कहती हुई पृथ्वी ने [चतुरानन ब्रह्मा के] चरणों में विनती की । ४४ इस प्रकार विनती सुनकर ब्रह्मा को पृथ्वी पर दया उत्पन्न हुई और शीघ्रही वे पृथ्वी को लिए हुए क्षीरसागर की ओर चले जहाँ विष्णु भगवान् निवास करते थे । इन्द्रादि देवों को साथ लेकर जैसे ही स्तुति की, वैसे ही सर्वात्मा भगवान् ने दर्शन दिया । ४५ प्रभुजी का भव्य रूप देखते ही ब्रह्माजी उनके चरणों में गिर-पड़े । प्रसन्न-भाव से भक्तों ने स्तुति की और ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर विनय की । हे नाथ ! रावण दुष्ट आचरण से सारे संसार को विपत्ति में डाले हुए है । इन्द्रादि देवताओं के पराक्रम को तो उसने बड़ी सरलता से खींच लिया है अर्थात् उन्हें पराजित कर दिया है । ४६ [सो कृपा करके] मानव रूप धारण कर अब उसका संहार कीजिए ।

ब्रह्माको बिनती सुनेर भगवान्- को यो हुकूम भो अनि ।
 रावण्लाइ म. माहुँला सहजमा मानिस् सरीको बनी ॥४७॥
 माया मेरि सिता भयेर रहनिन् छोरी जनककी भई ।
 छोरो भैकन जन्मुँला म दशरथ जीका घरैमा गई ॥
 सीतालाइ लियेर पूर्ण गरुँला ब्रिन्ती म तिम्रो भनी ।
 अन्तर्धान् भगवान् तहीं हुनुभयो त्रैलोक्यका नाथ अनि ॥४८॥
 अन्तर्धान् भगवान् जसै हुनुभयो इन्द्रादिलाई पनि ।
 ब्रह्माले खुशि भै अह्नाउनुभयो भूलोक जाऊ भनी ॥
 मानिस् भै भगवान् जती त रहनन् तेस् पृथ्वितल्मा गई ।
 बानर् भैकन सब तिमि बसिरह्या साहाय जस्ता भई ॥४९॥
 ब्रह्माजी पनि सत्यलोक गइगया येती अह्नाईवरी ।
 इन्द्रादी पनि वानरै भइ रह्या सब पृथ्विलोकमा झरी ॥
 यै बीचमा दशरथ बडा विर थिया राजा अयोध्यामहाँ ।
 तिनको बृद्ध उमेर भयो र पनि एक छोरा भयेनन् तहाँ ॥५०॥
 ताप्ले पूर्ण भई गुरुसित गया सोध्या उपायै पनि ।
 हे सर्वज्ञ मुने ! कसो गरि हुनन् छोरा मलाई भनी ॥

'मनुष्य के हाथों मरेगा' ऐसा वरदान भी मैं उसको दे चुका हूँ । ब्रह्मा की इतनी बिनती सुनकर भगवान् की यह अनुग्रहवाणी हुई, मैं मानवरूप धारण कर सहज ही रावण का विनाश कर दूँगा । ४७ मेरी शक्ति, सीता नाम से जनक की पुत्री होगी; मैं दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा । सीता को लेकर मैं तुम्हारी आर्काक्षा पूरी करूँगा । इतना कह कर त्रिलोकीनाथ भगवान् विष्णु वहीँ अन्तर्धान हो गये । ४८ जैसे ही भगवान् अन्तर्धान हुए, प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्द्र को भी मानवलोक में जाने का आदेश दिया । जब तक भगवान् मानवलोक पृथ्वी में मनुष्य होकर रहें तब तक तुम बन्दर होकर उनके सहायक की तरह रहो । ४९ इतना कहकर ब्रह्मा जी भी स्वर्गलोक को चले गये । इन्द्रादि [देवता] भी पृथ्वी में उतर कर वानर बनकर रहने लगे । इन्हीं दिनों अयोध्या में महान् वीर राजा दशरथ [राज्य कर रहे] थे । उनकी वृद्धावस्था आजाने तक भी कोई पुत्र नहीं हुआ । ५० चिन्ताग्रस्त होकर राजा दशरथ ने गुरु (वसिष्ठ) के पास जाकर अपनी चिन्ता के निवारण का उपाय पूछा । हे मुनिवर ! मुझे किस प्रकार पुत्र-प्राप्ति

यस्काम्ले फल मिल्ल यो भनि सबै
 यस्तो विन्ति सुनी वशिष्ठ गुरुले
 हुन्छन् पुत्र अवश्य जल्दि महाराज्
 शान्ताका पति ऋष्यशृंग ऋषि छन्
 ती हामी बसि यज्ञ एक हजुरको
 चार छोरा अति वीर हुनन् हजुरका
 यस्तो अति वशिष्ठ को जब सुन्या
 शान्ताका पतिलाइ डाकीकन खुप्
 ऋष्यशृंग वशिष्ठ दूइ ऋषिले
 पायस्को थलिया लिईकन तहाँ
 यस् पायस्कन आज लेउ महाराज् !
 राजालाइ दिया र पायस तहाँ
 राजा खूशि भई दुवै ति ऋषिका
 कौशल्या र ति कैकयाकन दिया
 खानै बाँकि थियो तसै बखतमा
 कौशल्या र ति कैकयीसित भनिन्

जान्या वशिष्ठै थिया ।
 युक्ती वताई दिया ॥५१॥
 एक यज्ञ ऐले गन्या ।
 ती डाकन ऐले पन्या ॥
 खातिर् गरौला जसै ।
 सब ताप छुट्नु तसै ॥५२॥
 राजा बहुत् खुश भया ।
 याग् गर्न लागीगया ॥
 होम् गर्न लाग्या जसै ।
 आया ति अग्नी तसै ॥५३॥
 छोरा हुन्याछन् भनी ।
 लूक्या ति अग्नी पनि ॥
 क्रौमल् चरणमा परी ।
 पायस् दुवै भाग् गरी ॥५४॥
 आइन् सुमित्रा पनि ।
 खवै भाग मेरो भनी ॥

होगी । इस कर्म से यह फल प्राप्त होगा—यह जाननेवाले गुरु वसिष्ठ ही थे । [राजा की] ऐसी विनती सुनकर गुरु वसिष्ठ ने उपाय बता दिया । ५१ महाराज ! एक [पुत्रेष्ठि] यज्ञ करने से शीघ्र ही पुत्र की निश्चय प्राप्ति होगी । शान्ता के पति ऋष्यशृङ्ग एक ऋषि हैं, उन्हें अभी बुलाना चाहिए और उनके साथ बैठकर हम लोग आपके लिए वैसा ही एक यज्ञ करेंगे । [उसके फलस्वरूप] आपके चार अत्यन्त वीर पुत्र होंगे और आप सब तापों से मुक्त होंगे । गुरु वसिष्ठ का यह परामर्श सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुए । शान्ता के पति ऋष्यशृङ्ग को बुलाकर [उनके आदेशानुसार] संविधि यज्ञ का आरम्भ किया । जैसे ही ऋष्यशृङ्ग और वसिष्ठ, दोनों ऋषि हवन करने लगे, वैसे ही अग्निदेव खीर की एक थाली हाथ में लिए वहाँ प्रगट हुए । ५३ प्रस्तुत इस खीर को ग्रहण करें, स्वयं भगवान् पुत्र रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगे । यह कहते हुए राजा को खीर देकर उसी समय अग्नि-देव अन्तर्धान हो गये । राजा ने प्रसन्न होकर दोनों ऋषियों के क्रौमल चरणों में साष्टांग प्रणाम किया । खीर के दो भाग करके, कौशल्या और कैकयी को [एक-एक भाग] दिया गया । ५४

दूवैले दुइ भागदेखि झिकि भाग
तीन् रानी मिलि तेहि पायस तहाँ
तीनै रानि ति गर्भिणी पनि भया
देखी यो सब रानिका सकल लोक
कौशल्या जननी गराइ भगवान्
देखिन् श्रीप्रभुको चतुर्भुज स्वरूप
हात् जोरी बहुतै स्तुती पनि गरिन्
जान्याँ नाथ ! हजूरलाइ सबका
यो ब्रह्माण्ड पनी सहज् उदरमा
मेरा आज उदरविषे बसि यहाँ
देख्याँ भक्त-उपर दया हजुरको
यै मूर्ती प्रभुको सदा मनमहाँ
यस्तो दिव्य शरीर् लुकाइकन बेस्
दर्शन देउ मलाइ हेछु भगवान् !
तेही बालक मूर्तिलाइ म यहाँ
सब पाप् नष्ट गराउँला र करुणा

तिनको पुन्याई दिया ।
संपूर्ण खाई लिया ॥५५॥
तेज् देवताको सरी ।
खूशी भया तेस् घरी ॥
श्रीराम पैदा भया ।
सब माइका ताप् गया ॥५६॥
ईश्वर् इनै हुन् भनी ।
आत्मा स्वरूपी भनी ॥
लिन्या त आफै थियौ ।
यो जन्म ऐले लियौ ॥५७॥
हे नाथ ! शरणमा पन्याँ ।
झल्कोस् पुकारा गन्याँ ॥
बालक स्वरूपका बनी ।
फेर् बाललीला पनि ॥५८॥
आलिङ्गनादी गरी ।
होला र जाँला तरी ॥

(खीर) खाने ही वाली थीं कि सुमित्रा भी उसी समय वहाँ आ पहुँची और कहा कि मेरा भाग कहाँ है। दोनों ने अपने-अपने हिस्से में से निकाल कर उसके लिए भाग पूरा किया। तीनों रानियों ने मिलकर सब खीर खाई। ५५ तीनों रानियाँ गर्भवती भी हो गई। उनके मुखमण्डल दिव्य तेज से पूर्ण थे। ऐसा देखकर सारा ब्रह्माण्ड हर्षोल्लास से भर गया। कौशल्या ने भगवान् श्रीराम को जन्म दिया। भगवान् का चतुर्भुज स्वरूप देखकर माता का ताप समाप्त हो गया। ५६ राम ईश्वर हैं, ऐसा समझकर हाथ जोड़कर [कौशल्या ने] उनकी स्तुति भी की—नाथ मैं आपको पहचान गई। आप सबके आत्मास्वरूप हैं। इस ब्रह्माण्ड को भी सहज ही पेट में धारण करने वाले आप ही थे। आज मेरे गर्भ में स्थित होकर यहाँ जन्म लिया है। ५७ हे नाथ ! आपकी ऐसी महान् कृपा देखकर आपके चरणों में पड़ती हूँ। मेरे हृदय की यही पुकार है कि आपकी यह मूर्ति सदैव मेरे हृदय-पटल पर विराजमान रहे। इस दिव्य रूप को अदृश्य कर सुन्दर बाल-स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। तब मैं बाल-लीला देखकर आनन्द प्राप्त करूँगी। ५८ आपके उसी बाल-रूप की मूर्ति को मैं आलिङ्गन करके सब पापों से मोक्ष पाऊँगी। यही

यो विन्ती महतारिको सुनि हुकूम् यो भो प्रभूको तहाँ ।
 मातर् ! जुन् छ हजूरको हित कुरो होओस् सबै थोक् यहाँ ॥५९॥
 दूवै स्त्री पुरुषै भई अधि ठुलो मेरो तपस्या गन्यौ ।
 तीमीलाइ म पुत्र पाउँ भनि खुप इच्छा यसैमा धन्यौ ॥
 हूँला पुत्र भनेर वर् पनि दियाँ सोही कुराले यहाँ ।
 तिम्नो पुत्र भयेर जन्मन गयाँ व्यर्थ म गथ्या कहाँ ॥६०॥
 कौशल्यासित बात् पनी यति गरी वालक् सरीका वनी ।
 चेष्टा वालककै लिया प्रभुजिले खुप रून लाग्या पनि ॥
 थाहा भो दशरथजिलाइ र गया दर्शन गन्याथ्या जसै ।
 देखतैमा परिपूर्ण मन् हुन गयो आनन्द पाया तसै ॥६१॥
 तत्क्षणमा तहिं जातकर्म पनि भो सब् काम् गुरूले गन्या ।
 कैकेयीतिर ता भरत् हुन गया आनन्दमा सब् पन्या ॥
 जम्ल्याहा दुइ पुत्र पाउँदि भइन् ताहाँ सुमित्रा पनि ।
 जेठा लक्ष्मण ता भया ति दुइमा शत्रुघ्न कान्छा वनी ॥६२॥
 तीन् रानीतिर चार पुत्र सुकुमार् जन्मी सवयाथ्या जसै ।
 भूमि रत्न सुवर्ण वस्त्रहरुका भारी भया दान् तसै ॥

आपकी मेरे ऊपर महान् कृपा होगी । माता की यह विन्ती सुन कर वरदान-स्वरूप भगवान् ने कहा, हे माता ! आपके हितार्थ सभी कुछ आपकी इच्छानुसार हो जाये । ५९ किसी समय आप दोनों स्त्री-पुरुष ने इस आकांक्षा से महान् तप किया था कि मुझे आप पुत्र-रूप में प्राप्त करो । उस समय मैंने आपको वरदान देकर आपका पुत्र होना स्वीकार भी किया था । इसीलिए मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ । व्यर्थ ही मैं ऐसा कहाँ करता ! ६० माता कौशल्या से इतनी बातें करके प्रभु ने वाल-रूप धारण किया और वालक की भाँति रोने लगे । और वाल-क्रीड़ाओं से माता को प्रमुदित करने लगे । राजा दशरथ को मालूम होते ही वे दर्शनों के लिए आये । देखते ही उनका हृदय आनन्द से विभोर हो गया । उन्हें एक तृप्ति की अनुभूति हुई । ६१ गुरु ने उसी समय जातिकर्म आदि सब सम्पन्न करवाये । [राजा-प्रजा] सभी आनन्दित हुए । कैकेयी से भी भरत तथा सुमित्रा से जुड़वे पुत्र ज्येष्ठ लक्ष्मण और कनिष्ठ शत्रुघ्न ने जन्म लिया । ६२ जैसे ही तीनों रानियों के चार सुकुमार पुत्र उत्पन्न हुए वैसे ही [महाराज दशरथ की ओर से] भूमि, रत्नादि, स्वर्ण तथा वस्त्रों का दान किया जाने लगा । गुरु वशिष्ठ ने कौशल्या से

कौशल्यासुतको वशिष्ठ गुरुले नाम् 'राम' भन्नु भनी ।
 राख्या कैकयिपुत्रको 'भरत' नाम् जमल्याहकोनाम् पनि ॥६३॥
 जेठाको शुभ नाम 'लक्ष्मण' गरी जुन् चाहिं कान्छा थिया ।
 तिनको नाम् पनि काम-माफिक असल् 'शत्रुघ्न' राखी दिया ॥
 लक्ष्मण् राम्सित खेल्दछन् भरतथ्यै शत्रुघ्न खेल्दा भया ।
 पायस्कै अनुसारले हुन गयो प्रीती त वढ्दैगया ॥६४॥
 बालक् काल् बितिगैगयो प्रभुजिको सब् बाललीला गरी ।
 चारैको व्रतबन्ध भो पढिसक्या सब् शास्त्र खुब् बोध् गरी ॥
 खेल्या क्यै दिनमा शिकार बनमा सच्चा शिकारी बनी ।
 राज्काज्गर्नुजती थियो सकल त्यो राज्काज् चलाया पनि ॥६५॥

राम् हुन् परात्मा ति कहाँ विकारी ।

यस् लोकमा छन् नररूपधारी ॥

काम् गर्न लाग्या ति नरैसरीका ।

लीला अपार् छन् भगवान् हरीका ॥ ६६ ॥

राम् नारायण हुन् भनेर मनले जान्या र भेट्छू भनी ।
 विश्वामित्र ऋषी बहुत् खुशि हुँदै आया अयोध्या पनि ॥
 देख्या श्री दशरथजिले र बहुतै आदर् ऋषीको गरी ।
 सोध्या काम् किन आज आउनु भयो भन्दै बहुत् प्रेम् धरी ॥६७॥

उत्पन्न बालक का नाम राम और कैकेयी सें उत्पन्न बालक का नाम भरत रक्खा । ६३ जुड़वे बालकों में से ज्येष्ठ पुत्र का नाम लक्ष्मण तथा कनिष्ठ का नाम उसके कार्यो के अनुसार शत्रुघ्न [अर्थात् शत्रु का नाश करने वाले] रक्खा गया । लक्ष्मण राम के साथ तो शत्रुघ्न भरत के साथ खेलते हैं । यह सारा विधान खीर के अनुसार ही हुआ । ६४ प्रभु का वाल्यकाल बाल-लीलाओं में व्यतीत हुआ । चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन समाप्त किया । एक कुशल आखेटक के रूप में कितने ही दिन वन में शिकार खेलते फिरे । राज-काज में भी प्रवीण हुए । ६५ राम परमात्मा है । वे तो निर्विकार हैं, उनमें, विकार कहाँ ? इस संसार में उन्होंने मानव-रूप धारण किया है । वे मनुष्य की ही तरह कार्य करने लगे । भगवान् हरि की लीला अपरम्पार है । ६६ ऋषि विश्वामित्र ने हृदय से यह अनुभव किया कि राम नारायण विष्णु हैं । वे बहुत हर्षित

आदर्पूर्वकका सुन्या प्रिय वचन् यस्ता ऋषीले जसै ।
 आफ्नु दर्द जउन् थियो मनमहाँ सोही वताया तसै ॥
 हे राजन् ! सब पर्व पर्वहरमा ईश्वरविषे मन् धरी ।
 गर्छु होम्हरु कर्म तेस् बखतमा आयेर होम् नाश् गरी ॥६८॥
 मारिच्ले र सुवाहुले बहुत दिक् गर्छन् र पापी भनी ।
 द्वैलाइ मराउनाकन उठ्यो रिस् आज मेरो पनि ॥
 सोही विन्ति गर्छु भनेर अहिले आयाँ हजुरमा यहाँ ।
 जेठा पुत्र मलाइ वक्सनु हवस् लैजान्छु ऐले वहाँ ॥६९॥
 लक्ष्मण् साथ् गरि रामलाइ अधिराज् ऐले हजुरले दिया ।
 मारिच्लाइ सुवाहुलाइ सहजै मान्या यिनैले थिया ॥
 यस्मा अति वशिष्ठको लिनुहवस् दीना नदीना महाँ ।
 भन्छन् दीनु त वक्सनु पनि हवस् यै काम आयाँ यहाँ ॥७०॥
 विश्वामित्रजी को सुन्या वचन यो राजा सकस्मा पन्या ।
 दिऊँ कि नदिऊँ यही मनमहाँ चिन्ता वहुतै गन्या ॥
 सोध्या ताहिं वशिष्ठथ्यै पनि गुरो यस्तो पन्यो क्या गर्छु ।
 कल्याण् हुन्छ कसो गरेर अहिले अर्ती मिलोस् एक बर ॥७१॥

हुए और दर्शनार्थ अयोध्या आये । दशरथ जी ने ऋषि को देखकर उनका भव्य स्वागत किया और अत्यन्त प्रेम-पूर्वक आने का कारण पूछा । ६७ ऋषि ने दशरथ के प्रिय वचनों को सुनकर अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाई । हे राजन् । सभी पर्वों में ईश्वर के प्रति मन लगाकर जब हवन कर्मों को करता हूँ, तो राक्षसगण हवन-कार्य में बाधा डालते हैं । ६८ मारीच और सुबाहु अत्यधिक कष्ट दे रहे हैं । आज मेरे मन में भी इतना क्रोध उठा है कि मैं उन दोनों को मरवा डालूँ । अतः मैं आपसे यही विनती करने आया हूँ कि इस कार्य के लिए मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र देने की कृपा करें; मैं उन्हें अभी वहाँ ले जाऊँगा । ६९ महाराज ! यदि आप लक्ष्मण सहित राम को देते तो मारीच तथा सुबाहु को सरलता पूर्वक मार डालते । देने न देने के विषय में आप गुरु वशिष्ठ से परामर्श कर लेने की कृपा करें । इसी काम से मैं यहाँ आया हूँ । ७० विश्वामित्र के वचन सुनकर महाराज संकट में पड़ गये । दें या न दें ? यही चिन्ता उनके मन में उठने लगी । उन्होंने वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव ! ऐसी समस्या आ पड़ी है, क्या करूँ । किस प्रकार कल्याण होगा यही बताने की कृपा करें । ७१ एक तो यही कठिन है कि राम को देखे बिना मैं

रामलाई म नदेखि बाँच्छु कसरी
 इन्लाई नदिया सराप पनि दिनन्
 यस्मा श्रेय यसो छ यो गर भनी
 सोही काम म गर्दछु हित हुन्या
 यो विन्ती दशरथजिको जब सुन्या
 रामको गुह्य कुरा सबै भनि दिया
 हे राजन्! तिमि रामलाई अहिले
 भन्छौ पुत्र ति हुन् तथापि इ त हुन्
 भूभार हर्न निमित्त आज भगवान्
 कौशल्यातिर जन्मन् पनि थियो
 कौशल्या दशरथ दुवै तिमिहरू
 ईश्वरलाई म पुत्र पाउँ भनि तप
 खूशी भै वरदान दिया प्रभुजिले
 सोही सत्य गराउनाकन यहाँ
 शेषहुन् 'लक्ष्मण' शङ्खहुन् 'भरतजी'
 हुन् को जान्दछ तत्त्व यो बुझ तिमि

एक्यै कठिन् भो अनि ।
 की लाग्छ यस्तो पनि ॥
 पाउँछु आज्ञा जसो ।
 कुन् पाठ्छ गर्नु कसो ॥७२॥
 ताहीं गुरुले पनि ।
 यस्ता इ राम हुन् भनी ॥
 हुन् पुत्र मेरा भनी ।
 चौधै भुवनका धनी ॥७३॥
 यस् पृथ्वितल्मा झन्या ।
 सो सत्य ऐले गन्या ॥
 कश्यप अदीती थियौ ।
 गर्दै समाधी लियौ ॥७४॥
 छोरो म हुँला भनी ।
 जन्म्या परात्मा पनि ॥
 'शत्रुघ्न' चक्रावतार ।
 लीला प्रभूको अपार ॥७५॥

किस प्रकार जीवित रह सकूंगा । यदि मैं इन्हें न दूँ, तो ऐसा लगता है कि कहीं विश्वामित्र श्राप न दे दें । इसमें कौन कार्य कल्याणकारी होगा, आप आज्ञा दें; वही हितकर कार्य मैं करूँ । कौन सा आदेश किस प्रकार पूर्ण करना है मुझे आज्ञा दें । ७२ गुरु ने राजा दशरथ की विन्ती सुनकर उन्हें राम के समस्त गुणों से परिचत कराया । उन्होंने कहा, हे राजन्! आप तो राम को अपना पुत्र कहते हैं । सो तो है ही, तथापि ये वही चौदह भुवन के मालिक हैं । ७३ पृथ्वी के भार को हरण करने आज भगवान् धरती पर पधारे है । कौशल्या माता की गोद में जन्म लेना था सो भी अब सत्य हुआ । कौशल्या और दशरथ आप दोनों पूर्व जन्म में अदिति और कश्यप थे । तपस्या में रत होकर भगवान् को अपने पुत्र के रूप में पाने की कामना की थी । ७४ प्रभु ने तपस्या से मुग्ध होकर आपका पुत्र होने का वरदान दिया । उसी को सत्य प्रमाणित करने के लिए प्रभु ने यहाँ जन्म लिया । शेष का (शेषनाग) लक्ष्मण, शंख का भरत, चक्र का शत्रुघ्न अवतार है । इन तत्त्वों को कौन जानता है । अतः आप प्रभु की इस अपार लीला को समझें । ७५ स्वयं प्रभु की मूल शक्ति, अनन्त गुणों से पूर्ण दिव्य मूर्ति बनकर जनक जी की पुत्री

मूल शक्ति प्रभुको अनन्त गुणकी
छोरी भै ति वस्याकि छन् जनककी
सीता राम् दुइको विवाह विधिले
विश्वामित्रजिको भयो र मनमा
दीन्यै योग्य म मान्दछू भनि गुरु—
खूशी भै दशरथ्जिले पनि दिया
राम् लक्ष्मण्कन पाउँदा ऋषि पनी
आशीर्वाद दशरथ् जिलाइ दिइ राम्
केही दूर गइ रामलाइ ऋषिले
जुन् विद्या पढि भोक्थकाइ कहिल्यै
गङ्गाका तिरमा बडो बन थियो
विश्वामित्रजिले कह्या प्रभुजिथ्यै
त्यो हो राक्षसि कामरूपि छ बहुत्
गछे यस्कन मारिवक्सनु हवस्
विश्वामित्रजिको वचन्कन सुनी
टंकार् खुप् धनुको गन्या सुनि यहाँ
त्यो टंकार् सुनि ताडका पनि तहाँ
हान्या बाण् प्रभुले गइयो हृदयमा

सो दिव्य मूर्ती बनी ।
सीता छ नाऊँ पनि ॥
संयोग् गराऊँ भनी ।
आई रह्या छन् पनि ॥७६॥
ले अर्ति दीया जसै ।
लक्ष्मण् सहित् राम् तसै ॥
अत्यन्त खूशी भया ।
लक्ष्मण् लिईती गया ॥७७॥
विद्या सिकाई दिया ।
लाग्दैन यस्ता थिया ॥
पुग्या जसै ती तहाँ ।
राम्! ताडका छे यहाँ ॥७८॥
लोकलाइ बाधा पनि ।
यो पापिनी हो भनी ॥
श्रीरामजीले पनि ।
त्योजल्दिआवस्भनी ॥७९॥
दौडेर आई जसै ।
त्यो बाण्, मरी त्यो तसै ॥

होकर बैठी है और नाम भी सीता है । सीता और राम दोनों का विवाह का विधिवत संयोग उत्पन्न कराने की इच्छा विश्वामित्र जी के मन में हुई है, इसी लिए ये आए हुए हैं । ७६ जैसे ही गुरु ने ऐसा परामर्श दिया कि देना ही उचित है, वैसे ही प्रसन्न होकर दशरथ जी ने भी राम को लक्ष्मण सहित दे दिया । राम-लक्ष्मण को पाकर ऋषि भी अत्यन्त हर्षित हुए और दशरथ जी को आशीर्वाद देते हुए राम-लक्ष्मण को लेकर चले गए । ७७ कुछ दूर जाकर गुरु ने राम-लक्ष्मण को ऐसी मंत्र-विद्या की शिक्षा दी जिसे प्राप्तकर क्षुधा तथा श्रम का अनुभव कभी नहीं होता । गंगा के किनारे एक बड़ा जंगल था । वे जैसे ही वहाँ पहुँचे विश्वामित्र जी ने प्रभु राम से कहा कि ताड़का राक्षसी यहीं रहती है । ७८ यह राक्षसी मनमोहिनी है और बहुतों के शुभ कार्यों में विघ्न-बाधा पहुँचाती है । यह पापिन है । अतएव इसे मारने की कृपा करें । विश्वामित्र के वचनों को सुनकर रामचन्द्र जी ने धनुष को जोर से टंकारा, जिसे सुनकर वह शीघ्र ही आ जाय । ७९ धनुष की टंकार को सुनकर

यक्षी थी अधिकी सराप् परि तहाँ
राम्ले मारिदिदा त श्राप् पनि ट्यो

श्रीराम्चन्द्रजिका वरीपरि घुमी
स्वर्गमा गइ रामका वचनले
विश्वामित्र ऋषि बहुत् खुशि भया
जो सब शास्त्र-रहस्य हो सब दिया

कामाश्रम् रमणीय थल् तहिं थियो
फेर सिद्धाश्रममा गया रघुपती
तेस् सिद्धाश्रममा अनेक् ऋषिथिया
मारिच् फेक्न सुबाहु मारनकन राम्

विश्वामित्रजिलाइ भन्नु पनि भो
वस्छन् यज्ञ ठुलो गरी लिनुभया
भेटै आज भयेन मारु कसरी
विश्वामित्र ऋषी अरू ऋषि लिई

तेस्ती भयाकी थिई ।
फेर यक्षिको रूपलिई॥८०॥

प्रेम्ले नमस्कार गरी ।
वेस् एक विमान्मा चढी ॥
यो कार्य देख्या जसै ।
ती रामलाई तसै॥८१॥

एकरात् तहाँ वास् गरी ।
सब्लाइ मङ्गल् गरी ॥
पूजा सबैले गन्या ।
ताहाँ अगाडी सन्या॥८२॥

मारिच् सुबाहु कहाँ ।
ती आउंथ्या की यहाँ ॥
यो मर्जि सून्या जसै ।
होम् गर्न लाग्या तसै॥८३॥

ताड़का ज्योंही वहाँ आयी, प्रभु ने वाण छोड़ा । वह बाण जाकर उसके हृदय में लगा । वह तत्काल सृत्यु को प्राप्त हुई । यह राक्षसी पूर्व जन्म में यक्षिणी थी । शाप के कारण वह इस दशा को प्राप्त हुई थी । राम के हाथों मरने से उसे इस भयंकर शाप से भी मुक्ति मिल गई । ८० अपने राक्षसी जीवन से मुक्त होकर ताड़का ने प्रभु की परिक्रमा की और प्रेमपूर्वक प्रणाम किया । प्रभु की आज्ञा से वहाँ एक उत्तम विमान प्रस्तुत हुआ, जिस पर चढ़कर वह स्वर्ग लोक को गई । इस कार्य को देखकर विश्वामित्र उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए और जो भी शास्त्र-ज्ञान का रहस्य था उससे राम को परिचित कराया । ८१ इसके बाद उन्होंने कामाश्रम नामक एक रमणीक स्थान में एक रात विश्राम किया । तत्पश्चात् सबका कल्याण करके रघुनाथ जी सिद्धाश्रम को गए । उस सिद्धाश्रम में अनेक ऋषि थे, उन सब लोगों ने राम का सत्कार किया । फिर मारीच और सुबाहु को मारने के लिए राम अग्रसर हुए । ८२ विश्वामित्र से उन्होंने कहा कि मारीच और सुबाहु कहाँ रहते हैं । उनसे तो भेंट ही नहीं हुई । उन्हें मारा किस प्रकार जाए । उन्हें यहाँ तक बुलाने के लिए एक यज्ञ करना चाहिए । रामचन्द्र की ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र अन्य सभी ऋषियों को साथ लेकर यज्ञ करने लगे । ८३

दिन् मध्यान्ह भयो तसै बखतमा
मान्यकालकनचालनपाइ अघिझै
काहीं हाइ खसाउँछन् कहि रगत
आया ती जब यज्ञमा प्रभुजिले

मारिच्लाइ त वाणले जलधिका
अग्निवाण धरी सुबाहुकन ता
तिन्का फौज पनि ताहि लक्ष्मणजिले
खूशी भैकन पुष्पवृष्टि गरियो

विश्वामित्र बहुत् प्रसन्न हुनुभै
भोजन् गर्न निमित्त राम्कन तहाँ
तीन्दिन् ताहि मुकाम् गन्या प्रभुजिले
चौथादिन् ऋषिले गन्या विनति एक

हेराम्! जाउँ जनकजिका पुरमहाँ
गर्नन् आदर भक्तिले हजुरका
ताहाँ एक शिवको धनुष् पनि छ वेस्
यो विन्ती ऋषिको सुनेर रघुनाथ

आया ति राक्षस् पनि ।
होम् नाश् गरौला भनी ॥
यस्तै प्रकारले गरी ।
हान्या अगाडी सरी ॥८४॥

तिर्मा पुन्याई दिया ।
भस्मै गराई दिया ॥
मारी सक्याथ्या जसै ।
सब् देवताले तसै ॥८५॥

राम्लाइ काख्मा लिया ।
मीठा फलादी दिया ॥
वार्ता कथाको गरी ।
राम्का अगाडी सरी ॥८६॥

राजा जनक छन् वडा ।
साम्ने हुन्याछन् खडा ॥
देखीयला त्यो पनि ।
खूशी भया वेस् भनी ॥८७॥

मध्याह्न का समय हुआ, तत्काल राक्षसगण वहाँ आये । पड्यंत्र की चाल को न समझकर सदा की भाँति हवनादि को नष्ट करने के लिए कहीं अस्थियाँ कहीं रक्तादि गिराने लगे । जैसे ही वे यज्ञ में आये और विघ्न-कार्य आरम्भ किया वैसे ही प्रभु ने आगे बढ़कर प्रहार किया । ८४. मारीच को तो वाण द्वारा समुद्र के किनारे पहुँचा दिया और सुबाहु को अग्निवाण से भस्म कर दिया । उनकी समस्त सेना भी लक्ष्मण द्वारा मारी जा चुकी थी । तब हर्षोल्लास से पुलकित होकर देवताओं ने पुष्प-वर्षा की । ८५. विश्वामित्र ने अत्यन्त हर्षित होकर राम को गोद में उठा लिया और भोजन हेतु उन्हें फलादि दिये । कथा-वार्ता करते हुए प्रभु जी वहाँ तीन दिन रहे । चौथे दिन ऋषि ने राम के सम्मुख आकर एक विनती की । ८६. हे राम ! आप जनकपुर चले, जहाँ एक बड़े प्रतापी राजा जनक जी हैं । वह आपको पाकर आपके सम्मुख उपस्थित होकर आपका बड़ा ही आदर करेंगे और भक्ति-भावना से भर उठेंगे । वहाँ शिवजी का एक उत्तम धनुष भी है, आप उसे भी देख लेंगे । ऋषि की यह विनती सुनकर रघुनाथ जी वड़े ही प्रसन्न हुए । ८७

विश्वामित्र र भाइ लक्ष्मण लिई
आश्रम गौतमको पन्यो नजरमा
आश्रमका नजिकै असल् फल सहित्
जन्तू नाम् त थियेन कोहि तपनी

मालुम् राम्कन क्या कहीं कमि थियो
सोध्या तैपनि यो असल् छ किन हो
विश्वामित्र थिया सबै गुणनिपुण्
गौतम्को अधि बस्ति हो अव भन्या

भार्या गौतमकी समान गुणकी
ब्रह्माकी तित पुत्रि हुन् गुणि हुँदा
गौतम् कार्य-निमित्त दूर जब गया
धारी गौतम-पत्निका नजिकमा

आई भोग-विलास् गरेर खुशि भै
देख्ता गौतमलाइ गौतमजिले
आफ्नू रूप दुरुस्त देखिकन खुप्
सोध्या होस् तँ कउन्? बता नहिं भने

श्रीराम् हिंड्याथ्या जसै ।
गंगा-किनारमा तसै ॥
फूलको बघैचा थियो ।
संभार् बिना त्यो थियो ॥८८॥

जो ता जगत्का धनी ।
रित्तै बघैचा भनी ॥
विस्तार् सुनाया पनि ।
छैनन् यहाँ कवै पनि ॥८९॥

भक्तै अहिल्या थिइन् ।
सब खुश गराई लिइन् ॥
रूप गौतमैको सरी ।
इन्द्रै अगाडी सरी ॥९०॥

फर्की गयाथ्या जसै ।
आश्चर्य मान्या तसै ॥
गौतम् रिसाया पनि ।
हेर् भस्म गर्छु भनी ॥९१॥

विश्वामित्र तथा भाई लक्ष्मण को साथ लिये श्रीराम जी जा रहे थे । उन्होंने गंगा नदी के किनारे स्थित गौतम ऋषि का आश्रम देखा । आश्रम के निकट एक सुन्दर फूलों से भरा उद्यान देखा; सांभर (हरिण) के अतिरिक्त अन्य कोई भी पशु वहाँ न था । ८८ जगत्पति राम को क्या नहीं मालूम था । तिसपर भी उन्होंने इस सुनसान उद्यान के विषय में पूछ लेना ही उत्तम समझा । विश्वामित्र सर्वज्ञ थे, अतः उन्होंने विस्तारपूर्वक राम को बताया कि वहाँ कोई भी नहीं है । ८९ गौतम के ही समान गुणवती एवं भक्त उनकी पत्नी भी थी जिसका नाम अहिल्या था । वह तो ब्रह्मा की पुत्री थी जिसने अपने गुणों से सबको प्रसन्न किया । जब गौतम किसी कार्यवश कहीं दूर गए हुए थे उस समय इन्द्र गौतम का रूप धारण करके गौतम पत्नी के पास आया । ९० भोग-विलास के पश्चात् जैसे ही वह प्रसन्न होकर लौट रहा था वैसे ही गौतमी (अहिल्या) दूसरे गौतम को देखकर आश्चर्यचकित हो गई । अपने ही रूप को देखकर गौतम अत्यन्त क्रोधित हुए और इन्द्र से प्रश्न किया कि बताओ तुम कौन हो; अन्यथा अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा । ९१ तब भयभीत होकर वह बोला कि हे ब्राह्मण! मैं इन्द्र

ब्राह्मण् ! इन्द्र म हूँ भनेर डरले
गौतम्ले पनि रीसमा परि दिया
योनीमा अति लुब्ध आज भइछस्
तेरा येहि शरीरमा अब हुनन्

दीया येति सराप् र इन्द्र पनि फेर
पत्नीलाइ सराप् दियेर ऋषिले
जन्तू कुछ नहुनन् यहाँ अब उपर
जैले श्रीरघुनाथ् चरण् धरिदिनन्

यस्तो सत्य सराप् पन्यो र पतिको
पृथ्वीमा गिरि गैगइन् अचल एक
पादस्पर्श ति खोज्दछिन् हजुरको
तिन्लाई करुणा गरी हजुरले

यस्तो विन्ति सुन्या जसै ति ऋषिका
देख्ता पत्थर एक ठुलो प्रभुजिले
सुन्दर् मूर्ति भई खडा भइगइन्
श्रीराम्चन्द्रजिले प्रणाम् पनि गन्या

देखिन् श्री रघुनाथलाइ र तहाँ
पूजा स्तुति गरेर राम्सित विदा

विन्ती गन्याथ्या जसै ।
यस्तो सराप् पो तसै ॥
यत्रो वडो भै पनि ।
हज्जार योनी भनी ॥१२॥

आफना स्थलैमा गया ।
पत्थर् वनाई दिया ॥
पत्थर् भई तँ रह्यास् ।
तैले तँ मुक्तै भयास् ॥१३॥

ताहीं अहिल्या पनि ।
पत्थर् स्वरूपकी वनी ॥
पाप् मुक्त होला भनी ।
कुल्चीदिन्या हो पनी ॥१४॥

श्रीराम् तुरुन्तै गया ।
कुल्चीदिंदा त्यो भया ॥
ताहाँ अहिल्या पनि ।
ई ब्राह्मणी हुन् भनी ॥१५॥

खूशी अहिल्या भइन् ।
मागी पति थ्यै गइन् ॥

हूँ । इसे सुनकर क्रोधित गौतम ने भी शाप देदिया कि जब इतने महान् होकर भी तुम यौवन के वशीभूत हुए हो तो तुम्हारे इस शरीर में हजारों योनि-चिह्न उत्पन्न हो जायेंगे । १२ इस प्रकार का शाप पाकर इन्द्र पुनः अपने लोक को चले गए । पत्नी अहिल्या को भी ऋषि ने शाप देकर पत्थर बना दिया । उन्होंने कहा कि यहाँ अब कोई जीव-जन्तु नहीं रहेगा; केवल तुम्हीं यहाँ अकेली पत्थर बनकर रहोगी । जब रघुनाथ अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श करेगे तभी तुम इस शाप से मुक्त होगी । १३ पति के इस शाप से अहिल्या धरती पर गिर पड़ी और एक निश्चल पत्थर हो गई । वह शाप से मुक्ति पाने के लिए आपके चरणों का स्पर्श चाहती है, कृपा करके उसे अपने चरणों से स्पर्श कर दें । १४ ऋषि की ऐसी विनती सुनकर श्रीराम तुरन्त वहाँ गये । रघुनाथ जी ने एक बड़ी शिला देखी और उसे अपने पाँव से स्पर्श किया । अहिल्या तुरन्त ही एक सुन्दर स्त्री बन कर खड़ी हो गई । ब्राह्मणी जान कर श्रीराम ने उसे प्रणाम

ताहाँ देखि चल्या र जल्दि रघुनाथ
तर्नाको प्रभुले जसै मन गन्या
ख्वामित्! ई दुइ पाउको अति असल्
पत्थर हो तपनी मनुष्य सरिको
तेस्तै पाठ यहाँ भयो पनि भन्या
डुङ्गाले पनि रूप् धन्यो यदि भन्या
तस्मात् पाउ पखालि वारि तिरमा
येती बात गरचौ भने त तिमि ता
यस्तो ब्रिन्ति सुनी तहाँ प्रभुजिले
माझीले जलले पखालि उहि जल्
यस्ता रित् सित नाउमा चढि सहज्
श्यामसुन्दर् रघुनाथ बहुत् खुशि हुँदै
विश्वामित्र ऋषी बहुत् खुशि हुँदै
आया यस् पुरिमा भनी जब सुन्या
पुग्या प्रश्न गन्या सबै कुशलको
देख्या सुन्दर राजकुमार जनकले

गङ्गाजिका तीर् झन्या ।
माझी चरणमा पन्या ॥९६॥
धूलो जसै ता पन्यो ।
सुन्दर् स्वरूपै धन्यो ॥
डुङ्गा स्वरूप् धर्दछन् ।
हाम्राजहान्मर्दछन् ॥९७॥
हाम्रा शिरोपर् धन्यौ ।
गंगाजिका पार् तरचौ ॥
पाऊ अगाडी दिया ।
आपनाशिरोपर्लिया ॥९८॥
गंगाजिका पार् गया ।
दाखिल् जनकपुर भया ॥
दुई कुमार साथ् गरी ।
दौड्याजनक् तेस् घरी ॥९९॥
पाऊमहाँ शिर् धरी ।
पूज्या ति ईश्वर् सरी ॥

भी किया । ९५ श्रीरघुनाथ जी को देखकर अहिल्या प्रसन्न हुई और पूजा-स्तुति के पश्चात् राम से आज्ञा प्राप्त करके पति के पास गई । वहाँ से चल कर रघुनाथ जी शीघ्र ही गंगा जी के किनारे पर पहुँचे । जैसे ही प्रभु ने तैर कर पार होने के लिए सोचा वैसे ही मल्लाह उनके चरणों में आ पड़ा । ९६ हे स्वामी ! आपकी अति उत्तम चरण-रज लगते ही पत्थर भी मनुष्य-रूप धारण कर लेती है । उसी प्रकार यहाँ भी यदि मेरी नाव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया तो हमारे समस्त परिवार नष्ट हो जायेंगे । ९८ इसलिए हे प्रभु ! पहले मुझे अपने चरणों को पखारने दें और वह पवित्र चरणामृत हमें माथे से लगाने दें । तभी हम आपको गंगा के पार उतरने देंगे । यह विनती सुनकर प्रभु ने अपने पाँव आगे बढ़ा दिये और मल्लाहों ने उनके चरण पखार कर जल को माथे में लगाया । ९८ इस प्रकार विधिपूर्वक नाव में चढ़कर श्रीराम सरलता से गंगा जी के पार हो गये । श्याम-स्वरूप वाले रघुनाथ जी जनकपुर आये । विश्वामित्र के दोनों राजकुमारों सहित जनकपुर की नगरी में आने का समाचार सुनकर राजा जनक तुरन्त ही प्रसन्न होकर दौड़ पड़े । ९९ वहाँ पहुँच कर चरणों में झुककर कुशल-समाचार ज्ञात

पक्का गर्न निमित्त फेरु जनकले
 जान्याँ जान्न त चित्तले त भगवान्
 ब्रह्मन् ! पुत्र इ हुन् कउन् पुरुषका
 क्लेशको लेश नराखि यस् बखतमा
 विश्वामित्रजिले सुन्या विनति यो
 यस्ता हुन् इ भनेर सब् ति ऋषिले
 हे राजन् ! दशरथजिका इ सुत हुन्
 भन्छन् मानिसले गरी नसकिन्या
 मारिचलाइ सुवाहुलाइ अरु ता
 राम्ले मारिचलाइ फेकि सहजै
 पत्थर् भै कति वर्षसम्म रहँदा
 पाऊले तहि कुल्चँदा उठि गइन्
 याहाँ एक शिवको धनुष् छ भनि यो
 देखाको मतलब छ आज त यहाँ
 चाँडो आज नजर् गराउ भनि यो
 मन्त्रीलाइ हुकूम दिया जनकले

सोध्या ऋषिथ्येँ पनि ।
 विष्णुइनै हुन् भनी ॥१००॥
 विस्तार् हवस् वेस् गरी ।
 मेरो लग्या मन् हरी ॥
 राजा जनकको जसै ।
 विस्तार् वताया तसै ॥१०१॥
 नाम् राम लक्ष्मण् भनी ।
 गछन् पराक्रम् पनि ॥
 को जित्न सकन्या थिया ।
 सूवाहु मारीदिया ॥१०२॥
 गौतम् कि नारी थिइन् ।
 जस्ता कि तस्ती भइन् ॥
 सूनेर आया यहाँ ।
 राखी रह्याछौ कहाँ ॥१०३॥
 विस्तार् गन्याथ्या जसै ।
 लौ ल्याउ भन्या तसै ॥

किया । सुन्दर राजकुमारों को देखकर राजा जनक ने उनकी ईश्वर सदृश पूजा की । अपने मन में निश्चय करने के लिए जनकजी ने ऋषि से पूछा कि क्या भगवान् विष्णु यही हैं । १०० ब्रह्मन् !- ये किन महापुरुष के पुत्र हैं, विस्तारपूर्वक कहने की कृपा करें । इस समय मेरा मन क्लेश-रहित हरि के ध्यान में लगा हुआ है । विश्वामित्र ने राजा जनक की यह विनती सुनते ही श्रीराम के विषय में सविस्तार वर्णन किया । १०१ हे राजन् ! ये दशरथ जी के पुत्र राम तथा लक्ष्मण है । लोग कहते हैं कि ये अभूतपूर्व पराक्रमी है, जो मनुष्य के लिए सम्भव नहीं । मारीच और सुबाहु को दूसरा कौन पराजित कर सकता था । राम ने ही मारीच को पटक कर सुबाहु का वध किया । १०२ इनके चरणों का ही प्रताप इतना है कि कितने ही वर्षों से शिला हुई गौतम की पत्नी को केवल इनका चरण-स्पर्श पाकर ही पुनः अपना पूर्व रूप प्राप्त हो गया । यहाँ एक शिव-धनुष है, ऐसा सुनकर उसे देखने की आकांक्षा से यहाँ आये हुए हैं; सो कृपया उसे दिखाने का कष्ट करें । १०३ ऐसा आग्रह सुनकर मंत्री को धनुष लाने की आज्ञा जनक ने दी । इसी बीच जनक ने ऋषि से कहा कि मैं अधिक क्या

यै बीचमा ऋषिथ्यै भन्या जनकले राम्ले उचालून् धनू ।
सीता छोरि म दिन्छु राम्कन गरून् बीहा बहुत् क्या भनू ॥१०४॥
साँचा बाणि सुन्या र सोहि रितका वात्चित् गन्याथ्या जसै ।
पाँच हज्जार विरले उचालि बलले ल्याया धनुषै तसै ॥
ताहाँ श्री रघुनाथ उठेर नजिकै सोही धनूथ्यै गया ।
वाम् हात्मा सहजै उचालि धनु त्यो राम्ले तलीदाभया ॥१०५॥
ताँदो जल्दि चढाइ खँचनुभयो ताहाँ धनुषकै जसै ।
दूई टुक भई गिरयो उ धनु ता खूशी भया सब तसै ॥
हर्षैहर्ष भयो तसै बखतमा सारा जनकपुर भरी ।
आदर् खुप् प्रभुको गन्या जनकले आलिंगनादी गरी ॥१०६॥
सीताजी पनि रामका शिर-उपर माला कनकको धरी ।
छमछम पाउ गरी फिरिन् घरमहाँ मंगल् भयो तेस् धरी ॥
मालिकहुन् दशरथ खबर दिनुपन्यो ती छन् अयोध्यामहाँ ।
जाउन् पत्र लिएर मानिसहरू चाँडो तिआउन् यहाँ ॥१०७॥
यस्तो बिनति जनकजिले पनि गन्या लेखेर विस्तार दिया ।
विस्तार पत्र लियेर द्रुतहरु पनी जल्दी अयोध्या गया ॥

निवेदन करूँ । राम शिवधनुष को उठा लें तो मै अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से कर दूँ । १०४ ज्योंही इन सत्य वचनों को सुना और यह बातचीत हुई । जैसे ही पाँच हजार वीरों ने बल लगा कर धनुष लाकर रक्खा । उसी समय श्रीरघुनाथ जी उठकर उस धनुष के पास आये । बायें हाथ से राम ने सहज ही धनुष को उठा लिया । १०५ बाण चढ़ा कर जैसे ही धनुष को खीचा, वह दो टुकड़े होकर रह गया । यह देख कर सभी अत्यन्त हर्षित हुए । उस समय सम्पूर्ण जनकपुर में हर्षोल्लास छा गया । प्रभु को आलिंगन में लेकर जनक जी ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया । १०६ सीता जी ने भी राम के गले में स्वर्णमाला पहनाई और छम-छम करती हुई लौट गई । दरवार में उत्सव हुआ । उनके स्वामी तो दशरथ जी हैं अतः उन्हें अयोध्या में यह शुभ समाचार भेजना चाहिए । पत्र लेकर तुरन्त जाओ और यह शुभसन्देश शीघ्र वहाँ पहुँचाओ, जिससे वह यहाँ शीघ्र आ जायें । १०७ इस प्रकार जनक जी ने यह विनती की और सविस्तार पत्र लिखकर दिया । द्रुत लोग भी पत्र लेकर तुरन्त अयोध्या चले गये । राजा दशरथ पत्र को सुनकर

यो विस्तार सुन्या जसै नृपतिले
 सब्ले जानु पन्यो जनकपुरमहाँ
 जम्मा लशकर भै गयो क्षणमहाँ
 क्या वर्णनभिडको गरुँ त्यस बखत्
 यस्ता रीत्सित सब गया जतिथिया
 दाखिल् भो दशरथ्जिको हुकुमले
 ताहाँ श्री दशरथ्जिको जनकले
 लक्ष्मण्ले सँग राम् पनी तहिं पिता-
 बस्तालाई हबेलि सुन्दर जनक-
 खूशी भै दशरथ् पनी गइ बस्या
 सुन्दर् लग्न खटन् गन्या जनकले
 नाच् कीर्तन् सितका प्रकाशकन हुन्या
 जो मण्डप छ विवाहको तेस उपर
 मूगा मोति जुहार जनकपुरमहाँ
 यस्तै रीत् गरि भो विवाह विधिले
 हर्षेले परिपूर्ण मन् हुन गयो

आनन्दमा ती पन्या ।
 भन्न्याहुकूम योगन्या ॥ १०८ ॥
 जल्दी जनकपुर पुग्यो ।
 खाली अयोध्या भयो ॥
 सेना जनकपुर महाँ ।
 हर्षे बढ्यो खुप् तहाँ ॥ १०९ ॥
 आदर् बहूतै गरचा ।
 जीका चरणमा पन्या ॥
 जीले खटाया जहाँ ।
 तेसै हबेली महाँ ॥ ११० ॥
 मंगल् सहरमा चल्यो ।
 रात्मा चिराक् खुप् बल्यो ॥
 झुम्का हिराका झुल्या ।
 घरघर् सबैका झुल्या ॥ १११ ॥
 चारै जना भाइको ।
 सीताजिकी माइको ॥

आनन्दमग्न हो गये और सबको जनकपुर चलने की आज्ञा दी । १०८
 दशरथ जी की आज्ञा पाकर क्षण भर में ही सेना की सेना एकत्र हो
 गई और जनकपुर चल पड़ी । भीड़ का वर्णन तो किस प्रकार किया
 जाये! यही कहना पर्याप्त होगा कि पूरी अयोध्या ही खाली हो गई थी ।
 इस प्रकार अपने सब दल सहित दशरथ जी जनकपुर पहुँचे और दशरथ जी
 की आज्ञा से सभी लोग हर्षित होकर अन्तःपुर में जा कर विराजमान हुए । १०९
 वहाँ जनक जी ने श्री दशरथ जी का भव्य स्वागत-सत्कार किया । लक्ष्मण
 के साथ राम ने भी पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया । श्री
 दशरथ जी के ठहरने के लिए जनक जी ने बहुत ही सुन्दर महल का
 प्रबन्ध करवाया, जहाँ उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक निवास किया । ११०
 जनक जी ने उत्तम मुहूर्त निकलवाया । नगर में मंगलगान, उत्सव,
 कीर्तन तथा नृत्य आदि का सुन्दर आयोजन हुआ । रात्रि में दीपक
 जलाकर सजाया गया । विवाह-मण्डप में हीरे-मोती-मूंगा तथा जवाहरों
 की झालरें लटकाई गई । नगर के घरों-घरों को मालाओं से सजाया
 गया । १११ इस प्रकार चारों भाइयों का विधिवत विवाह सम्पन्न

राम लक्ष्मण दुइलाइ ता जनकले
 भाईका त भरतजिलाइ र ति वीर
 सीता पत्नि भइन् रमापतिकि ता
 पत्नी हुन् श्रुतकीर्ति ता भरतकी
 जस्तै आफु थिया अनन्त गुणका
 अभ्यन्तर् मनले विचार गरदा
 विश्वामित्र वशिष्ठ दुइ ऋषिथ्यै
 उत्पत्ती अधिको सबै जनकले
 जान्थ्यौं भूमि पवित्र गर्न भनि एक
 जोत्तामा त सिताजि निस्कन गइन्
 पाल्याँ छोरि भनेर नाम् पनि असल्
 गर्थिन् बालकमा अनेक् तरहका
 राम नाम्ले दशरथजिका सुत भई
 तिम्री पुत्रि सिता उनै प्रभुजिकी
 यो लीला छ बुझी सिताकन तिनै
 नारदजी उठि गै गया, उहि सुनी
 आफना ति छोरी दिया ।
 शत्रुघ्नलाई दिया ॥ ११२ ॥
 लक्ष्मणजिकी उर्मिला ।
 शत्रुघ्नकी माण्डवी ॥
 चौधै भुवन्का धनी ।
 तस्तै ति पत्नी पनि ॥ ११३ ॥
 यस्ती सिता हुन् भनी ।
 विस्तार् बताया पनि ॥
 क्वै यज्ञ गर्दामहाँ ।
 आश्चर्यमान्याँ तहाँ ॥ ११४ ॥
 सीताजि राखीदियाँ ।
 लीला म खूशी थियाँ ॥
 खेलछन् अयोध्यामहाँ ।
 माया ति आइन् यहाँ ॥ ११५ ॥
 राम्लाइ दीया भनी ।
 याद् भो मलाई पनि ॥

कर सीता जी की माता का मन हर्ष से भर गया । राम और लक्ष्मण को तो जनक ने अपनी ही पुत्रियों को विवाहा और अपनी भतीजियों को वीर भरत तथा शत्रुघ्न को समर्पित किया । ११२ सीता राम की, उर्मिला लक्ष्मण की, माण्डवी भरत की तथा श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी हुई । जैसे वे स्वयं अनन्त गुणों से युक्त चौदह भुवन के स्वामी थे उसी प्रकार अन्तर मन से विचार करने से पत्नियाँ भी वैसी ही थीं । ११३ ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों को सीता जी की उत्पत्ति के विषय में सविस्तार बताया गया । एक यज्ञ हेतु भूमि को पवित्र करने के लिए जोतते समय सीता जी प्रकट हुई, जिसे देख सभी आश्चर्य-चकित रह गये । ११४ पुत्री-रूप में ग्रहण करके इन्हें पाला और नाम भी सीता रख दिया । बाल्यावस्था में ये अनेक प्रकार की लीलाएँ करती थीं जिसे देख कर मैं बड़ा प्रसन्न होता था । उधर राम दशरथ-पुत्र बनकर अयोध्या में खेलते थे । आपकी पुत्रवधू सीता जो यहाँ आ गई यह उसी प्रभु की शक्ति है । ११५ सीता की इन सब लीलाओं को समझ कर ही राम से उसका विवाह कर दिया । ऐसा [एक दिन] कह कर नारद जी उठकर चले गए । यही सुनकर मुझे भी स्मरण हुआ और सोचा कि किस

कुन् पाठ्ले अब रामलाइ म सिता
थीयो यो शिवको धनुष् यहि यसै-
तांदो यस् धनुको चढाउन जउन्
सीता छोरि दिन्याछु तेस्कन फिका
जानुन् सब विरले भनीकन गन्या
यो सूनीकन देशका विरहरू
को सकथ्यो धनु त्यो उठाउन विना
हिवमत् हारि सबै घरै फिरिगया
राम्ले पूर्ण गराइबक्सनुभयो
यो चीन्ह्या पनि सब् कृपा चरणले
विश्वामित्रजिथ्यै पनि जनकले
सीतानाथ् रघुनाथको स्तुति गन्या
दाईजो सय कोटि दौलत सहित्
घोडा ता सय लाख् दिया छ सय ता
पैदल् लशकर एक लाख् र सय तीन्
पूजा फेरि वशिष्ठको पनि गरचा
पूजा ताहि भरतजिको पनि भयो
इच्छा भो रघुनाथको अब फिरौं

पारुं विचार्यो गरचां ।
मा यो प्रतिज्ञा गरचां ॥ ११६ ॥
वीरले त सकला यहाँ ।
होवैन यस् वातूमहाँ ॥
यस्तो प्रतिज्ञा जसै ।
आया तुरुन्तै तसै ॥ ११७ ॥
श्रीराम् अगाडी सरी ।
दर्शन् धनुको गरी ॥
मेरो प्रतिज्ञा पनि ।
गर्दा भयाको भनी ॥ ११८ ॥
विन्ती अगाडी गरी ।
आनन्दमा ती परी ॥
वेस् वेस् अयुत् रथ दिया ।
खुप् मत्तहात्ती थिया ॥ ११९ ॥
कोटी दियाथ्या जसै ।
भारी डबल्ले तसै ॥
लक्ष्मण्हरूको पनि ।
जाऊँ अयोध्या भनी ॥ १२० ॥

विधि से अब मैं राम का सम्बन्ध सीता से करूँ । इसी कारण शिव के इस धनुष की ऐसी [कठिन] प्रतिज्ञा रक्खी । ११६ जो वीर इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूँगा । मेरे इस वचन में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आयेगा । जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर देश-विदेश के वीर वहाँ आए । ११७ श्रीराम के अतिरिक्त और कौन आगे बढ़कर उस धनुष को उठा सकता था । सभी वीर अपना साहस खोकर शिव धनुष का केवल दर्शन करके ही अपने-अपने देश लौट गए । मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की कृपा केवल राम ने की । यह भी जान लिया कि ये सब इन्हीं चरणों की कृपा से हुआ है । ११८ जनक ने आगे बढ़कर विश्वामित्र से विनती की, आनन्दमग्न होकर सीतापति श्रीरघुनाथ की स्तुति की, और दहेज में एक पद्म धन सहित दस-हजार उत्तम रथ, एक करोड़ घोड़े और छः सौ मत्त हाथी दिए । ११९ एक लाख पैदल सेना तथा तीन सौ सेविकाएँ देकर पुनः वशिष्ठ एवं भरत तथा लक्ष्मण की भी भव्य पूजा की ।

जानाको मतलब् बुझी जनकजी राम्को चरण्मा पन्था ।
 खूशी मन् सबको गराइ बहुतै बीदा जनक्ले गन्था ॥
 सीताजी महतारिका अगि गई अलिङ्गनादी गरी ।
 लागिन् रून् र सोहि सूनि सबका आँसू खसे बर्बरी ॥१२१॥

सीताजीकन अति यो पनि दिया सासू ससूरा सरी ।
 आर्को छैन बडो यही बुझि गन्था तिन्को टहल् बेस् गरी ॥
 स्त्रीको धर्म पतिव्रता हुनु ठूलो जानेर हून् भनी ।
 अर्ती येति दिया र तेस् बखतमा बीदा भया ती पनि ॥१२२॥

यै बीच्मा नगरा बज्या प्रभुजिका भेरी मृदङ्गा पनि ।
 स्वर्गमा पनि हर्ष भो प्रभु गया फेरी अयोध्या भनी ॥
 राम्को लश्कर बाह्र कोश जनकपुर- देखी जसै ता गयो ।
 सब्का चित्तमहाँ वडो भय दिन्या उल्का बहूतै भयो ॥१२३॥

यस् पृथ्वीतलका ति क्षत्रिहरुको ठूलो विनाशै गरी ।
 आया तेस् बिचमा तहाँ परशुराम् उल्का भयो जुन् घरी ॥
 पृथ्वी कम्प भइन् तसै बखतमा हा हा सबैमा परी ।
 राजाका मनमा विचार यहि पन्थो छोरा बचुन् क्या गरी ॥१२४॥

अब श्रीरघुनाथ की इच्छा अयोध्या लौटने की हुई । १२० सबको अत्यन्त प्रसन्न करके जनक ने विदाई दी । सीता जी की माता आगे बढ़कर पुत्री को आलिंगन में भर कर रोने लगीं । यह देख सभी की आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे । १२१ सीता जी को यह सीख भी दी कि सास-ससुर के समान महान् और कोई नहीं । अतः उनकी सेवा-टहल भली प्रकार करना । पतिव्रता स्त्री का मूल धर्म तथा उसका पालन आदि उपदेश देने के पश्चात् उन्होंने सीता को विदा किया । १२२ इसी समय प्रभु [के कटक का] नगाड़ा बज उठा और यह जानकर कि प्रभु (राम) पुनः अयोध्या चले गए, स्वर्ग में भी मृदंगादि बज उठे । जनकपुर से वारह कोस ही लम्बे राम का जलूस गया था कि सबके मन में एक भयानक विघ्न उत्पन्न होने की आशंका हुई । १२३ इस पृथ्वी-तल पर तमाम क्षत्रियों का विनाश करने वाले परशुराम का उसी समय आगमन हुआ । उस समय पृथ्वी काँप उठी और चहुँ ओर हाहाकार मच गया, सभी भयभीत हो गए । राजा दशरथ मन में सोचने लगे कि पुत्र की रक्षा किस प्रकार हो । १२४ इस प्रकार विचलित

यस्तो चञ्चल चित्तले परशुराम्-
 मेरा पुत्र वचन् प्रभो परशुराम्!
 यस्तो विन्ति पनी अनादर गरी
 राम्को गर्व हूँ भनी परशुराम्
 कस्को पुत्र तँ होस् बता मकन लौ
 भाँत्तैमा अति गर्व भो तँकन ता
 यो ता हो हरिको धनु विर भया
 भन्दै खुप् रिसले रह्या परशुराम्
 ताँदो आज चढाउँछस् त यसमा
 सक्तैनस् तब हेर् म राखितन सबै-
 यस्ता क्रूर वचन् गरी परशुराम्
 पृथ्वी कम्प गराइ लोकहरुको
 यस्तो क्रूर वचन् सुनेर रघुनाथ्
 खोसी लीनुभयो धनुष परशुराम्-
 ताँदो जल्दि चढाइ बाण् पनि तहाँ
 ठूलो वल् रघुनाथको बुझि सबै

का पाउमा झट् पन्या ।
 भन्न्या इ विन्ती गन्या ॥
 कालाग्नि जस्ता भया ।
 राम्कै अगाडी गया ॥१२५॥
 जावो पुरानू धनु ।
 धेरै कुरा क्या भनू ॥
 ताँदो यसैमा चढा ।
 राम्कै अगाडी खडा ॥१२६॥
 संग्राम् तँथ्यै गर्दछु ।
 को प्राण् सहज् हर्दछु ॥
 कालाग्नि झै रूप् धन्या ।
 सम्पूर्ण सातो हन्या ॥१२७॥
 क्रोध्ले अगाडी सरी ।
 को त्यो बलैले गरी ॥
 लीनुभयेथ्यो जसै ।
 खूशी भयो लोक् तसै ॥१२८॥

होकर दशरथ ने परशुराम के चरणों में पड़ कर विनती की कि हे प्रभु परशुराम ! मेरे पुत्र बच जायें । ऐसी विनय को भी ठुकरा कर कालाग्नि की भाँति क्रोधित हो, राम के बल के गर्व की परीक्षा लेने के लिए परशुराम उनके सम्मुख गए । १२६ तुम किसके पुत्र हो ? मुझे बताओ । एक साधारण पुराना धनुष तोड़ने से ही तुम पर अत्यन्त गर्व छा गया है; और ज्यादा क्या कहूँ । यह तो हरि का धनुष है; यदि वीर हो तो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ । यह कहते हुए परशुराम अत्यन्त क्रोधित होकर राम के ही सम्मुख आकर खड़े हो गए । १२६ यदि आज तू इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देता है तो तुझसे मैं युद्ध करूँगा और यदि चढ़ा नहीं सकेगा तो किसी को मैं जीवित नहीं छोड़ूँगा । सहज ही सब का वध कर डालूँगा । ऐसे क्रूर वचनों का उच्चारण करके परशुराम ने कालाग्नि का रूप धारण किया । पृथ्वी को कम्पित कर सम्पूर्ण मानवों को भयभीत कर दिया । १२७ ऐसे क्रूर वचनों को सुनकर श्रीरघुनाथ जी क्रोधित हो कर आगे बढ़े और परशुराम के धनुष को बलपूर्वक छीन लिया । शीघ्रता से जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने बाण भी ले लिए, वैसे ही श्रीरघुनाथ जी की शक्ति को समझकर सब लोग अत्यन्त हर्षित

हूकुम् श्री रघुनाथको परशुराम-
तारो आज बताउ हान्छु अहिले
चाँडो उत्तर देउ यस् बखतमा
तारो क्यै नदिया त काट्छु अहिले
हूकुम् येति गरेर तेज् परशुराम-
चिन्ह्या श्रीरघुनाथलाइ अधिको
बिन्ती येति तहाँ गन्या पनि हरे
जस्को अंश मिल्यो र केहि भगवान्
पापी भो अति कीर्तवीर्य अब ता
बालक् पो म थियाँ गन्याँ हजुरको
ग्रस्तो वर खुशि भै मलाइ दिनुभो
इच्छा पूर्ण हुन्याछ जाउ अब ता
पैलहे मार र कार्तवीर्यकन फेर
एक्काईस वखत् गन्या प्रभुजिको
क्षत्री शून्य भयाकि पृथ्वि तिमिले
येती कर्म गरी सकेर अधिको

लाई भयो यो तहाँ ।
ब्राह्मण् म हानूँ कहाँ ॥
यस्लाइ लौ हान् भनी ।
तिम्नाइ गोडा पनि ॥१२९॥
को खँचनूभो जसै ।
वृत्तान्त सम्झ्या तसै ॥
चिन्ह्याँ जगन्नाथ भनी ।
यस्तो भयाँ मै पनी ॥१३०॥
यस्लाइ माछूँ भनी ।
ठूलो तपस्या पनी ॥
शक्ती समेत गरी ।
क्यै शक्ति मेरो धरी ॥१३१॥
सब् क्षत्रिको नाश पनी ।
हूकुम् छ यस्तै भनी ॥
कश्यपजि लाई दिया ।
सेखी पुन्याई लिया ॥१३२॥

हुए । १२८ परशुराम को श्रीरघुनाथ की यह आज्ञा हुई कि हे ब्राह्मण! इसी समय कोई लक्ष्य बताओ जिस पर मैं प्रहार करूँ । शीघ्रता से उत्तर दो कि इस समय इस पर प्रहार करो, अन्यथा मैं तुम्हारे ये पाँव काट डालूँगा । १२९ यह आज्ञा देकर जैसे ही परशुराम की शक्ति भगवान् ने खींच ली, वैसे ही उन्हें (परशुराम को) पूर्वजन्म की बात स्मरण हो आई और उन्होंने श्रीरघुनाथ को पहिचान लिया । उसी समय इस प्रकार विनती की—हे हरि! मैंने पहिचान लिया कि आप वही जगन्नाथ हैं जिनका कुछ अंश पाकर मेरा भी अवतार हुआ है । १३० कार्तवीर्य अत्यन्त पापी हो गया है । अब मैं इसका वध करूँगा, यह निश्चय करके मैंने बालपन में ही आपकी घोर तपस्या की । उससे प्रसन्न होकर आपने मुझे शक्ति सहित ऐसा वर दिया कि अब जाओ, मेरी कुछ शक्ति को धारण करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी । १३१ सर्वप्रथम कार्तवीर्य का वध करो, तत्पश्चात् सब क्षत्रियों का नाश करो । मेरी ऐसी आज्ञा है । तुम क्षत्रियों पर इक्कीस वार (प्रहार) करोगे । क्षत्रियों से रिक्त होते ही पृथ्वी को पुनः कश्यप जी को अर्पित कर दोगे । इतने कर्मों को पूरा कर अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करोगे । १३२ त्रेतायुग में

वेतामा अवतार् लिन्याछु नरमा
 भेट् होला तिमिथ्यै उही वखतमा
 ताहाँ देखि तपै गरेर रहनु
 येती अर्ति मलाइ दिईकन गया
 मैले काम् पनि सो सबै गरिसक्याँ
 मेरो शक्ति हजूरले हरि लिंदा
 मेरो जन्म सफल भयो सहजमा
 बुझ्याँ तत्त्व पनी सबै हजुरको
 जो छन् भक्त हजूरका ति संगको
 यो भक्ति दृढ भै प्रभू ! हजुरका
 येती विन्ति तहाँ गरी सकल पाप्
 इच्छित् वर् प्रभुले दिंदा परशुराम्
 ताहाँ श्रीरघुनाथका वरिपरी
 मर्जीले ति गया महेन्द्र गिरिमा
 देख्या तेज् दशरथ्जिले र सुतको
 प्रेमका सागरमा तहाँ डुबिगया
 येती काम् गरि राम् गया सहजमा
 सीतालाइ लियेर राज्य सुख भोग्

राम्नाम् जगत्मा धरी ।
 यो शक्ति ल्युंला हरी ॥
 ब्रह्माजिका दिन् भरी ।
 बैकुण्ठ धाम्मा हरि ॥ १३३ ॥
 राम्लाइ भेट्याँ पनी ।
 चिन्ह्याँ प्रभू हुन् भनी ॥
 पायाँ परात्मा पनी ।
 पात्रै कृपाको बनी ॥ १३४ ॥
 सत्सङ्ग मेरो हवस् ।
 येही चरण्मा रहोस् ॥
 पुण्यै समर्पण् गन्या ।
 आनन्दमा ती पन्या ॥ १३५ ॥
 घूमी नमस्कार् गरी ।
 मन् राम्चरण्मा धरी ॥
 हर्षाश्रुधारा धरी ।
 आलिङ्गनादी गरी ॥ १३६ ॥
 पुग्या अयोध्या महाँ ।
 राम्ले गन्या क्यै तहाँ ॥

राम के नाम से मनुष्य होकर मैं जन्म लूँगा । उसी समय तुमसे भेंट होगी । यह शक्ति पुनः हरण होने के पश्चात् दिन भर ब्रह्मा का ध्यान करते रहना । मुझे इस प्रकार शिक्षा देकर भगवान् हरि बैकुण्ठ लोक को चले गए । १३३ मैंने उन सब कार्यों को पूर्ण किया । राम से भेंट भी हो गई । आपसे मेरी शक्ति हरण किये जाने पर आप को प्रभु जानकर पहिचाना । मेरा जन्म सफल हुआ । सहज ही परमात्मा को भी पा लिया । आपका कृपा-पात्र बन उस सभी तत्त्व-ज्ञान को भी समझ लिया । १३४ आपके जो भक्त जन हैं उनसे मेरी संगति रहे । आपके इन्हीं चरणों में यह भक्ति दृढ़ रहे । इतनी विनती करके पाप एवं पुण्य वहीं समर्पित कर दिया, तथा प्रभु से वांछित वर पाकर परशुराम आनन्दमग्न हो गये । १३५ श्रीरघुनाथ जी के चारों ओर परिक्रमा कर परशुराम ने नमस्कार किया । राम के चरणों में अपने मन को अर्पित कर वे प्रसन्नता-पूर्वक महेन्द्र पर्वत पर चले गये । पुत्र राम की दिव्य ज्योति को देखकर नेत्रों में हर्षाश्रु भरकर प्रेम-सागर में मग्न दशरथ

क्यैदिन् भानिज हुन् भरत्कन यहीं ल्याऊँ घरैमा भनी ।
 भानिज्लाइ लिना निमित्त खुशिले आया युधाजित्पनि ॥१३७॥
 बीदा श्रीदशरथजिले पनि दिया बीदा मिलेथ्यो जसै ।
 एक् शत्रुघ्न लिई भरत्जि तं गया मामा कहाँ पो तसै ॥
 आया राम बिहा गरेर पुरिमा जससै उठेथ्यो खबर् ।
 सारा रैयतको प्रसन्न मन भो हुन्थ्यो खुशी क्या अवर ॥१३८॥
 सीताराम् अधि तप् गरिन् र त यहाँ छोरा बुहारी भया ।
 कौशल्याकन ता मिल्यो अदितिको शोभा सबै ताप् गया ॥
 सीताराम् पनि लोकमा सकलको आनन्द मङ्गल गरी ।
 चेष्टा मानिसको गरीकन रह्या त्रैलोक्यकानाथ हरि ॥१३९॥

बालकाण्ड समाप्त

जी ने उन्हें आलिंगन में भर लिया । १३६ इतना कार्य समाप्त कर
 राम सहज ही अयोध्या पहुँच गये । राम ने सीता को लेकर राजसी
 सुख भोग करने लगे । भरत जी के मामा के मन में भाञ्जे को अपने घर ले
 जाने की इच्छा हुई और वे उन्हें लिवाने के लिए आये । १३७
 श्री दशरथ जी ने सहर्ष विदा दी और भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर मामा के
 यहाँ चले गये । राम के विवाह करके नगर में आने की सूचना जैसे ही
 प्राप्त हुई सारी प्रजा आनन्द से विभोर हो उठी । १३८ पूर्वजन्म में
 किये तप के प्रभाव से राम और सीता का पुत्र तथा वधू के रूप में यहाँ
 अवतार हुआ । माता कौसल्या को सूर्य के समान शोभा प्राप्त हुई और
 सभी दुःख व चिंताओं का नाश हुआ । सीता-राम ने भी संसार को आनन्द-
 मंगल प्रदान किया । त्रिलोकीनाथ मानव-रूप में मानवोचित कार्यों में
 रत रहे । १३९



अयोध्याकाण्ड

एकान्त स्थलमा सितापति थिया सीता हजुरमा रही ।
 हात्मा चामर ली प्रभुकन तहाँ हाँक्थिन् समीपमा गई ॥
 आकाश मार्ग गरी बहुत् खुशि हुँदै नारदजि ताहीं गया ।
 नारदजीकन दण्डवत् गरि तहाँ राम्जी बहुत् खुश भया ॥१॥
 संसारी म थियाँ बडो हुन गयाँ दर्शन् मिलेथ्यो जसै ।
 यो भाग्योदय हो बुझ्याँ पनि यहाँ दर्शन् मिल्याको उसै ॥
 मैले गर्नु छ काम् कउन् हजुरको चांडो उ आज्ञा हवस् ।
 त्यो काम् सिद्ध गराउँला हजुरको आनन्द मन्मा रहोस् ॥२॥
 यस्ता बात् प्रभुका सुनीकन जवाफ सोही वमोजिम् दिया ।
 नारदले बहुतै गन्या स्तुति तहाँ राम्लाइ मन्मा लिया ॥
 बिन्ती गर्नु कुरो थियो मनविषे विन्ती गन्या त्यो पनि ।
 ब्रह्माको विनती लिई हजुरमा आई रह्याँछू भनी ॥३॥
 भूको भार म दुष्ट मारि हर्छला जान्छू अयोध्यामहाँ ।
 भन्न्या येति वचन् गरीकन हजुर पाल्नु भयेथ्यो यहाँ ॥

एकान्त स्थान में सीतापति श्रीराम बैठे थे । प्रभु के निकट जा कर सीता जी भी हाथ में चँवर ले कर डुला रही थीं । आकाश-मार्ग से होते हुए नारद जी ने अत्यन्त हर्षित होते हुए उन्हें दण्डवत किया । १ मैं एक तुक्छ सांसारिक प्राणी हूँ । आपके दर्शनों से ही इतना महान् हुआ हूँ । मैं यह समझ गया हूँ कि आपके दर्शनों से ही मुझे ऐसा भाग्योदय प्राप्त हुआ है । शीघ्र आज्ञा करें । श्रीमन् का जो भी कार्य करने को है, मैं शीघ्र ही उन सब को सिद्ध करूँगा; जिससे आपका मन प्रसन्न रहे । २ नारद जी ने भी राम की स्तुति मन में ही की और उनकी ऐसी बातों को सुन कर [राम ने] उत्तर भी उसी प्रकार दिया । सर्वभाँति मन ही मन विनती करते हुए प्रन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की एक प्रार्थना को लेकर आपके पास आया हूँ । ३ आप यह कह कर पधारें कि अयोध्या जा कर दुष्टों को मार कर पृथ्वी को भार से मुक्त करूँगा । परन्तु अब तो राजा दशरथ की इच्छा आपको राजगद्दी प्रदान करने की हुई

यस्तो हो तर गादि दीन दशरथ्
ख्वामित्ले अब राज्यमा भुलिदिया

राजाजिको मन् भयो ।
भार् हर्नु काम्ता रह्यो ॥४॥

नारदका ई वचन् सुनी खुशि भई
जल्दी बक्सनुभो म राज्य नगरी
ख्वामित्का इ वचन् सुनेर बहुतै
तीन् फेरा प्रभुको प्रदक्षिण गरी
सन्तोष्ले दशरथ्जिको मनविषे
राम्लाई अब राज्य छुँ भनि उसै
यस्तो मन् हुनगो र डाकि गुरुथ्यै
भोली राज्य म दिन्छु पुत्रकन सब्

उत्तर प्रभूले पनी ।
भोली म जान्छु भनी ॥
नारदजि खुशी भया ।
आकाश् गतीले गया ॥५॥
आनन्द मङ्गल् भयो ।
मन् यस् लहड्मा गयो ॥
यस्तो हुकूम भो पनी ।
सामग्रि ल्याऊ भनी ॥६॥

मन्त्री डाकि हुकूम भयो सँग रह्या
सो सो चीज् झटपट् तयार् गर अवर
मन्त्रीले पनि यो हुकूम सुनि तहाँ
चाहिन्छन् जति चीज् ति खोज्नु गुरुले

जो जो कहन्छन् गुरु ।
सब् काम छोड्नु बरु ॥
साथै गुरुको रह्या ।
खोलेर सब् चीज् कह्या ॥७॥

मन्त्रीलाइ अह्लाइ राघवजिका
पैले श्री रघुनाथले गुरु भनी

साथ्मा वशिष्ठै गया ।
सन्मान गर्दा भया ॥

है । हे स्वामी ! यदि आप राज्य-कार्य में भूल गये तो पृथ्वी का भार-हरण करने का कार्य तो ऐसे ही रह जायगा । ४ नारद के इन वचनों को सुन कर प्रभु ने प्रसन्न हो कर उत्तर दिया । राज्य यदि इतनी शीघ्रता से दिया गया तो बिना राज्य किये ही चल दूँगा । स्वामी (राम) के इन वचनों को सुन कर नारद जी अत्यन्त प्रसन्न हुये । तीन बार प्रभु की परिक्रमा कर बड़ी तीव्र गति से आकाश की ओर चले गए । ५ सन्तोष से राजा दशरथ का मन परिपूर्ण था । वे आनन्द-मंगल में मग्न थे । इसी बीच उन्हें राम को राजगद्दी देने की उत्कण्ठा हुई । अतः गुरु को बुलाकर कहा कि अब कल मैं अपने पुत्र (राम) को राज्य सौंप दूँगा, अतः सभी आवश्यक सामग्री का संग्रह कीजिए । ६ मंत्री को बुला कर आदेश दिया कि सारे कार्य छोड़ कर गुरु जी जो सामग्री कहें वह शीघ्रता से तैयार करो । मंत्री भी इस आदेशानुसार गुरु के साथ ही रहे । जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, गुरु ने स्पष्ट वर्णन किया । ७ मंत्री को इतना भार दे कर गुरु वशिष्ठ राघव जी के संग गये । पहले श्रीरघुनाथ ने गुरु का सम्मान किया । वशिष्ठ बोले, हे त्रिलोकीपति! वैसे

हे त्रैलोक्यपते ! गुरु हुन त हूँ
 इन्का हुन् इ गुरु भनेर इ सब
 तिम्रो दर्शन पाउँला भनी यहाँ
 गुह्यै खल्छ भनेर डर् हुन गयो
 खोलन्या छैन म गुह्य चुप्प रहूँला
 जानी जानि म विन्ति गर्न अहिले
 भोली हुन्छ तिलक् हजुरकन यहाँ
 पृथ्वीमा सुकला हवस् हजुरको
 सब इन्द्रीय जितेर आज उपवास
 आज्ञा पाउँ म जान्छु काम् छ बहुते
 यस्तो विन्ति गरी वशिष्ठ गुरु फेर
 राम्ले लक्ष्मणथ्यै भन्या मतिमिलाइ
 छैनन् भाइ भरत पनी त तिनका
 कौशल्या सुनि खुश हुनिन् भनितजो

राजाले त खतम् गन्या दिनु भनी
 यस्मा विघ्न कदापि पर्न नदिउन्

तिम्रो म क्या हूँ गुरु ।
 भन्छन् भनुन् लौ वर ॥८॥

प्रोहित् भयाकै म हूँ ।
 धेरै कुरा क्या कहूँ ॥
 सब जान्दछू तापनि ।
 आयां हजुरमा पनि ॥९॥

सामग्नि जम्मा भयो ।
 सब् शास्त्रले भन्छ यो ॥
 गर्नु सिताले सँगै ।
 सब्काम् विचारछू मगै ॥१०॥

जस्सै गयाथ्या पनि ।
 काम् गर्न छूँला भनी ॥
 खातिर् छ मेरी दया ।
 सम्चार वताउँदै गया ॥११॥

क्या गर्दछिन् कैकेयी ।
 लक्ष्मी र दुर्गा भई ॥

तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ ही, पर मैं भला क्या गुरु हूँ ! हाँ, इनका गुरु अवश्य हूँ जो ये सब [मुझे गुरु] कहते हैं । ८ तुम्हारे दर्शन पाने के लिए मैं यहाँ पुरोहित हुआ हूँ । कहीं रहस्योद्घाटन न हो जाये इसका भय हुआ है और अधिक क्या बताऊँ । मैं सब कुछ जानते हुए भी रहस्योद्घाटन नहीं करूँगा । चुप ही रहूँगा । सब कुछ जान कर भी मैं अभी आपकी शरण में विनती करने आया हूँ । ९ कल आपका तिलक होगा । सब सामग्री एकत्रित हो गई है । भूमि पर ही सोने की कृपा करें, जैसा कि सभी शास्त्र कहते हैं । सब इंद्रियों को जीत कर आज सीता जी के साथ ही उपवास करने की कृपा करें । आज्ञा दीजिए । अत्यधिक कार्य है, जाकर कार्यों के विषय में विचार करता हूँ । १० ऐसी विनती कर गुरु वशिष्ठ जैसे ही चले गये, राम ने लक्ष्मण से सलाह की और कार्यभार सौंपा । भाई भरत भी जिनके प्रति मेरा अत्यधिक प्रेम है, यहाँ मौजूद नहीं हैं । कौशल्या माँता भी सुनकर प्रसन्न होंगी, और उन्हें समाचार सुनाया । ११ राजा ने तो समाचार समाप्त करते हुये कहा, कैकेयी क्या करती है । लक्ष्मी और भगवती दुर्गा इसमें कदापि विघ्न न होने दें ।

कौशल्या पनि यो विचार गरि-तहाँ
 द्यौताका मनमा भन्या ठहरियो
 वाणी गे तिमि विघ्न पारिकन आउ
 द्वी स्त्रीका घटमा पसेर तिमिले
 द्यौताका इ वचन सुनेर झटपट
 कैकेयीकन खुप भुलाउन भनी
 वाणीका वशमा पन्याकि छँदि ती
 काम् बित्ला भनि चटपटाई तहिझट
 नाना छल् गरि ठिक्क पारिकन सब
 दुई वरछन् तिमि मागिल्यौ भनि ठुलो
 वाणीले ति भुलाइयाकि छँदि लौ
 राम्लाई वनवास भरतकन रजाई
 दुई वरले जब काम सिद्ध गरँला
 बीदा दी घर मन्थराकन फिराइ
 सुन्दर वस्त्र निकालि फालि कपडा
 आभूषण कन फ्याँ कि खूप रिसले

गथिन् पुजा देविको ।
 काम् विघ्न गर्ननिको ॥१२॥
 ती मन्थरा कैकेयी ।
 काम् सिद्ध लाऊ गई ॥
 तेस् मन्थरामा पसिन् ।
 फेर कैकेयीमा पसिन् ॥१३॥
 जाहाँ थिइन् कैकेयी ।
 त्यो मन्थरा गै गई ॥
 वृत्तान्त विस्तार भनी ।
 सूचन् गरी यो पनि ॥१४॥
 भन्दी भइन् कैकेयी ।
 माग्छू म चाँडो गई ॥
 छँला सये गाउँ भनिन् ।
 रिस गर्न लाग्दी भइन् ॥१५॥
 मैला शरीरमा धरिन् ।
 खाली जमीन्मा परिन् ॥

कौशल्या भी यही विचार कर देवी की पूजा करती थी। [किन्तु] देवताओं ने मन में कार्य में विघ्न उत्पन्न करने का ही निश्चय किया। १२ वाणी (सरस्वती) को आज्ञा हुई कि तुम जा कर मन्थरा और कैकेयी दोनों स्त्रियों के मन में प्रवेश कर विघ्न उत्पन्न करो और कार्य सिद्ध करके आओ। देवताओं के इस वचन को सुनकर वाणी तुरन्त मन्थरा में प्रवेश कर गई। कैकेयी को भी भ्रमित करने के लिए (सरस्वती) पुनः कैकेयी में भी प्रवेश कर गई। १३ इस प्रकार वाणी के वशीभूत कैकेयी जहाँ थी, कहीं अवसर न निकल जाये, ऐसा सोच कर मन्थरा तुरन्त वहाँ पहुँच गई। अनेक प्रकार के छल से उसे अपने वश करके सब वृत्तान्त सविस्तार कहने लगी। बोली कि दो वर है, जो तुम अभी मांग लो, इसी में भलाई है। १४ वाणी के वशीभूत कैकेयी कहने लगी कि मैं इन दोनों वरों को मांग लूंगी। एक से राम को चौदह वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत को राज्य। इन दो वरों से जब कार्य सिद्ध होगा तब मैं तुम्हें सौ गाँव दूंगी। मन्थरा को विदा कर घर लौटी। कैकेयी क्रोधित होने लगी। १५ उस सुन्दर वस्त्रों को त्याग कर मैले वस्त्र शरीर में धारण कर लिये। आभूषणों को भी उतार फेंका और भूमि पर लेट गई। संसार के सज्जनों का कहना

सज्जन् बेस् सुमती पनी कुमतिका
 भन्छन् जो दुनियाँ उ लक्षण यहाँ
 कैकेयी सित बस्नलाइ खुशिले
 देख्यानन् र तहाँ कता गइ भनी
 क्रोधागार-विषे भयाकि त बुझ्याँ
 बूझ्याको पनि छैन गै हजुरले
 केटीका इ वचन् सुनीकन डराइ
 कैकेयीकन क्यान यो रित गन्यौ
 जो भन्छ्यौ म पुन्याउँला भनि शपथ्
 राजा वृक्ष सरी गिन्या पृथिविमा
 राम्लाई बनवास भरतकन रजाई
 दुई वरले यहि छौ दिदौन त भन्या
 भोली येति कुरा भयेन त भन्या
 भन्या येति कुरा सुनी फिरि गिन्या
 त्यो रात् वर्ष समान् व्यतित् हुनगयो
 सब् सामग्रि तयार् गरीकन बिहान्

संग्ले त बिग्री गयो ।
 ठीक् कैकेयीमा भयो ॥ १६ ॥
 राजा गयेथ्या जसै ।
 चाकरनि सोध्या तसै ॥
 कारण् छ कुन् कत्ति यो ।
 बुझ्नु हवस् क्यान हो ॥ १७ ॥
 राजा नजीकमा गया ।
 वात् खोल भन्दा भया ॥
 खाँदा जसै वात् गरिन् ।
 यस्मा बहुत् जिद् गरिन् ॥ १८ ॥
 देरु भनी जिद् गरी ।
 बाच्चू त मुर्दा सरी ॥
 मन्याछु विष् खाइ म ता ।
 राजा जमीन्मा यता ॥ १९ ॥
 राजा ति मूर्छा भया ।
 मन्त्री हजुरमा गया ॥

है कि उत्तम से उत्तम सुमति भी कुमति की संगति से विगड़ जाती है । ठीक वही लक्षण कैकेयी में दृष्टिगोचर हुए । १६ राजा प्रसन्न हो कर जैसे ही रानी कैकेयी के पास पहुँचे वैसे ही कैकेयी को न देख कर उनकी उपस्थिति के विषय में सेविकाओं से पूछा । सेविकाओं ने विनती की कि वह कोपभवन में जाकर बैठी है । किन्तु कारण का कुछ ज्ञान नहीं है । आप स्वयं जाकर जानने की कृपा करें । १७ बालिका (सेविका) के इन वचनों को सुनकर राजा भयभीत होते हुए निकट गये । उन्होंने कैकेयी से कहा कि यह सब क्या कर रही हो ? सब बात मुझे स्पष्ट करो । विवश करने पर जब राजा ने शपथ लिया कि जो कुछ कहोगी मैं पूर्ण करूँगा, तब कैकेयी ने सब बात कह दी । उसे सुन कर राजा वृक्ष की भाँति पृथ्वी पर गिर पड़े । १८ मेरे दो वर है दीजिए । एक से राम को बनवास और दूसरे से भरत को राजगद्दी । और यदि नहीं देगें तो आपका जीवित रहना मृत के समान है । यदि कल तक वह नहीं हुआ तो मैं विषपान कर प्राण त्याग दूँगी । ऐसी बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े । १९ राजा मूर्छित हो गये और वह रात्रि एक वर्ष के समान बीती । सब सामग्री तैयार कर प्रातः मन्त्री राजा के यहाँ गए । सब

देख्या चाल् र वहाँ विचार हुन गयो
विस्तार पाइ सुमन्त्र राम लिन गया

राजालाइ त दुःख सुख हुनको
वनमा गै तिमि राज्य छौ भरतलाइ
यस्ता बात् सुनि बात् गन्या प्रभुजिले
राजा खूशि रहनु म जान्छु वनमा

गाह्रो कत्ति नमानि जान्छु वनमा
बोल्याको प्रभुको वचन् सुनि तहाँ
हे रामचन्द्र ! मलाइ आज् तिमिले
झूटादेखि बचाउ पाप् तिमिकनै

राजा येति भन्या र फेर पनि विलाप्
राजाको बुझियो र आशय तहाँ
कौशल्या पनि भक्तिले हरिजिको
राम्जीलाइ नदेखि कत्ति नछुटाइ

सुमित्ताले भन्दा पछि पलक माइका खुलि गयो ।

प्रभूलाई देखता अधिक मन सन्तोष पनि भयो ॥

खूशीले काख्मा लीकन जब भनिन् खाउ कछु भनी ।

सुनी राम्ज्यू भन्छन् अब त कति खाँला नि म पनि ॥२४॥

सोध्या पन्यो क्या भनी ।
आया तहाँ राम् पनि ॥२०॥

कारण तिमि छौ भनी ।
भन्दी भइन् यो पनि ॥
सुन्छ्यौ कि ए कैकेयी ।
के काम् छ घरमा रही ॥२१॥

राजा त बोलून् भनी ।
बोल्छन् ति राजा पनि ॥
बाँधेर राज्य गरी ।
लाग्दैन यस्तो गरी ॥२२॥

खुप् गर्न लाग्दा भया ।
राम्चन्द्र माइथ्यै गया ॥
ध्यानमा रह्याकी थिइन् ।
ताना प्रभूमा दिइन् ॥२३॥

स्थिति को देख कर बड़े ही असमंजस में पड़ कर उन्होंने कारण पूछा । पूरी परिस्थिति को भली प्रकार समझकर मंत्री सुमन्त्र राम को लेने गये । राम भी आ गए । २० कैकेयी ने कहा, राजा को तुम्हारे यहाँ रहने से दुख हुआ है, तुम भरत को राज्य सौंप कर वन चले जाओ । इस प्रकार की बात को सुनकर प्रभु ने कहा, माता सुनो ! राजा प्रसन्न रहें । घर में रह कर करना ही क्या है । मैं वन को जाता हूँ । २१ बिना संकोच मैं वन चला जाऊँगा, महाराज आदेश दे तो । प्रभु के वचन को सुन कर राजा भी बोले, हे रामचन्द्र ! मुझे आज बाँध कर [डाल दो और] राज्य करके इस असत्य से बचाओ । ऐसा करने से तुम्हें किसी प्रकार का पाप न होगा । २२ राजा इतना कहकर फिर अत्यन्त विलाप करने लगे । राजा के इस आशय को समझ कर रामचन्द्र माता के पास गये । कौशल्या भी हरि जी के ध्यान में मग्न थीं । राम को न देख कर प्रभु से अनुयोग भी किया । २३ सुमित्रा के बाद, माता (कौशल्या) के पलक खुलते ही प्रभु

गयो खान्या बेला मकन त मिल्यो राज्य वनको ।
 भरतले राज् पाया यहि बसि गरुन् राज्य जनको ॥
 विदा वक्स्याजावस् खुशिसित म जान्याछु वनमा ।
 म चाँडै फिन्याछु विरह नेहवस् कत्ति मनमा ॥२५॥
 वचन् सुन्दा मूर्च्छा परिकन उठ्याकी छँदि तहाँ ।
 भनिन् कौशल्याले अब म तिमिलाइ छोड्दछु कहाँ ॥
 भन्या राजाले ता तर म तिमिलाइ रोकतछु यहाँ ।
 कि साथै लैजाऊ मकन तिमि जान्छौ अब जहाँ ॥२६॥
 तिमिलाइ विदा दी म कसरि यहाँ दुःख सहँला ।
 बरु प्राणै त्यागी यमपुरिमहाँ जाइ रहँला ॥
 विलाप कौशल्याको यति सुनि दयाले भरिगयो ।
 तहाँ लक्ष्मणको मन तब अरु उपरि रिस हुन गयो ॥२७॥
 नजर् दी राम्ज्यूमा अरुसित उठ्याको रिस बढाइ ।
 गन्या विन्ती राम्थ्यै अब भरतथ्यै गर्दछु लडाई ॥
 हजुरका राज् हन्या जति जति त छन् मारु सबलाइ ।
 पितै बाँध्छु पैले भनिकन भन्या क्या छ अरुलाइ ॥२८॥

को देख कर मन को अत्यधिक सन्तोष हुआ । अति प्रसन्नता से गोद में लेकर जब कुछ खाने को कहा तो राम बोले कि अब मैं कितना खाऊँगा । २४ मेरा खाने का समय निकल गया । मुझे वन का राज्य मिला है । भरत ने राज्य पाया है और वह यही रह कर राज्य करें । मुझे शीघ्र विदा देने की कृपा करें । मैं वन को जाता हूँ । मैं शीघ्र ही लौटूँगा । मन में किंचित मात्र भी चिन्ता न करें । २५ ऐसा वचन सुनकर मूर्छित हुई कौशल्या पुनः सचेत हो बोली कि अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ । राजा ने तो कह दिया परन्तु मैं अब तुम्हें रोकती हूँ । तुम अब जहाँ जाओ मुझे भी अपने साथ ले चलो । २६ तुम्हें विदा कर मैं यहाँ किस प्रकार पीड़ा सहन करूँगी । मैं प्राण तज कर यमलोक में जा कर रहूँगी । कौशल्या का यह विलाप सुनकर राम के हृदय में दया उमड़ आई और लक्ष्मण के मन में अन्य लोगों पर क्रोध आया । २७ श्रीराम की ओर एक नजर देख अन्य लोगों पर उत्पन्न क्रोध से उग्र हो कर राम से लक्ष्मण ने विनती की कि अब मैं भरत के साथ युद्ध करूँगा और श्रीमान् के राज्य को हरण करने वाले जो भी हैं सब का वध करूँगा । पिता का ही सर्वप्रथम वध करूँगा । औरों का तो कहना ही क्या । २८ चाहे

चढ्याजावस् गादी सकल रिपुको नाश म गरुँला ।
 यसै काम्ले माइका सकल मनको शोक हरुँला ॥
 सुन्या लक्ष्मणजीका यि वचन जसै राम् खुशि भया ।
 बुझाया विस्तार्ले पनि तहि ठुलो लीकन दया ॥२९॥
 सुन्यौ भाइ ! संसारमा शरिर अतिकच्चा छ जनको ।
 शरीर कच्चा जानी नगर तिमि रिस कत्ति मनको ॥
 सबै भोग् चञ्चल् छन् बिजुलिसरि एक छिन् नरहन्या ।
 विचार यस्तो राखी सहु तिमि बडौ हुन्छ सहन्या ॥३०॥

भ्यागु तोखाँ भनि खोज्छ डाँसमुखविषे साँप्ले धन्याको पनि ।
 तेस्तै भोग् गरुँला भनेर मनले भन्छन् दुनीयाँ पनि ॥
 क्याको रस् छ यहाँ विचार मनले कालसर्पको मुख परी ।
 क्या होला वन जाउँला इ सबलाइ आनन्द राखनन् हरि ॥३१॥

देशदेशका बाटुलिन्छन् बुझ तिमि मनले बाटका पाटिमाहाँ ।
 वात्चित् गर्दै रहन्छन् खुशिसित मनले बन्धुझैँ राति ताहाँ ॥
 प्रातःकाल्भो जसै ता उठिकन ति सबै दशदिशा लागिजान्छन् ।
 बन्धूको संग यस्तो बुझिकन गुणिले दुःखसुख एक मान्छन् ॥३२॥

गद्दी पर बैठ भी जायें, तो भी मैं समस्त शत्रुओं का नाश करूँगा । इन कार्यों से माता के मन के सम्पूर्ण शोक का हरण करूँगा । लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर रामचन्द्र जी प्रसन्न हुए और महान् कृपा कर उन्हें भली प्रकार समझाया । २९ सुनो भाई ! संसार में मानव-शरीर अत्यन्त क्षणभंगुर है । शरीर को ऐसा समझ कर तुम मन में किंचित्मात्र भी क्रोध न करो । सभी भोग्य वस्तुएँ क्षणभंगुर है । इन बातों का विचार कर तुम कष्ट सहन करो । सहनशील (व्यक्ति) ही महान् होता है । ३० मेढक सर्प के मुँह को विषपान करने हेतु खोजता है । उसी प्रकार संसार में भी भोग करने को मन कहता है । मन से यह विचार करो कि काल रूपी सर्प के मुँह में किस प्रकार का रस है । वन जाने से हमारी क्या हानि हो जायेगी । भगवान् सब को आनन्द-मंगल से रक्खें । ३१ तुम अपने मन से विचार कर देखो कि लोग देश-विदेश घूमते हैं । वहाँ मार्ग में विश्राम-गृह में मित्रों की भाँति प्रसन्न हो कर परस्पर वार्तालाप करते रहते हैं और प्रातः होते ही सब अपनी-अपनी दिशाओं की ओर चले जाते हैं । ३२ ऐसे मित्रों की संगति के गुणों को समझ कर गुणी

छाया तुल्य छ लक्ष्मि, यौवन भन्या भन्छन् स्त्रीसुखलाइ स्वप्न सरिको यस्तै जानि पनी मनुष्यहरु सब भुलनैका वशले अनेक फजितिले जुन यस् देह निमित्त यो रिस गन्यौ हाइ मासू र रगत् नसा यति कुरा विष्ठा हुन्छ कि भस्म हुन्छ पछितक यस्का खातिर घात् गन्यौ पनि भन्या क्रोधै हो यमराज सर्व जनको तृष्णा हो भनि यो बुझेर तिमिले सन्तोषलाइ बुझि कामधेनु सरिको रिस गर्नु बढिया त छैन मनमा यस्तै हो सुन कर्मका वश हुँदा कस्तै कोहि हवस् अवश्य करले कर्मको फल भोग गर्छ दुनियाँ आमैले यहि बात बुझीकन विदा भेलै सरीको भनी । साँचो कुरा हो भनी ॥ संसारमा भुल्दछन् । संसारि भँ डुल्दछन् ॥ ३३ ॥ चिन्छौ कि कस्तो छ यो । जम्मा भई बन्छ यो ॥ वाँचतैन यो ता कसै । पाप मात्र लाग्ला उसै ॥ ३४ ॥ वैतर्नि भन्नू पनि । कैले नविस्र्या पनि ॥ सन्तोष मन्ले रहु । जानू असल् हो सहू ॥ ३५ ॥ वस्तैन एक ठाम् रही । जानू छ जाहाँ गई ॥ यै चित्तमा लेउ भाइ । दीनूहवस् हामिलाइ ॥ ३६ ॥

जन दुख और सुख को एक समान ही मानते हैं । धन को छाया तुल्य, यौवन को धूल के समान तथा स्त्री-सुख को स्वप्न की भाँति मानते हैं । और इस यथार्थता को मानते हुए, ऐसा जान बूझ कर भी, मनुष्य संसार में भूला रहता है और इसी कारण अनेक आपदाओं सहित संसार में भ्रमण करता रहता है । ३३ जिस शरीर के लिए इतना क्रोध कियो उसे पहचानते हो ? हड्डी, रक्त, मांस और नसें यही सब मिलकर यह शरीर बनता है जो एक दिन नष्ट हो कर भस्म हो जाता है । अनन्त काल तक यह किसी प्रकार जीवित नही रह सकता । ऐसे शरीर के लिए किञ्चित् मात्र भी छल किया तो पाप के भागी होंगे । ३४ क्रोध समस्त मानव-जाति के लिए यमराज सदृश है । तृष्णा वैतरणी है इसे भी न भूलना, और सदा सन्तोषरूपी कामधेनु का सहारा लेकर रहना । क्रोध करना अच्छा नहीं, वरन् बन जाना ही उचित है; इसे सहन करो । ३५ ऐसा ही है, सो सुनो ! कर्मरत प्राणी को एक स्थान पर रहने को नहीं मिलता । किसी न किसी कार्यवश उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ही पड़ता है जहाँ जाकर वह अपने किये कार्यों के फल का भोग करता है । यही बात चित्त में धारण करके हे भाई तथा

यो विन्ती गरि पाउमा जब पन्या
 आँसू थाम्न कठिन् भयो र बहुतै
 आशीर्वाद वचन् समेत मिलि गयो
 लक्ष्मणले पनि साथ जान्छु म भनी
 लक्ष्मण्लाइ हिंडलौ भन्या र रघुनाथ
 सीतालाइ तिमि ता घरै बस भनी
 पङ्खा छत्र चमर् रहित् प्रभुकनै
 क्या कारण हुनगो भनीकन सिता
 शङ्कित् जानकिलाइ देखि प्रभुले
 सासूको टहलै गरीकन रहु
 पीताको वचनै लिई शिर-उपर
 चौधै वर्ष बिताइ जल्दि म यहाँ
 यस्ता बात् प्रभुका सुनीकन तहाँ
 पैले ज्योतिषिको कुरा सब कही
 सीताका यति बात् सुन्या र खुशिभै
 ब्राह्मण् खूशि सदा रहून् भनि तहाँ

बीदा दिइन् मन् बुझाइ ।
 रोइन् शरीरै रुझाइ ॥
 ताहाँ विदा रामलाइ ।
 विन्ती गन्या जानलाइ ॥३७॥
 सीता भयामा गया ।
 पैले त भन्दा भया ॥
 देखता त शङ्कित् भइन् ।
 हात्जोरि साम्ने भइन् ॥३८॥
 तीमी घरैमा यहाँ ।
 वर्ष त चौधैमहाँ ॥
 जान्छु म वन्मा प्रिये ।
 फिन्याछु निश्चै श्रिये ॥३९॥
 सीताजि मूर्छा परिन् ।
 छोड्दीनँ सेवा भनिन् ॥
 साथै सिताजी लिया ।
 दौलत् बहूतै दिया ॥४०॥

माता, आपलोग मुझे बिदा देने की कृपा करें। ३६ ऐसी विनती करके जब राम चरणों में झुके तो उन्होंने अपने मन को समझा कर बिदा दी और रो-रोकर अपने शरीर को ही भिगो लिया। राम को आशीर्वाद के वचनों के साथ बिदा मिली और लक्ष्मण ने भी साथ जाने की विनती की। ३७ लक्ष्मण को चलने की अनुमति दे कर राम सीता के पास गये। पहुँचते ही सीता जी को घर में रहने की आज्ञा दी। पंखा, छतरी तथा चँवर आदि से सुसज्जित प्रभु को देखकर वे सशंकित हुई। वे करवद्ध होकर, उनकी इस वेशभूषा का कारण जानने के लिए सामने आईं। ३८ सशंकित जानकी को देखकर प्रभु ने कहा कि चौदह वर्ष तक तुम घर पर रह कर अपनी सासों की सेवा टहल करती रहना। हे प्रिये! मैं पिता जी की आज्ञा शिरोधार्य करके, वन को जाता हूँ। चौदह वर्ष व्यतीत कर मैं निश्चय ही शीघ्र लौटूंगा। ३९ प्रभु की ये बातें सुनकर सीता जी मूर्छित हो गयीं। पहले ज्योतिषी की सब बातें कहीं, तत्पश्चात् विनती की कि आप की सेवा नहीं छोडूंगी। सीता जी की यह बात सुनकर राम ने प्रसन्न हो उन्हें साथ ले लिया। फिर ब्राह्मणों को सदा खूश रखने के लिए धन-सम्पत्ति का वितरण किया। ४० माता

कौसल्याजि जहाँ थिइन् तहि गई
 माता मेरि पिछा भइन् भनि तहाँ
 येती काम् गरि रामका हुकुमले
 सीता लक्ष्मण साथमा लि रघुनाथ
 बीदा हून पिताजिथ्यै जब सिता
 यस्तो देखि असह्य भो र दुनियाँ
 सीता रामकन दुःख यो हुन गयो
 सीता आज कसोरि दुःख सहनिन्
 यो अन्याय भयो यहाँ त नबसौं
 राम्लाइ छोडि यहाँ कसोगरि बसौं
 यस्ता वात् गरि लोकले त बहुतै
 सब विस्तार गरि वामदेव ऋषिले
 हे लोकहो ! अतिगदछौतिमितशोक
 साक्षात् विष्णु इ हुन् भनेर मनले
 पृथ्वीको सब भार हरेर रघुनाथ
 साँचा हुन् इ कुरा अवश्य तिमिले

लक्ष्मणजिले बिनितलाइ ।
 सुम्प्या सुमित्राजिलाइ ॥
 लक्ष्मण तयारी भया ।
 राजा भयामा गया ॥४१॥
 लक्ष्मण लि राम्ज्यू गया ।
 सब शोक गर्दा भया ॥
 कैकेयि दुष्टै भई ।
 घोर जङ्गलमा गई ॥४२॥
 जाऔं प्रभूका संगै ।
 बूझन मन ता नगै ॥
 शोक गर्न लाग्या भनी ।
 सबलाइ बुझाया पनि ॥४३॥
 यो शोक ता छाडिद्यौ ।
 श्रीरामलाइ जानिल्यौ ॥
 फिछन् इ जान्छन् कहाँ ।
 खेद कीन मान्यौ यहाँ ॥४४॥

को पीछे लगते देख लक्ष्मण ने कौशल्या के पास जाकर विनती की और सुमित्रा माता को उन्हें सौंप दिया । इतना कार्य कर राम की अनुमति पाकर लक्ष्मण तैयार हो गये । सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर रघुनाथ पिता के पास गये । ४१ राम को सीता और लक्ष्मण सहित विदा लेने के लिए पिता के पास जाते देख असहाय हो समस्त प्रजा शोकाकुल हुई । दुष्ट कैकेयी के कारण सीता तथा राम को कष्ट सहन करना पड़ा है । सीता आज किस प्रकार घोर जंगल में जाकर दुख सहन करेगी । ४२ यह अन्याय हुआ है । यहाँ न रहें, प्रभु के संग ही चले । राम को छोड़ कर यहाँ किस प्रकार रहेंगे । विना गये मन नहीं मानता । ऐसी बातें कर प्रजाजन अत्यन्त शोक करने लगे । तब वामदेव ऋषि ने सविस्तार वर्णन कर सबको समझाया । ४३ हे प्रजाजन ! तुम लोग अपने इस अत्यधिक शोक का त्याग करो । श्रीराम को मन में साक्षात् विष्णु का अवतार समझो । पृथ्वी के सब भारों का निवारण करने के बाद रघुनाथ लौट आयेगे । ये जायेगे कहाँ ? ये सब बातें सत्य हैं । तुम व्यर्थ ही यहाँ पर क्यों शोक प्रकट करते हो । ४४ इन बातों से ऋषि ने सभी जनों के मन को अत्यन्त सन्तोष प्रदान किया ।

यस्-बातले ऋषिले मनुष्यहरुको
 पाँच्या राम पनि कैकेयी र दशरथ
 हे मातर ! वन जानलाइ अब ता
 बीदा जान मिलोस् मा जान्छु वनमा
 आज्ञा जानमिलोस् पिताजिकि पनि
 दुखपाउनन्किभनी पिताजिकन शोक्
 कैकेयी यति बात सुनी खुशि भई
 लाया श्री रघुनाथले ति कपडा
 यस्ता वस्त्र म लाउँ आज कसरी
 लज्जाले रघुनाथका मुखविषे
 श्रीरामले मुटुरा गरी ति कपडा
 त्यो देखीकन राजपत्निहरु सब
 दुष्टे! आज सिताजिलाइ किन यो
 यस् काम्ले जति छन् यहाँ इ सबको
 कैकेयी सित बात वशिष्ठ गुरुले
 बीदा भै रघुनाथ चढ्या रथविषे

खुप् मन् बुझाई दिया ।
 जाहाँ बस्याका थियो ॥
 आयौ जना तीन् चली ।
 रस् राग्रतीभर् नली ॥४५॥
 जान्छु सदा खुश म छु ।
 मन्मा नला गोस्कछु ॥
 बस्तर पुराना दिइन् ।
 सीताजिले ता दिइन् ॥४६॥
 भन्न्या मनैमा धरी ।
 हेरिन् कटाक्ष गरी ॥
 हात्मा जसै ता लिया ।
 रोया तहाँ जो थिया ॥४७॥
 बस्तर पुराना दियो ।
 प्राण खँचि ऐलै लियो ॥
 येती गन्याथ्या जसै ।
 सम्पूर्ण रोया तसै ॥४८॥

राम भी, जहाँ कैकेयी और दशरथ थे वहाँ पहुँच गये और बोले, हे माता ! वन जाने के लिए हम तीनों जने आ गये हैं । लेशमात्र भी मन में क्रोध तथा द्वेष न रखकर आप हमें वन जाने के लिए विदा देने की कृपा करें । ४५ पिताजी भी कृपया आज्ञा दें—जिससे मैं वन चला जाऊँ । मैं सदा ही प्रसन्न हूँ । आप मन में किंचित् मात्र भी चिन्ता न करें कि मुझे कष्ट होगा । ये शब्द सुनकर कैकेयी प्रसन्न हुई और उन्हें पुराने वस्त्रादि लाकर दिये । श्रीरघुनाथ ने तो वह वस्त्र ले लिये और सीता जी ने भी ले लिये । ४६ ऐसे वस्त्र आज मैं किस प्रकार धारण करूँ । मन में यह विचार कर सीता जी ने लज्जापूर्वक श्रीरघुनाथ की ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा । श्रीराम ने उन वस्त्रों को अपने हाथ में ले लिया, यह देख सब राज-पत्नियाँ (माताएँ) रोने लगीं । ४७ अरी दुष्टे! तूने आज सीता को ये पुराने वस्त्र क्यों दिये ? तूने इस कार्य से यहाँ जो लोग हैं उन सबके प्राणों को खींच लिया है । गुरु वशिष्ठ ने कैकेयी से जैसे ही यह बात कही श्रीरघुनाथ विदा होकर रथ में चढ़ गये । उस समय सब लोग रोने लगे । ४८ रथ में चढ़कर सीताराम वन को चल पड़े । साथ में लक्ष्मण भी गये । घर छोड़ कर उस रात्रि को रघुपति एक

कर्ता हूँ पनि भन्नु छैन अभिमान् जनले न गर्नु कहीं ।
 कर्मको फल भोग मिल्छ तिमिले यो बुझ्नु जाहाँ तहीं ॥५७॥
 धीरा भै रहनु विपत्ति सहनु कस्तै परुनु तापनि ।
 कैले मोहविषे नपर्नु जनले माया छ संसार भनी ॥
 यस्तै बात् सुनि रात् बित्यो गुहजिको रामका नजीकमा रही ।
 गङ्गा तर्न हुकम् भयो प्रभुजिको ताहाँ उज्यालो भई ॥५८॥
 गंगे! आज म जान्छु घोर वनमा केवल नमस्कार गरी ।
 फिर्दामा म पुजा अवश्य गर्हला सामग्री ठूलो गरी ॥
 यस्तो विन्ति गरी सिता पतिजिको साथै चलिन् पार तरी ।
 आज्ञाले घरमा फिर्न्यो गुह पनि भक्ती मनैमा धरी ॥५९॥
 गंगा पार तरि मिर्ग मारि पकुवा तारेर खाया तहाँ ।
 तेस्रो वास् रघुनाथको तहिं भयो एक वृक्षका तल्महाँ ॥
 चौथो वास् रघुनाथको हुन गयो आश्रम भरद्वाजको ।
 रामज्यूको ऋषिले गन्या स्तुति तहाँ सुरजानिकाम्काजको ॥६०॥

तन-मन से उनके वचनों को सुनने लगे । ५६ सुख-दुख का दाता यहाँ कोई नहीं है? वास्तव में सुख-दुख के रूप में यह सब कर्मों का फल प्राप्त होता है। कहना मूर्खता है, न कहने से सब धर्म का नाश होता है। मैं कर्ता नहीं हूँ यह कहना ही उचित है। किसी को भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तुम यही जान लो कि इस संसार में कर्मों का ही फल भोग करने को मिलता है। ५७ कैसी भी विपत्ति आ जाय धैर्य-पूर्वक सहन करना चाहिए। संसार को माया रूपी जान कर कभी भी मोह के वश में न पड़ना चाहिए। राम के निकट बैठ ऐसी बातें सुनते हुए गुह की रात बीती। उजाला होने पर गंगा पार करने के लिए प्रभु की आज्ञा हुई। ५८ "लौटते समय पर्याप्त सामग्री लेकर मैं अवश्य पूजा करूँगा। हे गंगे! आज तो मैं केवल नमस्कार कर घनघोर वन को जाती हूँ।" ऐसी विनती कर सीता अपने पति के साथ गंगा जी को पार कर चली गई। आज्ञा पाकर गुह भी मन में भक्ति-भाव धारण कर घर लौट गये। ५९ गंगा के पार आकर गुह ने मृग का शिकार किया और उसी का भोजन किया। श्रीरघुनाथ का तीसरा पड़ाव वहीं एक वृक्ष के नीचे पड़ा और चौथा पड़ाव भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हुआ। कार्यो के विस्तार को समझ कर ऋषि ने रामजी की स्तुति की। ६० पाँचवे दिन मार्ग-प्रदर्शन के लिए ऋषिकुमारों को साथ में

यस् बात्ले ऋषिले मनुष्यहरुको खुप् मन् बुझाई दिया ।
 पौंच्या राम् पनि कैकेयी र दशरथ् जाहाँ बस्याका थियो ॥
 हे मातर ! वन जानलाइ अब ता आयौ जना तीन् चली ।
 बीदा जान मिलोस् मा जान्छु वनमा रस् राग्रतीभर् नली ॥४५॥
 आज्ञा जानमिलोस् पिताजिकि पनी जान्छु सदा खुश म छु ।
 दुख्पाउनन्किभनी पिताजिकन शोक् मन्मा नला गोस्कछु ॥
 कैकेयी यति बात् सुनी खुशि भई बस्तर पुराना दिइन् ।
 लाया श्री रघुनाथले ति कपडा सीताजिले ता दिइन् ॥४६॥
 यस्ता वस्त्र म लाउँ आज कसरी भन्या मनैमा धरी ।
 लज्जाले रघुनाथका मुखविषे हेरिन् कटाक्ष गरी ॥
 श्रीरामले मुटुरा गरी ति कपडा हात्मा जसै ता लिया ।
 त्यो देखीकन राजपतिहरु सब रोया तहाँ जो थिया ॥४७॥
 दुष्टे ! आज सिताजिलाइ किन यो बस्तर पुराना दियो ।
 यस् काम्ले जति छन् यहाँ इ सबको प्राण खैचि ऐलै लियो ॥
 कैकेयी सित बात् वशिष्ठ गुरुले येती गन्याथ्या जसै ।
 बीदा भै रघुनाथ चढ्या रथविषे सम्पूर्ण रोया तसै ॥४८॥

राम भी, जहाँ कैकेयी और दशरथ थे वहीं पहुँच गये और बोले, हे माता ! वन जाने के लिए हम तीनों जने आ गये हैं । लेशमात्र भी मन में क्रोध तथा द्वेष न रखकर आप हमें वन जाने के लिए विदा देने की कृपा करें । ४५ पिताजी भी कृपया आज्ञा दें—जिससे मैं वन चला जाऊँ । मैं सदा ही प्रसन्न हूँ । आप मन में किंचित् मात्र भी चिन्ता न करें कि मुझे कष्ट होगा । ये शब्द सुनकर कैकेयी प्रसन्न हुई और उन्हें पुराने वस्त्रादि लाकर दिये । श्रीरघुनाथ ने तो वह वस्त्र ले लिये और सीता जी ने भी ले लिये । ४६ ऐसे वस्त्र आज मैं किस प्रकार धारण करूँ । मन में यह विचार कर सीता जी ने लज्जापूर्वक श्रीरघुनाथ की ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा । श्रीराम ने उन वस्त्रों को अपने हाथ में ले लिया, यह देख सब राज-पत्नियाँ (माताएँ) रोने लगीं । ४७ अरी दुष्टे ! तूने आज सीता को ये पुराने वस्त्र क्यों दिये ? तूने इस कार्य से यहाँ जो लोग हैं उन सबके प्राणों को खींच लिया है । गुरु वशिष्ठ ने कैकेयी से जैसे ही यह बात कही श्रीरघुनाथ विदा होकर रथ में चढ़ गये । उस समय सब लोग रोने लगे । ४८ रथ में चढ़कर सीताराम वन को चल पड़े । साथ में लक्ष्मण भी गये । घर छोड़ कर उस रात्रि को रघुपति एक

कर्ता हूँ पनि भन्नु छैन अभिमान् जनले न गर्नु कहीं ।
 कर्मको फल भोग मिल्छ तिमिले यो बुझ्नु जाहाँ तहीं ॥५७॥
 धीरां भै रहनु विपत्ति सहनु कस्तै । परुनु तापनि ।
 कैले मोहविषे नपर्नु जनले माया छ संसार भनी ॥
 यस्तै वात् सुनि रात् वित्यो गुहजिको रामका नजीकमा रही ।
 गङ्गा तर्ने हुकूम भयो प्रभुजिको ताहाँ उज्यालो भई ॥५८॥
 गंगे ! आज म जान्छु घोर वनमा केवल नमस्कार गरी ।
 फिर्दामा म पुजा अवश्य गरूला सामग्री ठूलो गरी ॥
 यस्तो विन्ति गरी सिता पतिजिको साथै चलिन् पार तरि ।
 आज्ञाले घरमा फिर्न्यो गुह पनि भक्ती मनैमा धरी ॥५९॥
 गंगा पार तरि मिर्ग मारि पकुवा तारेर खाया तहाँ ।
 तेस्रो वास् रघुनाथको तहिं भयो एक वृक्षका तल्महाँ ॥
 चौथो वास् रघुनाथको हुन गयो आश्रम भरद्वाजको ।
 रामज्यूको ऋषिले गन्या स्तुति तहाँ सुरजानिकाम्काजको ॥६०॥

तन-मन से उनके वचनों को सुनने लगे । ५६ सुख-दुख का दाता यहाँ कोई नहीं है ? वास्तव में सुख-दुख के रूप में यह सब कर्मों का फल प्राप्त होता है । कहना मूर्खता है, न कहने से सब धर्म का नाश होता है । मैं कर्ता नहीं हूँ यह कहना ही उचित है । किसी को भी अभिमान नहीं करना चाहिए । तुम यही जान लो कि इस संसार में कर्मों का ही फल भोग करने को मिलता है । ५७ कैसी भी विपत्ति आ जाय धैर्य-पूर्वक सहन करना चाहिए । संसार को माया रूपी जान कर कभी भी मोह के वश में न पड़ना चाहिए । राम के निकट बैठ ऐसी बातें सुनते हुए गुह की रात बीती । उजाला होने पर गंगा पार करने के लिए प्रभु की आज्ञा हुई । ५८ "लौटते समय पर्याप्त सामग्री लेकर मैं अवश्य पूजा करूँगा । हे गंगे ! आज तो मैं केवल नमस्कार कर घनघोर वन को जाती हूँ ।" ऐसी विनती कर सीता अपने पति के साथ गंगा जी को पार कर चली गई । आज्ञा पाकर गुह भी मन में भक्ति-भाव धारण कर घर लौट गये । ५९ गंगा के पार आकर गुह ने मृग का शिकार किया और उसी का भोजन किया । श्रीरघुनाथ का तीसरा पड़ाव वहीं एक वृक्ष के नीचे पड़ा और चौथा पड़ाव भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हुआ । कार्यों के विस्तार को समझ कर ऋषि ने रामजी की स्तुति की । ६० पाँचवें दिन मार्ग-प्रदर्शन के लिए ऋषिकुमारों को साथ में

पांचौंदिन् ऋषिका कुमांर् संगलिया बाटो बताउन् भनी ।
 राम्ज्यूलाइ यमुनाजितारितिकुमांर् सांझमा त फक्या पनि ॥
 सीताराम् पनि चित्रकूट पुगि गया वाल्मीकि बस्थ्या जहाँ ।
 वाल्मीकीकन दण्डवत् गरि बहुत आनन्द मान्या तहाँ ॥६१॥
 वाल्मीकीकन भन्दछन् रघुपती क्यै दिन् रहन्छ यहाँ ।
 कुन् जग्गा बढिया छ सब तरहले होला सुविस्ता कहां ॥
 सून्या वाल्मिकिले मनुष्य सरि भै राम्ले गन्याका कुरा ।
 सोही माफिक विन्ति वात् पनि गन्या वाल्मीकि छन् झन्पुरा ॥६२॥
 जान्दैनन् महिमा वडा ऋषि पनी जस्का त एक नामको ।
 यस्ता हौ रघुनाथ ! हजुरकन यहाँ क्या काम असल् ठामको ॥
 सज्जनको हृदयै छ घर हजुरको अच्छा बहुत फेर कहां ।
 विस्तार एक सुनिबक्सन् पनि हओस् बिन्ती म गर्छु यहाँ ॥६३॥
 व्याधा हूँ अधिको म सप्तऋषिको निर्मल कृपाले गरी ।
 वाल्मीकी भनि नाम् चल्यो जब जप्या रामनाम उलटा गरी ॥
 उलटै नामकि ता छ यस्ति महिमा विस्तार धेर क्या कहूँ ।
 गंगाका र इ चित्रकूट गिरिका बीचका जगामा रहु ॥६४॥

लिया । रामजी को यमुना पार करवा कर वे ऋषिकुमार संध्या तक लौट भी आये । सीता-राम भी चित्रकूट, जहाँ वाल्मीकि रहते थे, पहुंच गए और वाल्मीकि मुनि को दण्डवत कर अत्यन्त आनन्दित हुए । ६१ कुछ दिन वही रहने की इच्छा प्रकट करते हुए रघुपति वाल्मीकि से कहते हैं—कौन-सा स्थान सर्वप्रकार से सुविधापूर्ण एवम् उत्तम होगा । मनुष्य की भाँति राम द्वारा कही गई बात को वाल्मीकि मुनि ने सुना । और उसी प्रकार विनय-पूर्ण वार्ता की । क्योंकि वाल्मीकि तो पूर्ण ज्ञानी थे । ६२ हे रघुनाथ आप तो ऐसे हैं कि जिनके कार्य की महिमा को ऋषि नहीं समझ सकता । आपके लिए उत्तम स्थान की क्या आवश्यकता है ? सज्जनों का हृदय ही आपका आगार है, इससे बढ़कर उत्तम स्थान आपको और कहाँ मिलेगा । मैं एक बात विस्तार-पूर्वक कहता हूँ, आप श्रवण करने की कृपा करें । ६३ मैं किसी समय एक बहेलिया था । सप्तर्षियों की असीम कृपा से जब राम-नाम को उलटी ओर से जपना आरम्भ किया तब वाल्मीकि के नाम से प्रख्यात हुआ । उलटे नाम की ऐसी महिमा है कि और अधिक क्या कहूँ । आप गंगा तथा चित्रकूट पर्वत के मध्य के स्थल में निवास करें । ६४ वाल्मीकि ऋषि के वचनों को सुन कर प्रभु

बिन्ती यो गरि दुःखमा परि विलाप
मन्त्रीवर्ग समेत् वशिष्ठ गुरुजी
देख्या शोक भरतजिको र गुरुले
शोक् गर्नु बढिया त छैन किन शोक्
नाना तत्त्वं कही तहाँ भरतको
सब आज्ञा गुरुको लिई भरतले
राजाको किरिया जसो गरि सक्या
तेस् बीचमा मनले विचार भरतले
माता मेरि त राक्षसी सरि भइन्
बस्नु योग्य अवश्य छैन अब ता
यस्तो चित्त थियो तहाँ भरतको
मालूम ता गुरुमा थियो तरपनी
बाबाको छ हुकुम् यहाँ भरतले
चौधै वर्ष तलक् बसून् वनविषे
सीता राम यहि बातले वन गया
गादी चढनुहवस् हुकूम दिनुहवस्
यस्तो बिन्ति गरी वशिष्ठ गुरु चुप्
उत्तर जल्दि दिया तहाँ भरतले

गथ्या भरतजी तहाँ ॥
पौंच्या नजीक्मा तहाँ ॥
पीता बित्याछन् भनी ।
गछौं महाराज् ! भनी ॥७३॥
सब शोक् गुरुले हन्या ॥
काम्काज् पिताको गन्या ॥
दानको असङ्ख्यै गरी ।
राख्या बहुत् शोक् गरी ॥७४॥
इन्का नजीक्मा यहाँ ।
जान्छु प्रभु छन् जहाँ ॥
इन्को छ यो मन भनी ।
भन्छन् उचित् हो भनी ॥७५॥
राज् गर्नु, राम्ले गई ।
मानो मुनीश्वर भई ॥
याहाँ हजूरले पति ।
यो राज्य मेरो भनी ॥७६॥
जस्सै रह्याथ्या तहाँ ।
क्या गछु यो राज् यहाँ ॥

सभी मन्त्रिगणों सहित वहाँ पहुँच गए । भरत जी को शोकाकुल देख गुरु ने पिता की मृत्यु की सूचना दी । वे बोले, शोक करना ठीक नहीं, आप व्यर्थ ही शोक क्यों करते है । ७३ - अनेक प्रकार के तत्त्वों का ज्ञान दे कर गुरु ने भरत के शोक को शान्त किया । गुरु की आज्ञा लेकर भरत ने पिता का क्रियाकर्मादि किया । जैसे ही राजा का क्रिया-कर्म समाप्त हुआ वैसे ही असंख्य दान-पुण्य आदि किए । उसी बीच भरत ने शोकाकुल हो कर मन में विचार किया । ७४ मेरी माता तो राक्षसी तुल्य है । इसके समीप रहना अवश्य ही उचित नहीं है, अतः अब जहाँ प्रभु हैं वहीं जाता हूँ । गुरु को विदित था कि भरत के मन में ऐसा ही विचार था जो उचित ही था । ७५ पिता (दशरथ) की आज्ञानुसार भरत को यहाँ राज्य करना है और राम को चौदह वर्ष तक वनों में मुनियों के रूप में रहना है । सीता-राम इसी कारण वन को गए । अतः आप राजगद्दी पर बैठ कर, 'यह मेरा राज्य है' कह कह कर राज्य करें । ७६

पाँचौंदिन् ऋषिका कुमार संगलिया
 रामजूलाइ यमुनाजितारतिकुमार
 सीताराम् पनि चित्रकूट पुगि गया
 वाल्मीकीकन दण्डवत् गरि बहुत
 वाल्मीकीकन भन्दछन् रघुपती
 कुन् जग्गा बढिया छ सब तरहले
 सून्या वाल्मिकिले मनुष्य सरि भै
 सोही माफिक विन्ति बात् पनि गन्या
 जान्दैनन् महिमा वडा ऋषि पनी
 यस्ता हौ रघुनाथ ! हजुरकन यहाँ
 सज्जनको हृदयै छ घर हजुरको
 विस्तार एक सुनिबक्सनू पनि हओस्
 व्याधा हँ अधिको म सप्तऋषिको
 वाल्मीकी भन्ति नाम् चल्यो जब जप्याँ
 उल्टै नामकि ता छ यस्ति महिमा
 गंगाका र इ चित्रकूट गिरिका

बाटो वताउन् भनी ।
 साँझमा त फर्क्या पनि ॥
 वाल्मीकि बसथ्या जहाँ ।
 आनन्द मान्या तहाँ ॥६१॥
 कयै दिन् रहन्छु यहाँ ।
 होला सुविस्ता कहाँ ॥
 राम्ले गन्याका कुरा ।
 वाल्मीकि छन् झन्पुरा ॥६२॥
 जस्का त एक नामको ।
 क्या काम असल् ठामको ॥
 अच्छा बहुत फेर कहाँ ।
 विन्ती म गर्छु यहाँ ॥६३॥
 निर्मल कृपाले गरी ।
 रामनाम उल्टा गरी ॥
 विस्तार धेर क्या कहूँ ।
 बीचका जगामा रहु ॥६४॥

लिया । रामजी को यमुना पार करवा कर वे ऋषिकुमार संध्या तक
 लौट भी आये । सीता-राम भी चित्रकूट, जहाँ वाल्मीकि रहते थे,
 पहुँच गए और वाल्मीकि मुनि को दण्डवत कर अत्यन्त आनन्दित हुए । ६१
 कुछ दिन वहीं रहने की इच्छा प्रकट करते हुए रघुपति वाल्मीकि से कहते
 हैं—कौन-सा स्थान सर्वप्रकार से सुविधापूर्ण एवम् उत्तम होगा । मनुष्य
 की भाँति राम द्वारा कही गई बात को वाल्मीकि मुनि ने सुना । और उसी
 प्रकार विनय-पूर्ण वार्ता की । क्योंकि वाल्मीकि तो पूर्ण ज्ञानी थे । ६२ हे
 रघुनाथ आप तो ऐसे हैं कि जिनके कार्य की महिमा को ऋषि
 नहीं समझ सकता । आपके लिए उत्तम स्थान की क्या आवश्यकता है ?
 सज्जनों का हृदय ही आपका आगार है, इससे बढ़कर उत्तम स्थान आपको
 और कहाँ मिलेगा । मैं एक बात विस्तार-पूर्वक कहता हूँ, आप श्रवण
 करने की कृपा करे । ६३ मैं किसी समय एक वहेलिया था । सप्तपियों
 की असीम कृपा से जब राम-नाम को उलटी ओर से जपना आरम्भ किया
 तब वाल्मीकि के नाम से प्रख्यात हुआ । उलटे नाम की ऐसी महिमा
 है कि और अधिक क्या कहूँ । आप गंगा तथा चित्रकूट पर्वत के मध्य के
 स्थल में निवास करें । ६४ वाल्मीकि ऋषि के वचनों को सुन कर प्रभु

बिन्ती यो गरि दुःखमा परि विलाप
मन्त्रीवर्ग समेत वशिष्ठ गुरुजी
देख्या शोक भरतजिको र गुरुले
शोक् गर्नु बढिया त छैन किन शोक्
नाना तत्त्व कही तहाँ भरतको
सब आज्ञा गुरुको लिई भरतले
राजाको किरिया जसो गरि सक्या
तेस् बीचमा मनले विचार भरतले
माता मेरि त राक्षसी सरि भइन्
वस्नु योग्य अवश्य छैन अब तां
यस्तो चित्त थियो तहाँ भरतको
मालूम ता गुरुमा थियो तरपनी
बाबाको छ हुकुम् यहाँ भरतले
चौधै वर्ष तलक् बसून् वनविषे
सीता राम यहि बातले वन गया
गादी चढनुहवस् हुकूम दिनुहवस्
यस्तो बिन्ति गरी वशिष्ठ गुरु चुप्
उत्तर जल्दि दिया तहाँ भरतले

गथ्या भरतजी तहाँ ।
पाँच्या नजीकमा तहाँ ॥
पीता बित्याछन् भनी ।
गछौ महाराज ! भनी ॥७३॥
सब शोक् गुरुले हँच्या ।
कामकाज पिताको गँच्या ॥
दानको असङ्ख्यै गरी ।
राख्या बहुत् शोक् गरी ॥७४॥
इन्का नजीकमा यहाँ ।
जान्छ प्रभु छन् जहाँ ॥
इन्को छ यो मन भनी ।
भन्छन् उचित हो भनी ॥७५॥
राज गर्नु, रामले गई ।
मानो मुनीश्वर भई ॥
याहाँ हजरले पनि ।
यो राज्य मेरो भनी ॥७६॥
जस्सै रह्याथ्या तहाँ ।
क्या गछु यो राज यहाँ ॥

सभी मंत्रिगणों सहित वहाँ पहुँच गए । भरत जी को शोकाकुल
देख गुरु ने पिता की मृत्यु की सूचना दी । वे बोले, शोक करना ठीक नहीं;
आप व्यर्थ ही शोक क्यों करते हैं । ७३ अनेक प्रकार के तत्त्वों का ज्ञान
दे कर गुरु ने भरत के शोक को शान्त किया । गुरु की आज्ञा
लेकर भरत ने पिता का क्रियाकर्मादि किया । जैसे ही राजा का क्रिया-
कर्म समाप्त हुआ वैसे ही असंख्य दान-पुण्य आदि किए । उसी बीच भरत
ने शोकाकुल हो कर मन में विचार किया । ७४ मेरी माता तो राक्षसी-
तुल्य है । इसके समीप रहना अवश्य ही उचित नहीं है, अतः अब जहाँ
प्रभु हैं वहीं जाता हूँ । गुरु को विदित था कि भरत के मन में ऐसा ही
विचार था जो उचित ही था । ७५ पिता (दशरथ) की आज्ञानुसार
भरत को यहाँ राज्य करना है और राम को चौदह वर्ष तक वनों में मुनियों
के रूप में रहना है । सीता-राम इसी कारण वन को गए । अतः आप
राजगद्दी पर बैठ कर, 'यह मेरा राज्य है' कह कह कर राज्य करें । ७६

कीर्तीमा अपकीर्ति पारि कसरी राज् गर्नु याहाँ बसी ।
दाज्यूको टहलै गरी सँग रह्या लक्ष्मण् रह्याछन् जसी ॥७७॥

गया जाहाँ सीतापति म पनि जान्छु अब तहाँ ।
फगत् एक् कैकेयी यहि बसिरहून् छोड्दछु यहाँ ॥
फलाहारी हुन्छु शिरभरि जटा धारि वनमा ।
म भोली जान्याछु हिडिकन विचार्यै छ मनमा ॥७८॥

प्रभूको गादी हो प्रभुकन फिरायेर घरमा ।
म गादी सुम्पन्छु किन म गरूँला राज्य करमा ॥
भरतका यस्ता बात् सुनिकन सबै खुश अति भया ।
भरत् भोलीबेरै उठिकन सबेरै हिडिगया ॥७९॥

सबै माता भ्राता गुरु सहित सब् फौज पनि ली ।
फकत् सीताराम्को चरणतलमा चित्त पनि दी ॥
भरत् गङ्गा पौंच्या गुहजिकन शंका हुन गयो ।
ठुलो लशकर् देख्या नबुझिकन तानै डर भयो ॥८०॥

लडौंला नाउ खैची भरत कपटी हुन् यदि भन्या ।
भनी मन् मन् लशकर्हरुकन तयार हौं पनि भन्या ॥

ऐसी विनती कर जैसे ही गुरु वशिष्ठ चुप हुए, भरत ने तुरन्त उत्तर दिया कि क्या राज्य कहूँगा यहाँ ! कीर्ति में अपकीर्ति ले कर किस प्रकार यहाँ बैठ कर राज्य करूँ । भाई की सेवा कर साथ में रह कर लक्ष्मण यश के पात्र हुए । ७७ सीतापति जहाँ गए हैं मैं भी अब वहीं जाता हूँ, केवल कैकेयी अकेली यहाँ पर रहे । फलाहारी होकर शिर में जटा धारण कर मैं कल पैदल ही वन को चला जाऊँगा, यही मैंने मन में ठाना है । ७८ यह गद्दी प्रभु की है, अतः प्रभु को घर लौटा कर मैं गद्दी उनको सौंप दूँगा । भरत की ये बातें सुन कर सब लोग अति प्रसन्न हुए । भरत ने कहा कि मैं क्यों विवशता-पूर्वक राज्य कहूँगा और दूसरे दिन उठकर सबेरे ही चल पड़े । ७९ सब माताओं, तथा गुरु सहित सब सेना को भी साथ लेकर केवल सीता-राम के चरण-तल में एकाग्रचित्त लगाकर भरत गंगा पर पहुँचे । निषादराज को शंका उत्पन्न हुई और भरत की विराट सेना को देखकर वास्तविकता को जाने बिना उन्हें पार उतारते भी डरने लगे । ८० यदि कोई कपट होगा तो नाव को खींचकर लड़ेंगे, यही मन में विचार कर उन्होंने अपनी सेना को सचेत किया । स्थिति की गम्भीरता को समझ कर भरत ने कहा कि मैं सब समझता हूँ ।

ठुलो भित्ती मत्लब् गरिकन गयो वुड्दछु भनी ।
तहाँ भेटी राखी नजर तिर हेन्या कछु भनी ॥८१॥

जसै देख्या आँसू गहभरि धरी शोक् पनि गरी ।
कहाँ मिल्छन् सीतापति मकन भन्दा घरिघरि ॥
जसै शिर् पाऊमा गरि ति गुहले ढोग् पनि दिया ।
भरतले अङ्कैमाल् गहँ भनि उठाईकन लिया ॥८२॥

भरतजीले सोध्या गुहसित सितका पति यहाँ ।
सुत्याको स्थल् कुन् हो मकन कहु जान्छु अब तहाँ ॥
गया विस्तार् पाई रघुपति सुत्याका शयनमा ।
भरतले खेद् मान्या कुश-शयन देखेर मनमा ॥८३॥

अहो ! मेरो खातिर् वन वन सिताजी पति सँगै ।
कुशासनमा सुत्छिन् न त यसरि सुत्थिन् अधि कतै ॥
अहो धिक्कार मेरा जनम जननी कैकयि भइन् ।
इनैले गर्दामा पतिसँग सिताजी वन गइन् ॥८४॥

कहाँ छन् सीतानाथ् कति पर गया भेट्छु कहाँ ।
छ केही मालूम ता मकन कहु जान्छु अब तहाँ ॥

वे गुह से भेंट करने गये और कुछ समझने हेतु उसकी ओर देखा । ८१ गुह ने भरत के शोकाकुल अश्रुपूर्ण नेत्रों को देखा । सीतापति कहाँ मिलेंगे, कह कर भरत बार-बार निपादराज से पूछने लगे । जैसे ही गुह ने पाँव में मस्तक रख कर नमस्कार किया, भरत ने उसे आलिंगन करने के लिए उठा लिया । ८२ भरत ने गुह से सीतापति के शयनस्थल का पता पूछा । विस्तारपूर्वक जान कर भरत रघुपति के शयनस्थल की ओर गए और राम की कुशों की शय्या देख कर भरत जी को अत्यन्त खेद हुआ । ८३ ओह! मैं ही निमित्त हूँ कि सीता जी पति के साथ वन-वन में कुशासन पर सोती हैं । इस प्रकार पहले कभी नहीं सोई । ओह! धिक्कार है मेरी जन्मदात्री जननी कैकेयी को जिसके कारण आज सीता जी पति के साथ वन चली आई । ८४ कहाँ हैं सीतानाथ? कितनी दूर जाने पर उनसे भेंट होगी? कहाँ हैं? कुछ मालूम हो तो बताओ मैं अब वही जाता हूँ । तब गुह ने भी उन्हें स्थान बता दिया जहाँ राम थे । गुह के दिये हुए समाचार से ही राम-मिलन की आशा से भरत प्रसन्न हुए । ८५ सब कुछ विस्तारपूर्वक बता कर गुह ने भरत को

बताया याहाँ छन् भनि ति गुहले राम्कन पनि ।

गुहैका सम्चारले खुशि पनि भया भेट्छु भनी ॥८५॥

सब् विस्तार् बताइ ताहिं गुहले गङ्गाजि तारीदिया ।

ताहाँ देखि भरत् चली पुगिगया जाहाँ भरद्वाज् थिया ॥

एक् दिन् ताहिं मुकाम् गन्या भरतले सन्मान् ऋषीले गन्या ।

बिलकुल् सैन्य जती थिया भरतका मेज्मानिलेछक् पन्या ॥८६॥

भोली बेर सबेर लशकर लिई बीदा ऋषीथ्यै भया ।

कैल्हे पुग्दछु चित्रकूट गिरिमा भन्दै भरत्जी गया ॥

खुश भै लशकर चित्रकूट गिरिका पाँच्या नजीकमा जसै ।

खोज्या ताहिं भरत्जिले अघि गई डेरा प्रभूको तसै ॥८७॥

डेरा देखी भरत्जी तहिं नजिक गया पाउका छाप देख्या ।

श्रीराम्का पाउका छाप चिन्हकन खुशिले माथले ताहिं टेक्या ॥

भन्छन् धन्यै रह्याँछु सहज नमिलन्या पाउका छाप देख्याँ ।

ब्रह्माजीले नपाउनु छ तपनि सहजै माथले आज टेक्याँ ॥८८॥

यस्तो बोल्दै प्रभूको चरणधुलिविषे भक्तिले लट्पटीदै ।

कैल्हे पुग्छु कहाँ छन् भनिकन मनले दस्दिशा दृष्टि दीदै ॥

जाँदा ताहीं भरत्ले प्रभुजिकन जसै नेत्रले देखन पाया ।

खामित्लाइ आज पायाँ भनिकन खुशिले पाउमा पर्न धाया ॥८९॥

गंगा पार करा दिया । वहाँ से चल कर भरत भरद्वाज जी के आश्रम

में पहुँच गये । एक दिन वहीं ठहरे । ऋषि ने भरत का सम्मान

किया । इस सत्कार को देख कर भरत की सम्पूर्ण सेना चकित रह

गई । ८६ दूसरे दिन प्रातः सेना को लेकर भरत ने ऋषि से विदा ली ।

चित्रकूट पर्वत पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँचने की इच्छा से भरत चल पड़े ।

सेना जैसे ही चित्रकूट पर्वत के पास पहुँची वैसे ही भरत अति प्रसन्न हो

आगे बढ़ कर प्रभु के डेरे की खोज करने लगे । ८७ डेरा ज्ञात होने

पर भरत जी जब निकट पहुँचे तो उन्हें पाँवों के चिह्न दृष्टिगोचर हुए ।

श्रीराम के चरण-चिह्न पहचान कर भरत ने अत्यन्त हर्षित होकर वहीं

अपना मस्तक रख दिया । मैं धन्य हूँ जो आज अप्राप्य पद-चिह्नों को

प्राप्त कर पाया जिन्हें ब्रह्मा भी नहीं पा सकते । ८८ इसी प्रकार

भक्ति-भावना में डूबे हुए भरत जी, प्रभु की चरण-धूलि से शरीर को

पवित्र करते हुए, 'कब पहुँचूँगा, राम कहाँ है' आदि बातें मन में सोचते

देख्या पाऊ पन्याका गहभरि वहँदा अश्रुधारा धन्याको ।
 सब् राज्यै तृण् वरावर् गरिकन बहुतै आफुमा मन् गन्याको ॥
 यस्तो देखी कृपाले भरतकन तहाँ काखमा राखिलीया ।
 जस्तो मन् हो भरत्को बुझि रघुपतिले खुप् कृपादृष्टि दीया ॥९०॥
 श्रीसीतापति माइका चरणमा राख्या र शिर् फेर् पिता ।
 काहाँ छन् किन आज देखितनँ यहाँ क्या गर्दछन् छन् कता ॥
 भन्दै खोजि गन्या पिताकन तहाँ श्रीरामजीले जसै ।
 सब् विस्तार वशिष्ठले भनिलिंदा शोक् गर्न लाग्या तसै ॥९१॥
 गंगा स्नान गरी तिलाञ्जलि दिया फेर् पिण्डदानै पनि ।
 फल् फूल्ले रघुनाथले तहिं दिया पाऊन् पिताले भनी ॥
 तेस् दिन्मा उपवास गन्या जव वित्यो रात् फेरि गंगा गया ।
 गंगा स्नान् गरि फेर् फिरेर मढिमा आएर वस्ता भया ॥९२॥

तहाँ सीताराम्का चरण-तलमा शिर् पनि धरी ।
 अयोध्यै लैजान्छु भनिकन ठुलो मन्सुव गरी ॥
 भरत् विन्ती गर्छन् किन रघुपते ! आज वनमा ।
 हजूरले आयाको मकन अति ताप् हुन्छ मनमा ॥९३॥

हुए दशों दिशाओं की ओर दृष्टि डालते चले । जाते-जाते प्रभु के दर्शन पाते ही कहते हैं—आज स्वामी को पाया और अत्यन्त प्रसन्न हो उनके चरणों में आत्म-समर्पण कर दिया । ८९ पाँव पड़ते, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते, तथा समस्त राज्य-लोभ को तिनका सदृश समझ कर अपने हृदय को राम-चरणों में अर्पित करते हुए भरत को राम ने कृपापूर्वक अपनी गोद में बैठा लिया । भरत की ऐसी मनोभावना देख कर रघुपति ने उन्हें महान् कृपा की दृष्टि से देखा । ९० भरत ने प्रथम श्रीसीतापति के चरणों में मस्तक झुकाया फिर सीता-माता को प्रणाम किया । श्रीराम ने पिता को वहाँ न देख उनके विषय में पूछा कि वे कहाँ हैं, वे क्या कर रहे हैं आदि । गुरु वशिष्ठ द्वारा विस्तृत रूप से सब समाचार ज्ञात होने पर वे अत्यन्त शोकाकुल हुए । ९१ गंगा-स्नान करके तिलाञ्जलि दे श्रीरघुनाथ ने फल-फूलों आदि से पिण्ड-दानादि किया । उस दिन उपवास किया । रात्रि व्यतीत होने पर पुनः गंगा में स्नानादि करके लौटें और अपनी मड़ैया में आकर बैठे । ९२ वहाँ सीता-राम के चरणों पर सिर रख कर भरत ने उनके अयोध्या लौट चलने की उत्कट अभिलाषा प्रकट की । भरत ने विनती की, हे रघुपते, आज आपके इस प्रकार वन चले

खामित् ! हजुरको म त दास पो हूँ ।
 यो राज्य गर्नाकिन योग्य को हूँ ॥
 यो गादि ता याहिं हजुरको हो ।
 मैले त सेवा गरि वस्तु पो हो ॥९४॥

छोरा हुनन् यज्ञ बहुत् गरीनन् ।
 सम्पूर्ण लोकोको पनि ताप् हरीनन् ॥
 तब् पो ति छोरासित राज्य छाडी ।
 जानू असल् हो त छँदै छ झाडी ॥९५॥

बेला त यो होइन जान वन्मा ।
 मेरा त यै निश्चय हुन्छ मन्मा ॥
 जाऔं घरै फर्कि सधाइ जावस् ।
 मेरी इ मातासित रिस् नआवस् ॥९६॥

यस्ता प्रकारले गरि बिनति गर्दै ।
 आँखा भरी आँसु बहूत धर्दै ॥
 रोया भरतले जब पाउमा गै ।
 बोल्या प्रभूले पनि खूशि मन् भै ॥९७॥

हे भाइ ! गछौं किन आज जिद्दी ।
 फिर्नू असल् छैन नि काम् नसिद्धी ॥
 जान्छू म वन्मा तिमि फर्कि जाऊ ।
 तेस् राज्यको काम् तिमिले चलाऊ ॥९८॥

आने से मेरे मन में घोर संताप हो रहा है । ९३ हे स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूँ । यह राज्य करने योग्य नहीं हूँ । यह गद्दी तो आपकी है, मुझे तो सेवा करके रहना ही उचित है । ९४ जिसके पुत्र नहीं हुए, जिसने यज्ञादि भी नहीं किया, और न जिसने सम्पूर्ण लोको का निवारण ही किया, ऐसे पुत्र को राज्य त्याग कर वन जाना ही उत्तम होगा । ९५ मैने तो मन में यही निश्चय किया है कि आपके वन जाने का यह समय नहीं है । चलें, घर लौट चलें जिससे सबका सुधार हो और अपनी माता के प्रति मेरा क्रोध दूर हो जाय । ९६ इस प्रकार विनती करते हुए नेत्रों में अश्रु भर चरणों में गिर कर जब भरत रोए तो प्रभु ने प्रसन्न मन से कहा । ९७ हे भाई! आज तुम इतनी जिद्द क्यों करते हो । बिना कार्य-सिद्धि के लौटना उचित नहीं है । मैं वन जाता हूँ, तुम

रामले वनै गै सुनि भेष धर्नु ।
 याहीं भरतले वसि राज्य गर्नु ॥
 भन्न्या पिताको जब सुन्न पायाँ ।
 आज्ञा उसैले वन जान आयाँ ॥१९॥
 ई वात् भरतले जब सुन्न पाया ।
 फेरी चरणमा परि विन्ति लाया ॥
 हे नाथ् ! पिता हुन् मतिहीन् भयाका ।
 स्त्रीका त साह्रै वशमा पन्याका ॥१००॥
 उन्ले भन्न्याथ्या पनि राज्य छाडी ।
 जानू असल् होइन आज झाडी ॥
 ख्वामित् ! बहुत् विन्ति छ फर्कि जाऊँ ।
 फर्कन्नै भन्न्या त जवाफ् नपाऊँ ॥१०१॥
 यस्तो भरतले जब जिद्दि लीया ।
 उत्तर प्रभूले पनि फेरि दीया ॥
 फर्कन्नै भैया तिमि फर्कि जाऊ ।
 पिताजिलाई पनि दोप् नलाऊ ॥१०२॥
 खुप् सत्यवादी त पिताजि थीया ।
 साँचै हुनाले वरदान दीया ॥
 सो पूर्ण गर्नाकिन जान्छु वन्मा ।
 साँचो कुरा हो बुझिलेउ मन्मा ॥१०३॥

लौट जाओ और राज-काज का सब कार्य संचालित करो । १८ जब मैंने पिता की यह आज्ञा सुनी कि राम मुनि-वेष धारण करें और भरत यहाँ रह कर राज्य करें तदनुसार मैं वन जाने के लिए आया हूँ । १९ जब भरत ने यह बात सुनी तो वे पुनः राम के चरणों में गिर कर विनती करने लगे । हे नाथ! पिता की मति हीन हो गई थी, वे स्त्री के वशीभूत थे । १०० उन्होंने यदि कहा भी तो भी राज्य छोड़कर वन को जाना आज अच्छा नहीं । हे स्वामी! मेरी हार्दिक विनती है कि आप लौट चलें; न लौटने की बात मुझसे न कहें । १०१ भरत ने जब इस प्रकार हठ किया तो भी प्रभु ने पुनः यही उत्तर दिया कि मैं नहीं लौटूँगा । तुम लौट जाओ और पिता पर भी दोषारोपण न करो । १०२ पिता जी अत्यन्त सत्यवादी थे । सत्य के कारण ही उन्होंने वरदान दिये ।

उत्तर प्रभूको सुनि दुःख मान्या ।
 फेरी चरणमा परि बिनति लाया ॥
 फिर्नु हवस् ख्वामित ! बिनति गर्छु ।
 यस् दण्डकारण्य विषे म जान्छु ॥१०४॥
 यस्ता वचन् सूनि भरतजिलाई ।
 फेरी हुकूम भा तिमि फर्क भाई ॥
 यो राज्य साट्या पनि हुन्छ झूटो ।
 हे भाइ ! गर्छौं किन आज भूटो ॥१०५॥

हुकूम यस्तो सूनी भरत पनि रामका चरणमा ।
 परी बिनती गर्छन् म त रघुपते ! छू शरणमा ॥
 चरण बाहिक् एक छिन् रहन पनि ताप हुन्छ मनमा ।
 नफर्क्या ख्वामित्का पछिपछि म ता जान्छु वनमा ॥१०६॥
 न ता फर्की जान्या न त मकन लान्या वन पनि ।
 भन्या मर्छु ख्वामित् ! अब अरु कुरा केहिन भनी ॥
 भनी आसन् बाँधी जब मरणमा निश्चय धन्या ।
 खुशी भै श्रीराम्ले पनि अति दयालू मन गन्या ॥१०७॥
 दिया सूचन् राम्ले गुरुकन बुझाऊ तिमि भनी ।
 गुरुले एकांतै लगिकन भरतजीकन पनि ॥

वही पूर्ण करने मैं वन जा रहा हूँ । बात सत्य है, यह मन में जान लो । १०३ प्रभु के इस उत्तर को सुन कर भरत बहुत ही दुःखित हुए और पुनः चरणों में गिरकर विनती करने लगे । हे स्वामी! मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लौटने की कृपा करें । दण्ड-स्वरूप इस वन में मैं ही निवास करता हूँ । १०४ ऐसे वचनों को सुनकर उन्होंने भरत को पुनः आज्ञा दी कि हे भाई! तुम लौट जाओ । यह राज्य बदलने से भी पिता जी का वचन झूठा हो जायगा । हे भाई! आज व्यर्थ ही फिर हठ क्यों करते हो । १०५ ऐसी आज्ञा सुन कर भरत फिर राम के चरणों में गिर कर विनती करने लगे, हे रघुपते! मैं आपकी शरण में हूँ और आपके चरणों के बिना एक क्षण रहने से भी मेरे मन में ताप होगा । यदि आप नहीं लौटते तो स्वामी के पीछे-पीछे मैं भी वन को जाऊँगा । १०६ न ही लौटेंगे और न ही मुझे वन ले जायेंगे तो मैं अब कुछ न कहूँगा, यूँ ही मर जाऊँगा । ऐसा कह कर जब मरने के लिए आसन बाँध लिया तो श्रीराम ने भी मन ही मन प्रसन्न हो अत्यन्त दया दिखाई । १०७ तब

बुझाया वात् खोलीकन सुन इ जो हुन् रघुपति ।
 जगन्नाथ साक्षात् हुन् त्रिभुवनपतीका अधिपति ॥१०८॥
 अधी ब्रह्माजीले सकल भुमिको भार् हर भनी ।
 स्तुती गर्दा खुश् भै सुन म हर्षला भार्हरु पनि ॥
 भन्याका हूनाले उहि वचन पालन् गरुं भनी ।
 प्रभू जान्छन् वन्मा पछि त सुन फिर्छन् घर पनि ॥१०९॥
 प्रभूकै इच्छा हो नतर कसरी कैकयि पनि ।
 वनै जाउन् भन्थिन् प्रभुकन रती तुल्य नगनी ॥
 कुरो यस्तो जानी नगर तिमि यो आग्रह यहाँ ।
 भुमीको भार् टारीकन पछि त जान्छन् प्रभु कहाँ ॥११०॥

रावण् मारि उतारि भारि भुमिको फिर्छन् जगन्नाथ् भनी ।
 यस्ता हुन् रघुनाथ् भनेर गुरुले खोलेर गुह्यै पनि ॥
 सब् विस्तार गरीदिया र गुरुको वाणी सुनी खुश् भया ।
 फर्क्यानिन् रघुनाथ् भनी मन बुझ्यो राम्कानजीवमा गया ॥१११॥
 हे नाथ् तत्त्व सुन्याँ म फिर्छु अब ता जान्छु अयोध्यामहाँ ।
 पूजा गर्न दिनु हवस् हजुरका एक जोर् खराऊ यहाँ ॥

राम ने गुरु से भरत को समझाने की विनती की । गुरु जी ने भरत को एकान्त में ले जाकर वात को स्पष्ट करके समझाया । सुना यह है कि रघुपति साक्षात् जगन्नाथ, तथा त्रिभुवनपति के भी अधिपति हैं । १०८ ब्रह्मा जी के सम्पूर्ण पृथ्वी के भार हरण करने की स्तुति पर प्रसन्न होकर श्रीराम ने भू-भार हरण करने का वचन दिया था । उसी वचन को पालन करने हेतु प्रभु अभी वन जा रहे हैं । इसके बाद वे घर भी लौटेंगे । १०९ यह सब प्रभु की ही इच्छा है । नहीं तो प्रभु को किंचित् मात्र भी न समझ कर कैंकेयी किस प्रकार वन जाने को कहती । इन बातों को जान-समझ कर तुम यह आग्रह न करो । भू-भार हरण करने के बाद प्रभु जायेंगे कहाँ (अर्थात् घर ही तो लौटेंगे) । ११० रावण को मार कर भू-भार हरण करके जगन्नाथ लौटेंगे । रघुनाथ की लीला चाहे गोपनीय हो, गुरु ने स्पष्ट रूप से विस्तार-पूर्वक वर्णन कर दी । गुरु की वाणी को सुनकर भरत प्रसन्न हुए और रघुनाथ लौट आयेंगे यह मन में जान कर राम के निकट गए । १११ हे नाथ ! मैंने सब तत्वों को सुन लिया । अब मैं अयोध्या जाता हूँ, पूजा हेतु आप अपनी दोनों खड़ाऊँ देने की कृपा करें । ऐसी विनती करके चारों ओर परिक्रमा करके भरत ने प्रणाम किया ।

यस्तो बिनति गरी प्रणाम् वरिपरी घुम्दै भरतले गन्या ।
 आपना साफि खराउ दी प्रभुजिले सब्ताप्भरत्काहन्या ॥ ११२ ॥
 फेरी बिनति गन्या तहाँ भरतले लौ फिर्दछु फिर्न ता ।
 चौधै वर्ष समाप्ति पारि नफिन्या मन्याछु साँचै म ता ॥
 यो बिनती सुनि लौ भनी भरतका साम्ने हुकूम भो तहाँ ।
 कैकेयी रघुनाथका चरणमा रूँदै परी खुप् तहाँ ॥ ११३ ॥
 हे नाथ् दुर्बुद्धि आई अति फजिति दियाँ राज्यको घात् गराई ।
 मायाले मोह पादाँ मन पनि भुलिगौ मेरि बुद्धी हराई ॥
 क्यारूँ नाथ् ! आज रुन्छु विपति गरिगयो आज यो चेत पायाँ ।
 कठपुतली झैँ नचाउँ छिन् त्रिभुवन कन सब्धन्य छन् तिम्रिमाया । ११४ ॥
 मेरो माया छ छोरा जन धनहरमा यो सबै खँचिदेऊ ।
 दुर्बुद्धी हो पछीं ता शरण परि भनी खुप् कृपा राखिलेऊ ॥
 कैकेयी येहि पाठ्ले स्तुति गरि हरिको पाउमा शीर धारिन् ।
 हे नाथ् आई शरणमा परि भनि करुणा राख यो बिनति पारिन् ॥ ११५ ॥
 हाँसी सीतापतीले पनि अभय दिया जो भन्यायाँ भन्यौ सो ।
 दोष् तिम्रो छैन यस्मा बुझ तिमि मनले मेरि इच्छा त हो यो ॥

अपनी पवित्र खड़ाऊँ देकर प्रभु ने भरत के सारे मानसिक ताप का हरण कर लिया । ११२ भरत ने पुनः विनती करते हुए कहा—लौटने के लिए तो मैं लौटता हूँ परन्तु चौदह वर्ष समाप्त कर यदि आप न लौटे तो मैं निश्चय ही मर जाऊँगा । यह विनती सुनकर लौटने का आश्वासन देते हुए राम ने भरत को आज्ञा दी । कैकेयी भी रोती हुई रघुनाथ के चरणों में गिर पड़ी । ११३ हे नाथ ! मैंने दुर्बुद्धि के कारण राजा को आघात पहुँचा कर घोर विपत्ति ढाई । माया के मोह में पड़कर मेरा मन भ्रमित हो गया और मेरी बुद्धि का नाश हो गया । क्या करूँ रघुनाथ ! विपत्ति आने पर आज रोती हूँ । आज यह समझ आयी है । हे त्रिभुवननाथ ! आप सबको कठपुतली के समान नचाते हैं, आपकी माया धन्य है । ११४ मेरा मोह जन-धन में है, यह आप जब चाहें खींच लें और जब आपकी इच्छा हो तब दुर्बुद्धि व्याप्त हो जाय; बाद में शरणागत जान कर मेरे ऊपर कृपा करें । यह स्तुति करके कैकेयी हरि के समाने झुक गयी और उनके चरणों में अपना सिर रख कर कहने लगी—हे नाथ ! मैं आपकी शरण में आयी हूँ, मुझ पर करुणा-दृष्टि रखें । ११५ कैकेयी ने जो कुछ भी किया था, हँस कर

मन्मा सन्तोष पाऊ मकन दिनदिनै सम्झँदै दिन् विताऊ ।
छुट्नुन् सब् कर्म तिम्रा रतिभर मनमा शोक् नराखेर जाऊ ॥११६॥

कैकेयी करुणा बुझी खुशि भई विदा प्रभूथ्यै भइन् ।
श्रीराम्को चरणारविन्द मनले भज्दै अयोध्या गइन् ॥
सब् लश्करहरु ली भरत् पनि विदा भै फेर अयोध्या गया ।
सब् लश्करहरुलाइ राखि घरमा आफू फरक्भै रह्या ॥११७॥

नन्दीग्राममा सन्याका भूमिशयन गरी रोज् फलाहार गन्याका ।
एक् गट्ठा सब् जटाको गरिकन ति खराउ गादिमाथी धन्याका ॥
गर्थ्या सब् राज्यको काम् तपनि सब कुरा गादिमा विन्ति गर्दै ।
यस्तै रीत्ले विताया दिन भरतजिले राममा चित्त धर्दै ॥११८॥

केही दिन् चित्रकूटमा बसिकन रघुनाथ् वाल्मीकीथ्यै विदा भै ।
जान्छू वन्मा म फिछू भनिकन खुशिले अत्रिका आश्रमै गै ॥
अत्रीका पाउमा शिर् धरिकन म त हूँ राम् भनी नाम् वताया ।
श्रीराम्का वाणि सुन्दा मन अति खुशि भै अत्रिले हर्ष पाया ॥११९॥

सीतापति ने भी उसके कृत्यों को क्षमा करके उसे अभयदान दिया और कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह मेरी ही इच्छा है। यह मन में सोचकर मेरी ओर से सन्तोष धारण करो और मेरा स्मरण करती हुई दिन व्यतीत करो। सब अपराधों से तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम मन में चिंचित् मात्र भी शोक न करो और जाओ। ११६ कैकेयी भी राम की करुणा को समझ कर प्रसन्न हुई और प्रभु से विदा लेकर अपने मन में राम के चरणारविन्दों का भजन करती हुई अयोध्या चली गयी। भरत भी सम्पूर्ण सेना-सहित विदा लेकर अयोध्या चले गए। सारी सेना को घर में रखकर स्वयं दूसरे स्थान पर निवास करने लगे। ११७ भरत जी नन्दीग्राम में भूमि पर शयन करते। सदैव फलाहार ग्रहण करते। जटा को एक जूट करके बाँधते। खड़ाऊँ को अपनी गोद में रख कर सेवा करते तथा गद्दी पर स्थापित कर सविनय ध्यानपूर्वक राज्य के सभी कार्य करते। इसी प्रकार नियमित रीति से भरत जी ने राम के ध्यान में लीन हो दिन व्यतीत किए। ११८ कुछ दिन चित्रकूट में रहकर रघुनाथ ने वाल्मीकि से वन जाने के लिए विदा ली। उपरांत अत्यन्त हर्ष के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में जाकर उनके चरणों में सिर नवा कर अपना परिचय दिया। श्रीराम की वाणी सुन, मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। ११९ सीतापति की पूजा कर ऋषि ने उनके चरणों

पूजा सीतापतीको गरिकन ऋषिले पाउमा बिनित लाया ।
 वृद्धा छन् पत्नि मेरी सकल विषयमा एक रती छैन माया ॥
 भित्तै छन् आज दर्शन् दिन मढुलिविषे भित्त सीताजि जाउन् ।
 सीताजीलाइ पाई अब त ति बुढिले जन्मको सार पाऊन् ॥१२०॥
 अत्रीको बिनित सूनी हुकुम पनि दिया लौ सिता भित्त जाऊ ।
 अत्रीकी पत्नि भेटीकन अब तिमिले जल्द फर्केर आऊ ॥
 आपना नाथको हुकूम यो सुनिकन खुशि भै भित्त सीताजि जाई ।
 भेटिन् वृद्धा बहुत् भैकन बसिरहन्या अत्रिकी पत्निलाई ॥१२१॥
 सीताले पाउमा शिर् धरिकन बहुतै प्रेम बुढीमा बढाइन् ।
 जोर् जोर् कुण्डल् र सारी दिइकन बुढिले अङ्गराग् फेर चढाइन् ॥
 यस्ले शोभा निरन्तर दृढ पनि रहला यो पनी बिनित लाइन् ।
 सीताजीलाइ आशिष् दिइ ति अनसुयाले बहुत् हर्ष पाइन् ॥१२२॥

सीता र लक्ष्मण सहित् गरि रामलाई ।

भोजन् मा दिन्छु भनि खुप्सित चीज् बनाई ॥

भोजन् गराइ रघुनाथकि जानि माया ।

ताहाँ सपत्नि भइ रामकि कीर्ति गाया ॥१२३॥

अयोध्याकाण्ड समाप्त

में विनती की कि मेरी पत्नी वृद्धा है और उसके मन में किंचित् मात्र भी भक्ति नहीं है । अतः दर्शन देने के लिए सीताजी अन्दर पधारने की कृपा करें, जिससे सीताजी के दर्शन प्राप्त कर बुढ़िया को जन्म के फल प्राप्त हो जायें । १२० अत्रि की विनती सुनकर श्रीराम ने सीता को अन्दर जाने की आज्ञा दी । अत्रि की पत्नी से भेंट करके अब तुम शीघ्र ही लौट आओ । अपने नाथ की आज्ञा पाकर प्रसन्न हो सीता अन्दर गई और अत्यन्त वृद्धा अत्रि-पत्नी से भेंट की । १२१ सीता ने पैरों पर सिर रख कर वृद्धा के प्रति अत्यन्त प्रेम प्रदर्शित किया । अत्रि-पत्नी ने सीता जी को जोड़-कुण्डल और साड़ी देकर उबटन का लेप किया और कहा कि इससे तुम्हारे शरीर की शोभा स्थिर रहेगी । इस प्रकार सीता जी को आसीस देकर अनसूया को अत्यन्त हर्ष प्राप्त हुआ । १२२ सीता एवं लक्ष्मण-सहित राम को भोजन कराने के लिए विविध प्रकार के भोजन तैयार किये । भोजन करा के रघुनाथ की माया को समझ कर ऋषि तथा उनकी पत्नी दोनों ने राम-कीर्ति के गीत गाये । १२३

अयोध्याकाण्ड समाप्त

अरण्यकाण्ड

अत्रीका आश्रमैमा बसि रघुपतिले प्रेमले दिन् वितार्ई ।
दोस्त्रा दिनमा सबेरै उठिकन बनमा जान मन्सुव् चितार्ई ॥
अत्रीजीका नजीक्मा गइकन अब ता जान्छु बीदा म पाऊँ ।
रस्ता यो जाति होला भनिकन कहन्या एक् अगूवा म पाऊँ ॥ १ ॥

सीताराम्को हुकूम यो सुनिकन ऋषिले भन्दछन् क्या वताऊँ ।
सबको रस्ता त देख्न्या यहि हजुर भन्या कुन् अगूवा खटाऊँ ॥
चिन्छू लीला हजुरको तरपनि अगुवा याहि अस्सल् खटाई ।
यै मर्जी पूर्ण गर्नाकन पनि अगुवा आज दिन्छू पठाई ॥ २ ॥

अत्रीले बिनति येती गरिकन अगुवा शिष्य धेरै खटाया ।
केही रस्ता त आफै पनि पछि पछि गै रामलाई पठाया ॥
एक् कोश तक् पौचँदामा बडि नदि बहँदी नाउले तर्नुपन्या ।
मिल्थिन् त्योतारिफकर्या मढितिर ऋषिकाशिष्य सब्फिर्नु पन्या ॥ ३ ॥

सीताराम् बनमा पुग्या बन थियो साह्रै खजित्को तहाँ ।
बाघ् भालू अरु दुष्ट राक्षसहरू डुल्छन् निरन्तर् जहाँ ॥

अत्रि के आश्रम में रघुपति ने प्रेमपूर्वक दिन व्यतीत किया । दूसरे दिन सबेरे उठकर वनगमन का निश्चय कर अत्रि जी के निकट जा कर विदा माँगी और कहा कि उत्तम पथ-प्रदर्शक की भी व्यवस्था कर दें । १ सीताराम का यह आदेश सुन कर ऋषि कहते हैं कि जब श्रीमन् स्वयं ही सब को पथ-प्रदर्शन करनेवाले हैं तो मैं आपके लिए किस पथ-प्रदर्शक को भेजूँ । आपकी लीलाओं को मैं भली प्रकार जानता हूँ, फिर भी मैं आपकी इच्छा-पूर्ति के लिए इस समय एक पथ-प्रदर्शक को भेज दूँगा । २ अत्रि यह विनती करके कुछ दूर तक स्वयं ही राम के पीछे-पीछे गये और कई शिष्यों को पथ-प्रदर्शनार्थ नियुक्त कर दिया । एक कोस चलने के पश्चात् एक बड़ी नदी को नाव द्वारा पार करवा कर ऋषि के सब शिष्य आश्रम की ओर लौट पड़े । ३ सीताराम जिस वन में पहुँचे वह अत्यन्त घना था, जहाँ बाघ, भालू तथा दुष्ट राक्षसगण निरन्तर घूमा करते थे । वहाँ पहुँच तत्पर होकर प्रभु जी

ताहाँ पौत्रि हुकूम भयो प्रभुजिको
 सीताका म अगाडि हिङ्छु तिमिले
 यस्ता बात् गरि राम लक्ष्मण तहाँ
 एक सुन्दर बनमा तलाउ मिलिगो
 ठण्डा जल तहि पान् गरेर रघुनाथ्
 आयो तहि विराध राक्षस ठुलो
 को हौ स्त्री पनि साथमा छ किन यो
 कस्तो सुर मनमा छ फेर अब उपर
 मैले सुन्दर गाँस् बनाउन असल्
 सब नाम् कामस मेत् बताउ तिमिले
 राक्षस्का इ वचन् सुनी प्रभुजिले
 बाँच्ने मन् छ भन्या सिता र हतियार्
 यस्तो बोलि सिताजिलाइ लिन सुर
 दौडेथ्यो रघुनाथले पनि ति हात्
 जसै हात गिन्या तसै त रिसले
 दौडन्थ्यो मुख बाइ फेर प्रभुजिले

भाई ! तयारी भई ।
 हिङ्नु पछाडी रही ॥ ४ ॥
 हिङ्थ्या तयारी भई ।
 ठूलो छ कोश वन् गई ॥
 छायाँ बस्याथा जसै ।
 डर् दीन लाग्यो तसै ॥ ५ ॥
 आयौ बडा वन्महाँ ।
 जानू छ इच्छा कहाँ ॥
 मान्याँ र सोध्याँ यहाँ ।
 जुन् काम् छ जान्छौ जहाँ ॥ ६ ॥
 नाम् काम् बताया सबै ।
 छोडेर जाऊ उसै ॥
 बाँधेर राक्षस् जसै ।
 दूवै गिराया तसै ॥ ७ ॥
 खाँ रामलाई भनी ।
 काट्या ति गोडा पनि ॥

ने आज्ञा दी कि भाई लक्ष्मण ! तुम सीता के पीछे-पीछे हो लो, मैं आगे-आगे चलता हूँ । ४ इस प्रकार बातचीत कर राम-लक्ष्मण तत्परता से चल पड़े । लगभग एक कोस चलने के पश्चात् एक सुन्दर वन में पहुँचे जहाँ एक तालाब मिला । शीतल जल पान कर जैसे ही रघुनाथ एक वृक्ष के नीचे उसकी छाया में बैठे कि एक बड़ा विशालकाय भयंकर राक्षस वहाँ आकर उन्हें भयभीत करने लगा । ५ तुम कौन हो जी जो स्त्री के साथ इस बीहड़ वन में आये हो । तुम्हारे मन में क्या इच्छा है और आगे कहाँ जाना चाहते हो ? सब नाम, काम सहित, किस कार्य वश कहाँ जाओगे इत्यादि बातें सविस्तार बताओ । तुम्हें अपने उदर का आहार बनाने की इच्छा हुई है इसी कारण से पूछ रहा हूँ । ६ राक्षस के इन वचनों को सुन कर राम ने नाम तथा काम सब बता दिया । राक्षस ने कहा, यदि जीवित रहना चाहते हो तो सीता और अस्त्रों को छोड़ कर चले जाओ । इतना कहकर मन में निश्चय कर के राक्षस सीता को पकड़ने के लिए दौड़ा, वैसे ही रघुनाथ ने उसकी दोनों भुजाओं को काट दिया । ७ भुजाएँ कट कर गिरते ही राक्षस क्रोधित होकर जैसेही राम को भक्षण करने के लिए दौड़ा वैसे ही प्रभु ने उसके पावों को भी काट

हात् गोडा नहुँदा त सर्प सरिको पसून्यो भुमीमा जसै ।
 हात् गोडा सब कटिया तब पनी घस्त्रेर आयो तसै ॥ ८ ॥
 घस्त्री घस्त्रि उ सदर्थ्यो प्रभुजिले काट्या तहाँ शिर् पनि ।
 विद्याधर् गण हो छुटोस् अब सराप् जाओस् परमधाम् भनी ॥
 राक्षस् देह मन्या सराप् पनि टन्यो विद्याधरै फेर भयो ।
 श्रीराम्को स्तुति खुप् गरेर खुशि भै फेर स्वर्गलोक्मा गयो ॥ ९ ॥
 जस्सै स्वर्ग विराध् गयो प्रभुजिले रस्ता वनैको लिया ।
 पालन् गर्छुम योगिको अब भनी मन्मा दया खुप् लिया ॥
 ध्यान् गर्दै शरभङ्गजी बनमहाँ जाहाँ बस्याका थिया ।
 ताहीं श्रीरघुनाथजी खुशि हुँदै पांचेर दर्शन् दिया ॥ १० ॥
 ताहीं श्रीशरभङ्गले प्रभुजिमा तन् मन् वचन् सब् धरी ।
 आपन् कर्म जती थियो तहि तती सम्पूर्ण अर्पण् गरी ॥
 अस्सल् ताहि चिता बनाइ हरिको दर्शन् नजरले गरी ।
 ताहाँ देह दहन् गरी चलिगया संसार सागर् तरी ॥ ११ ॥
 मुक्ति श्रीशरभङ्गको जब भयो तस्सै मुनीश्वरहरू ।
 आया भेट्न भनी बहुत खुशि भई वन्मा थिया जो अरू ॥

दिया । हाथ-पाँव से रहित होकर वह सर्प के समान पृथ्वी पर लोटने लगा, फिर भी वह खिसक-खिसक कर आगे बढ़ा । ८ इस प्रकार खिसकते हुए आता देख प्रभु ने उसका सिर भी काट दिया । वह पहले विद्याधर था । अब श्राप से मुक्त हो उसका राक्षस शरीर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसने पुनः विद्याधर के रूप को धारण किया, तथा अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक श्रीराम की स्तुति कर स्वर्गलोक को चला गया । ९ विद्याधर के स्वर्ग चले जाने के बाद प्रभु जी ने वन का मार्ग लिया । दया से भर कर योगियों के कष्ट-निवारण के लिए श्रीरघुनाथजी श्रीशरभंग का स्मरण कर के उनके आश्रम में जाने के लिए उस वन की ओर चल दिए । १० श्रीशरभंग जी ने वहाँ प्रभु में ही अपना तन, मन, धन से ध्यान लगाकर कर्म-मुक्त होकर एक उत्तम चिता का निर्माण करके हरि के दर्शन किये । तदुपरान्त शरीर को अग्नि में समर्पित कर संसार-सागर तर कर चले गये । ११ श्रीशरभंग जी की मुक्ति होते ही अन्य मुनीश्वरगण जो वन में थे प्रसन्न चित्त से भगवान् से भेंट करने के लिए आये । उन्हीं को अपना स्वामी जान कर खूब स्तुति की ।

हात्जोरी स्तुति खुप् गन्या ति ऋषिले	खामित् इनै हुन् भनी ।
कोमल चित्त गरी तहाँ नजरले	हेन्या प्रभूले पनि ॥ १२ ॥
बिन्ती सब ऋषिले गन्या हजुरमा	हाम्रो विपत्ती पनि ।
देख्या पूर्ण दया हुन्या थिइ बहुत्	आपत् रह्याछन् भनी ॥
जाऔं सब ऋषिका मठीमठिविषे	वाहीं गई यो दया ।
होला चित्तविषे भनी ति ऋषिले	भन्दा प्रभूजी गया ॥ १३ ॥
देख्या तेस् वनमा अनेक् पृथिविमा	खप्पर र सोध्या तहाँ ।
कस्का खप्पर हुन् अनेक् नजरले	देख्छू मन्याका यहाँ ॥
श्री सीतापतिका वचन् सुनि तहाँ	बिन्ती ऋषीले गन्या ।
ई शिर् हुन् ऋषिका यहाँ छल परी	धेरै ऋषीश्वर् मन्या ॥ १४ ॥
राक्षस्का छलले बहुत् ऋषि मन्या	भन्या कुरा यो सुनी ।
ताहाँ सब ऋषिलाइ राखि सबका	साम्ने प्रतिज्ञा पनि ॥
सब राक्षस्हरुको म' नष्ट गरुंला	भन्या प्रभूले गन्या ।
खूशी मन् हुनगो र ताहिं ऋषि ता	आनन्दमा सब पन्या ॥ १५ ॥
केही वर्ष त्रिताइ ताहिं हरिले	सब योगिको ताप् हन्या ।
माया फेरि सुतीक्षणका उपर भै	प्रस्थान् प्रभूले गन्या ॥
जाहाँ भक्त सुतीक्षण छन् तहिं गई	दर्शन् प्रभूले दिया ।
पूजा पूर्ण गरी सुतीक्षण ऋषिले	राम्लाइ मन्मालिया ॥ १६ ॥

प्रभु ने भी शान्त एवम् कोमल हृदय से उन्हें देखा । १२ सब ऋषियों ने प्रभु के समक्ष विनती की कि हमारी विपत्तियों को देख कर, हे रघुनाथ ! आप अवश्य दया करेंगे । आपत्ति से पीड़ितों के मठों में स्वयं जा कर दया करने की कृपा करेंगे । तदनुसार प्रभु जी सभी ऋषियों के आश्रमों में गये । १३ उस वन में पहुँच कर अनेक मृतकों की खोपड़ियों को बिखरा हुआ देखकर प्रभु को यह जानने की उत्कण्ठा हुई कि ये किसकी खोपड़ियाँ हैं । श्रीसीतापति के वचनों को सुन कर ऋषि ने विनती की कि ये शीश छल द्वारा मारे गये ऋषीश्वरों के हैं । १४ राक्षसों द्वारा छल से मारे गये ऋषियों की मृत्यु का कारण जान कर, सभी उपस्थित ऋषियों को एकत्र करके उनके समक्ष प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि मैं सब राक्षसों को नष्ट कर दूँगा; यह सुन कर ऋषिगण अत्यन्त आनन्दित हुए । १५ कुछ वर्षों तक वहीं रह कर हरि ने सब ऋषियों के कष्टों का हरण किया । इसके पश्चात् सुतीक्षण के ऊपर कृपा करने हेतु प्रभु ने वहाँ से प्रस्थान

सयुज्यै मुक्ति मिल्ला तिमिकन सुन यो देह जैले त छुट्ला ।
 भय्या आज्ञा प्रभूको सुनिकन अब ता कर्मको पाश टुट्ला ॥
 भय्या यो मन् ऋषीको हुन गइ बहुतै चित्तमा हर्ष पाया ।
 सीताराम्ले अगस्ती सित गइ कछु दिन् बस्न मन्ले चिताया ॥१७॥

प्रभूका साथैमा पछि पछि सुतीक्षणै पनि गया ।
 अगस्तीका भाई सित पुगि त एक रात् प्रभु रह्या ॥
 ति अग्नीजिह्वा खुप् खुशि पनि भया ईश्वर भनी ।
 चिनी ताहाँ तिन्ले विधिसित गन्या पूजन पनि ॥१८॥

तहाँ देखी सीतापति उठि सबेरै चलिगया ।
 अगस्ती काहाँ छन् भनि खबर ली दाखिल भया ॥
 अगस्तीले खुश भै स्तुति गरि बहुत् मन् पनि धन्या ।
 विराट् रूप्ले वर्णन् गरिकन त पूजा पनि गन्या ॥१९॥

सुन्दर धनू र तरवार सँग बाण धन्याका ।
 ठोक्रा त जोडि अधि इन्द्रजिले धन्याका ॥
 ताहीं थिया सब दिया रघुनाथलाई ।
 बिनती गन्या सकल भार हर आज जाई ॥२०॥

किया । भक्त सुतीक्षण को प्रभु ने दर्शन दिया । पूजा पूर्ण करके ऋषि सुतीक्षण ने मन में राम का ध्यान किया । १६ राम ने विचार प्रगट किया कि इस शरीर से सायुज्य मुक्ति मिलनी चाहिए । देह से छुटकारा पाने की बात प्रभु से सुन कर वह अत्यन्त हर्षित हुए । उन्हें यह सोच कर बड़ा सन्तोष हुआ कि अब मैं कर्म के बन्धन से भी मुक्त हो जाऊँगा । सीताराम ने अगस्त्य मुनि के पास जाकर वहाँ कुछ दिन रहने का विचार किया । १७ सुतीक्षण भी प्रभु के साथ हो लिये । अगस्त्य के भाई के पास जा कर प्रभु एक रात वहाँ रहे । उन्हें ईश्वर जान कर अग्निजिह्वा मुनि भी अत्यन्त प्रमुदित हुए । उन्होंने श्रीराम का पूजन विधिवत किया । १८ वहाँ से उठ कर सीतापति सबेरे ही चले गए । अगस्त्य जी के आश्रम का पता लेकर वहाँ पहुँच गए । अगस्त्य ने भी मन ही मन ध्यान धर के स्तुति की और विराट रूप से पूजा भी की । १९ वहाँ पर अगस्त्य ने इन्द्र का रक्खा हुआ सुन्दर धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस की जोड़ी श्रीरघुनाथ को अर्पण की और बिनती की कि आज ही जाकर पृथ्वी का सम्पूर्ण भार हरण कीजिये । २०

आठ् कोशम असल पञ्चवटी भन्याको ।
 आश्रम् असल् छ रमणीय बहुत् बन्याको ॥
 ताहीं बसेर कुछ दिन् तिमिले बिताऊ ।
 सब् साधुमाथि करुणा तहिं गै चिताऊ ॥२१॥

यस्तो अगस्ति ऋषिको उपदेश पाई ।
 श्रीराम् तयार् पनि भया तहिं जानलाई ॥
 मालूम् थियो त पनि जुन् ऋषिले वताया ।
 सो मार्ग जानकन पाउ उतै चलाया ॥२२॥

जान्थ्या प्रभू अलिकती पर केहि जाई ।
 जंगल्विषे अधिक वृद्ध जटायुलाई ॥
 देख्या र राक्षस भनीकन मार्ललाई ।
 माग्या धनू प्रभुजिले र लिला जनाई ॥२३॥

मान्या कुरा सुनि जटायु बहुत् डराई ।
 राजाजिको प्रिय सखा हूँ भनी कराई ॥
 गर्न्याछु हित् यहि वसी म सिताजिलाई ।
 कल्याण् मिलोस् हजुरदेखि बहुत् मलाई ॥२४॥

श्रीरामले पनि तहाँ अति खूशि मनले ।
 आनन्द निर्भय दिया पछि फेरि तिनले ॥

यहाँ से आठ कोस की दूरी पर एक अति उत्तम एवं रमणीय आश्रम है जिसे पंचवटी कहते हैं; तुम वहीं रहकर कुछ दिन व्यतीत करो और समस्त साधुवर्ग पर करुणा करके उनके कष्ट-निवारण का उपाय सोचो । २१ अगस्त ऋषि के ऐसे उपदेश पाकर श्रीरामजी भी जाने के लिए तत्क्षण तैयार हो गये । यद्यपि वह सब कुछ स्वयं ही जानते थे, फिर भी ऋषियों के वताये हुए मार्ग से चल पड़े । २२ कुछ दूर चल कर जंगल के मध्य में एक अत्यन्त वृद्ध गिद्ध (जटायु) को देखा । उसे राक्षस समझ कर मारने के लिए प्रभु ने धनुष माँगा । २३ मारे जाने की बात सुनकर जटायु बहुत भयभीत हुआ और चिल्लाकर कहने लगा कि मैं राजा दशरथ का प्रिय सखा हूँ और यही रहकर मैं सीता जी का कुछ कल्याण करूँगा; अतः आप मेरे ऊपर कृपा-दृष्टि रखें और मेरा कल्याण करे । २४ श्रीराम ने भी अत्यन्त प्रसन्न मन से उसे अभयदान दिया । तदुपरान्त उसने पुनः विनती की कि हे स्वामी ! मैं आपकी शरण

ख्वामित् ! शरण् छु भनि खुप्सित बिनित लाया ।
 श्रीराम् तहाँपछि त पञ्चवटी त आया ॥२५॥
 डेरा पय्यो प्रभुजिको तहिं वीच वनमा ।
 एकान्त देखिकन हर्ष भयो र मनमा ॥
 आनन्द पूर्वक रह्या रघुनाथ ताहीं ।
 आर्को त आश्रम नजीक थियेन काहीं ॥२६॥
 एकान्त देखिकन लक्ष्मणले चरणमा ।
 बिनती गरया रघुपती ! म त छू शरणमा ॥
 ज्ञान् कुन् कहिन्छ भनि कुन् त कहिन्छ विज्ञान् ।
 जान्दीनें केहि म विषे त ठुलो छ अज्ञान् ॥२७॥
 आज्ञा हवस् सकल तत्त्व म सुन्न पाउँ ।
 जान्नया पुरुष् अरु छ को र करा म जाऊँ ॥
 यो बिनित लक्ष्मणजिको सुनि हर्ष पाया ।
 लक्ष्मणजिलाइ सब तत्त्व तहाँ बताया ॥२८॥
 ये ज्ञान् कहिन्छ सुन येहि कहिन्छ विज्ञान् ।
 यो रीत् गरीकन बस्या हुँदि छुट्छ अज्ञान् ॥
 खोलेर येहि रितले प्रभुले बताया ।
 लक्ष्मणजिले पनि तहाँ सब तत्त्व पाया ॥२९॥
 ये वीचमा नजिक शूर्पणखा त आई ।
 देख्या तहीं प्रभुजिले पनि दुष्टलाई ॥

में हूँ । इसके बाद श्री राम पंचवटी चले गये । २५ उसी वन के मध्य में श्रीराम जी का डेरा पड़ा । निकट में और कोई आश्रम नहीं था । एकान्त स्थान देख वे मन में हर्षित हुए और आनन्दपूर्वक वहीं रहने लगे । २६ एकान्त वन को देखकर लक्ष्मण ने श्रीरघुपति से कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ । ज्ञान-विज्ञान का मुझे कोई ज्ञान नहीं । यही मुझमें अज्ञानता है । २७ अतः सब तत्त्वों को मुझे सुनाने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ और अन्य कौन पुरुष है, जिसके पास मैं जाऊँ । लक्ष्मण की यह बिनती सुनकर राम अत्यन्त हर्षित हुए और उन्हें तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया । २८ ज्ञान-विज्ञान के विषय में समझा कर तथा किस रीति से अज्ञान का नाश होता है, यह सभी स्पष्ट रूप से प्रभु ने बताया और लक्ष्मण ने भी उन सब तत्त्वों को सीख लिया । २९ इसी वीच शूर्पणखा भी वहाँ आ

कन्दर्पका वश परी प्रभुको नजीक् गै ।
 सोधी तहाँ प्रभुजिलाइ बहुत खुश भै ॥३०॥
 नाम् सब कह्या प्रभुजिले जब नाम सूनी ।
 ऐले म भज्दछु पति भनि येति गूनी ॥
 बिन्ती गरी मकन पति बनाइलेऊ ।
 कन्दर्पको कठिन ताप छुटाइदेऊ ॥३१॥
 यस्ता वचन् सुनि सिताकन हाँसि हेरी ।
 उत्तर दिया प्रभुजिले संगमै छ मेरी ॥
 सीता बुझीकन नभज् तँ पती मलाई ।
 भाई छ खालि वरु भज् पति भाइलाई ॥३२॥
 साँचो भन्या भनि त लक्ष्मणका नजीक् गै ।
 आयाँ म पति हुन येति भनेर खुश भै ॥
 सून्या वचन् सकल लक्ष्मणले र ताहाँ ।
 दास् हूँ म ता मसित कुन् सुख मिलछ याहाँ ॥३३॥
 जा वाहिं मालिक उ हुन् उहिं वस्नु अच्छा ।
 बुद्धी रहेनछ बहुत् रहिछस् तँ कच्चा ॥
 यस्ता वचन् सुनि र शूर्पणखा रिसाई ।
 सीताजिलाइ अब खाँ भनि फकि आई ॥३४॥

गयी । प्रभु ने भी उस दुष्टा को देखा । घमण्ड के वशीभूत हो अत्यन्त हर्ष से भरी वह प्रभु के निकट गयी और उनसे प्रश्न किया । ३० प्रभु ने अपना परिचय दिया । उसने जब प्रभु का नाम सुना तो मन में कुछ सोचकर विनती की कि मुझे भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर कामदेव के कठिन ताप से मुक्त करने की कृपा करें । ३१ ऐसे वचन सुनकर सीता की ओर हँसकर देखते हुए प्रभु ने उत्तर दिया कि घर में मेरी पत्नी सीता बैठी है, अतः मुझे तुम पति न कहो । भाई लक्ष्मण अकेला है अतः उसे ही पति कहकर भजो । ३२ इस कथन को सत्य मानकर शूर्पणखा लक्ष्मण के निकट गयी और पत्नी बनने की इच्छा प्रकट करके अत्यन्त हर्षित हुई । लक्ष्मण ने उसकी वाते सुनकर कहा कि मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे तुम्हें यहाँ क्या सुख प्राप्त हो सकता है । ३३ जहाँ अपना मालिक है, वहीं रहना उत्तम है । तुम बुद्धिहीन हो और ज्ञान में परिपूर्ण नहीं हो । ऐसे वचन सुनकर शूर्पणखा क्रोधित हुई और सीता जी को भक्षण करने के लिए दौड़ी । ३४ पृथ्वी के भारहरण-हेतु प्रभु ने वीज बोया और लक्ष्मण

भार् हर्न बीज् प्रभुजिले तहि रोप्न आँटचा ।
 लक्ष्मणजिलाइ भनि नाक र कान काटचा ॥
 आज्ञा लि लक्ष्मणजिले पनि काटिदीया ।
 भागी डराइकन भाइ जहाँ त थीया ॥३५॥

विस्तार् गरी त्रिशिर दूषण खर् भन्याका ।
 राक्षस् पनी सुनि ति अग्नि सरी वन्याका ॥
 आया जहाँ प्रभु थिया तहि तीन भाई ।
 लशकर् समेत् अधिक जल्दि कदम् बढाई ॥३६॥

राक्षस् भनी प्रभुजिले तहि चाल पाया ।
 लक्ष्मणजिलाइ तहि काम् प्रभुले अह्लाया ॥
 हे भाइ ! आज तिमिले इ सिताजिलाई ।
 गुफाविषे लागि वसीरहु जल्दि जाई ॥३७॥

एक् वात् नवोलिकन जल्दि उठेर जाऊ ।
 संग्रामको बखत भो अब वेर् नलाऊ ॥
 माछूँ म दुष्टकन तेज् अधिकै जनार्ई ।
 चौधै हजारकन सहज् टुकुरा बनाई ॥३८॥

यस्तो हुकूम हुन गयो र सिताजिलाई ॥
 लक्ष्मणजिले संग लिईकन जल्दि जाई ।
 गुफाविषे बसिरह्या रघुनाथ तयारी-
 चाँडै भया धनु र बाण्हरु ठिक्क पारी ॥३९॥

जी के द्वारा शूर्पणखा की नाक और कान दोनों कटवाये । इससे भयभीत होकर शूर्पणखा अपने भाई के पास भाग खड़ी हुई । ३५ खर, दूषण तथा त्रिशिरा राक्षसों को शूर्पणखा ने विस्तारपूर्वक सारी घटना सुनायी, जिसे सुनते ही अग्नि के समान अपनी सेना को लेकर शीघ्रता से तीनों भाई वहाँ पहुँचे, जहाँ प्रभु विराजमान थे । ३६ प्रभु जी ने राक्षसों को पहचान कर लक्ष्मण को कार्य सौंपते हुए कहा, “हे भाई ! आज तुम सीता को लेकर गुफा के बीच जाकर रहो । ३७ कुछ भी न कहकर शीघ्रता से उठकर चले जाओ । संग्राम का समय आ गया है, अब देर न करो । दुष्टों को मैं तीव्रता से मार डालूँगा और चौदह हजार सेनाओं को सहज ही मैं टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा । ३८ ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर तुरन्त चले गये और गुफा के अन्दर बैठे रहे । श्रीरघुनाथ भी धनुष

आया खर त्रिशिर दूषण तीन भाई ।
 लशकर समेत संग लिईकन रिस् बढाई ॥
 ठाकुरजिका उपर बाणकि वृष्टि पाऩ्या ।
 ठाकुरजिले पनि ति बाण सब काटि टाऩ्या ॥४०॥
 तिन्का ति सर्व हतियारहरु काटि टारी ।
 सम्पूर्ण राक्षसहरुकन जल्द मारी ॥
 काट्या खर त्रिशिर दूषणलाइ ताहाँ ।
 सम्पूर्ण राक्षस सक्या घरि चारमाहाँ ॥४१॥
 माऩ्या खर त्रिशिर दूषणलाइ जस्सै ।
 सीता र लक्ष्मण पनी प्रभुसीत तस्सै ॥
 आया डराइकन शूर्पणखा त भागी ।
 रावण जहाँ छ उहिं जाँ भनि जान लागी ॥४२॥
 रावण जहाँ छ उहिं पौचि विलाप गर्दै ।
 सब भाइ बन्धुहरुको मनलाइ हर्दै ॥
 देख्यो तहाँ बहिनिलाइ त नाक् गयाकी ।
 त्यो फेरि बुच्चि पनि कान नभै रह्याकी ॥४३॥
 माया भयो बहनिमाथि र अट्ट उठ्यो ।
 विस्तार सोध्न नजिकै पनि जल्द छूट्यो ॥

और बाणों को ठीक करके तत्परता से तैयार हो गये । ३९ खर, त्रिशिरा और दूषण तीनों भाई अत्यन्त कुपित हो सेना-सहित आ गये । उन्होंने राम के ऊपर बाणों की वृष्टि की । श्रीराम ने भी उन सब बाणों को काटकर नष्ट कर दिया । ४० उनके सारे हथियारों को काट कर सब राक्षसों को भी तुरन्त मार डाला । चार घण्टे के अन्दर खर, त्रिशिरा और दूषण-सहित सारी राक्षस-सेना को समाप्त कर दिया । ४१ जैसे ही खर, त्रिशिरा और दूषण का वध हुआ, वैसे ही सीता और लक्ष्मण भी प्रभु के पास आ गये । और शूर्पणखा भयभीत होकर रावण के पास भाग गयी । ४२ रावण के पास पहुँच कर वह विलाप करने लगी । उसके दुःख से सभी भाई-बन्धु प्रभावित हो गये । उन्होंने बहन की नाक कटी हुई देखी तथा उसको कानों से भी विहीन देखा । ४३ बहन की इस अवस्था को देख वे सब करुणा से परिपूर्ण हो गये और उसके निकट जाकर उसी समय सारा हाल विस्तारपूर्वक जानने की जिज्ञासा प्रकट की । उन्होंने पूछा, हे बहन, तेरी नाक और कान काटनेवाला यह कौन

हे बैनि ! कुन् पुरुष हो भन नाक काट्न्या ।
 खूवै रहेछ सहजै पनि मर्न आँट्न्या ॥४४॥
 जस्ले त नाक् सित इ कान्कन आज काट्चो ।
 हे बैनि ! जान सुन त्यो अग मर्न आँट्चो ॥
 यस्ता वचन् सुनि र नाम समेत् वताई ।
 सीता र लक्ष्मण सहित् रघुनाथलाई ॥४५॥
 ती छन् पराक्रमि त पञ्चवटी वस्याका ।
 ठोक्रा भिरीकन धनु पनि खुप् कस्याका ॥
 गर्छु विचार मनले त यही म मान्छु ।
 सब् भस्म पो गरिदिनन् कि भनेर ठान्छु ॥४६॥
 आईरह्याँछु म त खुप्सित मन् डराई ।
 फिर्छन् ति सर्व ऋषिलाइ त खुष् गराई ॥
 आश्चर्य मानिकन दौडि म याहिं आयाँ ।
 विस्तार पनी हजुरमा सब विन्ति लायाँ ॥४७॥
 सीताजिलाइ अति सुन्दरि मानि ताहाँ ।
 ल्याऊँ टपक्क टिपि सुन्दरिलाइ याहाँ ॥
 भन्ना-निमित्त अति चित्त धरी गयाकी ।
 पायाँ विपत् नकटि बुच्चि समेत् भयाकी ॥४८॥
 ल्याऊ समर्थ छ भन्या तिमि आज जाऊ ।
 साम्ने त हर्न छ कठिन् तिमि मन् नलाऊ ॥

पुरुष है, जिसने सहज ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है । ४४
 जिसने भी यह कुकर्म किया है, हे वहन, तुम यह जान लो कि अब वह
 मृत्यु को प्राप्त होनेवाला है । यह सुनकर शूर्पणखा ने सीता, लक्ष्मण
 और राम के नाम वता दिये । ४५ पंचवटी में तीन पराक्रमी हैं, जो
 तरकस एवम् धनुष-बाण धारण किये हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबका
 नाश कर देंगे । ४६ मैं अत्यन्त भयभीत होकर आ रही हूँ । ऋषियों
 को प्रसन्न करके वे घूमते रहते हैं । उनके कार्यों से चकित हो कर मैं
 दौड़ कर यहाँ आयी हूँ और आपके सम्मुख विस्तारपूर्वक विनती की है । ४७
 सीता जी अपूर्व सुन्दरी हैं, उसे उठाकर आप यहाँ ले आयें, यही मन में
 विचार करके आपसे कहने आयी हूँ । नाक-कान से रहित हो कर अत्यन्त
 कष्ट पा रही हूँ । ४८ यदि आप में सामर्थ्य है तो आज ही जाकर सीता

एक युक्तिले छल गरीकन हर्नुपर्ला ।
 साम्ने कदापि नगया तहिं देह मर्ला ॥४९॥
 तेस्ले बहूत भयमा परि वात् गन्याको ।
 लशकर् समेत् त्रिशिर दूषण खर् मग्याको ॥
 सून्यो र बैह्लिकन खातिर खूब दीयो ।
 एकान्तमा गइ लहड् पनि खूब लीयो ॥५०॥
 सामान्य मानिस भया कसरी ति मान्या ।
 लशकर् खर त्रिशिर दूषण छुट्टिं पाग्या ॥
 सामान्य होइन इ ता परमेश्वरै हुन् ।
 नाहीं त भाइहरुको अधि तिक्तथ्यो कुन् ॥५१॥
 ईश्वर् भया हुँदि कसै पनि मारदछन् ती ।
 सामान्य हुन् पनि भन्या हर्नुला सिताजी ॥
 ईश्वर् भया हुँदि विरोध गरि खुश हुन्याछन् ।
 रीसै हुन्याछ भजुंला त ममाथि ता झन् ॥५२॥
 येती विचार गरि तन्यो र समुद्र पारि ।
 मारिच् जहाँ छ ऋषिको सरि रूप धारी ॥
 पूग्यो तहाँ र रथ राखि नजीक् गयाको ।
 विस्तार गन्यो खरहरू सब नाश भयाको ॥५३॥

को ले आओ । पहले यह सोच लो कि सीता का सामने से हरण करना कठिन है । एक युक्ति से उसे हरण करना होगा, सामने कदापि न जाना, वर्ना मारे जाओगे । ४९ सेना-सहित खर, त्रिशिरा और दूषण के मारे जाने की खबर सुनकर रावण अत्यन्त भयभीत हुआ, फिर भी उसने अपनी बहन को सान्त्वना दी और एकान्त में जाकर अपने मन को बड़े प्रयत्न से उत्साहित किया । ५० राम द्वारा अपने भाइयों के संहार का समाचार सुनकर रावण बड़ी चिन्ता में पड़ जाता है । वह सोचता है कि यह राम कौन हों सकता है ? जो भी हो यह कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, अवश्य ही यह परमेश्वर है; यदि यह साधारण मनुष्य होता तो मेरे भाइयों के सम्मुख कैसे टिक पाता ? ५१ यदि राम ईश्वर होंगे तो किसी प्रकार से मार लेंगे और यदि साधारण मनुष्य होंगे तो मैं सीता का हरण कर लूंगा । ईश्वर होंगे तो मेरे विरोध पर वह प्रसन्न होंगे और भजन करने से मुझ पर क्रोधित होंगे । ५२ यह विचार करके ऋषि के समान रूप धारण कर वह समुद्र पार मारीच के पास पहुँचा । रथ को वहीं

यस्तो पन्थो मकन आज सहाय देऊ ।
 सुन्दर ठुलो मृग स्वरूप् तिमि आज लेऊ ॥
 रामचन्द्रलाइ छलि दूर् तिमिले गराया ।
 सीता जसै म हरँला तव फकि आया ॥५४॥
 मारीचले यति हुकूम् जव ताहिं सुन्थो ।
 तेस्तो हुकुम् सुनि तहाँ मनभित्र गुन्थो ॥
 विन्ती गन्थो सकल तेज् प्रभुको जनाई ।
 ख्वामित् भनेर मनले जय खुप् चिताई ॥५५॥
 कस्ले गन्थो र उपदेश् तिमि आज आई ।
 सीता म हर्छु मृग हो तँ भन्थो मलाई ॥
 त्यै शत्रु हो तिमि त्यसैकन मार ताहाँ ।
 कूलै समेन् क्षय गराउन खोज्छ याहाँ ॥५६॥
 को सकछ जित्त र ठुलो तिमि सूर गछौं ।
 यो सूर् लिया कुल समेत् तिमि आज मछौं ॥
 एक् वाणले मकन चार् सय कोश सान्या ।
 बालक् थिया तपनि भस्म सुवाहु पान्या ॥५७॥

खड़ा करके उसके निकट पहुँचा और खर आदि के मारे जाने के विषय में सविस्तार कह सुनाया । ५३ मेरे ऊपर आज ऐसी समस्या आ पड़ी है, तुम मेरी सहायता करो । तुम आज एक अत्यन्त सुन्दर मृग का रूप धारण करो और छल से रामचन्द्र को दूर तक ले जाओ और जैसे ही मैं सीता का हरण कर लूँ, वैसे ही तुम चले आना । ५४ मारीच ने यह आज्ञा सुनकर अपने मन में विचार किया और प्रभु के सम्पूर्ण पराक्रम का वर्णन कर विन्ती की, और स्वामी कहकर मन में जय-जयकार किया । ५५ उसने कहा कि किसके उपदेश को सुनकर आज तुम आकर सीता-हरण के लिए मुझे मृग बनने को कह रहे हो । यदि वह शत्रु है तो तुम उसे ही मार डालो, नहीं तो वह तुम्हारा सम्पूर्ण कुल ही समाप्त कर देगा । ५६ उन्हें कौन जीत सकेगा, जो तुम ऐसी धारणा बना रहे हो । ऐसा विचार करना उचित तथा कल्याणकारी नहीं, उनसे युद्ध करने पर तुम कुल-सहित नष्ट हो जाओगे । उनके वाण के एक प्रहार से मैं चार सौ कोस दूर जा गिरा । जिस समय वह एक बालक थे, उस कोमल अवस्था में भी उन्होंने सुवाहु को भस्म कर दिया । ५७ आज मैं मृग-रूप धारण करके वन में गया । उनके एक ही वाण ने मुझे पछाड़ दिया ।

आज्काल् गयाँ वनविषे मृग-रूप धारी ।
 एक् वाणले यहि पनी त दिया पछारी ॥
 छाद्दै रगत् अति डरायर भागि आयाँ ।
 जावैन भन्छु अव खुप् सित चेत पायाँ ॥५८॥
 तस्मात् तिमि पनि विरोध् मति यो नलेऊ ।
 सीता म हर्छु भनि आग्रह छाडिदेऊ ॥
 सब् नष्ट हुन्छ तिमिले मति यस्ति लीया ।
 देख्यौ खर त्रिशिर दूषण मारिदीया ॥५९॥
 हीतै कहन्छ भनि यो तिमि जानिलेऊ ।
 आर्को कहन्छु म गुठिल् तिमि चित्त देऊ ।
 ई ता अनन्त अधिनाथ् परमेश्वरै हुन् ।
 ब्रह्माजिले पनि भजिन्छ सदा पुरुष् जुन् ॥६०॥
 नारदजिका वचन सूनि म आज भन्छु ।
 ख्वामित् ! म ता हित चिताइ सदा रहन्छु ॥
 लौ मार रावण भनी वरदान माग्या ।
 ब्रह्माजिले र उहि सुर् प्रभु गर्न लाग्या ॥६१॥
 जाऊ घरै बसिरहू मति यो नलेऊ ।
 ईश्वर् बुझेर उहि माफिक चित्त देऊ ॥

रक्त-वमन करते हुए अत्यन्त भयभीत होकर मैं भाग कर आया हूँ । अब मैं चैतन्य हो गया हूँ, अब वहाँ नहीं जाऊँगा । मैं सम्हल गया हूँ और उनके पराक्रम को समझ गया हूँ । ५८ अतः तुम इस विरोध करने की भावना को त्याग दो । सीता-हरण का विचार छोड़ दो । ऐसे विचारों से, तुम्हारा सर्वनाश होगा । उन्होंने खर, त्रिशिरा और दूषण का वध कर दिया सो तुमने देख ही लिया है । ५९ मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, इसे समझो । एक और विशेष रहस्य की बात कहता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनो । ये तो अनन्त अधिनाथ परमेश्वर ही हैं; इनको स्वयं ब्रह्मा जी ही नित्य भजते हैं । ६० आज मैं नारदजी द्वारा बतायी हुई बातें कहता हूँ । स्वामी ! मैं तो सदैव हित का ही चिन्तन करता हूँ । ब्रह्मा से रावण-वध का वरदान माँगा और तदनुसार प्रभु ने उसके लिए तत्परता दिखायी । ६१ अपनी बुद्धि से ऐसी बातों को निकाल दो और घर में जा कर रहो । उन्हें ईश्वर समझकर उनका ध्यान करो । प्रभु जो करते हैं, करें, यह उनकी लीला है । उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं ।

जो गर्दछन् प्रभु गरुन् छ लिला उनैको ।
चल्दैन जोर् प्रभुविषे अरुका कुनैको ॥६२॥

मारीचले जब त बात् यति सव् वतायो ।
झन् बात् सुनी बुझि त खुप्सित चित्त लायो ॥
मारीचलाइ अनि रावण भन्छ हेरी ।
सीता म हर्छु मृग भैकन जाउ फेरि ॥६३॥

ईश्वर् त हुन् यदि भन्या ति अवश्य माछन् ।
सामान्य हुन् यदि भन्या ति अवश्य हाछन् ॥
ईश्वर् भया पनि असल् छ अवश्य तर्छु ।
सामान्य हुन् त म सितासँग भोग गर्छु ॥६४॥

जाऊ अवश्य म सिताजि हरेर लिन्छु ।
बोल्थौ यहाँ कछु भन्या त म काटिदिन्छु ॥
यस्तो हुकूम गरि तहाँ जब वीच पान्यो ।
मारीचले पनि तसै जिय आश मान्यो ॥६५॥

आखिर् मन्याँ म हरिदेखि भन्या त तर्छु ।
यस् दुष्टदेखि मरिया त नरक् म पर्छु ॥
यस्तो विचार गरि तहाँ मृगरूप धारी ।
सुकूम शिरोपर धरीकन भो तयारी ॥६६॥

प्रभु के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ सकेगा । ६२ मारीच से यह सब बातें ध्यान से सुनकर रावण कहता है कि तुम पुनः मृग बन कर चले जाओ—मैं सीता का हरण करूँगा । ६३ यदि वे ईश्वर होंगे तो अवश्य मुझे मार डालेंगे, अन्यथा स्वयं ही पराजित होंगे । यदि वे ईश्वर होंगे तो उनके हाथ से मारे जाने पर मैं तर जाऊँगा, अन्यथा सीता के संग भोग करूँगा । ६४ तुम अवश्य जाओ—मैं सीता को हर कर ले आऊँगा । अब तुम आगे कुछ मत कहो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर डालूँगा । रावण की ऐसी आज्ञा को सुनकर मारीच ने भी अपने जीवन की आशा छोड़ दी । ६५ उसने सोचा—यदि मैं प्रभु के हाथों से मरूँगा तो कर जाऊँगा, इस दुष्ट द्वारा मारे जाने से तो मैं नरक को ही प्राप्त होऊँगा, इसलिए ईश्वर के हाथों मारा जाना ही उचित होगा । यह सोच कर मारीच ने मृग-रूप धारण किया और रावण की आज्ञा को स्वीकार करते हुए तैयार हो गया । ६६ बड़े ही विचित्र ढंग से उछलते-कूदते हुए सीताजी

दौड्यो लिला पनि चरित्र विचित्र गर्दै ।
 सीताजिका नजिक गैकन ताहिं फिर्दै ॥
 सीताजिलाइ गरुँ मोह भनेर दाग्यो ।
 लीला गरीकन वरीपरि चर्न लाग्यो ॥६७॥

छल् हो भनी प्रभुजिले पनि चाल पाया ।
 एकान्तमा गइ सिताकन काम् अह्लाया ॥
 सीते ! अदृश्य भइ लौ वस अग्निमाहाँ ।
 छाया सिता पनि बनायर छोड याहाँ ॥६८॥

एक् भिक्षुको रूप लि रावण आज आई ।
 हन्याछ दुष्ट तिमिलाइ स्वरूप छिपाई ॥
 चाँडो अवश्य तिमिले पनि रूप छिपाऊ ।
 एक् वर्षसम्म छिपि दिन् तिमिले बिताऊ ॥६९॥

यस्तो हुकूम सुनि अदृश्य सरूप धारी ।
 छाया सिता पनि दुरुस्त गरिन् तयारी ॥
 सीता छिपीकन रहिन् जब अग्निमाहाँ ।
 छाया सिता-सँग बस्या रघुनाथ ताहाँ ॥७०॥

छाया सिताजि अति चित्र विचित्र मानी ।
 खेलाउँ तेस मृगलाइ भनेर ठानी ॥
 बिन्ती गरिन् रघुपते ! मृग आज देऊ ।
 खेलाउँछू अधिक जाति छ पक्रिलेऊ ॥७१॥

को आकर्षित करने के लिए वह उनके निकट जाकर चरने लगा । ६७ प्रभुजी ने इस छली मृग को पहचान कर सीता से कहा कि हे सीते, तुम अग्नि में अदृश्य होकर रहो और यहाँ अपनी जगह पर छाया-रूपी सीता को रख दो । ६८ एक भिक्षु के रूप में रावण यहाँ आज आयेगा और वह दुष्ट इस छद्म वेष में तुम्हें हरण करेगा । अतः तुम भी तुरन्त अपना रूप छिपा लो और इसी प्रकार तुम एक वर्ष व्यतीत करो । ६९ ऐसी आज्ञा सुनकर सीताजी अदृश्य हो गयी और छाया-रूपी सीता को रखकर स्वयं अग्नि में छिप गयीं । रघुनाथ छाया रूपी सीता के संग वहाँ रहे । ७० छाया-रूपी सीता ने अत्यन्त आश्चर्य-चकित होकर उस मृग से खेलने के विचार से रघुनाथ से विनती की—हे रघुपति ! इस सुन्दर मृग को पकड़ कर आज ही ला दें, मैं उससे खेलूंगी । ७१ सीताजी की विनती सुनकर

इच्छा थियो प्रभुजिको पनि विन्ति सूनी ।
जानू असल् छ भनि यो मनभित्र गूनी ॥
हात्मा धनू लि मृगका पछि आफु धाया ।
लक्ष्मणजिलाइ वस तीमि भनी अह्माया ॥७२॥

लक्ष्मण रह्या तहिं सिता-सित चौकिदारी ।
मारीचलाइ प्रभुले पनि खुप् लघारी ॥
मान्या तहाँ जब त दिक् बहुतै गरायो ।
हे भाइ लक्ष्मण ! मन्याँ भनि छल् करायो ॥७३॥

छल्का वचन् सुनि सिताजि बहुत् डराइन् ।
लक्ष्मणजिलाइ तिमि जाउ भनी अह्माइन् ॥
लक्ष्मणजिले हुकुम यो सुनि विन्ति पान्या ।
हे माइ ! जो मृग थियो प्रभुले त मान्या ॥७४॥

तेस्तो कहाँ मृग थियो मृगरूप-धारी ।
मारीच राक्षस थियो र त आज मारी ॥
ठाकूरजिले तहिं गिराइदिदा करायो ।
हे भाइ लक्ष्मण ! मन्याँ भनि छल् गरायो ॥७५॥

ज्योतिस्वरूप तहिं भयो र मिल्यो हरीमा ।
आश्चर्य भो सकललाइ तसै घरीमा ॥
यस् दुष्टले पनि त यो गति आज पायो ।
भन्त्या बुझेर सब जन्कन हर्ष आयो ॥७६॥

प्रभुजी की आन्तरिक इच्छा हुई कि मुझे जाना ही उत्तम है । वे धनुष हाथ में लेकर मृग के पीछे दौड़ पड़े । लक्ष्मणजी को वहीं रहने की आज्ञा दी । ७२ लक्ष्मण सीता के संरक्षक बनकर वहीं रहे । प्रभु ने भी मारीच को बड़ी दूर तक दौड़ने के वाद मारा । मारीच (प्रभु को) दुविधा में डालने के लिए छलपूर्ण स्वर में चिल्लाया—‘मर गया’ । ७३ इस छलनामय पुकार को सुनकर सीता अत्यन्त भयभीत हुई । लक्ष्मण को तुरन्त आज्ञा दी कि वे राम की सहायता के लिए दौड़ें । लक्ष्मण ने उनकी यह आज्ञा सुनकर विनती की कि हे माता, जो मृग था, उसे प्रभु ने मार डाला है । ७४ वह मृग नहीं था, वह तो मृग-रूपी मारीच था, जो प्रभु द्वारा मारे जाते ही “हे भाई लक्ष्मण मरा” कहकर चिल्लाया । ७५ वह ज्योति-स्वरूप धारणकर हरि में विलीन हो गया । उस समय सबको आश्चर्य

लक्ष्मणजिको वचन् सुनि सिता रिसाइन् ।
आँसू बहुत् नजरदेखि पनी खसाइन् ॥
बोलिन् अवाच्य पनि लक्ष्मणलाइ ताहाँ ।
भज्ली मलाइ भनि मन् छ कि आज याहाँ ॥७७॥
रामदेखि वाहिक अवर त भजैँन मैले ।
तिम्रै अगाडि यहि छोड्दछु देह ऐले ॥
तिम्रो त चित्त अति दुष्ट रहेछ जान्याँ ।
काम् देखि आज तिमिलाइ त शत्रु मान्याँ ॥७८॥
यस्तो वचन् सुनि ति लक्ष्मणजी रिसाया ।
बोलिन् अवाच्य भनि भित्त मनै चिताया ॥
धिक चण्डि ! येति भनि खुप् सित चट्पटाया ।
वन्-देविलाइ रखवारि तहाँ खटाया ॥७९॥
सीताजिलाइ तहि छोडि उठी गयाका ।
दूरै हुँदा नजरदेखि फरक् भयाका ॥
देख्यो र रावण सितातिर जल्दि आयो ।
सन्न्यासिको स्वरूप लीकन रूप छिपायो ॥८०॥
सन्न्यासि हुन् भनि बहुत् गरि भक्ति लाइन् ।
पूजा प्रणाम् पनि गरीकन हर्ष पाइन् ॥

हुआ कि दुष्ट को भी यह मोक्षगति प्राप्त हुई है और साथ ही यह जान कर सबको हर्ष भी हुआ । ७६ लक्ष्मणजी के वचन सुनकर सीताजी क्रोधित हुई । उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे । उन्होंने लक्ष्मण को अपशब्द भी कहे और कहा कि कदाचित् तुम यह समझते हो कि राम को कुछ हो जायगा तो उनकी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी सेवा करने लगूँगी । ७७ राम के अतिरिक्त मैं किसी की सेवा नहीं करूँगी । यहाँ तुम्हारे सामने मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगी । तुम्हारे इस पापी मन को मैं आज ही पहचान सकी हूँ । आज से मैं तुम्हें अपने शत्रु के समान मानती हूँ । ७८ सीता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आया । उनके अपशब्दों को सुनकर निवेदन किया—‘धिककार चण्डी!’ कहकर खूब बड़बड़ाये । वन-देवी को (उनकी) रक्षा-हेतु नियुक्त किया । ७९ सीताजी को अकेली छोड़कर लक्ष्मण के आँखों से ओट होते ही रावण सीता के पास आया । उसने अपने वास्तविक रूप को छिपाकर एक सन्न्यासी का रूप धारण करके सीता को छलने की युक्ति की । ८०

बिन्ती गरिन् वस गुरो ! प्रभु फर्कि आई ।
 गर्नन् बहुत् प्रिय हजूर्कन चित्त लाई ॥८१॥
 यस्ता वचन् सुनि सितातिर दृष्टि दींदो ।
 को हो पती बुझुं भनीकन गुह्य लींदो ॥
 सोध्यो सितासित पती पनि जो छ को हो ।
 नाम् काम् समेत् तिमि बताउ न आज जो हो ॥८२॥
 सीताजिले पनि भनिन् सब जो छ नाम् काम् ।
 सन्यासि जानिकन कत्ति नपारि छल्छाम् ॥
 सोधिन् तहाँ म पनि नाम्हरु सुन्न पाऊँ ।
 कुन् हो बताउ तिमिले पनि नाम ठाऊँ ॥८३॥
 यस्ता वचन् सुनि सिताकन हर्न आँटी ।
 नाम् काम् तहाँ सब कह्यो रतिभर् नढाँटी ॥
 बोल्यो अवाच्य पति मानि मलाई लेऊ ।
 राम्चन्द्रलाइ तिमिले अब छाडिदेऊ ॥८४॥
 यस्तो वचन् सुनि अलिक् यनले डराइन् ।
 बात्ले त दुष्टकन तृण् सरिको गराइन् ॥
 हे दुष्ट रावण ! अवश्य त आज मर्लास् ।
 ऐले जसै प्रभुजिका अगि याहिं पर्लास् ॥८५॥

संन्यासी समझकर सीताजी उसके प्रति भक्ति-भावना से परिपूर्ण होकर
 विनती करने लगीं । उन्होंने कहा कि आप विराजें । प्रभु अभी
 लौटकर आते होंगे और तब वह आपका उचित स्वागत-सत्कार करेंगे
 और भक्ति-वार्ता करेंगे । ८१ यह सुनकर संन्यासीरूपी रावण ने
 सीताजी की ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा कि तुम्हारे पति
 कौन हैं, नाम और काम-सहित बताओ । ८२ सीताजी ने भी उसे वास्तव
 में संन्यासी ही समझकर सविस्तार सब कुछ कह सुनाया । तत्पश्चात्
 संन्यासी का परिचय तथा निवास-स्थान जानने की जिज्ञासा प्रकट की । ८३
 यह सुनकर रावण ने सीताजी को हरण करने का निश्चय करके अपना
 पूर्ण परिचय देते हुए कहा कि अब तुम मुझे ही अपना पति मान लो और
 रामचन्द्र को हृदय से त्याग दो । ८४ उसके ऐसे वचनों को सुनकर
 सीताजी लेश-मात्र भी भयभीत नहीं हुई और उस दुष्ट को एक तिन्के के
 समान समझकर कहा, हे दुष्ट रावण ! आज तू प्रभु के लौटने पर अवश्य
 ही उनके हाथों से मारा जायेगा । ८५ ऐसी वाणी सुनकर रावण अत्यन्त

यस्ता वचन् सुनि रिसायर जल्दि ऊठ्यो ।
 धान्यो सरूप् र अब हर्छु भनेर छूट्यो ॥
 बीस् बाहु दश् मुख शरीर् पनि शुद्ध कालो ।
 देखाइ सब्कन तरास् मन-भित्त हाल्यो ॥८६॥

सीताजीलाइ मनले चिह्निकन मनसा मातृवत् बुद्धि गर्दो ।
 हात्ले मैले छुँदामा अनुचित छ भनी स्पर्श केही नगर्दो ॥
 आफ्ना नङ् सब् जमीन्मा धसिकनजमिनैजल्दि हात्ले उठायो ।
 सीताजीलाइ रथ्मा धरिकन दगुन्यो रामदेखी छुटायो ॥८७॥
 हा राम् ! लक्ष्मण ! येति मात्र मुखले बोलेर साह्रै रूँदी ।
 तन् मन् रामविषे धरेर बहुतै विह्वल् निरन्तर् रूँदी ॥
 देख्या ताहिं जटायुले र उड़ि गै रथ् चूर्ण पारीदिया ।
 घोडा चूर्ण गराइ फेर् धनु समेत टुकटुक गराईदिया ॥८८॥
 रावण् झन् वीर थीयो झटपट करमा क्रोधले खड्ग लीयो ।
 काट्यो दूवै पखेटा रिससित र तहाँ भूमिमा पारिदीयो ॥
 बाधा पाई जटायू पृथिवितल गिन्यां फेरि रथ्को तयारी ।
 जल्दी पान्यो र सीता लिइकन पुगिगो दुष्ट त्यो सिन्धु पारि ॥८९॥

क्रोधित हुआ और तत्क्षण उठकर खड़ा हो गया और अपना वास्तविक रूप धारण किया । तब सीताजी को हरण करने के लिए वीस भुजाओं तथा दस शीशोंवाले अपने रूप को प्रदर्शित कर अपने मन में आवेग उत्पन्न किया । ८६ सीताजी को हृदय से पहचान कर माता-तुल्य समझकर अपने हाथों से स्पर्श करना अनुचित समझा, अतः उसने अपने नाखूनों को भूमि में धँसाकर सीताजी को जमीन-सहित उठाकर रथ में रख लिया और राम से विलग कर ले गया । ८७ हा राम ! हा लक्ष्मण ! केवल इतना ही सीताजी के मुख से निकल पाया और वह अत्यन्त व्याकुल होकर विलाप करने लगीं । केवल राम को ही अपने ध्यान में बसाये हुए मन ही मन अपना तन-मन राम को अर्पण करती हुई वह बार-बार विलाप करती रहीं । मार्ग में उनकी ऐसी दशा देख जटायु उनकी सहायता को दौड़ा और उसने रावण के रथ को चूर-चूर कर दिया । घोड़ों को भी मार डाला और रावण के धनुष के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । ८८ रावण तो वीर था ही । उसने तुरन्त तलवार खींचकर क्रोधित जटायु के दोनों परों को काटकर उसे धराशायी कर दिया । पंखों से विहीन जटायु भूमि पर गिर पड़ा । शीघ्र ही रावण ने रथ तैयार किया और सीताजी को

आकाशमा जब ऋष्यमूक गिरिका ऊपर पुगीथिन् जसै ।
 आपना सब गहना फुकालि वलियो पोको वनाइन् तसै ॥
 राम लक्ष्मणकन यो दिउन् भनि तहाँ पोके खसालिन् पनि ।
 सुग्रीवले त गुफाविषे धरिलिया कस्ले खसाल्यो भनी ॥९०॥
 सीताजीलाइ लङ्का लगिकन मनमा मातृवत् बुद्धि गर्दो ।
 भित्री जुन् हो बगैचा तहिं असल अशोक वृक्षका नीच धंदो ॥
 सेवा खुप् गर्न लाग्यो तर पनि मनमा माइले दुःख पाइन् ।
 हाराम्! हाराम्! जगन्नाथ! यहि वचन गरी राममा चित्त लाइन् ॥९१॥
 मारीच् मारेर फिर्था प्रभु पनि वनमा देखिया तहिं भाई ।
 राम्ले ताहीं विचारया मन मन इ कुरा भाइ पुग्नै नपाई ॥
 माया सीता वन्याकी अलिकति पनि याद् छैन ई भाइलाई ।
 साँचै सीता इनै हुन् भनिकन मलले भन्दछन् चाल् नपाई ॥९२॥
 यो वात् बोल्दिनँ गुह्य राख्छु म पनी मानून् सिता हुन् भनी ।
 सीता निश्चय हुन् भन्या त रिसले लड्नुन् रिपूथ्यै पनी ॥
 यस्तो निश्चय मन् भयो प्रभुजिको लक्ष्मण पुग्या झट् तहाँ ।
 सोध्या श्री रघुनाथले किन सिता छोडेर आयौ यहाँ ॥९३॥

साथ लेकर वह दुष्ट समुद्र को पार कर गया । ८९ आकाश मार्ग से जैसे ही सीताजी ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचीं, उन्होंने अपने समस्त आभूषण उतार कर एक गठरी में बाँध लिये और नीचे गिरा दिये, जिससे वे किसी के द्वारा राम-लक्ष्मण के पास पहुँचा दिये जायें । सुग्रीव ने उन्हें उठाकर तुरन्त अपनी गुफा में रख लिया । ९० रावण ने सीताजी को लंका ले जाकर अपने हृदय से उन्हें माता-तुल्य जानकर अपने अंतःपुर की वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया और खूब सेवा की । तथापि सीता माता के मन में महान् दुख रहा और वह मन ही मन हा राम ! हा राम ! हा जगन्नाथ ! जपकर राम की स्मृति को अपने मन में बसाती रहीं । ९१ मारीच का वधकर लौटते समय राम ने वन-वीच भाई लक्ष्मण को देखा और भाई के पहुँचने के पूर्व ही मन ही मन विचार किया कि सीता माया-रूपी बनी हुई हैं, यह भाई को किंचित-मात्र भी स्मरण नहीं है । सत्य ही सीता यही होगी, ऐसा सोचकर मन में कहते हैं । ९२ यह बात मैं गुप्त रखूँगा, किसी से न कहूँगा । इसे ही सीता मान लें । निश्चय ही सीता होने पर शत्रु के साथ लड़ने का विचार प्रभु के मन में हुआ । तुरन्त ही रघुनाथ ने प्रश्न किया कि सीता को छोड़कर क्यों आये हो ? ९३

लक्ष्मणले पनि यो हुकूम सुनि तहाँ
जो दुर्वाच्य गरिन् सबै भन्नुं भन्या
मारीचका छलका वचन् सुनि बहुत्
सम्झायाँ भरसक् अपेक् तरहले
फेर् उत्तर प्रभुले दिया अनुचितै
छोड्नु कत्ति थियेन दुर्वचनले
येती बात् गरि राम आश्रमविषे
देख्यानन् र सिताजिलाइ बहुतै
की राक्षसहरले हन्या कि वनमा
एक् थोक् क्या त भयो अवश्य म गयाँ
वनदेवीहरलाइ मालुम भया
सीता मेरि पियारि देख्तिनँ म ता
यस्ता रीत्सित सोधि सोधि रघुनाथ
जस्तो मानिस गर्छ सोहि रितले
फिर्थ्या तेस् वनमा बडा विरहले
यै बीचमा वनमा त रथ र धनुको

बिन्ति गन्या क्या करूँ ।
सक्तीनँ मेलै - वरु ॥
दुर्वाच्य बोलिन् जसै ।
लागेन बिन्ती कसै ॥१४॥
हो यो गन्या तापनि ।
स्त्री हुन् ति सीता भनी ॥
जल्दी कदम् ली गया ।
शोक् गर्न लाग्दा भया ॥१५॥
की दुष्टले पेट भन्या ।
कुन् दुष्टका खेल् परचा ॥
विस्तार् बताऊ यहाँ ।
जान्छू सिता छन्जहाँ ॥१६॥
ज्ञानै स्वरूपी पनि ।
हा मेरि सीता ! भनी ॥
सोध्या नपाई उसै ।
देख्या अनेक् टुक तसै ॥१७॥

यह आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने भी विनती की कि मैं क्या करूँ, मारीच की छलपूर्ण चीख को सुनकर सीताजी ने अनेक दुर्वचनों का प्रहार किया और मैंने अनेक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, परन्तु सब व्यर्थ हुआ। १४ प्रभु ने फिर उत्तर दिया कि यह तो अनुचित ही हुआ है। स्त्री के दुर्वचनों को सुनकर भी उसे स्त्री समझकर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इतना कहकर राम ने शीघ्रता से आश्रम में देखा। सीता को न देख कर अत्यन्त शोकाकुल हुए। १५ किन्हीं राक्षसों ने हरण किया होगा या वन में किसी दुष्ट ने अपने पेट का आहार बनाया होगा—कुछ तो अवश्य ही हुआ है। मेरे चले जाने पर किस दुष्ट ने यह खेल किया? वनदेवियो! यदि तुम्हें विदित हो तो मुझे विस्तारपूर्वक बता दो। मेरी प्यारी सीता कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। मैं तो सीता जहाँ होंगी, वही जा रहा हूँ। १६ ज्ञान-स्वरूपी होने पर भी सीता को न देखकर रघुनाथ अत्यन्त व्याकुल हो उसी प्रकार हा मेरी सीते! कहकर पुकारते हुए उस वन में भटकने लगे, जिस प्रकार मनुष्य किया करता है। उसी बीच वन में रथ एवम् धनुष के टुकड़े देखे। १७ लक्ष्मण से कहते हैं, भाई! तुम यहाँ देख रहे हो—क्या हुआ है, कोई और ही आकर विजय प्राप्त कर ले गया

आकाशमा जब ऋष्यमूक गिरिका ऊपर पुगीथिन् जसै ।
 आपना सब गहना फुकालि वलियो पोको वनाइन् तसै ॥
 राम लक्ष्मणकन यो दिउन् भनि तहाँ पोके खसालिन् पनि ।
 सुग्रीवले त गुफाविषे धरिलिया कस्ले खसाल्यो भनी ॥९०॥
 सीताजीलाइ लङ्का लगिकन मनमा मातृवत् बुद्धि गर्दो ।
 भित्ती जुन् हो बगैचा तहिं असल अणोक् वृक्षका नीच धर्दो ॥
 सेवा खुप् गर्न लाग्यो तर पनि मनमा माइले दुःख पाइन् ।
 हाराम्! हाराम्! जगन्नाथ! यहि वचन गरी राममा चित्त लाइन् ॥९१॥
 मारीच् मारेर फिर्था प्रभु पनि वनमा देखिया ताहिं भाई ।
 राम्ले ताहीं विचारया मन मन इ कुरा भाइ पुग्नै नपाई ॥
 माया सीता वन्याकी अलिकति पनि याद् छैन ई भाइलाई ।
 साँचै सीता इनै हुन् भनिकन मलले भन्दछन् चाल् नपाई ॥९२॥
 यो वात् वोल्दिनँ गुह्य राख्छु म पनी मानून् सिता हुन् भनी ।
 सीता निश्चय हुन् भन्या त रिसले लड्नुन् रिपूथ्यं पनी ॥
 यस्तो निश्चय मन् भयो प्रभुजिको लक्ष्मण पुग्या झट् तहाँ ।
 सोध्या श्री रघुनाथले किन सिता छोडेर आयौ यहाँ ॥९३॥

साथ लेकर वह दुष्ट समुद्र को पार कर गया । ८९ आकाश मार्ग से जैसे ही सीताजी ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँची, उन्होंने अपने समस्त आभूषण उतार कर एक गठरी में बाँध लिये और नीचे गिरा दिये, जिससे वे किसी के द्वारा राम-लक्ष्मण के पास पहुँचा दिये जाये । सुग्रीव ने उन्हें उठाकर तुरन्त अपनी गुफा में रख लिया । ९० रावण ने सीताजी को लंका ले जाकर अपने हृदय से उन्हें माता-तुल्य जानकर अपने अंतःपुर की वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया और खूब सेवा की । तथापि सीता माता के मन में महान् दुख रहा और वह मन ही मन हा राम ! हा राम ! हा जगन्नाथ ! जपकर राम की स्मृति को अपने मन में वसाती रहीं । ९१ मारीच का वधकर लौटते समय राम ने वन-बीच भाई लक्ष्मण को देखा और भाई के पहुँचने के पूर्व ही मन ही मन विचार किया कि सीता माया-रूपी बनी हुई हैं, यह भाई को किंचित-मात्र भी स्मरण नहीं है । सत्य ही सीता यही होगी, ऐसा सोचकर मन में कहते हैं । ९२ यह बात मैं गुप्त रखूँगा, किसी से न कहूँगा । इसे ही सीता मान लें । निश्चय ही सीता होने पर शत्रु के साथ लड़ने का विचार प्रभु के मन में हुआ । तुरन्त ही रघुनाथ ने प्रश्न किया कि सीता को छोड़कर क्यों आये हो ? ९३

लक्ष्मणले पनि यो हुकूम सुनि तहाँ
जो दुर्वाच्य गरिन् सबै भन्नुं भन्या
मारीचका छलका वचन् सुनि बहुत्
सम्झायाँ भरसक् अपेक् तरहले
फेर् उत्तर प्रभुले दिया अनुचितै
छोड्नु कत्ति थियेन दुर्वचनले
येती बात् गरि राम आश्रमविषे
देख्यानन् र सिताजिलाइ बहुतै
की राक्षसहरले हन्या कि वनमा
एक् थोक् क्या त भयो अवश्य म गयाँ
वनदेवीहरलाइ मालुम भया
सीता मेरि पियारि देख्तिनँ म ता
यस्ता रीत्सित सोधि सोधि रघुनाथ
जस्तो मानिस गर्छ सोहि रितले
फिथ्या तेस् वनमा बडा विरहले
यै बीचमा वनमा त रथ् र धनुको

बिन्ति गन्या क्या करूँ ।
सक्तीनँ मेलै बरु ॥
दुर्वाच्य बोलिन् जसै ।
लागेन बिन्ती कसै ॥१४॥
हो यो गन्या तापनि ।
स्त्री हुन् ति सीता भनी ॥
जल्दी कदम् ली गया ।
शोक् गर्न लाग्दा भया ॥१५॥
की दुष्टले पेट् भन्या ।
कुन् दुष्टका खेल परचा ॥
विस्तार् बताऊ यहाँ ।
जान्छू सिता छन्जहाँ ॥१६॥
ज्ञानै स्वरूपी पनि ।
हा मेरि सीता ! भनी ॥
सोध्या नपाई उसै ।
देख्या अनेक् टुकत्तसै ॥१७॥

यह आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने भी विनती की कि मैं क्या करूँ, मारीच की छलपूर्ण चीख को सुनकर सीताजी ने अनेक दुर्वचनों का प्रहार किया और मैंने अनेक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, परन्तु सब व्यर्थ हुआ। १४ प्रभु ने फिर उत्तर दिया कि यह तो अनुचित ही हुआ है। स्त्री के दुर्वचनों को सुनकर भी उसे स्त्री समझकर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इतना कहकर राम ने शीघ्रता से आश्रम में देखा। सीता को न देख कर अत्यन्त शोकाकुल हुए। १५ किन्हीं राक्षसों ने हरण किया होगा या वन में किसी दुष्ट ने अपने पेट का आहार बनाया होगा—कुछ तो अवश्य ही हुआ है। मेरे चले जाने पर किस दुष्ट ने यह खेल किया? वनदेवियो! यदि तुम्हें विदित हो तो मुझे विस्तारपूर्वक बता दो। मेरी प्यारी सीता कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। मैं तो सीता जहाँ होंगी, वहीं जा रहा हूँ। १६ ज्ञान-स्वरूपी होने पर भी सीता को न देखकर रघुनाथ अत्यन्त व्याकुल हो उसी प्रकार हा मेरी सीते! कहकर पुकारते हुए उस वन में भटकने लगे, जिस प्रकार मनुष्य किया करता है। उसी बीच वन में रथ एवम् धनुष के टुकड़े देखे। १७ लक्ष्मण से कहते हैं, भाई! तुम यहाँ देख रहे हो—क्या हुआ है, कोई और ही आकर विजय प्राप्त कर ले गया

भन्छन् लक्ष्मणलाइ भाइ ! तिमिले देख्यौ यहाँको कुचाल् ।
 अर्को आइ जिती लियेछ बिचमा मैले त देख्याँ कुचाल् ॥
 येती बात् गरि राम् अलिक् पर गया देखछन् त पल्टी रही ।
 चिन्नैलाइ कठिन् जटायुकन ता दूवै पखेटा गई ॥९८॥
 अज्ञान् कत्ति थियेन तापनि तहाँ लीला नरैको गरी ।
 चीन्याको नचिन्ह्यै गरेर भगवान् भन्छन् अगाडी सरी ॥
 हे भाई ! धनु देउ दुष्ट मिलिगो माछूँ म वाणै धरी ।
 खान्या येहि रहेछ हेरि बुझियो पल्टेछ खुब् पेट् भरी ॥९९॥
 सून्या बात् र जटायुले पनि हवाल् वृत्तान्त विन्ती गन्या ।
 सूनी पूर्ण दया भयो नजिक गै छाम्यार सव्ताप् हन्या ॥
 सीताको समचार खबर् कहि तहाँ साम्ने जटायू मन्या ।
 स्नान् दाहा गरि मांसपिण्डह रुदी क्रीया प्रभूले गन्या ॥१००॥

सायुज्यै मुक्ति पाई स्तुति पनि बहुतै भक्ति राखेर लाई ।
 पाँच्या धाम्मा जटायू प्रभु पनि नरको ठिक्क लीला जनाई ॥
 वन्वन्मा फिर्न लाग्या विरह गरि गरी सोद्वछन् जाहिं ताहिं ।
 दोस्त्रादेख्न्यामिल्यानन्सकलबढुड्याएक् पनी काहिं नाहीं ॥१०१॥

है । मैं तो कुछ अनर्थ के लक्षण ही देखता हूँ । इतना कहकर राम ने कुछ दूर जाने पर पख कटे हुए जटायु को अचेत अवस्था में पड़ा देखा, जिसे पहचानना भी कठिन था । ९८ प्रभु अज्ञानी नहीं थे, तथापि मनुष्य की ही लीला करके अपरिचित की भाँति आगे बढ़कर भगवान कहते हैं, हे भाई ! दुष्ट मिल गया । धनुष दे दो, मैं वाण से इसका वध करता हूँ । इसी ने सीता को खाया है और पेटभर खाकर लेटा हुआ है । ९९ इन बातों को सुनकर जटायु ने भी विनती-स्वरूप-सारा वृत्तान्त कह सुनाया । वृत्तान्त सुनकर दया से पूर्ण हो राम ने उसके निकट जाकर उसका स्पर्श किया और उसके दुख-ताप का हरण किया । सीता के विषय में सारा समाचार ज्ञात करने के पश्चात् जटायु का प्राणान्त हो गया । स्नानो-परान्त दाहसंस्कार कर मांस-पिण्डादि देकर प्रभु ने उसका क्रिया-कर्म किया । १०० अत्यन्त भक्तिपूर्वक स्तुति करने के बाद, मुक्ति पाकर जटायु स्वर्ग-धाम को पहुँचे । प्रभु भी मनुष्य के समान लीला करते हुए, विरह व्यक्त करते तथा सीता के विषय में पूछ-ताछ करते हुए, वन-वन भटकने लगे, परन्तु दूसरा और कोई ऐसा नहीं मिला, जिसने सीताजी को देखा हो । १०१ राम की भेंट एक कबंध नामक राक्षस से हुई,

छातीमा मुख भयाको शिर पनि नहुँदा नाम् कबन्धै रह्याको ।
 चारचारकोश सम्म पुग्या दुइ अति बलिया दीर्घ बाहु भयाको ॥
 राक्षस् थियो तहाँ एक वसि बसिकन सब हातले खँचि खान्या ।
 तेसैका बाहु बीचमा रघुपति पुगदा रोकियो मार्ग जान्या ॥१०२॥
 राक्षस्ले घोरियाको बुझिकन रघुनाथ भन्दछन् भाइलाई ।
 हे लक्ष्मण ! आज देख्यौ अब बिच परियो निलछ की हामिलाई ॥
 ठाकुरजीका वचन् ई सुनिकन विनती ताहि लक्ष्मणजि गर्छन् ।
 हे नाथ ! क्या डर छ यस्को दुइ भइ दुइ हात् काटिछू याहि झर्छन् ॥३॥
 येती बात् गरि हात् दुवै सहजमा काटी खसाल्या जसै ।
 राक्षस्ले पनि हात् गिन्या जब तहाँ आश्चर्य मान्यो तसै ॥
 सोध्यो आज म वीरका पनि सहज हातै खसाल्यौ यहाँ ।
 को हौ क्या मनमा लियेर वनमा डुल्छौ छ जानू कहाँ ॥१०४॥
 उत्तर श्री रघुनाथले पनि दिया हाँसेर विस्तार गरी ।
 सून्यो राम भनी तहाँ र मनले चीन्ह्यो इनै हुन् हरि ॥
 ठाकुरजीकन चीन्हि खुश अधिक भै विस्तार आफनू गन्यो ।
 हे नाथ ! आज चिन्ह्याँ हजूरकन यहाँ पायाँ र सब ताप्टन्यो ॥१०५॥

जिसका मुख उसकी छाती में था और सिर था ही नहीं । उसकी भुजाएँ चार-चार कोस की लम्बाई में थीं और बहुत ही बलिष्ठ थीं । वह अपनी उन्हीं बलिष्ठ भुजाओं से अपना आहार खींच कर खाता था । उसकी दोनों भुजाओं के बीच में रघुपति आ गये, जिसके कारण उनका आगे जाने का मार्ग रुक गया । १०२ राक्षस से घिरा हुआ समझकर राम भाई से कहते हैं, हे लक्ष्मण ! आज देखो, कदाचित् यह राक्षस हमें निगल न ले । ठाकुर के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मणजी विनती करते हैं, हे नाथ, इसका क्या भय है, दोनों मिलकर दोनों भुजाओं को काट डालें, वस यह यही गिर जायेगा । १०३ ऐसा कहकर जैसे ही दोनों भुजाओं को सहज ही काटकर गिरा दिया । यह देखकर राक्षस को भी अपनी भुजाओं के कटकर गिरने से आश्चर्य हुआ । अतः उसने पूछा, आज मुझ-जैसे वीर की भुजाओं को सहज ही में गिराने-वाले तुम कौन हो, किस उद्देश्य से वन में घूम रहे हो और कहाँ जाना है ? १०४ रघुनाथ ने भी हँसकर धीरे से उत्तर दिया, राम कहकर पुकारे जाते हैं, और मन में हरि समझकर पहचाने जाते हैं । ठाकुरजी को पहचानकर, अत्यन्त हर्षित हो उसने विनती की—हे नाथ ! आज आपको यहाँ पहचानकर मेरे सब पापों का नाश हुआ । १०५ गन्धर्व होने पर

ब्रह्मादेखि अवश्य पाइ वरदान् गन्धर्व हूँ तापनि ।
 राम्रो छु भनि गर्व भो र ऋषि ता साहै नराम्रा भनी ॥
 हाँस्याँ कोहि र अष्टवक्र ऋषिले राक्षस् भयास् लौ भनी ।
 पैले श्राप गरी दिया पछि त फेर मुक्ती बताया पनि ॥१०६॥
 राक्षस् भैकन फिर्दथ्याँ म रिसले शिर् इन्द्रजीले हन्या ।
 ब्रह्माको वरदान् थियो र म जियाँ इन्द्रादि सव् छक् पन्या ॥
 शीरै गै पनि यो जियो अव कसो गर्ला भनी खुप् दया ।
 आयो इन्द्रजिका र खानकन मुख् छाती विपे दी गया ॥१०७॥
 चार्चार कोश तलक् समाउन भनी लामा त हातै दिया ।
 सो हात् आज गिराइवक्सनुभयो याहीं तलक् ई थिया ॥
 जस्तो मुक्ति ति अष्टवक्र ऋषिले पैले बताया यहाँ ।
 तस्तो ठिक्क भयो इ हात् गिरिगया मुक्ती त पायाँ यहाँ ॥१०८॥
 क्यावात् धन्य रहेंछु आज म प्रभू ! आस्रा गन्याँथ्याँ जति ।
 रातोदिन् रटना थियो चरणको भैगो शरण्को गति ॥
 खाडल् खुप् गहिरो खनेर उसमा यो देह मेरो धरी ।
 पोली भस्म गराइवक्सनु हवस् जान्छू म संसार तरी ॥१०९॥

भी ब्रह्माजी से वरदान पाकर, अपनी सुन्दरता पर गर्व करने पर, ऋषियों को कुरूप कहकर उनकी हँसी उड़ाने पर, अष्टावक्र ऋषि ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया, साथ ही इस शाप से मुक्ति पाने का भी मार्ग बताया । १०६ मैं राक्षस बनकर घूमने लगा था । क्रोधित होकर इन्द्र ने मेरे सिर का हरण कर लिया । ब्रह्मा के वरदान से मैं जीवित रहा और इन्द्रादि सभी आश्चर्य-चकित हुए । सिर कट जाने पर भी यह जीवित रहा, अब क्या करेगा, यह सोचकर इन्द्रजी को अत्यन्त दया उत्पन्न हुई और भोजन करने के लिए उन्होंने मेरे वक्षस्थल में मुँह बना दिया । १०७ चार कोस लम्बी भुजाएँ शिकार को पकड़ने के लिए दीं । वे हाथ भी अब गिरा दिये गये । शाप का प्रभाव भी यही तक के लिए था । जिस प्रकार अष्टावक्र ऋषि ने पहले ही बता दिया था, ठीक वैसा ही हुआ । हाथों के गिरने पर उन्होंने मुक्ति पाने को बताया था । १०८ क्या बात है ! मैं धन्य हूँ कि जो कुछ आशा करता था और रात-दिन इन्हीं चरणों की रट लगाये था और प्रभु की शरण में मुझे गति प्राप्त हो गयी । मेरे शरीर को भस्म करके एक गहरा गड्ढा खोदकर भूमि को अर्पित करने की कृपा करें, जिससे मैं संसार से मुक्ति पा जाऊँ । १०९ सीता को प्राप्त करने का भी उचित

सीता पाउनको उपाय विनती गर्नुछु साँचो गरी ।
 भन्त्या या विनती सुन्या र हरिले पोलीदिया खाक् गरी ॥
 सुन्दर शुद्ध स्वरूप धन्यो प्रभुजिले खुश भै दिया वर पनि ।
 भक्तीले बहुतै गन्यो स्तुति र त्यो पाँच्यो परमधाम पनि ॥११०॥
 हे नाथ! सीताजि मिलिन अब तिमि शबरी छु जहाँ ताहि जाऊ ।
 साह्रै भक्ती छ तिम्रा चरणकमलको ताप तिनका छुटाऊ ॥
 येती विन्ति जगन्नाथ सित गरि जब धाम त्यो गयो राम फेरि ।
 आश्रममा पाँचि दर्शन शबरिकन दिया खुपकृपा राखिहेरी ॥१११॥
 आसनदेखि उठेर जल्द शबरी रामका चरणमा परिनु ।
 सक्भरको बहुतै पुजा गरि तहाँ हात् जोरि विन्ती गरिनु ॥
 हेनाथ! हीन कुलकी स्त्री जाति म गरीब जान्दीन तिम्रो स्तुति ।
 आधार मात्र फगत छ यै चरणमा यस्तै छ मेरो गति ॥११२॥
 विस्तार सब गुरुदेखि सुनि गुरुको आज्ञा मनैमा लिई ।
 कैले देख्छु हजूरलाइ भनि खुप तन मन हजूरमा दिई ॥
 पूजा नित्य हजूरको गरि यहाँ खामित्! बस्याकीथियाँ ।
 हे नाथ आज दया भयो हजूरको प्रत्यक्ष देखीलियाँ ॥११३॥

उपाय मैं आपको बताऊँगा । कबंध की ऐसी विनती सुनकर हरि ने उसके शरीर को भस्म कर दिया । तदुपरान्त एक सुन्दर शरीर प्रकट हुआ और प्रभुजी ने भी हर्षित होकर उसे आशीर्वाद दिया । भक्तिपूर्वक स्तुति कर वह परमधाम को पहुँच गया । ११० कबंध प्रभुजी से कहता है, हे नाथ! जहाँ शबरी रहती है, आप वहीं चले जायें, अब आपको सीताजी मिल जायेंगी । उसकी आपके चरणों में अगाध भक्ति है; आप जाकर उसके तापों का अन्त करें । जगन्नाथ से इतनी विनती कर जब वह परमधाम पहुँच गया, तब राम ने भी आश्रम में पहुँच कर शबरी को कृपापूर्वक दर्शन दिये । १११ शबरी राम को देखकर तुरन्त आसन से उठ बैठी, और राम के चरणों पर गिर पड़ी । अपनी शक्ति के अनुसार पूजाकर हाथ जोड़कर विनती की—हे नाथ! मैं एक नीच कुल की दीन स्त्री हूँ । आपकी स्तुति किस प्रकार करूँ, यह ज्ञान नहीं है, हमें केवल आपके चरणों का ही सहारा है, चाहे मेरी जैसी गति हो । ११२ गुरु की बतायी हुई विधि को सुनकर और उनकी आज्ञा मन में धारणकर कभी आपको देखती हूँ, तन-मन लगाकर नित्य आपकी पूजा करके मैं यहाँ रह रही हूँ । हे नाथ! आज आपकी इतनी कृपा हुई कि मैं साक्षात् आपके दर्शन पा रही

क्याले आज बहुत प्रसन्न हुनुभो कुन् कर्म मैले गन्याँ ।
 योगीको मनले नभेटि सकिन्या मैले त दर्शन गन्याँ ॥
 यस्तो बिनित सुनी दया बहुत भो हेतू प्रभूले कह्या ।
 उच्च नीच स्त्री र पुरुष विचारदिन म ता खुष् हुन्छु भक्तीभया ॥११४॥
 नौ साधन् कि त भक्ति छन् ति नवमा पैलो त सत्संग हो ।
 पैलो साधन् पो भयो पनि भन्या वाँकी रह्याका ति जो ॥
 आठ साधन्हरू हुन् ति ता क्रमसितै मिल्छन् असल् सङ्गले ।
 सत्को संग भया सबै वनिगया क्या हुन्छ कुन् सङ्गले ॥११५॥
 सत्को सङ्ग भै रह्याकी दिनदिन न उपर् भक्ति ठलो भयाकी ।
 सज्जनको सङ्ग पाईकन सग गुणमा पार पाँची गयाकी ॥
 देख्याँ मैले र दर्शन दिन भनि खुशिले आज आफैँ म आई ।
 दीयाँ दर्शन र पायौ तिमि अधम भया पाउँथ्यौ क्या मलाई ॥११६॥
 मुक्ती भो आज तिम्रो अव फजिति छुट्या खुशि भै आज जाऊ ।
 मेरी सीता कहाँ छन् कछु खबर भया त्यो पनी सब् वताऊ ॥
 हूकूम जस्सै सुनिथिन् तव तहिं विनती गर्दछिन् क्या वताऊँ ।
 सर्वव्यापी हजूरले बुझि त नसकिन्या एक रती छैन ठाउँ ॥११७॥

हूँ । ११३ पता नहीं, कैसे आज आप इतने प्रसन्न हो गये । आज मैंने कौन-सा ऐसा सुकर्म किया । आज मैंने आपका दर्शन पा लिया, जिसे वड़े-वड़े योगी नहीं पा सकते हैं । शबरी की ऐसी विनती सुनकर, प्रभु का हृदय दया से भर उठा । उन्होंने कहा—मैं ऊँच-नीच तथा स्त्री-पुरुष का विचार नहीं रखता, मैं तो प्राणिमात्र की भक्ति से प्रसन्न होता हूँ । ११४ भक्ति के नौ साधन हैं, जिनमें प्रथम तो सत्संग है । प्रथम साधन हो जाने पर जो भी शेष आठ है, अच्छी संगत से भी कठिनता से प्राप्त होते हैं । सत् के संग होने पर सब बनता है, जो कुसंग से नहीं बनता । ११५ सत्संग में रहकर प्रतिदिन मेरी भक्ति में तल्लीन, सज्जनों के सम्पर्क से सभी गुणों से परिपूर्ण देखकर, प्रसन्न होकर मैं आज स्वयं दर्शन देने के लिए आया हूँ । तुम्हें दर्शन मिल गया, अन्यथा तुम अधम होती तो क्या मुझे पा सकती थीं । ११६ आज तुम्हारी मुक्ति हुई । आज तुम्हारे संकट दूर हो गये हैं । मेरी सीता कहाँ है, यदि तुम्हें कोई सूचना हो तो वह भी मुझे बताओ । राम की यह आज्ञा सुनते ही, शबरी विनती करने लगी, मैं क्या बताऊँ, आप तो स्वयं सर्वव्यापी हैं, आपसे छिपा हुआ कोई स्थान नहीं । ११७ यह मैं सत्य ही कह रही हूँ, परन्तु आज मनुष्य-रूप

साँचो बिन्ती, गन्याँ यो तर पनि नरको आज यो रूप धारी ।
आज्ञा भो ता म बिन्ती पनि हजुरविषे गर्दछू काल् विचारी ॥
सीता लङ्काविषे छन् अब त हजुरले भेट सुग्रीवलाई ।
बकस्याजावस् ति गर्नन् जतिजति अरु काम् विल्कुलै पार लाई ॥११८॥

पम्पा भन्त्या तलाऊ पनि नजिक हुन्या ऋष्यमूक् पर्वतैका ।
ठाकुरैमा ति बस्छन् अति फजिति सही दिन् बिताई सधैंका ॥
बालीको डर् हुनाले तहिं बहुत बस्या बालि जाँ दैन ताहाँ ।
बालीलाई नजानू भनिकन छ सराप् सब् गन्याँ बिन्ति याहाँ ॥११९॥

सुग्रीव् सीत मित्यारि गर्न सब काम् हून्याछ सीता पनि ।
मिल्निन् आज म देह खाग् गरि यहीं पोल्छू नजीक् भै भनी ॥
बिन्ती पारि चिताविषे पसि शरीर् त्यो जो छ सब् खाग् गरिन्
ठाकुरको अति भक्तिले ति शबरी संसार सागर् तरिन् ॥१२०॥

क्या दुर्लभ् रघुनाथ् खुशी हुन गया जात्की अधम् भै पनि ।
श्रीराम्का अगि देह छाडिकन पार पाँचिन् सहज्मै तिनी ॥
ब्राह्मण् भैकन भक्ति गर्दछ भन्त्या उस्का त झन् क्या कुरा ।
जो कोही पनि भक्ति भो भनि भन्त्या योगी ति हुन्छन् पुरा ॥१२१॥

धारण कर यह आज्ञा की है, तो मैं अवसर को विचार करके आपसे विनती करती हूँ—सीताजी लंका में हैं। जब आप सुग्रीव से भेंट करेंगे तो जो काम होंगे, सब अवश्यमेव पूर्ण होंगे। ११८ वह सुग्रीव पंपा नामक तालाव के निकट ऋष्यमूक पर्वत के शिखर पर अत्यन्त संकटयम तथा दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। बालि के भय से वह वही रहता है। बालि को शाप है, इसलिए वह वहाँ नहीं पहुँच सकता। ११९ सुग्रीव से मित्रता होने पर पर जब सब कार्य पूर्ण होंगे, तब सीता भी मिल जायेंगी। आज मैं आप के निकट इस देह को भस्म करती हूँ। ऐसी विनती करके शबरी ने चिता में प्रवेश किया और अपने शरीर को अग्नि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार की भक्ति से शबरी ने संसार-सागर पार कर लिया। १२० नीच जाति की होकर भी शबरी का साहस देखकर, रघुनाथ अत्यन्त प्रसन्न हुए। जब ऐसे लोग श्रीराम के ही समक्ष देह त्याग कर परम-धाम को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर ब्राह्मण होकर भक्ति करने पर तो उसका कहना ही क्या! जो कोई भी हो, उनका भक्त होने पर मनुष्य पूर्ण योग्य होता है। १२१ हे मनुष्यो! रघुनाथ के चरणों की भक्ति मोक्ष दिलानेवाली है, यह जानकर कामधेनु के समान राम का मन

हे लोक हो ! रघुनाथका चरणको भक्ती छ मुक्ती दिन्या ।
 यो जानीकन कामधेनु सरिका राम् नाम् मनैमा लिन्या ॥
 क्या गछौं अरु मंत्र-तंत्रहरुले छोडेर सव् राममा ।
 तन्मन्लाइ अवश्य जान मनले सार् मिल्छ यै काममा ॥१२२॥

अरण्यकाण्ड समाप्त

में ध्यान करने से अन्य मंत्र तथा यंत्रों का प्रयोग करके क्या करेगा ?
 मन से निश्चित ही जानो कि तन-मन से एकान्त में ध्यान धरकर चिन्तन
 करने से ही सार प्राप्त होता है । १२२

किष्किन्धा काण्ड

जसैमुक्त भइ गइन् ति शवरी सव् वात् सुनी राम् पनि ।
 जान्छू आज म ऋष्यमूक गिरिमा सुग्रीव भेट्छू भनी ॥
 जान्थ्याकोश भरिको तलाउ मिलिगो पम्पा भन्याको पनि ।
 चीन्ह्या श्रीरघुनाथले शवरिले यै हो भन्याको भनी ॥१॥
 माछा कच्छप चल्दछन् कमलको सव् गिछ्छ केसर् तहाँ ।
 केसरले जब छोपियो पनि भन्या देखिन्छ जल् पो कहाँ ॥
 नीला लाल सफेद् कमल् पनि अनेक् रङ्गा भयाका तहाँ ।
 वोल्छन् हांस चकोर सारसहरु लाटाकुस्यारा जहाँ ॥२॥

जैसे ही शवरी चुप हुई, राम ने सारी बातें सुनने के पश्चात्
 ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से भेंट करने के लिए तत्काल ही जाने की
 इच्छा प्रकट की । लगभग एक कोस दूर जाने के बाद पम्पा नामक एक
 ताल उन्हें मिला, जिसे शवरी के कथनानुसार श्रीरघुनाथ ने पहचाना । १
 उस ताल में मछली और कछुए रहते थे और कमल के केसर गिरकर
 जल को पूर्णरूप से ढके हुए थे, जिससे जल कहीं भी दिखायी नहीं देता
 था । उस ताल के कमल लाल, नीले तथा सफेद अनेक रंगों में खिले
 हुए थे, जहाँ हांस, चकोर तथा सारस समूह वोलते रहते थे । २

जस्तो निर्मल हुन्छ सन्तहरूको मन सोहिमाफीक जल् ।
 निर्मल देखि बहुत् प्रसन्न हुनुभो लाग्यो र साह्रै असल् ॥
 थोडाजल् पनि पान् गरी सकल वन् हेथर्या जगन्नाथ तहाँ ।
 देख्या सुग्रीवले डरायर नजर लाया प्रभू छन् जहाँ ॥३॥
 बालीको छल हो भन्या बुझि तहाँ हात्ले इशारा दिया ।
 औरै कोहि रहेछ सज्जन भन्या हेरेर हाँसी लिया ॥
 ब्राह्मणको लडिका बनेर हनुमान् जाऊ ति को हुन् कहाँ ।
 जान्छन् क्या मनमा छ सब् वरिपरी हेरेर डुल्छन् तहाँ ॥४॥
 सुग्रीवले हनुमानलाइ जब यो हूकूम दिया जौ भनी ।
 ब्राह्मणको लडिका बनेर हनुमान् राम्का हजुरमा पनि ॥
 पाँची पाठसित बिनति पारि सब काम् सोध्या प्रभूको जसै ।
 विस्तार नाम र कामको प्रभुजिले खुश भै बताया तसै ॥५॥
 सुग्रीवको हनुमानले पनि तहाँ विस्तार बिनती गन्या ।
 बोक् श्रीरघुनाथलाइ भनि फेर आफ्नू स्वरूप झट् धन्या ॥
 राम् लक्ष्मणकन बोकि जल्दि हनुमान् सुग्रीवका पासमा ।
 पाँचाऊ रघुनाथलाइ भनि खुप् कूधाति आकाशमा ॥६॥
 जल्दी पर्वतका उपर पुगिगया छायाविषे राम् रह्या ।
 सुग्रीवलाइ खबर दिनाकन तहाँ जल्दी हनुमान् गया ॥

जैसे सन्तों के हृदय जल के समान निर्मल होते हैं, उसी प्रकार उस ताल में निर्मल जल को देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और आकर्षित हुए । कुछ जलपान करके श्रीजगन्नाथ ने सारे वन को देखा । प्रभु जहाँ थे, वहाँ सुग्रीव ने भयभीत होकर देखा । ३ बालि का छल तो नहीं है, यह जानने के लिए हाथ से इशारा करना और सज्जन हो तो देखकर हँस देना, यह कहकर सुग्रीव ने ब्राह्मण-पुत्र के रूप में हनुमान को उनके विषय में यह पता लगाने के लिए कि उनके मन में क्या है, और इस प्रकार चारों ओर देखकर क्यों घूम रहे हैं ? यह जानकारी करने को कहा । ४ सुग्रीव ने जब हनुमान को यह आज्ञा दी तो हनुमान भी ब्राह्मण के पुत्र के रूप में श्रीराम के समक्ष पहुँचे और नियमित रूप से प्रभुजी से समस्त कार्यों के विषय में ज्ञान देने की विनती की । प्रभुजी ने भी प्रसन्न होकर नाम तथा कार्य के विषय में पूर्ण-रूप से बताया । ५ हनुमान ने भी सुग्रीव के विषय में विस्तारपूर्वक विनती की । श्रीरघुनाथजी को ढोने के लिए अपने वास्तविक रूप को धारण किया । राम-लक्ष्मण दोनों को

विस्तार पायर आइ सुग्रीवजिले दर्शन प्रभूको गन्या ।
 हांगा कोमल भाँचि आसन दिया आनन्दसागर पन्या ॥७॥
 आसन् सुग्रीवलाइ लक्ष्मणजिले द्रीया, हनुमानले—
 लक्ष्मणजीकन बस्न आसन दिया ताहीं ठुला मानले ॥
 सब वृत्तान्त बताइ लक्ष्मणजिले विस्तार सुनाया जसै ।
 सीता जुन् गहना खसालि गइथिन् हाजिर् गराया तसै ॥८॥
 हा राम्! लक्ष्मण! येति मात्र मुखले बोलेर आकाशमा ।
 जान्थिन् सब गहना फुकालिकन ता हात्रा यसै वासमा ॥
 गिन्या पाठ् सित पो खसालि ति गइन् चिन्हींनं याहीं थियाँ ।
 कस्का हुन् यहिं चीन्हि बक्सनुहवस् यै हो हजूरमा दियाँ ॥९॥
 येती विन्ति गरी दिया ति गहना देख्या प्रभूले पनि ।
 चीन्ह्या सब गहनार शोक् बहुत भो हा ! मेरि सीता भनी ॥
 रोया छातिविषे धन्या र गहना नाना विलाप्ले जसै ।
 लक्ष्मण सुग्रीवले तहाँ प्रभुजिको दिल् खुश् गराया तसै ॥१०॥
 हे राम् ! रावणलाइ मारि सहजै सीताजिलाई यहाँ ।
 हाजिर् हामि गराउँला हजूरमा त्यो दुष्ट जाला कहाँ ॥

ढोकर सुग्रीव के पास पहुँचने के लिए आकाश की ओर अत्यन्त तीव्र गति से कूदे । शीघ्रता से पर्वत के शिखर पर पहुँच कर राम को छाया में रखकर हनुमान तुरन्त सुग्रीव को सूचना देने के लिए गये । विस्तारपूर्वक समाचार पाते ही सुग्रीव तुरन्त ही राम के दर्शनों के लिए आये और वृक्ष की शाखा को तोड़कर आसन देते हुए आनन्द के सागर में डूब गये । ६-७ सुग्रीव को लक्ष्मणजी ने आसन दिया और लक्ष्मणजी को बैठने के लिए हनुमानजी ने आसन दिया । लक्ष्मणजी ने जैसे ही विस्तारपूर्वक सारा हाल बताया, वैसे ही सीताजी द्वारा गिराये गये आभूषणों को सुग्रीव ने प्रस्तुत किया । ८ आकाश-मार्ग से जाते समय केवल हे राम ! हे लक्ष्मण ! मुँह से चीत्कार करती हुई, सीताजी ने अपने आभूषणों को उतार-उतार कर हमारे इसी निवास-स्थान पर गिरा दिया था, ये वही चिन्ह हैं, यह कृपया पहचानने का कष्ट करें । ९ इतना कहकर उन्होंने गहने दे दिये । प्रभुजी ने भी उन गहनों को भली प्रकार पहचान लिया और अत्यन्त शोकाकुल होकर बोले ! हाय सीते, और गहनों को वक्ष से लगाकर अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रोने लगे । यह देखकर लक्ष्मण और सुग्रीव ने प्रभुजी को ढाढ़स बँधाकर उनके हृदय को शान्त किया । १० हे राम !

येती बिनति तहाँ ति सुग्रीवजिले
बोल्या श्री हनुमानले पनि तहाँ
अग्नी साक्षि धरेर सुग्रीवजिले
बाहाँ जोरि सखा भई नजिकमा
सुग्रीवले तहिं बिनति बात् पनि गन्या
बालीका डरले बहुत् दिन बित्या
याहाँ बालि त आउँदैन छ सराप
पायाँ बस्न नहीं भन्या मकन ता
बालीको बल बिनति गर्छु अहिले
क्रस्तै वीर हउन् लड्या पनि भन्या
ठूलो वीर् मयपुत्र दानव थियो
बालीसीत लडाईँ गर्न भनि त्यो
बालीले पनि दौडि गैकन तहाँ
वाधा पाइ डराइ भागि उ गयो
बालीका पछि लागि मै पनि गयाँ
ढोकामा त मलाइ राखि रिसले

राम्का हजुरमा गन्या ।
अग्नी त साक्षीधन्या ॥११॥
राम्थ्यै मित्यारी गरी ।
सुग्रीव् बस्या तेस् घरी ॥
हे नाथ्! फजीती सही ।
येसै जगामा रही ॥१२॥
मातङ्गजीको र पो ।
कस्ले बचाऊँदथ्यो ॥
जस्देखि सब् डर्दछन् ।
लड्न्या सबै मर्दछन् ॥१३॥
मायावि नाऊँ थियो ।
आयो र हाँक् खुप् दियो ॥
हान्यो मुठीले जसै ।
लाग्यो पछाडी तसै ॥१४॥
राक्षस् गुफामा गयो ।
फेर् भित्र जाँदो भयो ॥

हम रावण को सहज ही मारकर सीताजी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, वह दुष्ट कहाँ जायेगा । इतनी विनती करके सुग्रीव राम के चरणों पर गिर पड़े और श्रीहनुमान ने भी उसी समय अग्नि को साक्षी रखा । ११ अग्नि को साक्षी रख के सुग्रीव ने राम के साथ मित्रता की शपथ ली । अपने हाथों को जोड़कर मित्र के निकट जाकर सुग्रीव बैठ गया । सुग्रीव ने पुनः प्रभु से विनती की, हे नाथ! बालि के भय से अनेक कष्टों को सहन कर इसी स्थान पर रह रहा हूँ । १२ मातंगजी के शाप के कारण बालि यहाँ नहीं आ सकता । यदि मुझे यहाँ रहने को न मिलता तो कौन बचा सकता था; क्योंकि बालि की शक्ति को देखकर सभी भयभीत होते हैं । और कैसा भी वीर क्यों न हो, यदि बालि से लड़ाई ठान ली तो यह निश्चित है कि लड़ने वाला मर जायेगा । १३ मय-पुत्र मायावी नामक एक वीर राक्षस बालि से युद्ध करने हेतु आया और बालि को ललकारा । बालि ने भी दौड़कर उसे घुँसा मारा । अपने सम्मुख वाधा आयी देख, वह भयभीत होकर भाग निकला और बालि उसके पीछे दौड़ा । १४ मैं भी बालि के पीछे-पीछे गया और वह राक्षस गुफा के अन्दर चला गया । द्वार पर मुझे रखकर क्रोधित होकर बालि अन्दर चला गया । एक मास व्यतीत होने

मैह्ला दिन् बिति गैगयो त पनि त्यो फर्केन वाली जसै ।
 साह्रै दिक् म थियाँ कसो गरुँभनी आयो रगत् पो तसै ॥१५॥
 लौ वाली त मरेछ हेरि रगतै आयो गुफादेखि ता ।
 मैलाई पनि फर्कि माछ रिसले गूफा थुनी जाँ म ता ॥
 यस्तो बुद्धि भयो र पत्थर ठुलो ल्यायाँ र गूफा थुन्याँ ।
 फर्की आउन मन् गन्या पनि सहज् निस्की नसक्नु हुन्या ॥१६॥
 यस्ता पाठ्सित खुप् थुन्याँ र म फिन्याँ वाली मन्या लौ भनी ।
 विस्तार सब् ति सुनाउँदा मकन ता राजा बनाया पनि ॥
 राजा भैकन राज्य भोग् पनि गन्याँ क्यै दिन् पछि बालि ता ।
 राक्षस् मारि फिरेर दाखिल भयो रीसाइ मैमाथि ता ॥१७॥
 उस् दिन्देखि डराइ याहिं म रह्याँ मेरी त पत्नी पनि ।
 बलजपती सित भोग गर्छ गर्ह कया पुग्दैन जोर् तैपनि ॥
 याहाँ आउन सक् भये यहिं पनी आएर मान्या थियो ।
 पाप्को कया डर मान्छ त्यो र बलले जस्ले बुहारी लियो ॥१८॥
 साह्रै दुःखि भयेर सुग्रीवजिले विन्ती गन्याको सुनी ।
 सुग्रीवको अब दुःख हर्दछु भनी अन्तस्करण्ले गुनी ॥

पर भी बालि लौटकर नहीं आया । मैं किंकर्तव्य-विमूढ़-सा होकर अत्यन्त चिंतित था कि देखा, द्वार से रक्त की नदी बाहर की ओर बह रही है । १५ मैंने सोचा, कदाचित बालि का बध कर दिया गया है, इसी-लिए गुफासे रक्त बह निकल रहा है । कहीं वह क्रोधित होकर मुझे भी न मार दे, इसलिए गुफा को बन्द करके मैंने चले जाने की सोची । यह सोचकर एक बड़ा-सा पत्थर लगाकर गुफा को बन्दकर दिया, जिससे वह लौटकर आने पर भी निकल न सके । १६ इस प्रकार गुफा को बन्द करके बालि को मरा समझकर मैं लौट पड़ा और यह सब वृत्तान्त सुननेके बाद मुझे यहाँ का राजा बना दिया गया । राज-भोग करने के एक ही दिन पश्चात बालि राक्षस को मारकर आ पहुँचा, और मुझ पर अत्यन्त क्रोधित हुआ । १७ उस दिन से भयभीत होकर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, बालि मेरी पत्नी को भी बलपूर्वक छीन ले गया । क्या करूँ, मुझमें कोई जोर नहीं । यदि वह यहाँ आ सकता तो यहीं आकर मुझे मार डालता । जिसने बलपूर्वक अपनी बहू तक को छीन लिया, उसे पाप का क्या डर है ? १८ सुग्रीव की ऐसी दुख-भरी विनती सुनकर अपने अन्तःकरण में सुग्रीव के दुख को हरण करने का विचार करके प्रभुजी ने कहा, सुनो सखे ! उस बालि का

खातिर् श्रीप्रभुले गन्या सुन सखे!
 तिम्रो राज्य गराउँला अब उपर्
 यस्तो सत्य वचन् सुन्या प्रभुजिको
 शकछन् क्या तब वालि मार्नकन ता
 बालीलाइ बहुत वीर् बुझि तहाँ
 बालीको अधिको पराक्रम कहा
 एक दिन् दुन्दुभि नाम रासस् ठुलो
 बालीले सहजै निमोठिकन शिर्
 सोही फ्याँकिदिदा यहाँ गिरिगयो
 छीटा पर्न गयो बहुत् रगतका
 बालीलाइ सराप् दिया अब यहाँ
 शिर् जुहा भइ पृथ्विमा गिरिगयास्
 यो मालुम् त मलाइ सब् अधि थियो
 उस्लाई पनि यो छ याद् तब म तेस्
 सोही शिर् अझतक् छ पर्वत सरी
 बाली मार्न समर्थ ताहि चिन्हँला

त्यो बालि मारी यहाँ ।
 जोर् चलछ तेस्को कहाँ ॥१९॥
 शंका पन्यो तैपनि ।
 ठूलो छ बाली भनी ॥
 राम्का अगाडी सरी ।
 बिल्कूल विस्तार् गरी ॥२०॥
 आयो र हाँक् खुप् दियो ।
 छुट्ट्याइ हात्मा लियो ॥
 चार् कोश् जगामा जसै ।
 ऋषी रिसाया तसै ॥२१॥
 आइस् भन्या तै पनि ।
 जस्तै गिन्यो यो भनी ॥
 सो जानि याहीं रह्याँ ।
 वीर् देखि बाँचतो भयाँ ॥२२॥
 यो फ्याँक्न सकन् भया ।
 मेरा त सेखी गया ॥

वध करके मैं तुम्हें राजा बनाऊँगा, क्योंकि अब यहाँ पर उसकी कोई शक्ति काम नहीं आयेगी । १९ प्रभुजी के ऐसे सत्य वचनों को सुनकर भी सुग्रीव के मन में शंका उत्पन्न हुई कि बालि तो भयंकर है, क्या प्रभुजी उसका वध कर सकेंगे ? बालि को अत्यन्त वीर समझकर राम के सम्मुख खड़े होकर बालि के पराक्रमों का सविस्तार वर्णन किया । २० एक दिन दुन्दुभी नामक भयंकर राक्षस ने आकर जोरों से ललकारा । बालि ने सहज ही उसे हाथ में लेकर शरीर से सिर अलग करते हुए मरोड़ दिया और फेंक दिया । उसको फेंकने पर चार कोस भूमि उसके शरीर ने घेर ली, जिससे भूमि कम हो जाने पर ऋषि आदि क्रोधित हुए । २१ ऋषियों ने क्रोधित होकर बालि को शाप दिया कि यदि तुम यहाँ आओगे, तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर अलग हो जायेगा, और उसी राक्षस की भाँति गिर जाओगे । यह सब बातें मुझे पहले से ही ज्ञात थीं, इसीलिए यहाँ आकर रहने लगा हूँ, और उसे भी यह स्मरण है कि वह यहाँ जीवित नहीं रहेगा, इसीलिए तो मैं उस वीर से बचा हुआ हूँ । २३ वही सिर अभी तक पर्वत के समान यहाँ पड़ा हुआ है, और यदि इसे फेंक सकते हो तो बालि का वध करने की सामर्थ्य को पहचानूँगा । मैं तो हार खा चुका ।

यी बात सुग्रीवका सुनी झलक धूँ
 फ्याँक्या शिर् तहिं पाउका अँगुलिले
 देख्या सुग्रीवले तथापि मनमा
 सकछन् क्या तब वालि मानकन ता
 सात् ताल् वृक्ष इ छन् इ एक शरले
 सुग्रीवका मनमा भयो र इ कुरा
 हे नाथ ! विन्ति म गर्दछू अरु पनी
 येही शिर्कन फ्याँ कि मात्र मनले
 वालीले यहि ताल वृक्षकन ता
 हल्लाएर खसालिदिन्छ जति छन्
 ई ताल् वृक्ष पनी यहाँ हजुरले
 सब्मा छिद्र गराइबक्सनु हवस्
 येती विन्ति तहाँ ति सुग्रीवजिले
 राम्जीले पनि लौ भनेर खुशिले
 वाण् फ्याँक्या प्रभुले र वेग् सित गयो
 पर्वत् भूमि समेत विदारि पर गो

यिन्लाइ भन्न्या भयो ।
 चालीस कोश तक् गयो ॥२३॥
 शंका त फेरी रह्यो ।
 ठूलो छ भन्न्या भयो ॥
 छेड्छन् त मार्छन् भनी ।
 सब् थोक् सुनाया पनि ॥२४॥
 यस्तो छ वाली भनी ।
 मानने विश्वास पनि ॥
 बूटै बराबर गनी ।
 सम्पूर्ण पत्ता पनि ॥२५॥
 एक वाण ऐले धरी ।
 बुझ्न्या छ मन् खुप् गरी ॥
 राम्थ्यै जसै ता गन्या ।
 हात्माधनुष्वाण्धन्या ॥२६॥
 सात् ताल भेदन् गरी ।
 साम्ने त सब् साफ् गरी ॥

यह सुन प्रभु ने उसे अपने पराक्रम का परिचय देने की सोची और अपने पाँव की उँगली से उसके सिर को धकेल दिया, जो चालिस कोस दूर जा पहुँचा । २३ सुग्रीव ने यह सब कुछ देखा तथापि उसके मन में पुनः शंका उत्पन्न हुई; क्योंकि वालि महावली है, उसे मारना फिर भी सम्भव नहीं । सात तालवृक्ष जो यहाँ हैं इन्हें एक सर से गिरा देता है । ऐसे वीर को मारने की बात ने सुग्रीव के मन को चिन्तित किया और उन्होंने सब कुछ राम से कह सुनाया । २४ हे नाथ ! वालि के इसी प्रकार के और भी बहुत से पराक्रम हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ । यह सिर फेंक देने मात्र से मेरे मन में विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वालि इन ताल वृक्षों को छोटे पेड़ के समान समझकर हिलाते हैं और सम्पूर्ण पत्ते गिरा देते हैं । २५ अतः इन तालवृक्षों को आप भी एक वाण द्वारा छेदने की कृपा करें, तब मैं अपने को सन्तुष्ट कर लूँगा । सुग्रीव ने जैसे ही राम से यह विनती की राम ने भी तुरन्त प्रसन्न होकर हाथ में धनुष-वाण ले लिया । २६ प्रभु द्वारा छोड़े गये वाण अत्यन्त तीव्र गति से सातों तालवृक्षों को छेदते हुए पर्वत-भूमि सहित काटकर सामने की सब भूमि साफ करने के पश्चात् पुनः तरकश में लौट आये । यह देखकर सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ ।

ठोक्रेमा फिरि आइ बाण् जब पन्यो
साक्षात् श्रीपति हुन् भनी चिन्हि तहाँ
हे नाथ! बल्ल चिन्ह्याँ अहो सकलका
मायादेखि फरक् भयो अब त मन्
क्या गर्छु अब पुत्र दार धनले
मेरा सब दश इन्द्रियै हजुरका
यै पाठ्ले जब ता गन्या स्तुति तहाँ
यो ज्ञान् आज नद्युँ भनी प्रभुजिले
मायाले अनि मोह पारि रघुनाथ
सुग्रीव मोह भया वचन् सुनि तहाँ
हे सुग्रीव सखे ! मलाइ दुनियाँ
कुन् चीज सुग्रीवलाइ दीकन गया
यो लोकको अपवाद म मेट्छु अब ता
ताहाँ गैकन हाँक देउ तिमिले
ऐले राज्य गराउँछु भनि तहां
सुग्रीव खूशि भयेर वालिकन खुप
किष्किन्धा पुरिका नजीक वनमा
सुग्रीवजी जब ता चल्यो बुझि खबर

सुग्रीवजी छक् पन्या ।
राम् को स्तुती खुपगन्या ॥
आत्मा जगन्नाथ भनी ।
लागदैन माया पनि ॥
सम्पूर्ण ई दूर हउन् ।
सेवा टहलमा रहून् ॥२८॥
सुग्रीवको सो सुनी ।
अन्तस्करण्ले गुनी ॥
हाँस्या र बोल्या जसै ।
ऊ ज्ञान बिस्र्या तसै ॥२९॥
भन्नन् मित्यारी गरी ।
आपत्ति तिनका हरी ॥
वाली छ ऐले जहाँ ।
त्यो बालि माछू यहाँ ॥३०॥
राम्को हुकुम् भो जसै ।
हांक्या वचन्ले तसै ॥
आयेर हाँक् खुप गरी ।
वाली छुट्या तेस् घरी ॥३१॥

साक्षात् श्रीपति राम को पहचान कर उनकी नियमपूर्वक स्तुति की । २७
हे नाथ ! सकल संसार की आत्मा श्रीजगन्नाथ ! अब मैंने आपको
पहचाना । माया के कारण विचलित मेरा मन भी अब नहीं स्थिर है ।
माया-मोह लेकर अब मैं क्या कहूँगा । पुत्र एवं स्त्री-धन से मुझे दूर ही
रखें । मेरी दसों इन्द्रियाँ आपकी ही सेवा-टहल में समर्पित रहें । २८
जब इस प्रकार की विनती राम ने सुनी तो इस विचार से कि अभी आज
यह ज्ञान न देना ही उत्तम होगा, माया-मोहपूर्वक हंसकर बोले और
सुग्रीव उनके मोहपूर्ण वचनों को सुनकर अपना सारा ज्ञान भूल गया । २९
हे सखे सुग्रीव ! संसार कदाचित् यह कहे कि मित्रता करके आपत्तियों
का हरण कर सुग्रीव को कौन सी चीज सौंप गए हैं । इस लोक-अपवाद
को मैं मिटाता हूँ । अब तो जहाँ बालि है वहाँ जाकर तुम ललकारो,
मैं उसका वध-करूँगा । ३० जैसे ही राम ने यह कहा कि तुम्हें राज्य
दिलवाऊँगा वैसे ही सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बालि के पास जाकर उसे ज़ोरों
से ललकारा । किष्किन्धापुरी के निकट वन में आए सुग्रीव की ललकार
को सुनकर और सुग्रीव को पहचानकर बालि भी वहाँ आ गया । ३१

वाली सुग्रीवको लडाईं पनि भो
सक्थ्या सुग्रीवले कहाँ सहजमा
बाण छोडीकन वालिलाइ अब ता
एक् क्षण ता यहि आशले टिकिगया
वाली सुग्रीवको दुरुस्त अनुहार
वाण थाम्या टिकिसक्नु मुशिकल भई
पाँच्या श्रीरघुनाथका हजुरमा
बल् तोडीकन् वालिले हरिलियो
सुग्रीवले तहिं विन्ति खुप्सित गय्या
मानेको यदि मन् छ पो पनि भन्या
आफैले यहि मारिवक्सनु हवस्
शत्रुलाइ लगाइ माने त उचित्
सुग्रीवका इ वचन् सुनी गहभरी
सुग्रीवजीकन अङ्कमाल गरि खुप्
हे सुग्रीव सखे ! दुरुस्त अनुहार
मर्नन् मित्र भनेर पो डर हुँदा

सुग्रीव एक् क्षण लड्या ।
वाली क विरलै धर्या ॥
मानेन् प्रभूले भनी ।
घुस्सा दिदामा पनि ॥३२॥
एक् देखि राम्ले जसै ।
सुग्रीव भाग्या तसै ॥
काम्दै र छादै रगत् ।
एक् देह पाँच्यो फगत् ॥३३॥
हे नाथ ! मलाई यहाँ ।
जोर चल्छ मेरो कहाँ ॥
खामित् ! हजुरले पनि ।
हो क्या सखा हो भनी ॥३४॥
आँसू प्रभूले धन्या ।
खातिर् प्रभूले गन्या ॥
एक् देखि शंका भयो ।
बाँचेर वाली गयो ॥३५॥

बालि तथा सुग्रीव-का युद्ध कुछ क्षणों तक हुआ । बालि के सामने सुग्रीव क्या कर सकता था । वीर बालि ने बड़ी सरलता से उसे पकड़ लिया । इस आशा पर कि अभी प्रभु बालि को वाण-प्रहारकर मार डालेंगे, सुग्रीव कुछ क्षणों तक घुँसा मारने पर भी सहन कर टिका रहा । ३२ बालि और सुग्रीव दोनों का ही एक ही रूप देख प्रभु ने अपने वाण को रोक लिया । परन्तु सुग्रीव के लिए अब अधिक टिकना अत्यन्त कठिन हो गया, अतः वह वहाँ से भाग निकला और काँपते हुए वमन करता हुआ श्रीरघुनाथ जी के पास पहुँचा । बालि ने सुग्रीव की शक्ति का हरणकर लिया और केवल उसका शक्तिहीन शरीर ही-वहाँ तक पहुँचा । ३३ सुग्रीव ने अत्यन्त व्यग्र होकर प्रभु से विनती की, हे नाथ ! यदि मुझे मार डालना चाहते हैं तो आप स्वयं मार डालें । मेरा अपने पर कोई वश नहीं । स्वामी ! क्या अपने मित्र को इस तरह शत्रु के हाथ से मरवा डालना उचित होगा । अच्छा हो यदि उस शत्रु के हाथ से न मारा जाकर मैं आपके हाथों मारा जाऊँ । ३४ सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर प्रभु द्रवीभूत होकर बड़े दुःख से आँसू वहाने लगे । अत्यधिक स्नेह से भरकर उन्होंने सुग्रीव को अपने आलिगन में भर लिया और बड़े आदर से कहा, हे सखे सुग्रीव ! तुम दोनों का एक-सा रूप देखकर मैं शंका से भर गया,

चिह्नो देह विषे धरेर अहिले जाऊ र हाँक् देउ फेर ।
 वालीलाइ म मारिदिन्छु सहजै लाग्वैन ऐले त बेर ॥
 यस्ता वात् गरिखुप् शपथपनि गन्या सुग्रीवको मन् भरी ।
 आज्ञा लक्ष्मणलाइ बक्सनुभयो फूल ल्याउ मालाधरी ॥३६॥
 सो माला पहिराइ भाइ तिमिले जल्दी पठाऊ तहाँ ।
 हाँक् दीउन् अब वालिलाइ अहिले माछू म छोड्छू कहाँ ॥
 लक्ष्मणले पनि यो हुकूम सुनि तहाँ माला लगाईदिया ।
 त्यो माला पहिरेर सुग्रीव गया वाली जहाँ वीर थिया ॥३७॥
 वालीलाइ सुनाइ हाँक् बहुत दी सुग्रीव बस्याथ्या जसै ।
 वालीले पनि शब्द सुग्रीवजिको सून्या र ऊठ्या तसै ॥
 आश्चर्य मनमा भयो अधि भन्या ऊठ्यो पछी रिस् अनि ।
 मुक्का खाइ लगारियो तपनि फेर फक्यो भगूवा पनि ॥३८॥
 वालीले पनि फेर कछाइ कसि तयार भै जान लाग्या जसै ।
 ताराले त नजाउ यस् बखतमा भन्दै समातिन् तसै ॥
 कोही वीर बलवान् सहाय मिलि पो सुग्रीव आया यहाँ ।
 साहाय्यै नभया त येहि घडिमा सुग्रीव फिर्थाकहाँ ॥३९॥

और शत्रु की जगह कहीं मित्र का ही बध न हो जाय इसी डर से मैंने प्रहार करना रोक दिया और बालि बच गया । ३५ अपने शरीर पर कोई चिह्न धारण करके जाओ और फिर से बालि को ललकारो । मैं बालि को सहज ही में मार डालूंगा । आज इस कार्य में कोई विलम्ब नहीं होगा । ऐसा कहकर सुग्रीव को आश्वासन दिया और उसके सामने इस कार्य की शपथ ली । फिर लक्ष्मण से बोले कि एक फूलों की माला बना लो । ३६ यह माला पहनाकर सुग्रीव को वहाँ भेजो । अब बालि को जाकर वह ललकारे । मैं इस बार उसे नहीं छोडूंगा, अभी मार डालूंगा । राम की यह आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने सुग्रीव को माला पहना दी और सुग्रीव वह माला धारण किये हुए बालि के पास गया । ३७ बालि को ललकार कर जैसे सुग्रीव बैठा ही था कि बालि भी सुग्रीव के शब्दों को सुनकर उठ बैठा । पहले तो बालि आश्चर्य में डूब गया, लेकिन फिर तुरन्त ही क्रोधित होकर बोला कि मुक्का खाकर और इस प्रकार खदेड़े जाने पर भी वह फिर कैसे लौटकर आया है । ३८ बालि भी कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार होने लगा । पर तारा ने उसे 'इस समय न जाओ' ऐसा कहकर रोक लिया । निश्चय ही किसी वीर का सहयोग पाकर ही सुग्रीव यहाँ आया है । यदि कोई सहारा न होता तो सुग्रीव इसी समय

ताराका इ वचन् सुनेर बलवान् वीर् बालि बोलछन् तहां ।
 हे प्यारी ! नडराउ को छ म सरी वीर् आज दोस्रो यहां ॥
 सुग्रीवलाइ सहज् सहाय सहितै मारेर फिन्या म छु ॥
 वीर हूं हांक दिदा कसो गरि वसूं शङ्का नमान्या कछु ॥४०॥
 वालीका इ वचन् सुनीकन तहां ताराजिले फेर पनि ।
 भन्छिन् नाथ् ! कछु सुनि बक्सनुहवस् क्या भन्दछे यो भनी ॥
 बिनती गछु म हित् कुरा हजुरमा साक्षात् अयोध्यापति ।
 श्रीरामचन्द्र सहाय छन् अब तहां चलैन जोर् एक रती ॥४१॥
 सुग्रीवसीत मित्यारि लाइ रघुनाथ् ज्यूले पिछामा लिया ।
 वाली मारि म राज्य आज दिउला भन्न्या वचन् यो दिया ॥
 भन्न्या बात् अरुमा हुंदा बनमहां सूनेर अङ्गद यहाँ ।
 आई सब इ कुरा मलाइ अधि नै भन्थ्यो न जाऊ तहाँ ॥४२॥
 सुग्रीवसीत विरोध् नराख तिमिले जाऊ र ल्याऊ यहाँ ।
 यो राज् सुग्रीवलाइ देउ अब ता जित् छैन तिम्रो तहाँ ॥
 श्रीरामका दुइ पाउमा पर तिम्री गर्नन् प्रभूले दया ।
 सांचा हुन् इ कुरा बुझी लिनु हवस् भोग् गर्न इच्छा भया ॥४३॥

कैसे लौटता । ३९ तारा के ऐसे वचनों को सुनकर बलवान वीर बालि बोला, हे प्यारी, डरो मत । मेरे समान वीर आज यहाँ और कौन है? सुग्रीव को उसके सहयोगी-सहित आज मार कर ही मैं आऊँगा । मैं वीर हूँ । शत्रु के ललकारने पर मैं किस प्रकार बैठे रहूँ? अतः तुम शंका मत करो । ४० बालि के इन वचनों को सुनकर तारा पुनः कहती है— हे नाथ ! यह (दासी) क्या कहती है, कुछ तो सुनने की कृपा करें । मैं (आपके और) अपने हित की बात कहती हूँ— अयोध्यापति साक्षात् श्री रामचन्द्रजी सुग्रीव के सहायक हैं, अतः अब तो कुछ भी बश नहीं चलेगा ! ४१ सुग्रीव के संग मित्रता करके रघुनाथ जी ने बालिका वध कर राज्य दिलाने का वचन दिया है और यह बात बन में औरों के मुँह से सुनकर अंगद ने पहले ही आकर मुझे सूचित किया है और इसीलिए पहले भी मैंने आपको वहाँ जाने से रोका था । ४२ आप सुग्रीव के साथ शत्रुता न करें । जाइए और उन्हें यहाँ ले आइए आप उनसे जीत नहीं सकते । अब यह राज्य सुग्रीव को सौंप दीजिए । जाकर श्रीराम जी के चरणों में पड़े, वे प्रभु निश्चय ही दया करेंगे । यदि जीवन की इच्छा हो तो इन बातों को सत्य समझने की कृपा करें । ४३ यह बिनती

येती बिनित् गरेर पाउ दुइमा पकरे रोइन् जसै ।
 तारालाइ बुझाउनाकन तहाँ फेर वालि बोल्या तसै ॥
 हे प्यारी ! नडराउ कत्ति रघुनाथ साक्षात् रमाका पति ।
 नारायण भनि चिन्दछु म पनि सो नाथ हुन् जगत्का गति ॥४४॥
 ताहाँ छन् रघुनाथ भन्या चरणमा पन्याछु चाँडै वहाँ ।
 सुग्रीवै छ फगत् भन्या सहजमा मान्याछु छाड्छु कहाँ ॥
 सुग्रीव कुन् बलियो छ पाजि भगुवा त्यो लड्न मन्सुव् लिन्या ।
 तेस पाजीकन डाकि आज कसरी यो राज्य मैले दिन्या ॥४५॥
 तस्मात् शोक नगरी बसीरहु तिमि जान्छु म ताहाँ भनी ।
 लड्नैलाइ कछाड् कसीकन तयार भै बालि दौड्या पनि ॥
 बाली सुग्रीव दूइ भाइ रिसले फेर लड्न लाग्या जैसे ।
 रूखको आड गरी तहाँ प्रभुजिले एकबाण छोड्या तसै ॥४६॥
 वाण बज्यो जब बालिका हृदयमा सर्वाङ्ग बाधा गरी ।
 पृथ्वी कम्प गराइ झट तहि गिन्या वीर वालि मूर्छा परी ॥
 मूर्छा दूइ घडी पन्या पछि अलिक चैतन्य आयो जसै ।
 देख्या श्रीरघुनाथलाइ खुशि भै सामने बस्याका तसै ॥४७॥
 भन्छन् श्रीरघुनाथलाइ रघुनाथ ! तिम्रो बिराम् क्या गन्याँ ।
 धर्म छाडि लुकेर आज तिमिले मान्यौ म ऐले मन्याँ ॥

कर, दोनों पाँव पकड़कर रोती हुई तारा को समझाने के लिए बालि पुनः बोला,— हे प्यारी ! तुम किंचित्मात्र भी भयभीत न हो । साक्षात् रमा के पति जगत्-पति नारायण रघुनाथ को मैं भली प्रकार पहचानता हूँ । ४४ यदि रघुनाथ वहाँ होंगे तो मैं तुरन्त उनके चरणों में पड़ जाऊँगा और यदि केवल सुग्रीव ही अकेला होगा तो उसे नहीं छोड़ूँगा, सहज ही मार डालूँगा । सुग्रीव कौन ऐसा बलवान है, भगोड़ा कहीं का ! मुझसे युद्ध करने की इच्छा करता है ! उस दुष्ट को बुलाकर मैं किस प्रकार यह राज्य सौंपूँ ? ४५ इसलिए शोक न करो ! तुम यहीं बैठी रहो, मैं वहाँ जाता हूँ । यह कहकर लड़ने के लिए लँगोट कसकर तैयार हो बालि दौड़ पड़ा । बालि-सुग्रीव दोनों भाई क्रोधित हो पुनः युद्ध करने लगे । वैसे ही पेड़ की आड़ से प्रभु ने एक बाण छोड़ा । ४६ जैसे ही राम का बाण, बालि के हृदय में, सर्वांग को छेदता हुआ टकराया, पृथ्वी में कम्पन हुआ और बालि मूर्च्छित होकर तुरन्त वहीं गिर पड़ा । दो घड़ी मूर्च्छित रहने के पश्चात् बालि को जैसे ही थोड़ी चेतना आई, वैसे ही श्रीरघुनाथ को प्रसन्नचित्त सामने बैठा पाया । ४७ बालि ने श्रीरघुनाथ जी से कहा—

यो क्या क्षत्रिय धर्म हो लुकिलुकी
 क्षत्री भैकन धर्म छोडि लडन्या
 साम्ने भैकन बाण छोडि तिमिले
 सुग्रीव्हो कति साख् म हूँ कति कुसाख्
 सीता रावणले हन्यो भनि बहुत्
 सुग्रीव्लाइ सहाय ली मकन ता
 मान्यौ यो अति चुक् भयो गरुँकसो
 रावण्लाइ कुलै समेत् सहजमा
 लङ्का पूरी समेत् पनी म बलले
 पाजी रावणलाइ मानं तिमिले
 चोरी मारि लिंदा न यश् हुन गयो
 धर्मात्मा तिमि पापि झै हुन गयो
 वालीका इ वचन् सुनेर रघुनाथ्
 वाली हूँ भनि गर्व गर् त पनि हेर्

वीर् वाण छोड्छन् कहीं ।
 एक् आज देख्याँ यहीं ॥४८॥
 माथ्यौ त खुप् यश थियो ।
 हादैव ! क्या मन् दियो ॥
 सन्ताप मन्ले गरी ।
 लूकेर चोर् झै गरी ॥४९॥
 बाँच्छ्याँ त याहीं बसी ।
 झिक्थ्याँ म पाता कसी ॥
 झिक्थ्याँ सहजमा यहीं ।
 क्या जानुपथ्यौ उहीं ॥५०॥
 मासू न खानू भयो ।
 ज्यान् व्यर्थ मेरो गयो ॥
 भन्छन् तँ वोल्छस् कति ।
 साँचै तँ होस् दुर्मति ॥५१॥

हे रघुनाथ ! मैंने आपका क्या बिगाड़ा था । धर्म को त्याग कर आज आपने मुझे छिपकर मारा और मैं अब मरा । क्या वीर के लिए, छिप-छिपकर बाण प्रहार करना कोई क्षत्रिय-धर्म है । क्षत्रिय होते हुए भी धर्म को त्यागकर लड़नेवाले को आज ही मैंने देखा । ४८ सामने आकर बाण छोड़कर यदि तुम मुझे मारते तो यश की बात थी । सुग्रीव कितने सज्जन हैं और मैं कितना बुरा हूँ । हा दैव ! यह कैसा हृदय है । सीता को रावण-द्वारा हरण करने पर अत्यन्त सन्तापग्रस्त होकर सुग्रीव से तो यह सहायता ली और मुझे छिपकर चोरों की भाँति मारा । ४९ भयंकर भूल हो गई । क्या करूँ ! यदि बच जाता तो यहीं रहकर रावण को उसके सम्पूर्ण कुल-सहित, सहज ही में बँधवाकर यहाँ प्रस्तुत करता । मैं अपनी शक्ति से सरलतापूर्वक लंकापुरी सहित उसे यहाँ उठा लाता । दुष्ट रावण को मारने के लिए तुम्हें वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती । ५० मरते समय बालि कहता है कि चोरी से यों मारने से कोई लाभ नहीं हुआ । न तो तुम्हें ही यश प्राप्त हुआ न मेरा मांस ही किसी काम आया । तुमने छिपकर मुझे मारा इसलिए मुझे मारकर भी तुम धर्मात्मा नहीं, पापी के समान हो । बालि के इन वचनों को सुनकर रघुनाथ कहते हैं—“चाहे भले ही तुम बलिष्ठ होने का गर्व करते हो फिर भी तुम दुर्मति से युक्त हो । ५१ तुमने किंचित्मात्र भी पाप का भय नहीं

पापको डर् रतिभर् नराखि तईले
 सोही पाप अहिले प्रकट हुन गयो
 धर्म स्थापन गर्नलाइ त यहाँ
 धर्म जानि अधर्म ठानि अहिले
 श्रीरामका इ वचन् सुनी प्रभु भनी
 वानर् हूँ रघुनाथ ! क्षमा गर भनी
 नामोच्चारणले फगत् सहजमा
 ख्वामित् ! जान्छ हजूरमा, अव भन्या
 पायाँ मर्न म भाग्यको कति बखान्
 को पाऊँछ हजूरलाइ भगवान् !
 मेरो ता गति ये थियो मिलिगयो
 अङ्गदमाथि दया रहोस् हजुरको
 मेरा छातिमहाँ छ बाण् हजुरको
 शीतल् देह हुने थियो सहजमा
 बालीका इ वचन् सुनी प्रभुजिले
 ठाकुरका अगि देह छाडि खुशि भै

खुशु भै बुहारी हरिस् ।
 तेस् पापले पो मरिस् ॥
 औतार मैले लियाँ ।
 तैलाइ मारीदियाँ ॥५२॥
 जानी चरणमा पन्या ।
 हात् जोरि बिन्ती गन्या ॥
 संसार सागर् तरी ।
 मैले त दर्शन् गरी ॥५३॥
 मेरो म ऐले गरूँ ।
 मन्या वखत्मा अरू ॥
 जान्छू परमधाम् म ता ।
 हाजिर् छ सेवक् उता ॥५४॥
 यो खँचि छोईदिया ।
 प्राण आज जान्या थिया ॥
 वाण् झीकि छूँदा भया ।
 बाली परमधाम् गया ॥५५॥

किया और प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहू का हरण किया । तेरा वही पाप अब प्रगट हुआ है और इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है । धर्म-स्थापना के लिए ही मैंने यहाँ अवतार लिया है और धर्म-अधर्म दोनों का विचार करके ही मैंने तुम्हारा इस समय बध किया है । ५२ श्रीराम के इन वचनों को सुनकर, उन्हें प्रभु जानकर बालि तुरन्त ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, 'हे रघुनाथ ! मैं वानर हूँ' यह कहते हुए हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करने लगा । प्राणी केवल आपके नामोच्चारण से सहज ही में संसार-सागर तर जाता है । फिर मैंने तो अन्त समय में आपके दर्शन कर लिए हैं, अतः हे स्वामी अब मैं बैकुण्ठलोक को जाता हूँ । ५३ हे भगवन् ! मैं कहाँ तक आपकी सराहना करूँ । मुझे आपके हाथों मरने का अवसर प्राप्त हुआ । मृत्यु के समय आपको कौन पा सकता है । मेरी तो गति यही थी कि मैं आपको न पाता । लेकिन मैंने तो आपको पा लिया । अब मैं परमधाम को जाता हूँ । अंगद के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, वह आपके सेवक के रूप में तत्पर है । ५४ मेरे वक्ष पर आपके वाण हैं, आपके करकमलों से इन्हें बाहर खींचकर स्पर्श कर देने से मेरी देह शीतल हो जायगी और प्राण सहज में निकल जायेंगे ।

वालीका संगमा थिया जति तहाँ
 ताराजी सित गै वहाँ सब हवाल्
 राम्जीले लुकि बाण छोडि सहजै
 सुग्रीव मंत्रि समेत बहुत् खुशि भई
 यो राज् अङ्गदलाइ बक्सनुहवस्
 बस्छौं जल्दि हुकूम हवस् हजुरको
 येती विन्ति गन्या र वानरहरू
 हुकूम माफिक काम गर्न भनि सब
 वालीको परलोक भयो भनि खबर
 हा नाथ ! आज कता गयो भनि बहुत्
 क्या गछू अब पुत्र राज्य धनले
 वालीको परलोक भयो उहि जगा
 वालीको दुइ पाउ पक्रि बहुते
 भन्छिन् श्रीरघुनाथलाइ रघुनाथ
 मारीदेउ मलाइ जान्छु म पनी
 खोज्छु स्वर्गविपे मलाइ पतिले

वानर् ति भागी गया ।
 विस्तार गर्दा भया ॥
 वाली त मारीदिया ।
 राम्कै हजूरमा थिया ॥५६॥
 ढोका शहरको थुनी ।
 क्या हुन्छ धेरै गुनी ॥
 जल्दी तयारी भया ।
 वानर् खडा भै रह्या ॥५७॥
 सूनिन् र तारा रँदै ।
 विह्वल् निरन्तर हुँदै ॥
 भन्दै ति तारा जहाँ ।
 सोधेर पौचिन् तहाँ ॥५८॥
 रूंदी विलाप खुप् गरी ।
 फेर वाण ऐले धरी ॥
 मेरा पतीका संगै ।
 काहाँ म वस्छू नगै ॥५९॥

बालि के इन वचनों को सुनकर प्रभु प्रसन्न होकर वाण निकालकर बालि का शरीर छू देते हैं, जिससे बालि प्रभु के समक्ष प्रसन्नतापूर्वक देह त्याग कर परम-धाम चला गया । ५५ बालि के मरने के बाद वहाँ (बालि के पक्ष के) जितने वानर थे सब भाग गए और तारा के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया कि राम ने (किस प्रकार) छिपकर वाण-प्रहार करके बालि को मार डाला । सुग्रीव अपने मंत्री-सहित अत्यन्त हर्षित हो वहीं श्रीराम के पास बैठे हैं । ५६ हम लोग शहर के द्वार को बन्द कर देगे । आप यह राज्य अंगद को सौंपने की कृपा करें । शीघ्र ही आदेश देने की कृपा करें, अब अधिक विचार करने से क्या होगा । इस प्रकार विन्ती करके सब वानर तत्पर हो गए; आदेशानुसार सब वानर कार्य करने को खड़े हो गए । ५७ बालि के देहावसान होने की सूचना सुनकर तारा रोती हुई अत्यन्त विह्वल हो विलाप करती है—“हे नाथ ! आज आप कहाँ चले गये ? मैं अब पुत्र-धनादि लेकर क्या करूँगी ?” यह कहती हुई तारा उसी स्थान पर पहुँची जहाँ बालि का देहावसान हुआ था । ५८ बालि के दोनों चरणों को पकड़ कर रोती और अत्यन्त विलाप करती हुई तारा कहती है—“हे रघुनाथ, मुझे भी वाण-प्रहार कर मार डालें । मैं भी अपने पति के साथ जाऊँगी । मेरे पति मुझे स्वर्ग में ढूँढ़ेंगे, अतः मैं

पत्नी सीत वियोग हुँदा यति विलाप हुँदा र ह्याछन् भनी ।
 मालुम् सब त तहीं छ फेर म भनुक्या पदेन भन्नु पनि ॥
 पत्नीदान गरि पुण्य हुन्छ जति सो मिल्नुयाछ पुण्यै पनि ।
 तस्मात् आज अवश्य हान शरले जावस् पतीथ्यै भनी ॥
 येती वात् अघि रामसीत गरि फेर सुग्रीव जिलाई पनि ।
 भन्छिन् लो गर राज्य आज खुशिले मित्ले दियाको भनी ॥
 ताराका इ वचन् सुनीकन बहुत आयो प्रभूमा दया ।
 तारालाइ बुझाउनाकन तहाँ एक तत्त्व भन्दा भयो ॥६१॥
 हे ताराजि विचार नराखि तिमिले शोकै कती गर्दछ्यौ ।
 यो मेरो पति हो भनेर नबुझी व्यर्थै शरीर हर्दछ्यौ ॥
 जीवै हो पति भन्दछ्यौ पनि भन्या मर्दन जीव ता कहीं ।
 देहै हो पति भन्दछ्यौ त किन शोक गछ्यौ छ ऊ ता यहीं ॥६२॥
 श्रीरामका इ वचन् सुनीकन तहाँ ताराजि चुप भै रहिन् ।
 जुन सन्देह पन्यो वहाँ मनमहाँ सो मात्र सोझी भइन् ॥
 हेनाथ ! मर्जि भयो सुन्याँ सब कुरा बुझ्दैनि मन तैपनि ।
 सन्देहै मनमा रह्यो सकन ता कोशछ यो भोग् भनी ॥६३॥

कैसे यहाँ रह सकती हूँ ? ५९ पत्नी-वियोग में कितनी पीड़ा होती है, यह सब आपको ज्ञात है। अतः इस विषय में और मैं आपको क्या कहूँ। पत्नीदान करने पर जो कुछ पुण्य प्राप्त होता है वही सब पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आप अब अवश्य ही बाण-प्रहार करें, जिससे मैं पति के पास शीघ्र पहुँच जाऊँ।” ६० राम से इतनी बात कहने के बाद तारा पुनः सुग्रीव से बोली—“आज प्रसन्न होकर अपने मित्र के दिए हुए राज्य का भोग कर लो।” तारा के इन वचनों को सुनकर प्रभु को अत्यन्त दया आयी अतः तारा को समझाने के लिए एक तत्त्व कह सुनाया। ६१ “तारा ! तुम विना विचारे ही शोक करती हो।” इसे अपना पति कहकर व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट देती हो। यदि आत्मा को ही पति कहती हो तो आत्मा कभी नहीं मरती और यदि शरीर ही को पति कहती हो तो व्यर्थ शोक क्यों करती हो, वह तो यहीं पड़ा है।” ६२ श्रीरामजी के इन वचनों को सुनकर तारा चुप हो गई। जिस बात का संदेह हुआ केवल वही बात पूछी—“हे नाथ ! आपने सब कुछ सुनाया फिर भी मन नहीं मानता है। यदि मेरे मन में संदेह बना रहा तो यह भोग कौन करेगा। ६३ यदि मैं यह कहूँ कि शरीर ही

लेखै हवैन अब कर्म पनी गरीन्या ।
 रस्ता कह्याँ भवसमुद्र सहज् तरीन्या ॥
 मेरो स्वरूप र इ वचन् जति सम्झि लिनछन् ।
 सब् कर्मपाश् ति सहजैसित काटिदिन्छन् ॥७३॥
 यस्ता वचन् प्रभुजिको सुनि खूशि मन्ले ।
 छोडिन् जति छ अभिमान् पनि ताहि तिनले ॥
 सुग्रीवको पनि गयो अभिमान ताहाँ ।
 राम्को कृपा हुन गयापछि टिकछ काहाँ ॥७४॥
 हुकूम भयो प्रभुजिको तहि मित्रलाई ।
 हे मित्र सुग्रीव ! जलाउ इ बालिलाई ॥
 क्रिया गरीकन शरीर् गर शुद्ध ऐले ।
 सब् काम छोडिकन येँ गर आज पैले ॥७५॥
 हुकूम भयो र तव बालि लगी जलाया ।
 क्रिया गरीसकि ति सुग्रीव ताहि आया ॥
 अर्पण् गरी सकल राज् प्रभुका चरण्मा ।
 सेवक् बनीकन म बस्छु भन्या शरण्मा ॥७६॥

सुग्रीवलाइ हुकूम भयो प्रभुजिको जो हौ तिमि सो म हुँ ।
 जाऊ आज र गादिमा बस म ता याहीं बनैमा रहूँ ॥

समझोगी तो जो कष्ट तुम्हें अब तक हुआ है वह नष्ट हो जायेगा । ७२ (पिछले कर्मों की) रेखा भी कदाचित् अब मिट जाय और कर्मादि भी नहीं किया जायेगा । सहज ही भव-सागर तरने का मार्ग ही कहाँ है ? मेरे स्वरूप तथा वचनों को जितना ही समझ लोगी उतने ही सहज भाव से कर्मपाश कट जायेगा । ७३ प्रभु जी के ऐसे वचनों को सुनकर तारा ने प्रसन्न मन से जो भी अभिमान था सब वहीं त्याग दिया । सुग्रीव का भी अभिमान समाप्त हो गया । राम की कृपा होने पर अभिमान कहाँ टिकता है ? ७४ वही पर मित्र के लिए प्रभु की आज्ञा हुई—हे मित्र सुग्रीव ! बालि का दाह और क्रिया-कर्म आदि कर शरीर को अभी शुद्ध करो । सब काम छोड़कर आज सर्वप्रथम यही कार्य करो । ७५ ऐसी आज्ञा होते ही सुग्रीव ने बालि को ले जाकर दाह दिया और क्रिया आदि करने के बाद सुग्रीव ने लौटकर सकल राज्य, प्रभु के चरणों में अर्पित करके सेवक बनकर रहने की इच्छा प्रकट की । ७६ सुग्रीव को प्रभु की आज्ञा हुई कि जो तुम हो वही मैं हूँ । तुम आज जाकर गद्दी पर बैठो,

गाऊँमा घरमा बसोइनाँ भनी
जानन् लक्ष्मण ता संगै घर पनी
वर्षा काल बितिसक्छ यो जब तसै
येती मजि दियां र सुग्रीव बहुत्
लक्ष्मणजी पनि रामका हुकुमले
सुग्रीव गादिविषे बस्या पछि फिरी
राम्ले ताहिं थियो प्रवर्षणगिरी
देख्या सुन्दर एक गुफा स्फटिकको
फल फूल ताहिं खचित् थियो नञिकमै
देख्या मन खुशि भो तहाँ प्रभुजिको
वर्षा काल तलक् रह्या प्रभु तहाँ
जन्तू पुष्ट थिया सबै ति वनका
बस्थ्या श्रीरघुनाथका वरिपरी
ध्यान् जन्तूहरुको विचार गरि तहाँ
लक्ष्मणले ताहिं बित्ति एक दिनगन्या
पाऊँ सुन्न हुकूम हवस् खुशि भई
ब्रह्मा व्यास् अरु नारदादिहरु सब
आर्को तर्न उपाय छैन जनको

मेरो प्रतिज्ञा छ यो ।
भाई गया भैगयो ॥७७॥
सीताजिको खोज् गन्या ।
आनन्द-सागर पन्या ॥
सुग्रीवका साथ गया ।
दाखिल् प्रभूथ्यै भया ॥७८॥
तेस्का शिखरमा चढी ।
ताहीं गराया मढी ॥
थियो तलाऊ पनि ।
बस्न्यै जगा हो भनी ॥७९॥
पथर्यो बखत्मा झरी ।
खायेर घाँस् पेट भरि ॥
खुप ध्यान् प्रभूमा धरी ।
खूशी रहन्थ्या हरि ॥८०॥
हेनाथ ! पुजाको विधान ।
कुन् हो करुणा-निधान ॥
भन्छन् पुजाले सरी ।
खुश छन् पुजैमा हरि ॥८१॥

मैं यहीं वन में रहूँगा । गाँव में, घर में न रहने की मेरी प्रतिज्ञा है, अतः लक्ष्मण के संग मैं तुम्हें घर जाना उचित होगा । ७७ जब वर्षाकाल व्यतीत हो जायगा तब सीता की खोज की जायेगी । ऐसी आज्ञा सुनकर सुग्रीव आनन्दसागर में डूब गया । लक्ष्मण जी भी श्रीराम की आज्ञा पाकर सुग्रीव के साथ (नगर में) गए और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के बाद पुनः प्रभु के पास उपस्थित हुए । ७८ राम ने प्रवर्षण गिरि के शिखर पर चढ़कर एक स्फटिक की बनी हुई सुन्दर गुफा देखी जो चारों ओर से फल-फूलों से घिरी हुई थी । उसके निकट ही एक तालाब भी था । ठहरने योग्य ऐसा देखकर प्रभु जी के मन में प्रसन्नता हुई । ७९ प्रभु वहाँ वर्षाकाल तक रहे । समय-समय पर वर्षा होती थी । पेट भर घास खाकर उस वन के सभी जन्तु हृष्ट-पुष्ट थे और श्रीरघुनाथ के ध्यान में उन्हीं के चारों ओर वे घूमा करते थे । जन्तुओं की इस ध्यान-मग्न दशा पर प्रभु जी मुग्ध रहते थे । ८० एक दिन लक्ष्मण ने विनती की— हे नाथ ! हे करुणानिधान, पूजा के विधान क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ, प्रसन्न होकर बतलाने की कृपा करें । ब्रह्मा, व्यास और नारद आदि

यस्तो सुनि गन्याँ र मन् चरणमा सोध्याँ पुजाको विधान् ।
 साँचो तत्व बताउन्या हजुर झै को छन् दयाका निधान् ॥
 यस्ता लक्ष्मणका वचन् सुनि तहाँ पूजा विधी हो जति ।
 सब संक्षेप् रितले कह्या प्रभुजिले लक्ष्मण भया खुश् अति ॥
 वर्षाकाल् यहि रीतले तहिं बित्यो वार्ता कथाको गरी ।
 सम्झ्याझट्ट सिताजिलाइ र विलाप् फेरु गर्न लाग्या हरि ॥
 किष्किन्धा पुरिमा यसै-विचमहाँ मन्त्री हनुमानले ।
 सुग्रीव् सीत सिताजि खोज् गर भनी विन्ती गन्या ज्ञानले ॥
 हे राजन् रघुनाथले त उपकार् ठूलो हजुरको गरी ।
 यो राज् बक्सनुभो हजुरकन ठूलो वीर् बालिलाई हरी ॥
 सो विस्र्या झई मान्दछू हजुरले सीताजिको खोज् खबर् ।
 गन्या हो अव ता बखत् पनि भयो सब काम छोडी अवर ॥८४॥
 यादै छैन हजुरलाइ त सिता खोज् गनुपर्ला भनी ।
 वालीको गति जुन् भयो उहि गती होला हजुरको पनि ॥
 यो विन्ती हनुमानको सुनि तहाँ साँचो भन्या यो भनी ।
 सुग्रीवले तहिं झट्ट हुकूम पनि दिया लशकर पठाऊ भनी ॥८५॥

सबका यही कथन है कि पूजा के समान तरने का अन्य कोई उपाय नहीं है । (भगवान्) पूजा (भक्ति) से ही प्रसन्न होते हैं । ८१ लक्ष्मण का मन पूजा का विधान जानने के लिए राम के चरणों में केन्द्रित हो गया । वे बोले, हे दयानिधान ! सत्य-तत्वों को जानने और वतानेवाला आपके समान और कौन है ? लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर जितनी भी पूजा की विधियाँ हैं, प्रभु जी ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण को संक्षेप में वतायीं । ८२ इसी प्रकार कथा-वार्ता करते हुए वर्षा-काल व्यतीत किया । एक दिन अकस्मात् सीता जी का स्मरण हो आया और श्रीराम पुनः विलाप करने लगे । इसी बीच मन्त्री हनुमान ने किष्किन्धापुरी में सुग्रीव से सीता जी की खोज करने के लिए विन्ती की । ८३ हे राजन् ! रघुनाथ ने वीर बालि को मारकर यह राज्य आपको देकर महान् कृपा की है । परन्तु मुझे लगता है कि वह सब आप भूल गए हैं; अब तो सब काम छोड़कर सीता जी की खोज कराइए । ८४ लगता है, आपको याद ही नहीं है कि सीता जी की खोज करना है । बालि की जो गति हुई है आपकी भी वही गति होगी । हनुमान की यह विन्ती सुनकर 'यह सत्य ही कह रहा है', ऐसा जानकर सुग्रीव ने तुरन्त सीता जी को खोजने के लिए वानरों की सेना भेजने की आज्ञा दी । ८५ दस हजार वानर जाकर, ईशान दिशा में

दस हज्जार विर जाइ सात द्विपमा
 खोजी आज खबर् दिउन् र सब वीर्
 जो आवैन हुकूम बदर् गरि यहाँ
 तेस्को प्राण् म लिन्याछु निश्चय बुझून्
 यस्तो सुग्रीवको हुकूम हुन गयो
 दश हज्जार विरको खटन् पनि गन्या
 दश हज्जार विर दश दिशातिर छिटी
 ती वीर् दश तिर गै खबर् दिइ अनेक्
 लाग्या गर्न विलाप अनेक् तरहले
 भन्छन् छन् ति सिता कहाँ अझ पनी
 याहाँ छन् ति सिता भनीकन खबर्
 ल्याऊँ अमृत झैं सिताकन यहाँ
 हे भाई ! सुन जो छ आज इ सिता
 कूलै भस्म गराउन्याछु करुणा
 येती बात् तहिं भाइ सीत गरि फेर्
 लाग्या गर्न विलाप अनेक् तरहले
 हे सीते ! कसरी म देखि पर भै
 प्राणै थाम्न कठिन् भयो म बिनु ता

वानर् जती छन् सबै ।
 जम्मा हउन् झट् अबै ॥
 ई पन्द्र दिन् भित्तमा ।
 मानन् सबै चित्तमा ॥८६॥
 सोही बमोजिम गरी ।
 लागेन बेर् एक घरी ॥
 खुश भै हनुमान् रह्या ।
 सेना बटुल्दा भया ॥८७॥
 लीला गरी राम् उसै ।
 लागेन पत्ता कसै ॥
 पाऊँ त जाऊँ तहाँ ।
 पाऊँ खबर्पो कहाँ ॥८८॥
 हन्या म तेस्को सबै ।
 राख्वैन उस्मा कबै ॥
 सीताजिको शोक् गरी ।
 त्रैलोक्यका नाथ हरि ॥८९॥
 बस्छ्यौ तिमी छौ कहाँ ।
 आपत् भया हुन् तहाँ ॥

जो भी वानर हैं उन्हें खोजकर यह सूचना दे दे कि सब वीर तुरन्त एकत्रित हो जाएँ । जो भी इस आज्ञा का पालन कर पन्द्रह दिन के अन्दर नहीं आता है उसके प्राण मैं ले लूँगा, इसे निश्चय जान लें और स्मरण रक्खें ॥८६॥ सुग्रीव की ऐसी आज्ञा के अनुसार दस हज्जार वीरों को एकत्र कर नियुक्त करने में कुछ भी देर नहीं हुई । दस हज्जार वीरों को दसों दिशाओं में भेजकर हनुमान प्रसन्नतापूर्वक रहे । उन वीरों ने दसों दिशाओं में जाकर सूचना देते हुए विपुल सेनाएँ एकत्रित कीं । ८७ श्रीराम अनेक प्रकार की लीलाएँ कर, विलाप करने लगे । “सीता कहाँ है ? क्या अब तक भी कहीं पता नहीं लगा ? सीता के अमुक स्थान पर होने की सूचना मुझे दो ताकि मैं वहाँ जा सकूँ । अमृत-तुल्य सीता को यहाँ ले आओ । कहाँ हैं, इसकी सूचना कहाँ मिलेगी ! ८८ हे भाई ! सुनो, आज सीता का हरण करनेवाला जो भी हो, मैं उसके कुल को भस्म कर दूँगा । उस पर कभी दया नहीं करूँगा ।” इतनी बात भाई से कहकर पुनः सीता के शोक में त्रैलोक्य के नाथ हरि अनेक प्रकार से विलाप करने लगे । ८९ “हे सीते ! मुझसे अलग किस प्रकार रहती हो । कहाँ हो ! तुम्हारे

तिम्नो भेट नपाउँदा मकन ता
 तिम्नोतागर्ह क्यावखान्तिमित झन्
 सुग्रीव आज कृतघ्न झै हुन गया
 सुतेँ छैन सिताजिलाइ अज्ञतक्
 माछू सुग्रीव दुष्टलाइ पनि फेर
 लक्ष्मणले प्रभुका वचन् सुनि गन्या
 हे नाथ ! आज मलाइ बक्सनु हवस्
 लक्ष्मणका इ वचन् सुनेर रघुनाथ
 भन्छन् भाइ ! नमार आज बहुते
 मारी हालन त योग्य छैन तर खुप
 हूकूम यो प्रभुको सुनीकन तहाँ
 सीतानाथ नरको लिला गरि विलाप
 किष्किन्धापुरि पाँचि लक्ष्मणजिले
 पत्थर वृक्ष उठाइ वानरहरू
 सब वानरकन नष्ट गर्दछु भनी
 अङ्गद आइ हटाइ वानरहरू

ई चन्द्र सूर्ये बन्या ।
 छचौदुष्टकापासुभन्या ॥९०
 आयो शरदकाल पनि ।
 खोज गर्नु पर्ला भनी ॥
 वाली सरीको गरी ।
 विन्ती अगाडी सरी ॥९१॥
 हूकूम म माछू गई ।
 अत्यन्त खूशी भई ॥
 हप्काउ जाऊ तहाँ ।
 चेताइ आऊ यहाँ ॥९२॥
 लक्ष्मणजि जल्दी गया ।
 खुप गर्न लाग्दा भया ॥
 टङ्कार धनुको गन्या ।
 कोही अगाडी सन्या ॥
 लक्ष्मणजिले वाण धन्या ।
 जल्दी चरणमा पन्या ॥

विना प्राण वचाना भी कठिन हो गया है । तुम्हारे वियोग में तुम्हारे गुरु-स्वरूप चन्द्र और सूर्य मुझसे कहते हैं कि तुम दुष्ट के और निकट हो । ९० आज सुग्रीव अकृतज्ञ सा हुआ है । शरदकाल भी आ गया । किन्तु उसे कोई चिन्ता नहीं है कि अभी सीता की खोज करनी है । 'वालि की तरह दुष्ट सुग्रीव को भी मैं मार डालूँगा ।' - प्रभु के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़कर विनती करने लगे— ९१ "हे नाथ । मुझे आज्ञा करें, मैं अभी जाकर सुग्रीव को मार डालूँगा ।" लक्ष्मण की ऐसी विनती सुनकर श्रीरघुनाथ अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले हे भ्राता ! आज उसे न मारो । किन्तु जाकर उसे डाँटो-फटकारो । अनावश्यक लड़ना और मारना उचित नहीं है; अतः उठो, केवल चेतावनी देकर आओ । ९२ प्रभु के इस आदेश को सुनकर लक्ष्मण शीघ्रता से चले गये । सीतानाथ मानव-लीला कर अत्यन्त दुःख से विलाप करने लगे । किष्किन्धापुर पहुँचकर लक्ष्मण ने अपने धनुष को टंकारा । टंकार सुनकर पत्थर तथा वृक्षों को उठाकर कुछ वानर आगे बढ़-आए । ९३ सब वानरों का नाश करता हूँ, कहकर लक्ष्मण ने वाण चढ़ाया । अंगद ने शीघ्रता से आकर वानरों को हटाया और लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़े । लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर

अङ्गद सीत बहुत प्रसन्न भइ झट
जाऊ देउ खबर् अगाडि तिमिले
अङ्गद गैकन त्यो खबर् जब दिया
जल्दी सुग्रीवले हुकम् पनि दिया
अङ्गदलाइ संगै लियेर हनुमान्
लक्ष्मणलाइ बुझाइ ल्याउ तिमिले
ग्रस्तो सुग्रीवको वचन् सुनि तहाँ
पाऊमा परि बाहुमा धरिलिया
हुकूम सुग्रीवको सुनीकन तहाँ
लक्ष्मण लाइ बुझाइ खुश रहँ भनी
लक्ष्मण सुग्रीवको भयो जब त भेट
लक्ष्मणले पनि ताहि सुग्रीवजिको
वाली झैं हुन मन् छ की भनि जसै
लक्ष्मणलाइ बुझाउनाकन तहाँ
लक्ष्मणजी पनि कामले बुझि गया
फिर्नाको मतलब गन्या प्रभु थिया
लक्ष्मणका संग लागि सैन्य पनि ली
जाहाँ श्रीरघुनाथ थिया तहि सबै

ताहाँ अह्माया पनि ।
लक्ष्मणजि आया भनि ॥९४॥
सुग्रीवलाई तहाँ ।
लौ जाउ ल्याऊ यहाँ ॥
चाँडै चरणमा परी ।
सबरीस शान्ती गरी ॥९५॥
सोही बमोजिम गरी ।
ल्याया बहुत खुश गरी ॥
ताराजि चाँडै गइन् ।
खुप बिनित गर्दी भइन् ॥९६॥
सुग्रीव चरणमा पन्या ।
सातो कुराले हन्या ॥
लक्ष्मणजिले बात् गन्या ।
जल्दी हनुमान् सन्या ॥९७॥
बात्चित् खुशीका गरी ।
जाहाँ जगन्नाथ हरि ॥
सुग्रीव खुश भै गया ।
दाखिल् क्षणमा भया ॥९८॥

अंगद को आज्ञा दी कि जाओ और सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दे दो । ९४ अंगद ने जाकर जब सुग्रीव को यह सूचना दी तो सुग्रीव ने भी तुरन्त जाकर उन्हें लिवा लाने की आज्ञा दी । सुग्रीव ने अंगद से कहा कि हनुमान को संग लेकर जाओ और लक्ष्मण के चरणों में पड़कर समझा-बुझाकर तथा उनके क्रोध को शान्त करके उन्हें ले आओ । ९५ सुग्रीव के आदेशानुसार अंगद जाकर लक्ष्मण के चरणों में गिरा और उन्हें अपनी बाहों में समेटकर प्रसन्न करके ले आया । सुग्रीव का आदेश सुनकर तारा भी वहाँ आ गई । लक्ष्मण जी को समझाकर प्रसन्न करने के उद्देश्य से वह विनती करने लगी । ९६ जब लक्ष्मण और सुग्रीव की भेंट हुई तब सुग्रीव तुरन्त उनके चरणों में गिर पड़े । लक्ष्मण ने भी अपनी बातों से सुग्रीव के होश ठिकाने कर दिये । जैसे ही लक्ष्मण ने कहा कि कदाचित् तुम्हें भी बालि की तरह मरने की इच्छा है तो उन्हें मनाने के लिए हनुमान आगे बढ़े । ९७ लक्ष्मण जी भी इन सब कार्यों से सन्तुष्ट हो गए और प्रसन्नतापूर्वक वातचीतकर प्रभु के पास लौटने की उन्होंने इच्छा की । साथ ही सुग्रीव भी अपनी सेना सहित अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक,

देख्या श्री रघुनाथलाइ र परै रथ देखि उत्तर फेर ।
 लक्ष्मण सुग्रीव पाउमा परि गया लागेन एक छिन वेर ॥
 राम्ले सुग्रीवलाइ मित्त ! भनि खुप् आलिङ्गनादी गरी ।
 सोधपुछ् गर्नुभयो बहुत् खुशि हुँदै आफैं अगाडी सरी ॥९९॥
 लाग्या सुग्रीव बिनित्त गर्न रघुनाथ ! मैले त सेना पनि ।
 ल्यायाँ वीरहरू छन् अनेक तरहका छन् इन्द्र तुल्यै पनि ॥
 ई सब् खवामितका निमित्त खुशि भै प्राणै दिन्याछन् जसो ।
 हूकूम हुन्छ हवस् यहाँ हजुरको गछन् ति ऐले तसो ॥१००॥
 खुशी भै रघुनाथको हुकुम भो हर्षाश्रुधारा गरी ।
 हे सुग्रीव सखे ! इ वानरहरू जाऊन् दिशा दश भरी ॥
 जाहाँ छन् ति सिता तहीं पुगि खबर् ल्याऊन् भनी रामको ।
 हूकूम पाइ पठाइ वानरहरू उर्दी दिया कामको ॥१०१॥
 जाऊ वीरहरू सब् दिशा दशविषे सीताजि मिलिछन् जहाँ ।
 पत्ता लाइ सिताजिको खबर ली सब् वीर आऊ यहाँ ॥
 मैन्हा दीन विताइ एक रति खबर् केही नपाई त जो ।
 ढील् गन्या तसलाइ ता म सहजै मान्याछु मन्याछ त्यो ॥०२॥

जहाँ श्रीरघुनाथ थे, वहाँ तत्क्षण पहुँच गए । ९८ श्रीरघुनाथ को देखते ही, दूर ही से रथ पर से उतरकर लक्ष्मण और सुग्रीव को राम के चरणों में पहुँचने में किञ्चित्मात्र भी विलम्ब नहीं हुआ । राम ने सुग्रीव को मित्तकहकर आलिङ्गन किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर स्वयं आगे बढ़कर वे पूछ-ताछ करने लगे । ९९ सुग्रीव विनती करने लगे, हे रघुनाथ ! मैं तो अपनी सेना भी साथ लेकर आया हूँ जिसमें इन्द्र के समान अनेक वीर हैं । ये सभी अपने स्वामी के निमित्त अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर हैं । जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही किया जायगा । १०० प्रसन्नता से हर्षाश्रु की धारा प्रवाहित करते हुए श्रीरघुनाथ ने आज्ञा दी, हे सुग्रीव सखे ! ये वानर चारों दिशाओं की ओर चले जायें और जहाँ सीता हों वहाँ पहुँचकर उनका समाचार ले आवें । राम का यह आदेश पाकर (सुग्रीव ने) सब वानरों को कार्य-विवरण समझाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर भेज दिया । १०१ जाते समय सुग्रीव ने सब वानरों को आज्ञा दी कि हे वीरो ! सब दिशाओं की ओर जाओ— जहाँ भी सीता जी हों, पता लगा कर उनकी खबर लेकर पुनः लौट आओ । महीना भर के अन्दर पता लगाने में जो ढिलाई करेगा उसे मैं तुरन्त मार डालूँगा वह बच नहीं पायेगा । १०२ इस प्रकार शीघ्रता से आदेश देकर अन्य

यस्तो जल्दि हुकूम गरी अरु दिशा
दक्षिण तीर त खुप् बडा बिरहरू
अङ्गदलाइ र जाम्बवान् र हनुमान्
मैद द्विविद आठ् पठाइ प्रभुका
हुकूम पाइ इ आठ वीरहरू पनी
हात्मा औंठि लियेर एक हुकुम भो
जाऊ काम् पनि साधि आउ हनुमान्
मेरो नाम् यहि औंठिमा छर दियां
यो काम् सिद्ध गराउन्या त तिमिछौ
चीन्याको छु तबै त भन्छु म शुभै
येती श्रीरघुनाथको पनि हुकूम
खूशी भै हनुमानले प्रभुजिमा
अंगद् वीर हनुमान्हरू हुकुमले
सर्वत्रै पृथिवी हुंडी हुंडि सबै
एक् दिन् विन्ध्य गिरीविषे वनमहाँ
रावण् हो कि भनी मुठी कसि कसी

बानर् पठाया अवर ।
छानी पठाया जवर ॥
वीर् नल् सुषेण् फेर शरभ् ।
पास्मारह्याएक्फगत् ॥१०३॥
झट् जान लाग्या जसै ।
राम्चन्द्रजी को तसै ॥
ली जाउ औंठी पनि ।
सीताजि चिन्लिन् भनी ॥४॥
तिम्नो छ यो बल् भनी ।
हून्याछ रस्ता पनि ॥
पाया र औंठी लिया ।
सम्पूर्ण तन्मन् दिया ॥१०५॥
दक्षिण् दिशामा गया ।
घुम्दै ति जाँदा भया ॥
देख्या र राक्षस् जसै ।
मान्या कसैले तसै ॥१०६॥

दिशाओं की ओर वानरों को भेज दिया, किन्तु दक्षिण दिशा की ओर महाबली और चुने हुए अत्यन्त पराक्रमी वानरों को भेजा । अंगद, जाम्बवन्त, हनुमान, नल, सुषेण, शरभ, मैन्द और द्विविद नामक आठों वानरों को भेजकर केवल सुग्रीव अकेला ही प्रभु के पास रहा । १०३ सुग्रीव की आज्ञा लेकर जैसे ही ये आठों वीर जाने लगे, श्रीरामचन्द्रजी हाथ में एक अँगूठी लेकर कहने लगे— जाओ, काममें सफल होकर आओ । हनुमान ! यह अँगूठी लो । इसमें मेरा नाम अंकित है, इसे सीताजी सहज ही पहचान लेंगी इसीलिए दे रहा हूँ । १०४ यह मैं भली प्रकार जानता हूँ कि इस कार्य में सफलता प्राप्त करनेवाले तुम ही हो, क्योंकि तुममें वह शक्ति निहित है । इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्ग में भी सब प्रकार से शुभ ही होगा । श्रीरघुनाथ की यह आज्ञा पाकर हनुमान ने प्रसन्न होकर प्रभु से वह अँगूठी ले ली और सम्पूर्ण तन-मन से स्वयं को प्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया । १०५ अंगद और वीर हनुमान प्रभु की आज्ञानुसार दक्षिण दिशा की ओर चले गए । पृथ्वी पर चारों ओर दूँढ़ते हुए जा रहे थे, तभी एक दिन विन्ध्यपर्वत के बीचोबीच वन में एक राक्षस को देखा और उसे रावण समझकर सब ने उस पर मुष्टिका (घूँसे) से प्रहार किया । १०६ परन्तु वह रावण नहीं था यह जानकर

रावण् होइन् यो त जाउँ भनी फेर्
 हुँदथ्या प्यास बढ्यो र जल् पनि हुँडी
 गुफा देखि त प्वाँख् चिसा गरिगरी
 गुफा भित्र पस्या सबै विरहरू
 ठण्डा जल् सितका तलाउ पनि धेर
 धेर छन् घर घरमा छ चीज् पनि अनेक
 गुल्जार् देख्नु भन्या मनुष्यहरू ता
 एक् योगीनि स्वयंप्रभाकन जहाँ
 सोधिन् योगिनिले प्रणाम् तब गन्या
 क्या मन्सुब् छ बताउ फेर् अब उपर्
 यस्ता योगिनिका वचन् सुनि तहाँ
 आयौं आज यहाँ सबै यति जना
 काम् यै हो यहि काम गर्नुछ भनी
 साह्रै खुश् हनुमानका वचनले
 बोलिन् फल्फुल खाउ जल् पनि पिई
 मेरो नाम बताइ आज त म ता

अर्का वनैमा गई ।
 हिंड्थ्या ति आकुल् भई ॥
 हाँस् निस्कँदादेखि तेस् ।
 देख्या बहुत् बस्ति बेस् ॥७॥
 सब् बृक्ष फल्फूल भरी ।
 हीरा जवाहर् धरी ॥
 एक् देख्नु नाहीं कहीं ।
 ध्यान् गर्दि देख्यातहीं ॥८॥
 कुन् काम आयौ यहाँ ।
 जानू छ इच्छा जहाँ ॥
 वोल्या हनुमानले ।
 केवल जलै खानले ॥९॥
 विस्तार् सुनाया जसै ।
 हुँदी भइन् ती तसै ॥
 फर्केर आऊ यहाँ ।
 जान्छु प्रभू छन् जहाँ ॥१०॥

अन्य वन में जाकर खोज करने लगे । खोज करते-करते जब वे प्यासे हुए तो अत्यन्त आकुल होकर जल की खोज करने लगे । इतने में अचानक एक गुफा से हंसों को अपने पर भिगो-भिगोकर बाहर निकलते देखा । अतः उसी गुफा में समस्त वीरों सहित प्रवेश किया तो वहाँ एक अत्यन्त उत्तम वस्ती देखी । १०७ उन्होंने देखा कि वहाँ पर शीतल जल वाले तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, जो फल-फूलों से लदे हुए हैं । अनेकों घर भी हैं जिनमें तमाम वस्तुएँ और हीरे-जवाहरात भरे पड़े हैं । परन्तु वहाँ न तो कोई चहल-पहल थी न कोई मनुष्य था; केवल एक योगिनी, जिसका नाम स्वयंप्रभा था, ध्यानमग्न बैठी थी । १०८ योगिनी ने जब उन वानरों से यह प्रश्न किया कि आप लोग किस काम से आए हैं, क्या इच्छा है और अब आगे कहाँ जाना है तब सब वानरों ने योगिनी को प्रणाम किया और योगिनी के ऐसे वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा कि इस समय हम सब लोग केवल जल पीने के लिए आए हैं । १०९ जब हनुमान ने अपने आने का कारण तथा कार्य के विषय में सविस्तार कह सुनाया तो योगिनी अत्यन्त हर्षित हुई और उन्हें फलादि खाने को देकर बोली कि खा-पीकर जाओ और मेरा नाम बताकर लौट आओ । मैं भी जहाँ प्रभु है वहाँ जाऊँगी । ११० योगिनी के आदेशानुसार वे जलपान करके गए

यस्ता योगिनिका वचन् सुनि गगा
 आया योगिनिले गरिन् सब कुरा
 हेमाकी सखि हूँ सखी गइगइन्
 धेरै वर्ष बसी प्रभू भजि लिदा
 भन्थिन् राम् अवतार् हुन्याछ हरिको
 खोज्नुया वानर आउनन् तहिं तलक्
 वानरको रघुनाथको गरि पुजा
 जान्छु आज म ता तिमी बसिरहू
 यस्तो अति दिई गइन् सडिनिज्यू
 नाचतैमा शिव खुशहुँदा अघि दियां
 पुत्री हुन् उ त विश्वकर्मकि म हूँ
 विस्तार् आज कह्यां म जान्छु खुशि भै
 आँखा चिम्ल पुन्याइदिन्छु सहजै
 जाऊ तीमिहरू पनी भनि सहज्
 श्रीराम्चन्द्रजिथ्यै ति योगिनि गइन्
 पौचिन् योगिनि रामको कुटि जहाँ

जल्पान् गरी फेर पनि ।
 राम्का इ दूत् हुन् भनी ॥
 उन्का वचन्ले यहाँ ।
 ऐले कृतार्थ - भयाँ ॥१११॥
 हन्याछ रावण् सिता ।
 याहीं रहू तीमि ता ॥
 यै ब्रह्मलोक पाउली ।
 क्यैकाल् पछी आउली ॥१२॥
 जुन् ब्रह्मलोक हो वहाँ ।
 यो स्थान बस्ती यहाँ ॥
 गन्धर्व कन्या सबै ।
 जाहाँ प्रभू छन् अबै ॥११३॥
 रस्ता विषे क्षण्महाँ ।
 पौंचाइ रास्तामहाँ ॥
 वानर् पुग्या रस्तिमा ।
 थियो उसै बस्तिमा ॥१४॥

और लौटकर आ गए । उन्हें राम के दूत जानकर योगिनी ने भी उनसे अच्छी तरह बात-चीत की और बताया कि मैं हेमा की सहेली स्वयंप्रभा हूँ । सहेली तो चली गई पर मैं उसी के वचन के प्रभाव से यहीं बैठी हूँ । यही रहकर कितने ही वर्षों से मैं प्रभु को भजते-भजते आज कृतार्थ हुई हूँ । १११ उसका कथन था कि श्रीराम का अवतार होगा, तब उनकी पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण होगा, उस समय उन्हें ढूँढता हुआ वानर यहाँ आएगा; तब तक तुम यहीं रहो । उस समय वानर तथा रघुनाथ की पूजा करके ब्रह्मलोक आओगी मैं जाती हूँ । तुम बैठी रहो कुछ समय के बाद आओगी । ११२ ऐसे उपदेश देकर मेरी सहेली उसी समय ब्रह्मलोक को चली गई । वहाँ उसके नृत्य से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे यह बस्ती दी थी । वह विश्वकर्मा की पुत्री है और मैं गन्धर्व-कन्या हूँ । इस प्रकार विस्तृत वर्णन कर स्वयंप्रभा ने प्रसन्नचित्त होकर जहाँ प्रभु हैं वहीं जाने की इच्छा प्रकट की । ११३ (फिर उसने कहा कि) आँखें बन्द करो; मैं सहज ही में तुम्हें रास्ते तक पहुँचा दूँगी, यह कहकर उसने उन लोगों को रास्ते पर पहुँचा दिया । वह योगिनी श्रीरामचन्द्र के पास गई । वानर भी रास्ते पर पहुँच गए । राम की कुटी जिस बस्ती में थी योगिनी वहाँ पहुँच गई । ११४ उसने राम की स्तुति की और राम

रामको स्तूति गरिन् र वर् दिनुभयो जाऊ र बद्रीमहाँ ।
 मेरो ध्यान गरि यो बिताउ र शरीर पाउली परमधाम् तहाँ ॥
 जो तिम्रा मनसा छ त्यो सब पुगोस् यस्तो त वर् ली गइन् ।
 बद्रीमा गइ रामका वचनले संसार तर्दी भइन् ॥११५॥
 सीता खोज्न भनेर वानरहरू फिथ्या सबै वन्महाँ ।
 सीतालाइ नपाउँदै बितिगयो धेरकाल एकदिन् तहाँ ॥
 अंगदले अति शोक् गन्या अब सहज् मार्छन्, सबैको गयो—
 प्यारो प्राण गरौ कसो अब मन्याँ बाँच्नु यहीं तक् भयो ॥१६॥
 सुग्रीवले त मलाइ मार्नु छ सहज् पाया निहूँ यो पनि ।
 मार्छन् निश्चय शत्रु जानि अहिले यो शत्रुको बीज् भनी ॥
 केवल राम-कृपा हुँदा अधि बच्याँ ऐले त राम्ले पनि ।
 दिन्छन् निश्चय मार्नलाइ मतलब् खोजेन सीता भनी ॥१७॥
 अंगदका इ वचन् सुनीकन तहाँ क्वै बिनित यो पार्दछन् ।
 हे साहेब ! यहीं बसौँ यहि बस्या कुन् पाठले मार्दछन् ॥
 अंगदका अरु वानरादिहरूका सून्या र कूरा तहाँ ।
 बोल्या श्रीहनुमानले किन बहुत् छोटो गन्यौ बात् यहाँ ॥१८॥

ने (प्रसन्न होकर) उसे वर दिया । उसे आज्ञा मिली कि बदरीनारायण धाम में जाकर मेरा ध्यान करो, तभी तुम्हें परमधाम प्राप्त होगा । “जो तुम्हारे मन में है वह सब तुम्हें प्राप्त हो”, ऐसा वर प्राप्त कर बदरीनारायण धाम में जाकर श्रीराम के ध्यान में मग्न हो स्वयंप्रभा संसार से तर गई । ११५ सीता की खोज करते हुए वन में घूमते-घूमते वानरों को बहुत समय बीता, पर सीता नहीं मिली तो एक दिन वहाँ अंगद ने अत्यन्त खेद प्रकट किया । अब तो हम सभी मारे जायेंगे, सबके प्रिय प्राणोंकी रक्षा किस प्रकार की जाये । अब तो लगता है कि बचने का समय यहीं तक है । ११६ सुग्रीव तो बहाना पाकर मुझे मार ही डालेगा, मुझे शत्रु का बीज समझकर सहज ही में समाप्त कर देगा, यह निश्चय जानो । पहले तो राम की कृपा से बचा था । अब तो राम भी सीता की खोज न करने का कारण बताकर निश्चय ही मुझे मार डालने का प्रोत्साहन देंगे । ११७ अंगद के इन बचनों को सुनकर वहाँ कुछ लोग यह विनय करते हैं, “हे श्रीमन् ! यहीं रह जायें । यहाँ रहने पर किस प्रकार मारेंगे । अंगद एवं अन्य वानरों की ऐसी बातें सुनकर हनुमान कहते हैं कि तुम लोग ऐसी तुच्छ कल्पना क्यों कर रहे हो ? ११८ सुग्रीव के

सुग्रीव्का प्रिय छौ अवश्यं भगवान्
साँचो भन्छु म बेस् कुरा हजुरमा
भूभार् हर्न भनेर राम-अवतार्
कस्को सक् छ सिताजि हर्न नहिंता
मानिस् को अवतार् भयो प्रभुजिको
गछौं सेवन भक्तिले प्रभुजिको
जान्याछौ पछि धाममा पनि संगै
क्या गछौं मनमा कुतर्क हरिको
यस्ता बात् हनुमानका सुनि बुझ्या
बिन्ध्याचल् गिरिका कुनाकुनिसमेत्
पाँच्या क्षीरसमुद्रका तिरमहाँ
तेस्को नाम महेन्द्र हो नजिकमा
पृथ्वीमा न मिलिन् सितान जलमा
खोजौं जाउँ भन्या सक्यौं पृथिवि सब्
फर्की जाउँ भन्या पनी अब सहज्
मर्नू आज निको भनेर तिरमा

राम्चन्द्रजीका पनि ।
यस्तो छ कारण् भनी ॥
आदी पुरुष्को भयो ।
इच्छा प्रभूकैछयो ॥११९॥
सेवक् त वानर् भई ।
केवल् हुकूममा रही ॥
यो जान मन्ले यहाँ ।
रिस्छैन कस्सैमहाँ ॥१२०॥
अंगद् र खूशी भई ।
सम्पूर्ण खोज्दै गई ॥
पर्वत् थियो एक तहाँ ।
देखिन्छ सागर् जहाँ ॥२१॥
जान्याछ वाटो कतै ।
पायौंन सीता कसै ॥
माछन् त चाहीं यहीं ।
बंदर् बस्या सब् तहीं ॥२२॥

तो तुम प्रिय हो ही, श्रीराम के भी अवश्य प्रिय हो । सत्य कहता हूँ, यह बड़ी उत्तम बात है । श्रीराम ने भूभार-हरण करने के लिए पुरुष के रूप में अवतार लिया है । किसकी शक्ति है जो सीता का हरण करे ? यह स्वयं प्रभु की ही इच्छा है । ११९ प्रभुजी ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है और वानर उनके सेवक बने हैं । उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग प्रभु जी की सेवा भक्तिपूर्वक करेंगे । जिससे अन्त में परम-धाम को प्राप्त होंगे, यह भी मन में जान लो । मन में कुतर्क उत्पन्न करके क्या करोगे ? हरि का किसी के ऊपर क्रोध नहीं है । १२० हनुमान जी की बातों को सुन और समझकर अंगद प्रसन्न हुए और बिन्ध्याचल पर्वत के कोने-कोने में सीताजी की खोज करने लगे । वे क्षीर-सागर के किनारे पहुँचे । वहाँ एक पर्वत था जिसका नाम महेन्द्र था । वहाँ से समुद्र अत्यन्त निकट दिखाई देता था । १२१ पृथ्वी पर सीता जी कहीं भी नहीं मिलीं तो सोचने लगे कि जल में ही जाने का मार्ग ढूँढा जाये, क्योंकि सम्पूर्ण पृथ्वी पर न मिलने से लौट भी जायेंगे तो मारे ही जायेंगे । अतः मरना ही उत्तम है यह समझकर सब वानर किनारे पर बैठ गए । १२२ उस वन का निवासी एक वृद्ध गिद्ध जैसे ही बाहर निकला

सम्पाती अति युद्ध गृद्ध वनमा
हेन्या दृष्टि फिराइ तेस् तिरमहाँ
बोल्या वाक्य पनी म भछुँ अब पेट्
अंगद् वीरहरुले सुन्या र इ वचन्
लाग्या भन्न सबै ति वानरहरू
मछौँ आज अवश्य माछँ यसले
क्यावात् भाग्य जटायुको प्रभुजिको
ठाकुरलाई रिझाइ पार् पनि गया
व्यर्थ हामि त गृद्धका मुखविषे
येती वानरका वचन् सुनि तसै
हे वीर् हो नडराउ आज तिमिले
मेरै भाइ जटायु हो कहू खवर्
अङ्गद् वीरहरुलाई निर्भय दिई
सब वृत्तान्त बताइ अङ्गदजिले
सम्पाती तहिं भन्दछन् मकन लौ
दिन्छू आज जटायुलाई जलदान्
सीताको म बताउँला सब खवर्
ई बात् सुनि उचालि झट् लगिदिया

थीया ति निस्क्या जसै ।
देख्या ति वानर् तसै ॥
पायाँ अहारा भनी ।
साह्रै डराया पनि ॥१२३॥
आयेछ हाम्रो त काल् ।
यो गृद्धको हेर चाल् ॥
प्यारो हुन्या काम् गरी ।
संसार सागर तरी ॥१२४॥
सब पर्न आयौं यहाँ ।
सम्पाति बोल्या तहाँ ॥
प्यारो सुनायौ कुरा ।
तेस्का त सप्यै कुरा ॥२५॥
येती भन्याथ्या जसै ।
विस्तार् सुनाया तसै ॥
लैजाउ सागर् महाँ ।
चाँडो म ऐले तहाँ ॥१२६॥
स्नान् अञ्जलीदान् गरी ।
सम्पातिले स्नान् गरी ॥

और उसने तट की ओर दृष्टि डाली तो उसे वानर दृष्टि में आए ।
उन्हे देखते ही वह बोला, मुझे आहार मिला है; अब पेट भर लूंगा । अंगद
आदि वीर उसके इन वचनों को सुनकर अत्यन्त भयभीत हुए । १२३ वे
सब बोले कि अब तो काल निकट ही आ पहुँचा है । आज तो अवश्य ही
मरेंगे । इस गिद्ध की चाल देखो ! यह आज अवश्य ही हम लोगों को खा
डालेगा । जटायु भी कैसा भाग्यशाली था जो प्रभु का प्रिय कर्म करके
उन्हें सतुष्ट करके ससार-सागर को पार कर गया । १२४ वानर परस्पर
कहने लगे कि हम व्यर्थ ही गिद्ध के मुँह के समक्ष आए हैं । वानरों के
इन वचनों को सुनकर सम्पाति ने कहा— हे वीरो ! तुम वीर हो, भय
न करो । आज तुम लोगों ने बड़ी अच्छी बात सुनाई है; जटायु मेरा
ही भाई है । उसके वारे में सविस्तार सब समाचार बताओ । १२५
तब अंगद ने उसे सब वृत्तांत सविस्तार कह सुनाया । उसी समय
सम्पाति बोला, मुझे शीघ्र सागर में ले चलो, आज मैं अपने भाई जटायु
को जलदान दूंगा । १२६ स्नान एवं अंजलि-दान कर मैं सीताजी के
वारे में सब समाचार बताऊँगा । इस बात को सुनकर वानर तुरन्त

दीया अञ्जलिदान् जसै फिरि उहीं
सम्पाती खुशि भै सबै कहिदिया
हे वीर हो ! मत्त गृद्ध हूँ र मसिता
याहीं छन् यहि भेष् छ येति संग छन्
भन्छू सब् तिमिलाइ चार सय कोश
सो लङ्का पनि पुग्दछौ उति कुद्या
लङ्कामा ति सिताजि छन् तहि गया
गाहो चार सय कोश कदन् छ तहीं
रावण्ले लगि भित्त गुप्ति वनमा
पौची भेट् गर जान सकछ तिमिमा
अशोकको वनभित्त वृक्ष छ असल
सीता छन् तहि भेट् हुन्याछतहिलौ
क्यारूँ रावणलाइ मान् म सहज्
साक्षात् सूर्यजिका कठोर किरणले
जाऊ चार सय कोश कुदन् सकन्या
सीताको समचार खबर बुझि सहज्

ल्यायेर राखीदिया ।
आपत्तिदेखतै थिया ॥१२७॥
देखछू नजरले पनि ।
यस्तो छ चाला भनी ॥
जो कुदन् सकछौ यहाँ ।
पौचिन्छ लङ्कामहाँ ॥१२८॥
मिल्छिन् सिताजी वहाँ ।
जाऊ न जाऊ तहाँ ॥
राख्याकि छन् बेश् गरी ।
को यो सनुद्रे तरी ॥१२९॥
एक् शिशपाको तहीं ।
जायो गऊ काल् यहीं ॥
मान्या थियाँ हो र को ।
प्वांखै डढ्यासब् रपो ॥१३०॥
कुन् वीर छ सागर् महाँ ।
फकर आऊ यहाँ ॥

सम्पाति को उठाकर ले गये और जैसे ही वह अंजलि-दान कर चुका, वैसे ही उसको पुनः वही लाकर रख दिया । सम्पाति ने प्रसन्न होकर सब कुछ कह सुनाया । १२७ हे वीरो ! मैं तो गिद्ध हूँ अतः मैं अपनी आंखों से यहीं से सीताजी को देख रहा हूँ कि वह किस स्थान पर हैं, किस रूप में हैं किनके संग में हैं और कैसी युक्ति में (फसी) हैं । मैं तुम्हें सब बतलाता हूँ । यहाँ से जो चार सौ कोस छलांग भर सकेगा, वह लंका पहुँच जायेगा । १२८ सीता जी लंका में ही हैं । वही जाने पर मिल जायेंगी । चार सौ कोस कूदना कठिन है । तब भी किसी प्रकार वहाँ अवश्य जाओ । सीताजी को रावण ने ले जाकर लंका के अन्दर एक गुप्त वन में रखा है । समुद्र पार कर तुममें से जो वहाँ जा सकता हो जाये, और भेंट करे । १२९ अशोक वन के अन्दर एक अत्यन्त उत्तम शिशपा का वृक्ष है । सीता जी वहीं हैं, वहीं भेंट होगी अतः चले जाओ । क्या बतायें समय निकल गया । मैं रावण को सहज ही मार सकता था, परन्तु साक्षात् सूर्य की तीव्र किरणों से (मेरे पंख) जल गये हैं और इस कारण लाचार होना पड़ा । १३० चार सौ कोस कूद सकनेवाला वीर कौन है ? वह चला जाये और सीता का समाचार आदि पता लगाकर लौट आये । यह समाचार बताकर, पुनः

यो सम्चार बताइ फेर खुशि भई
 जुन् रीतले अधिप्व्वांखडढ्यार विपती
 सम्पाती र जटायु भाइ दुइ हूँ
 बल् जान्नाकन दूइ भाइ उडि ग
 पुग्दामा ति जटायुले त अति ताप्
 बांच्या भाइ जटायु क्याहँ म गिन्याँ
 उच्चादेखि गिन्याँ म विन्ध्यगिरिमा
 व्यूत्याँथ्याँ जब चन्द्रमा मुनि मिल्या
 सोध्या ती ऋषिले र सब् जब भन्याँ
 मेरो चित्त बुझाउनाकन भन्या
 यस्तो हुन्छ विपत्ति गर्भ रहँदा
 यस्तो हुन्छ बुढो हुँदा त भनुं क्या
 जाहाँ देह बन्यो र दुःख छ भनी
 जाहाँ देह छ ताहिं दुःख छ चिन्ह्या
 तस्मात् दुःख नमान देह छ त रोग्
 श्रीराम्को अवतार् हुन्या बखततक

आपनू हवाल् सब् कह्या ।
 पाई अनेक्ताप् सह्या ॥३१॥
 हात्रो कती वल् भनी ।
 श्रीसूर्यविम्बै मनि ॥
 मान्या र छोप्याँ जसै ।
 मेरा डढ्या प्वांख तसै ॥३२॥
 तीन् दिन् त मूर्छा भयाँ ।
 तिनका नजीकमा गयाँ ॥
 आपना विपत्का गति ।
 सब् दुःख हुन्छन् जति ॥३३॥
 यो हुन्छ यौवन्महाँ ।
 थाहै छ सब् मन्महाँ ॥
 पदेन भन्नु पनि ।
 साँचो कुरा हो भनी ॥३४॥
 दुःखादि सारा सही ।
 यस्सै जगामा रही ॥

प्रसन्न होते हुए अपना भी सब हाल बताया कि किस प्रकार उसके पंख जल गये और उसने विपत्ति में पड़कर अनेकों कष्ट सहे । १३१ सम्पाति और जटायु हम दो भाई हैं । हममें कितना बल है यह जानने के लिए हम दोनों भाई सूर्यमण्डल के समीप पहुँचे थे । वहाँ पहुँचने पर जटायु को जैसे ही अत्यन्त ताप का अनुभव हुआ उसने उड़ना छोड़ दिया । जटायु तो वच गया परन्तु मैं (उड़ता ही गया ।) क्या करूँ मेरे पंख जल गये और मैं गिर गया । १३२ मैं इतने ऊँचे से विन्ध्यगिरि में गिरा कि तीन दिन तक मूर्च्छित पड़ा रहा । जैसे ही मुझे चेतना आयी मुझे चन्द्रमा मुनि मिले और मैं उनके निकट गया । उन ऋषि के पूछने पर मैंने अपनी सारी विपत्ति कह सुनाई । मेरे चित्त को सान्त्वना देने के लिए उन्होंने सभी दुखों के विषय में बताया । १३३ (उन्होंने कहा) गर्व करने से ऐसी ही विपत्ति प्राप्त होती है और यौवन के बाद वृद्ध होने पर तो कैसा दुख होता है क्या कहूँ; सब मन में ज्ञात ही है । जहाँ देह का सृजन हुआ वहाँ दुःख की प्राप्ति होती ही है; जहाँ देह है वहीं दुःख है, इसे ही सत्य जानो । १३४ इसीलिए दुःख न मानो, देह है तो रोग है और दुःख भी है । श्रीराम के अवतार होने के समय तक तुम इसी स्थान पर रहो और कुछ काल व्यतीत करो । राम का अवतार होगा

केही काल बिताउ राम अवतार्
हर्ला रावणले र तेस् बखतमा
वीर् बानर्हरु आउनन् ति सँग भेट्
सीताको समचार जसै त कहुला
भन्थ्या सोहि कुरा सबै पुगि गयो
पवाँख् देखाइ बिदा भई उडिगया
अङ्गद् वीर्हरु खुश् भया अब मिलिन्
लाग्या गमन समुद्रलाइ र गमन्
फेरी ताप् मनमा पन्यो र अति शोक्
अंगदलाइ बुझाउनाकन अधी
साहेव् ! शोक् रतिभर् कदापि नहवस्
अङ्गदलाइ बुझाइ झट्ट हनुमान्-
पाँची बेस् स्तुति गर्दछन् किन यहाँ
राम्का काम निमित्त मात्र हनुमान्!
क्या वर्णन् बलको गरुँ जब तिमि
पाक्याको फल ठानि सूर्यकन ता

होला र सीता पनि ।
सीताजि खोज्नै भनी ॥३५॥
होला उ वेला महाँ ।
पवाँख् उम्रनन् फेर् तहाँ ॥
हेर् पवाँख् उमन्या भनी ।
जाऊ तिमी लौ भनी ॥३६॥
सीता भनी सब् जसै ।
गर्ने नसक्नु कसै ॥
अङ्गदजि गर्दा भया ।
श्रीजाम्बवान्जी गया ॥३७॥
जाउन् हनुमान् भनी ।
जीका नजीक्मा पनि ॥
चूपचाप भई दूर रह्यौ ।
योजन्म लींदा भयौ ॥३८॥
जन्म्यौ उसै फल् भनी ।
हात्ले म टिप्छू भनी ॥

और सीता का भी रावण द्वारा हरण होगा । उसी समय सीता जी को खोजते हुए वीर वानर आदि आयेंगे । १३५ उन लोगों से तुम्हारी भेंट होगी और उसी समय जब तुम सीता जी के समाचार सुनाओगे, तुम्हारे पंख फिर से उग आयेंगे । उनकी कही गयी वही सब बातें अब पूर्ण हो रही हैं । अपने उगे हुए पंखों को दिखाकर संपाति ने विदाई ली और सबसे जाने की इच्छा प्रकट करके उड़ गया । १३६ अंगद आदि वीरों को जैसे ही यह मालूम हुआ कि अब सीता मिल गयीं, उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई । वे समुद्रों को गिनने लगे और पार जा सकने का कोई मार्ग सोचने लगे; किन्तु उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझा और वे मन में चिन्तित होने लगे । अंगद गहरे शोक में डूब गये । अंगद को सान्त्वना देने के लिए श्रीजाम्बवन्त आगे बढ़े । १३७ श्रीमान् ! आप किंचित्मात्र भी शोक न करें, हनुमान चला जायेगा । अंगद को समझाकर हनुमान के निकट पहुँचे और उनकी उत्तम प्रशंसा करने लगे । तुमने ये जन्म राम के लिए ही लिया है और तुम ही यहाँ चुपचाप दूर बैठे हो । १३८ तुम्हारे बल के बारे में मैं क्या वर्णन करूँ । जब तुम जन्मे थे, सूर्य को पका हुआ फल समझकर उसे हाथ से पकड़ने के लिए तुमने आकाश की ओर छलाँग

आकाशमा जब ता कुद्यौ दुइ हजार
 यस्ता बालकमै थियौ किन यहाँ
 सून्या सब हनुमानले स्तुति तहाँ
 साह्रै खुश हनुमान् भया र खुशिले
 पर्वत तुल्य बडो स्वरूप धरि वचन्
 लङ्का भस्म गराइ रावण समेत
 सीता लीकन आउँछु कि रिसले
 ज्युँदै दाखिल गर्छु रामचरणमा
 की ता छन् ति सिता यहाँ भनि खवर्
 फिर्छु श्रीरघुनाथका चरणमा
 श्रीरामका चरणारविन्द मनमा
 बोल्या श्रीहनुमानले यति कुरा
 भन्छन् श्रीहनुमानलाइ तिमिले
 फर्की आउ सिताजिको खबर ली
 खामित्का संग लागि गैकन पछी
 भन्दा खूशि भई विदा भइलिया

कोशतक् पुगी फेरु झन्यौ ।
 कोश्चार् सयैमा डन्यौ ॥३९॥
 जो जाम्बवानले गन्या ।
 खुप् गर्जना पो गन्या ॥
 वोल्या म सागर तरी ।
 सब सैन्य चूर्ण गरी ॥४०॥
 झुन्ड्याइ रावण पनि ।
 खूनी हजूरको भनी ॥
 मात्रै सिताको लिई ।
 तन् मन् वचन् सब्दिई ॥४१॥
 धर्दा र उठ्ता जसै ।
 श्री जाम्बवानले तसै ॥
 भेट् मात्र ऐले गरी ।
 एकलै नलडन्या गरी ॥४२॥
 सक्भर् लडौला भनी ।
 झट् कुद्न मन् सुब् पनि ॥

मारी थी । उस समय तुम दो हजार कोस पहुँचकर पुनः लौटे थे । जब तुम बाल्यावस्था में ही ऐसे थे तो यहाँ केवल चार सौ कोस के लिए क्यों डर कर बैठे हो । १३९ जाम्बवन्त की इन सब बातों को हनुमान ने सुना और अत्यन्त प्रसन्न हुए । प्रसन्नता के मारे वे जोर-शोर से गर्जन करने लगे । इसके बाद वे पर्वत तुल्य विराट रूप धारण करके बोले कि मैं सागर पार कर लंका को भस्म करने के बाद रावण सहित उनकी सेनाओं को समाप्त कर दूँगा । १४० सीताजी को ले आऊँगा और रावण को लटकाकर जीवित हत्यारे के रूप में श्रीराम के चरणों में उपस्थित करूँगा ! नहीं तो सीताजी के बारे में सूचना मिलते ही श्रीरघुनाथ के चरणों में लौट आऊँगा और अपना तन-मन-बचन सब (उनके लिए) अर्पण करूँगा । १४१ श्रीराम के चरणारविन्दु मन में धारण कर हनुमान ने जैसे ही यह इच्छा प्रगट की वैसे ही जाम्बवन्त ने श्रीहनुमान से कहा कि हनुमान, अभी केवल भेंट करके सीताजी की सूचना लेकर लौट आओ; अकेले लड़ने का झंझट मत मोल लो । १४२ स्वामी के संग जाकर बाद में हम लोग यथासाध्य लड़ेंगे । ऐसी बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो हनुमान ने विदाई ली और तुरन्त कूदने की मन में ठानी । लाल मुख पीला शरीर धारण किये हुए

लाल्मुख् पीत शरीर् गरी गिरि उपर् जल्दी हनुमान् गया ।
सब् प्राणीहरुले तहाँ ति हनुमान्- जीलाइ हेर्दा भया ॥१४३॥

॥ किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ॥

हनुमान शीघ्र ही पर्वत के ऊपर चले गये और सब प्राणी हनुमान को देखने लगे । १४३

किष्किन्धाकाण्ड समाप्त

सुन्दर काण्ड

तछूँ क्षार समुद्र आज सहजै भन्न्या इरादा धरी ।
श्रीराम्का चरणारविन्द मनले अत्यन्त चिन्तन् गरी ॥
भन्छन् वीरुह्रलाइ ताहिं हनुमान् हे वीर हो ! पार् तरी ।
सीताजीकन भेट्त्तछू म अहिले जान्छू बडो वेग् धरी ॥१॥
पापी जन् पनि रामका स्मरणले संसार पार् तछँ ता ।
राम्कै काम निमित्त औंठि सँग ली जान्छू दुतै हूँ म ता ॥
क्या डर् क्षार समुद्र तर्न सहजै पाँचन्छु लंका भनी ।
चारै पाउ जमिन् विषे धसि कुद्या हेर्दै तमसा पनि ॥२॥

दक्षिण् तरफ् मुख गरीकन कुद्न बस्ता ।

ऊपर नजर् दि अधिका दुइ पाउ धस्ता ॥

सोझो गराइकन घाँटि कुद्या जसै ता ।

वायू सरी हुन गया हनुमान् तसै ता ॥३॥

उसी दिन क्षीरसागर पार कर लेने की कामना से उन्होंने मन ही मन श्रीराम के चरणारविन्दों का ध्यान कर अपने वीरों से कहा—हे वीरो ! मैं सागर के पार पहुँच कर बड़ी तेजी से जाकर सीताजी से भेट करूँगा । १ पापी जन भी केवल राम का स्मरण करके ही संसार-सागर पार कर लेते हैं । राम के ही कार्य से यह अँगूठी लेकर जाऊँगा । मैं तो उनका ही दूत हूँ, डर किस बात का है ? क्षीरसागर पार कर शीघ्र ही लंका पहुँचूँगा । ऐसा कह कर चारों पाँव-हाथ धरती पर जमा कर कौतुक के साथ कूदे । २ हनुमान ने दक्षिण की ओर मुँह करके कदने के लिए ऊपर दृष्टि उठायी और आगे के दोनों हाथों को जमा कर जैसे ही गर्दन उठायी

आकाश मार्ग गरी कुद्या र हनुमान् उड्थ्या ति आकाशमा ।
 सीताजीकन भेटि फर्किकन फेरु राम्चन्द्रका पासमा ॥
 पुग्या अक्कल वल् छ छैन इनको वृझौ सर्व वल् भनी ।
 इन्द्रादीहरुले खटाइ सुरसा जल्दी पठाया पनि ॥४॥
 जल्दी गै सुरसा अधिल्तिर वसिन् साम्ने हनुमानका ।
 क्या भन्छन् हनुमान् भनेर खुशि भै कूरा गरिन् खानका ॥
 भोकी धेरु दिनकी म खोजिहिड्थ्यां क्या खां अहारा भनी ।
 पायां बल्ल यहाँ मिल्यौ तिमि त एक साहँ भयां खुष् पनि ॥५॥
 आऊ लौ पस मूखमा जब भनिन् वोल्या हनुमान् तसै ।
 भन्छन् आज सिता नभेटिकन ता पस्तीनँ मुखमा कसै ॥
 सीता भेटि म फर्कुला र रघुनाथ् ज्यूका हजुरता गई ।
 विस्तार् विन्ति गरेर आइ पसुंला तिम्नो अहारा भई ॥६॥
 यस्ता वात् सुनि भन्दछिन् ति सुरसा मेरा मुखमा पसी ।
 निस्की जाउ नहीं भन्या म बलले पकरे दाहा धसी ॥
 माछू येति भनिन् र लौ तब यहाँ मुख वाउ चाँडो भनी ।
 चार् कोशको त शरीर् गरीकन वस्या आफू हनुमान् पनि ॥७॥

और छलाँग मारी, वैसे ही वायु के समान उड़ चले । ३ जब हनुमान आकाश की ओर कूदकर वायु-मण्डल में उड़े तो इन्द्रादि ने यह जानना चाहा कि हनुमान में सीता से भेट करके लौट कर श्रीरामचन्द्रजी के पास पुनः पहुँचने का बुद्धि-बल है अथवा नहीं; और यही जानने के उद्देश्य से उन्होंने सुरसा को तुरन्त वहाँ भेजा । ४ सुरसा शीघ्रता से जाकर हनुमान के समक्ष बैठ गयी और यह जानने के लिए कि हनुमान क्या कहता है, इस प्रकार बोली कि मैं तुम्हें खाने आयी हूँ । कई दिनों की भूखी हूँ । क्या आहार कहूँ, इसी खोज में भटक रही थी । आज तुम्हें पाकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ । ५ सुरसा ने कहा, "तुम आओ और मेरे मुँह में प्रवेश करो" । उसके इन वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा कि आज मैं सीताजी की खोज में हूँ, उनसे भेट किये बिना मैं कदापि तुम्हारे मुँह में प्रवेश नहीं करूँगा । सीताजी से मिलकर मैं लौटूँगा और श्रीरामजी से सविस्तार दिनती करके पुनः लौटकर तुम्हारा आहार बनकर प्रवेश करूँगा । ६ हनुमान की बात सुनकर सुरसा कहती है कि मेरे मुँह में प्रवेश करके निकल जाओ, नहीं तो मैं बलपूर्वक पकड़कर दाढ़ में फाँसकर मार डालूँगी । इतना कहने पर हनुमान ने उसे मुँह खोलने को कहा और तुरन्त अपना शरीर चार कोस का बनाकर

चार कोशका हनुमान देखि सुरसा
 चालीस्कोशहनुमान्भयारअसिकोश
 जल्दी फेर हनुमानले छ बिस कोश-
 फेर दूई सय कोश मुख जब गरिन्
 निस्क्या जल्द र भन्दछन् ति हनुमान
 निस्क्याँ जान्छु म ता अवश्य अब ता
 अक्कल बल्सितका वचन् जब सुनिन्
 आफ्नू सत्य कुरा तसै सब कहिन्
 सक्छौ काम् तिमि साधि आउ अनुमान्
 चीन्ह्याँ भन्छु म इन्द्रका हजुरमा
 बल् बुझ्नै भनि इन्द्रका हुकुमले
 खुश भै स्वर्गविषे गइन् ति सुरसा
 जस्ले सागर नाम् धन्या मकन सो
 तिनका वंशमहाँ विभूषण सरी
 तिनका काम निमित्त आज हनुमान्
 मैनाक् पर्वत! निस्क जाउ तिमि गै

बिस् कोशको मुख गरिन् ।
 मुख फेरि जल्दी धरिन् ॥
 को रूप गराई बस्या ।
 अंगुष्ठ झैं भै पस्या ॥८॥
 हे देवि ! मुखमा पसी ।
 बन्दैन् काम् ता बसी ॥
 यस्ता हनुमानका ।
 छाडिन् कुरा खानका ॥९॥
 यो बल् छ तिम्रो भनी ।
 तिम्रो पराक्रम् पनि ॥
 आयाकि ता हूँ भनी ।
 कूद्या हनुमान् पनि ॥१०॥
 राजा सगर जो गया ।
 श्रीराम राजा भया ॥
 जान्छन् इ लङ्कामहाँ ।
 विश्राम् गराऊ तहाँ ॥११॥

बैठे । ७ चार कोस का हनुमान देखकर सुरसा ने अपने मुँह को बीस कोस का बनाया और तब हनुमान चालिस कोस का हुआ । सुरसा ने तत्क्षण ही अपना मुँह अस्सी कोस का बनाया हनुमान ने शीघ्रता से अपने को एक सौ बीस कोस का बना डाला और जब सुरसा ने दो सौ कोस का मुँह बनाया, वैसे ही अंगूठा-सदृश सूक्ष्म रूप धारणकर हनुमान ने उसके मुँह में प्रवेश किया । ८ सुरसा के मुँह में प्रवेश कर हनुमान कहते हैं कि हे देवी मैं मुँह में प्रवेश कर निकल आया हूँ । अब मैं जाता हूँ । अब जाता हूँ, यहाँ रहकर अवश्य ही कार्य में विलम्ब होगा । सुरसा ने जब हनुमान की ऐसी शक्ति तथा बुद्धिमत्ता देखी तो आहार करने की बात छोड़कर सब सत्य कह सुनाया । ९ हनुमान ! तुम अपने कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त कर आओगे । तुममें अपार शक्ति है, यह मैंने जान लिया । अब मैं इन्द्र को भी तुम्हारे पराक्रम के विषय में कह सुनाऊँगी । इन्द्र के आदेशानुसार मैं तुम्हारी परीक्षा लेने ही आयी थी । इसके बाद सुरसा प्रसन्न होकर स्वर्ग को चली गयी और हनुमान भी कूद पड़े । १० सागर ने कहा कि जिसने मुझे सागर के नाम से विभूषित किया है, उन राजा सगर के वंश में श्रीराम राजा हुए हैं और उन्हीं के कार्य से आज हनुमान लंका जा रहे हैं, अतः हे मैनाक

थाक्या हुन् हनुमान् बिसाइ फलफूल् खाऊन् र जाउन् भनी ।
 भन्दा सागरका वचन् सुनि तहाँ निस्क्या ति मैनाक् पनि ॥
 अर्को एक मनुष्यको स्वरूप ली हात् जोरि विन्ती गन्या ।
 आई फलफूल् खाइ जाउ हनुमान् भन्दै अगाडी सन्या ॥१२॥
 आज्ञा सागरको हुँदा चरणमा आयाँ म ऐले भनी ।
 मैनाक्ले यति विन्ति बात् जब गन्या बोल्या हनुमान् पनि ।
 राम्को काम् नगरी बसेर कसरी खान्छू म जान्छू यसै ।
 हात्ले छुन्छु म लौ भनेर खुशि भै छोयेर कूद्या तसै ॥१३॥
 केही दुर् हनुमान् पुग्या पछि तहाँ एक सिंहिका राक्षसी ।
 छाया पक्रि उ जन्तु खँचि बलले खान्थी जलैमा वसी ॥
 छाया पक्रि उ तान्न लागि हनुमान् ज्यूको गती बन्द भो ।
 कस्ले बन्द गन्यो गती भनि दिशा दशमा तसै दृष्टिगो ॥१४॥
 देख्या तलतिर दृष्टि दीकन तहाँ जसै नजरमा परी ।
 एकै चोट् दुइ लात् दिया र सहजै घुस्रुक्क ताहीं मरी ॥
 ताहाँ देखि कुदी गया र हनुमान् पाँच्या जसै तीरमा ।
 लङ्कापूरि तहाँ त्रिकूट गिरिका देख्या उपर् शीरमा ॥१५॥

पर्वत ! प्रकट हो जाओ और जाकर विश्राम कराओ । ११ हनुमान थके होंगे, विश्राम कर लें । उन्हें फल-फूलादि दो, खाकर जायँ । इस प्रकार सागर के बचनों को सुनकर मैनाक भी प्रकट हो गये । वे एक अन्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आगे बढ़े और इस प्रकार विनती की—“हे हनुमान, आओ, फल-फूल खाकर जाना । १२ सागर की आज्ञा पाकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ” । यह कहकर मैनाक ने जब विनती की तो हनुमान ने भी कहा कि राम का कार्य सिद्ध किये बिना मैं कैसे जलपान करूँ ? मैं ऐसे ही जाता हूँ । केवल हाथ से स्पर्श करके ही चलता हूँ । इतना कहकर प्रसन्न होकर स्पर्श किया और कूद वे पड़े । १३ कुछ दूर चलकर हनुमान को सिंहिका नामक राक्षसी मिली, जो जल में ही रहकर अपनी शक्ति द्वारा जीव-जन्तुओं को खींच लेती थी और उसी से अपना आहार चलाती थी । उसने छाया देखकर ज्योंही हनुमान को खींचना चाहा त्योंही हनुमान की गति लुप्त हो गयी । किसने गति लुप्त कर दी ? —कहते हुए हनुमान ने दसों दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया । १४ हनुमान ने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो राक्षसी दृष्टिगत हुई; और उन्होंने दोनों लातों से एक साथ प्रहार किया । राक्षसी सहज ही में मृत्यु को प्राप्त हो गयी ।

वरिपरि तहिं तीरमा छन् भरी वृक्ष फल्फूल ।
जउन वनमहाँ धेर गर्दछन् पक्षिले गुल् ॥
भ्रमरहरू लताक फूलमा हल्लि हल्ली ।
घुनुनु घुनुनु गर्दै हिँड्दछन् बल्लि बल्ली ॥१६॥

नजर वरिपरीको जो छ शोभा नजर् भो ।
त्रिकुट गिरि उपरका पूरिमा फेर नजर् गो ॥
वरिपरि परखाल् छन् बीच-बीचमा छ खावा ।
सहजसँग अरूले गर्न को सकछ दावा ॥१७॥

अति तखत पन्याको खुप् अगम् देखि लंका ।
यहि घडि पसि जाँ की राति जाँ येति शंका ॥
गरिकन ठहराया याहि बस्छू र राती ।
सहज सित म जाँलाँ जान ता राति जाती ॥१८॥

तहिं बसि यति गम्ले बाँकि दिन् सव् विताया ।
दिन बिति जब रात् भो जान पाऊ चलाया ॥
स्वरूप पनि त सानू ली पस्याथ्या जसै ता ।
दगुरि नजिक आइन् लंकिनी पो तसै ता ॥१९॥

वहाँ से कूदकर हनुमान किनारे पहुँच गये और वहाँ से त्रिकूटगिरि के ऊपरी शिखर से लंकापुरी देखी । १५ उन्होंने देखा, किनारे चारों ओर फलों से लदे वृक्ष हैं । उस वन के पक्षीगण अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को गुंजित कर रहे हैं और भँवरे लताओं में लगे फूलों के साथ झूम-झूमकर गुनगुनाते हुए उड़ रहे हैं । १६ हनुमान ने वहाँ की ऐसी छटा देखी, फिर त्रिकूटगिरि के ऊपर से दूर तक दृष्टिपात किया—चारों ओर दीवार खड़ी है और बीचोबीच में पहरा लगा है । ऐसी जगह में, भला कौन सहज ही में आक्रमण कर सकता है ? १७ अति अगम और कठोर व्यवस्थापूर्ण लंका को देखकर हनुमान सोचने लगे—इसी समय प्रवेश करें अथवा रात्रि में ? सोचते-सोचते, निश्चय किया कि अभी यहीं ठहरता हूँ; रात्रि में ही सरलता होगी, वही समय इस कार्य के लिए उत्तम है । १८ ऐसा सोचकर शेष दिन वहीं ठहर कर बिताया । दिन व्यतीत हो गया । रात आयी तो जाने के लिए पाँव उठाया । सूक्ष्म रूप धारणकर उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही लंकिनी दौड़कर निकट आयी । १९ कौन है यह! आज मुझे कुछ भी न समझकर अन्दर प्रवेश करनेवाला ! चोर ही है—ऐसा सोचकर क्रोध

को हो आज मलाइ केहि नगनी
 चोरै हो भनि लात् उठाइ रिसले
 जल्दी वाम मुठी उठाइ सहजै
 छाद्दै ताहिं रगत् गिराइ झटपट्
 लंकापूरि त हुन् ति राक्षसि भई
 जानिन् श्रीहनुमान् भनेर जब चोट्
 लंकीनी हुँ मलाइ त जितिगयौ
 रावण्को त मरण् हुन्या बखत भो
 ब्रह्माजी अधि भन्दथ्या प्रभुजिको
 हर्ला रावणले सिता र रघुनाथ्
 गर्नन् सुग्रिवले पनी दश दिशा
 गर्नालाइ पठाउनन् विरहरू
 तिन्मा एक विर आउला र तिमिले
 हान्ला वाम मुठी उठाइ र रगत्
 रावण्को तहिंसम्म आयु छ भनी
 ब्रह्माको त वचन् प्रमाण् गरि भन्याँ

यो भित्त जान्या भनी ।
 एक चोट् त हानिन् पनि ॥
 ठोक्ता जमिन्मा परिन् ।
 ऊठेर विन्ती गरिन् ॥२०॥
 वस्थिन् सदा द्वारमा ।
 पाइन् चलिन् सारमा ॥
 यस्ले सक्यो राज् गरी ।
 आयो मरण्को घरि ॥२१॥
 हून्याछ रामावतार् ।
 सुग्रीवथ्यै मित्त चार् ॥
 सीताजिको खोज् खवर् ।
 छाने र खुप् खुप् जवर् ॥२२॥
 लात् मारिद्यौली जसै ।
 छाद्दै गिरौली तसै ॥
 भन्थ्या र सो बात सुनी ।
 त्यो मर्छ रावण् पनि ॥२३॥

से उसने (हनुमान पर) लात से प्रहार किया । तत्क्षण (प्रत्युत्तर में हनुमान के) मुट्टी कसकर धूँसे से प्रहार करते ही वह पृथ्वी पर गिर गयी और रक्त-वमन करते हुए तुरन्त उठकर विनती करने लगी । २० वह लंकापुरी (की रक्षिका) है, जो सदैव राक्षसी वनकर द्वार पर रहती थी । चोट खाने के बाद उसने हनुमान को पहचान लिया तथा उनकी शक्ति का परिचय पाया । मन ही मन कहने लगी—मैं लंकिनी हूँ । मुझे तो इसने पराजित कर दिया है और अब राज्य भी हड़प कर लेगा । ऐसा लगता है कि रावण का तो अब अन्तिम समय आ गया है । २१ ब्रह्माजी कहते थे कि प्रभुजी का राम अवतार होगा; रावण सीता का हरण करेगा; रघुनाथजी सुग्रीव के साथ मित्तता करेंगे तथा सुग्रीव भी अपने वलिष्ठ वीरों को सीता की खोज में भेजेंगे । २२ उनमें से एक वीर आयेगा और जैसे ही तुम लात से प्रहार करोगी, वैसे ही वह वाई मुट्टी से प्रहार करेगा और तुम रक्त-वमनकर गिर पड़ोगी । कहा जाता है कि रावण की आयु उसी समय तक के लिए है । अतः हनुमान की बातें सुनकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि यह ब्रह्मा का वचन है कि रावण मरेगा । २३ जाओ सीताजी से भेंट करो । वहाँ अन्दर उद्यान में अशोकवन के एक उत्तम

जाऊ भेट सिताजिलाइ ति अगम् भित्ती बघैचामहाँ ।
 अशोकका वनमा छ वृक्ष बढिया एक् शिशपाको तहाँ ॥
 ताहीं छन् प्रभुकी प्रिया वरिपरी छन् राक्षसीगण् पनि ।
 भेटी गै रघुनाथथ्यै भन तिली यस्ता विपत् छन् भनी ॥२४॥

धन्यै भयाँ म अहिले प्रभुको स्मरण् भो ।
 संसारको भय छ जो उ त आज दूर भो ॥
 जस्तो मिल्यो मकन संग र भक्ति ऐलहे ।
 यस्तै रहोस् यहि म पाउँ न बिसुँ कैलहे ॥२५॥

जस्सै श्री हनुमान् पुग्या सहजमा लंका समुद्रै तरी ।
 तस्सै जानकिको फुन्यो नजर वाम् हातै समेत खुप् गरी ॥
 रावण्को पनि वाम हात्, नजर वाम् फून्यो, रघुनाथको ।
 दक्षिण् अंग फुन्यो तसै बखतमा खुश् मन् भयो नाथको ॥२६॥
 सानू रूप लिई पसी सब शहर् हेदै विचार खुप् गरी ।
 रावण्को दरबार विशेष् गरि ढुँड्या चोटा र कोठा गरी ॥
 पायानन् र कता म जाँ भनि तहाँ मन्मा विचार भो जसै ।
 सम्झ्या लंकिनिका वचन् र ति गया अशोक वन्मा तसै ॥२७॥

शिशपा के वृक्ष के नीचे प्रभु की प्रिया विराजमान है । उनके चारो ओर राज्य का पहरा है । सीता से भेंट करके शीघ्र ही रघुनाथजी से उनकी विपत्तियों का हाल कहो । २४ मैं घायल हो गयी हूँ । अभी प्रभु का स्मरण हो आया । संसार के सारे भय मेरे हृदय से दूर हो गये । मेरी यही कामना है कि अभी जैसी भक्ति भावना प्रभु के लिए मेरे हृदय में है, वैसी ही सदा बनी रहे । २५ इधर हनुमान सहज ही समुद्र पार करके लंका पहुँचे और उधर उसी समय जानकी के बाम अंग (बायाँ नेत्र तथा बायाँ हाथ) अत्यधिक फड़कने लगे । तभी रावण का भी बायाँ हाथ तथा नेत्र फड़क उठा और उसी समय रघुनाथ के भी दक्षिण अंग फड़क उठे । ऐसा शुभ लक्षण देख राम के मन में प्रसन्नता छा गयी । २६ हनुमान ने सूक्ष्म शरीर धारणकर नगर में प्रवेश किया । चारों ओर भलीभाँति देखते हुए और सोचते-विचारते हुए कमरे-कमरे की छान-बीन की और रावण के दरबार-विशेष को खोजने लगे । जब कुछ पता नहीं चला तो सोचने लगे अब कहाँ जाऊँ ? तत्क्षण ही लंकिनी की बात याद आयी और वे अशोक-वन में चले गये । २७ उन्होंने देखा—इन्द्र की नगरी के समस्त वृक्ष वहाँ

जो जो वृक्षका त इन्द्रका नगरिमा सो सो त सब् छन् तहीं ।
 रत्नैका सिंढि साफ् असल् जल पनी यस्ता तलाऊ कहीं ॥
 फलफूल्ले अति भार् भयेर रुखका सबका ति हांगा पनि ।
 लच्चयाका भ्रमरा र पन्छि बहुतै रूखमा बस्या का पनि ॥२८॥
 विच्चीच्मा सुनका हवेलि पनि छन् उच्चा मणीको छ थाम् ।
 जस्मा छन् कति गर्नु वर्णन जहाँ हेन्यो तहाँ पक्कि काम् ॥
 यस्तो सुन्दर वन् नजर् गरि सबै डुल्दै हनुमान् गया ।
 देख्या सुन्दर शिशपा र खुशि भै ताहीं ति दाखिल् भया ॥२९॥
 अधिक गंभिर छाया सूर्यको ताप् नपस्य्या ।
 उपर अति पहेंला वेस् चरा मात्र वस्य्या ॥
 वरिपरि पनि नाना राक्षसीको छ घेरा ।
 रुखमनि तहिं सीता देखिइन् फेद-नेरा ॥३०॥

भोकी मैलि निनाउरी न त कपाल् कोन्याकि सब् केश उसै ।
 लट्टा मात्र गन्याकि खालि भुमिमा रूँदै बस्याकी यसै ॥
 राम् राम् राम् यति मात्र बोलि रहँदी देख्या र साना भई ।
 पात्का अन्तरमा लुक्या ति हनुमान् रूखका उपरमा गई ॥३१॥
 भन्छन् श्रीहनुमान् तहाँ मनमनै ऐले कृतार्थे भयाँ ।
 जो सीताकन देखि आज खुशिले सीता-समीपमा रह्याँ ॥

हैं । निर्मल एवं स्वच्छ जल के तालाब, रत्नों से जड़ी सीढ़ियाँ, फल-फूलों से लदी झुकी हुई टहनियाँ और उन पर भँवरे तथा पक्षी बैठे हुए हैं । २८ वीच-वीच में स्वर्ण-हवेलियाँ भी हैं । मणि-जटित ऊँचे-ऊँचे मंदिर हैं, जो वर्णन-शक्ति से परे हैं । जिधर देखो, उधर ही पक्के काम हैं । ऐसे सुन्दर वन में घूमते हुए और चारों ओर निरीक्षण करते हुए हनुमान गये । सुन्दर शिशपा को (अशोक-वृक्ष) देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और वहीं प्रवेश किया । २९ अत्यन्त घना छायादार वन, जहाँ सूर्य की गर्मी भी प्रवेश नहीं कर सकती, जहाँ अत्यन्त उत्तम पीले रंग के पक्षी ही केवल रहते थे, वहाँ एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी हुई सीताजी दिखायी दीं । ३० भूखी-प्यासी, हताश, अस्त-व्यस्त केश-राशि खुली हुई, लट्टे बिखराये सीता भूमि पर बैठी रोती और केवल राम-राम की रट लगा रही है । हनुमान ने अपने सूक्ष्म रूप में ही उस पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छिपे हुए ही सब हाल देखा । ३१ श्रीहनुमानजी मन ही मन कहते हैं—अब मैं सीताजी के पावन दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ । आज मैं प्रसन्नतापूर्वक यहीं सीताजी के समीप रहूँ । अब

साध्याँ काम् पनि रामको भनि तहाँ
 फेर अन्तःपुरमा भयो र खलबल्
 क्याको शब्द भयो भनेर हनुमान्
 आयो रावण जल्द ताहि नजिकै
 कैले मछु म रामदेखि अझतक्
 आयानन् रघुनाथ भनेर रहँदा
 रामको दूत् अति वीर वानर अशोक
 सीताजीकन देखिन्या गरि तहाँ
 हेर्दा सुर सब कामको खुशि भई
 साँच्चै हो कि भनेर दौडिकन झट्
 साँच्चै पो यदि हो भन्या असल भो
 सीतालाइ यसो सुनेर रिसले
 मेरा दुष्ट वचन् सुनेर रघुनाथ
 यस्तो निश्चय मन् गरी नजिक गै
 सीताजी पनि दुष्टलाइ नजिकै
 श्रीराम्का चरणारविन्द मनले

खुशी भयाथ्या जसै ।
 त्यो शब्द सून्या तसै ॥३२॥
 लूक्या ति झन् पातमा ।
 सब् स्त्री लिई साथमा ॥
 सीता हन्याँ तापनि ।
 देखेछ स्वप्ना पनि ॥३३॥
 वन्-भित्त आई पसी ।
 वन्-भित्त लूकी बसी ॥
 स्वप्ना मिलेथ्यो जसै ।
 आयो नजीकमा तसै ॥३४॥
 दुर्वाच्य बोल्छू जसै ।
 जाला त भन्ला तसै ॥
 आएर मारन् भनी ।
 दुर्वाच्य बोल्यो पनि ॥३५॥
 देखी अधोमुख् गरिन् ।
 अन्तःकरण्मा धरिन् ॥

राम का कार्य भी पूरा हुआ । ऐसा सोचा ही था कि अन्तःपुर में खलबली-सी मच गई और बड़ा बमचक सुनायी दिया । ३२ कैसी हलचल मची है—(मन ही मन) यह कहते हुए हनुमान और भी पत्तों के बीच छुप गये । रावण शीघ्र ही तमाम स्त्रियों को लेकर वहाँ आ गया । निकट आकर बोला—सीता का हरण करने पर भी रघुनाथ अभी तक नहीं आये । आखिर कब तक मैं राम के हाथों मारा जाऊँगा । कहने लगा कि एक स्वप्न भी देखा है । ३३ स्वप्न में देखा कि राम के दूत अत्यन्त बली वानर अशोक वन में प्रवेश कर सीता को देखने-भर की व्यवस्था करके पत्ते के अन्दर वहीं पर छिपकर निडरतापूर्वक देख-देख प्रसन्न हो रहा है । ऐसा स्वप्न देखकर सोचा कि कदाचित् यह सच ही तो नहीं है । यह जानने के लिए तुरन्त दौड़कर निकट आया । ३४ यदि सत्य ही होगा तो अति उत्तम है । सीता को दुर्वाच्य कहूँगा, जिसे सुनते ही वह क्रोधित होकर चला जायगा और सब यथार्थ (वृत्तान्त) कह डालेगा । मेरे दुष्ट वचनों को सुनकर रघुनाथ आकर मुझे मारेंगे । ऐसा सोचकर वह निकट गया और (उसने) सीताजी को दुर्वचन कहे । ३५ सीताजी ने भी उस दुष्ट को देखकर अपना मुँह नीचे किया और अपने अन्तःकरण में राम के

चूपू लागि जननी रहिन् जब तहाँ
 लाग्यो भन्न मलाइ देखि किन है
 राम् मेरा पति हुन् भनेर तिमि पो
 मेरी हो यदि भन्दथ्या पनि भन्या
 माया छैन तिमि उपर् नबुझि क्या
 यौवन् व्यर्थ गयो विचार किन यो
 यौवन् व्यर्थ नफाल व्यर्थ मनमा
 मैलाई पति मान आज तिमिले
 मेरी पति भयौ भन्या त सबकी
 साह्रै प्रेम गरि राखुला बुझ अधिक
 मानी मूर्ख कृतघ्न मानुषमहाँ
 शक्तीका पनि कम् उ राम् पनि यहाँ
 तस्मात् छोड नराख रामतिर मन्
 लाल् लाल् नेत्र गराइ पूर्ण रिसले
 पाजी रावण! बोल्दछस् कति बहुत्
 राघव्देखि डराइ छलन भनि एक

सो देखि रावण् पनि ।
 लायौ अधोमुख् भनी ॥३६॥
 भन्छ्यौ उ भन्छन् कहाँ ।
 आऊनु पथ्यौ यहाँ ॥
 शोक् मात्र गर्छ्यौ उसै ।
 यौवन् अफाल्छ्यौ यसै ॥३७॥
 शोक् गर्दछ्यौ यो कति ।
 हुन्छु म तिम्रो पति ॥
 मालिक् हुन्याछौ म ता ।
 बैगुनि छन् राम ता ॥३८॥
 साह्रै अधम् जो त छन् ।
 आऊन क्या सक्तछन् ॥
 यस्तो भनेथ्यो जसै ।
 बोलिन् सिताजी तसै ॥३९॥
 दुर्वाच्य बक्-बक् गरी ।
 सन्यासिको रूप् धरी ॥

श्रीचरणारविन्दों का ध्यान किया । सीता को मौन खड़ी देख रावण कहने लगा—मुझे देखकर मुँह क्यों नीचे कर लिया । ३६ तुम कहती हो, राम मेरा पति है । यदि ऐसा समझता तो उसे यहाँ आना चाहिए था । तुम्हारे ऊपर उसका कोई प्रेम नहीं है । केवल तुम्हीं व्यर्थ में शोकग्रस्त हो रही हो । विचार करके देखो यौवनावस्था व्यर्थ ही जा रही है । ३७ यौवन व्यर्थ न गँवाओ । कहाँ तक शोक में डूबी रहोगी ? आज ही तुम मुझे अपना पति स्वीकार करो । तुम मेरी पत्नी हो जाओगी तो सबकी स्वामिनी बन जाओगी और मैं स्वयं तुम्हें अत्यन्त प्रेमपूर्वक रक्खूँगा । समझो और जानो कि राम तो बहुत ही अवगुणी है । ३८ जिस मनुष्य में अधर्म, मूर्खता एवं अभिमान व्याप्त है और जिसकी शक्ति भी थोड़ी है, वह (राम) यहाँ किस प्रकार आ सकता है । अतः राम को मन से त्याग दो । रावण ने जैसे ही ये वचन कहे, सीताजी के नेत्र क्रोध से लाल हो गये और वे बोली— ३९ पाखण्डी रावण ! दुर्बचन कहाँ तक बोलते हो । रघुनाथ से भयभीत होकर छल करके संन्यासी का रूप धारण किया । जिस प्रकार कुत्स यज्ञ में हवन अर्पित पदार्थों को चुरा ले जाता था, उसी प्रकार राम-लक्ष्मण की अनुपस्थिति में तुमने मेरा हरण किया । समझ लो,

जस्तै यज्ञविषे हविस् कुकुरले हर्छन् उसै चालले ।
 राम् लक्ष्मण् नहुँदा हरिस् तँ बुझिले मर्लास् यसै कालले ॥४०॥
 सागर् शोषि कि साघुँलाइ रघुनाथ आयेर घेरा दिई ।
 तेरो वंश विनाश् गरेर पछि फेर् प्राण् खँचि तेरो लिई ॥
 लैजानन् रघुनाथ् मलाइ भनि झट् दीइन् जवाफ् यो जसै ।
 लाल् लाल् नेत्र गराइ खड्ग पनि ली काट्ने तयार् भो तसै ॥४१॥

मन्दोदरी विनति गर्न अगाडि सर्दी ।

यो खड्ग टाँ कसरी भनि चित्त धर्दी ॥

पाऊ परीकन बहुत् गरि बित्ति लाइन् ।

सब् रिस् शमन् पनि गरायर खड्ग टारिन् ॥४२॥

हूकुम् रावणले तहाँ यति दिया हे राक्षसी ! ई सिता ।
 मैत्रा दूइ यसै बसून् तब उपर् मेरा शयन्मा कि ता ॥
 बस्तिन् बस्तिन पो पनी भनि भन्या काटेर टुक् टुक् गरी ।
 तर्कारी भुटुवा बनाउनु असल् मीठा मसाला धरी ॥४३॥
 मासू खाइ म छाडुँला अझ पनी चेताउ येती भनी ।
 रावण् फर्कि गयो ति राक्षसिहरू एक मुख् भया फेर् अनि ॥

तुम इसी काल-से मरोगे । ४० सागर का शोषण कर सेना-सहित रघुनाथ आकर यहाँ घेरा डालेंगे और तेरे वंश का विनाशकर तेरे प्राण खींच लेंगे तथा उसके वाद रघुनाथ मुझे लिवा ले जायेंगे । सीता ने जैसे ही ऐसे उत्तर दिये, वैसे ही रावण ने क्रोध से लाल आँखें करके देखा और खड्ग लेकर काट डालने के लिए तत्पर हो गया । ४१ मन्दोदरी ने किसी प्रकार खड्ग को रोका और चित्त में विचार करती हुई रावण के चरणों पर गिर पड़ी और विनती करने लगी । अब शीघ्र ही शान्त हो जायें और खड्क रोक लें । मन्दोदरी की विनती सुनकर रावण ने अपने समस्त क्रोध को शान्त कर खड्ग रोक लिया । ४२ उस समय रावण ने इस प्रकार आज्ञा दी—हे राक्षसी ! यह सीता दो महीने तक इसी प्रकार रहे, तदुपरान्त मेरे शयन में रहेगी । यदि रहने के लिए अस्वीकार करे तो इसके टुकड़े-टुकड़े कर देना और उत्तम मीठा मसाला डालकर भूना । ४३ मैं इसका मांस भक्षण करके ही छोडूँगा । अभी भी इसे सावधान कर दो । इतना कहकर रावण लौट गया । वहाँ की राक्षसियाँ सब एक-मुँह होकर कहने लगीं, क्यों यौवन को नष्ट करती हो ? रावण को पति स्वीकार कर लो । जिसे सुनकर एक राक्षसी कहती है कि बार-बार इसे समझाकर तुम थक

एक् भन्छे किन व्यर्थ यौवन सक्यौ
 दोस्त्री क्या भनि उठ्ठछे कि कति वार्
 काट्नेपछं नकाटि हुन्न भनि बात्
 हात्मा ली तरवार दौडि पनि गै
 आर्की घोर मुख बाइ डर् दिन नजीक्
 बूढी राक्षसि एक् थिई र त्रिजटा
 लागी भन्न अभागि दुष्टहरु हो!
 गछौं छोड विरोध् नराख गर खुप्
 पाऊमा परि दण्डवत् गर सबै
 मेरा आज वचन् लियौ भनि भन्या
 स्वप्नाको सुन भन्छु लक्षण यहाँ
 ऐरावत् उपरी चढेर सँगमा
 याहाँ आइ रिसाइ भस्म सब यो
 रावण् मारि सिता लियेर सँगमा
 रावण् गोमय कुण्डमा कुल समेत
 बुद्ध्यो सब मुड आफना उनि उसै

रावण् गराऊ पति ।
 भन्छेस्तथाक्छेस्कति ॥४४॥
 गर्दै थिई अर्कि ता ।
 भन्दै म काट्छु सिता ॥
 धाई सिताथ्यै जसै ।
 तेस्ले हटाई तसै ॥४५॥
 क्या दुष्टको झैं मति ।
 सीताजिको ता स्तुति ॥
 मालिक् इनै हुन् भनी ।
 खुप् हीत होला पनि ॥४६॥
 श्रीराम् सिताका पति ।
 भाई लिई वीर् अति ॥
 लंकै गराईदिया ।
 पर्वत् उपर् पो थिया ॥४७॥
 खुप् तेल मर्दन् गरी ।
 मुड्को त माला धरी ॥

जाओगी । ४४ एक अन्य राक्षसी तो कह रही है कि इसे काटना ही पड़ेगा; विना काटे काम नहीं चलेगा । हाथ में तलवार लेकर सीता को काट डालूंगी—यह कहती हुई सीता की ओर दौड़ी । दूसरी मुँह फैलाकर सीता को भयभीत करती हुई, उनकी ओर लपकी, जिसे एक त्रिजटा नामक राक्षसी ने पकड़कर हटा लिया । ४५ कहने लगी—अभागिन ! दुष्टाओं ! क्यों दुष्टों की भाँति अपनी बुद्धि करती हो ? विरोधी विचारों को हटाकर, सीताजी की खूब स्तुति करो । इन्हीं को सर्वस्वामिनी मानो । इनके पाँव पड़ो और दण्डवत करो । मेरे इन वचनों को मानोगी तो तुम्हारा वड़ा हित होगा । ४६ सुनो, अपने स्वप्न के लक्षण मैं यहाँ बताती हूँ । श्रीराम, सीता के पति हाथी पर सवार होकर और साथ में अपने अत्यन्त वीर भाई (लक्ष्मण) को लेकर यहाँ आये और क्रोधित हो सम्पूर्ण लंका को भस्म कर दिया और रावण को मारकर सीता को लेकर पर्वत के ऊपर चले गये । ४७ रावण के कुल वाले (अन्य राक्षस) खूब तेल मालिश कर अपने-अपने सर गोवर के कुण्ड में डुवाते थे । उन्हीं सरों की माला धारण कर विभीषण श्रीराम के निकट प्रभु की भक्ति करते थे और अत्यन्त प्रसन्न होकर तन-मन-वचन से सेवा करते थे । ४८ राग आज रावण को समस्त

श्रीरामका नजिकै विभीषण थिया	भक्ती	प्रभूको	गरी ।
गर्थ्या खूब टहल् बहुत खुशि हुँदै	तन्मन्	वचन्ले	गरी ॥४८॥
रामले रावणलाई आज सहजै	माछिन्	कुलै साफ्	गरी ।
रावणको अब वृद्धि छैन यसको	आयो	मरणको	घरि ॥
रामको भक्त विभीषणै अब उपर्	बस्नन्	यहाँ राज्	गरी ।
जस्तो हुन्छ हुकूम सितापतिजिको	सोही	शिरोपर् धरी	॥४९॥
जस्तो स्वप्न भयो उ सब् भनिसक्याँ	येती	भनी चुप्	जसै ।
लागीथी त्रिजटा ति वात् सुनि डन्या	सब्	राक्षसीगण्	तसै ॥
निद्रामा वशमा सबै परिगया	सीता	बहूतै	हुँदी ।
आधार कोहि नपाउँरी अधिक ताप्	मानेर	विह्वल् हुँदी	॥५०॥
भोकी शोक् गरि भन्दछिन् अब यहाँ	ऐले	कसोरी	मरूँ ।
इन्का हात परेर मर्नु ननिको	आफै	म मरूँ	बरु ॥
ताप्ले पूर्ण हुँदी उपाय अरु थोक्	केही	नजान्दी	कबै ।
मन्मा स्वस्थ नपाउँदा विरहले	देखती	अँध्यारो सबै	॥५१॥
राममा चित्त दियेर मर्नु बढिया	मानेर	सीता	तहाँ ।
झुन्डीन्या मतलब् लिई खडि भइन्	पक्रेर		हाँगामहाँ ॥

कुल-सहित सफ़ाया कर मारेगे । रावण की बुद्धि अब क्षीण हो गयी है । अब उसकी विपत्ति की घड़ी आ गयी है । राम के भक्त विभीषण ही अब यहाँ, सीतापति की जैसी आज्ञा होगी, उसे शिरोधार्य कर राजा बनकर रहेंगे । ४९ जैसा स्वप्न हुआ, वह सब मैं बता चुकी हूँ, इतना कहकर जैसे ही त्रिजटा चुप हुई सब राक्षसियाँ उसकी बातों से प्रभावित होकर भयभीत हुई और उसी समय निन्द्रा के वशीभूत हो गयीं । सीता कोई सहारा न देख असहाय बनकर अत्यधिक रोयी । ५० भूखी-प्यासी सीता अत्यन्त शोक में डूबी हुई कहती हैं कि मैं यहाँ मरूँ भी किस प्रकार ? इन लोगों के हाथों से तो मरना भी उचित नहीं । इससे तो अच्छा होगा कि मैं स्वयं ही अपना प्राण त्याग दूँ । सन्तापग्रस्त मस्तिष्क में कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था । विरह से मन में चिन्ता छापी थी । सब ओर अन्धकार ही अन्धकार दृष्टिगोचर होता था । ५१ उन्होंने सोचा कि राम के ध्यान में लीन होकर ही मृत्यु को प्राप्त होना अति उत्तम होगा । यह निश्चयकर सीताजी ने राम का ध्यान किया और वहाँ एक डाल पकड़कर खड़ी हो गयीं । राक्षसों के बीच रहकर जीवित रहना धिक्कार है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है । अतः अब मैं मर ही जाऊँ । लटें लम्बी हैं, इसलिए गले में फन्दा डालकर लटकने के लिए, रस्सी बनाने के

राक्षस्का बिचमा वसी जिउनु धिक् मर्नु निको मर्दछु ।
 चुल्लो लामु छ झुन्डिनाकन यहाँ डोरी त यै गर्दछु ॥५२॥
 यस्तो निश्चय सुर् गरीकन सिता झुन्डीन आँटिन् जसै ।
 काम् बित्ला भनि सानु बोलि झटपट् बोल्या हनुमान् तसै ॥
 भारतवर्ष विषे मणी मुकुट झै नाम् ता अयोध्या भनी ।
 ठूलो एक शहर् थियो मणिमयी सुन्दर् बन्याको पनि ॥५३॥
 इक्ष्वाकूका कुलैमा अति बलि दशरथ् वीर् महाराज् रह्याछन् ।
 तिन्का तीन् रानिमध्ये गुणिगुणि अति वीर् चार छोरा भयाछन् ॥
 जेठा राम्जी ति चार्मा उहि पछि त भरत्जी र लक्ष्मण् इ तीनै ।
 भन्दा शत्रुघ्न कान्छा सकल गुणमहाँ कम्ति छैनन् ति कुनै ॥५४॥
 जेठा राम पिताजिका हुकुमले सब् राज्य छोडीदिई ।
 वन्मा बस्न चल्यो बहुत् खुशि हुँदै सीता र लक्ष्मण् लिई ॥
 एक् दिन् पञ्चवटी गया प्रभु तहीं डेरा प्रभूको पन्यो ।
 रावण्ले अति छल् गरीकन तहाँ सीताजिलाई हन्यो ॥५५॥
 राम् लक्ष्मण् नहुँदा सीता पनि तहाँ चोरी जसै ता हन्यो ।
 चोरी आज सिता हन्यो भनि बहुत् खेद् रामलाई पन्यो ॥
 जान्थ्या खोजि सिताजिलाइ वनमा फेला जटायु पन्या ।
 तिनमाथी करुणा भयो प्रभुजिको ताहीं जटायु तन्या ॥५६॥

लिए यही ठीक है । ५२ इस प्रकार निश्चयकर साहस बटोरकर सीता जैसे ही लटकनेवाली थीं, वैसे ही कही काम न विगड़ जाय—यह सोचकर हनुमान तुरन्त ही धीरे से बोले, “भारतवर्ष में सरताज के समान एक सुन्दर सुसज्जित अयोध्या नामक नगर है जो बड़ा ही विशाल है । ५३ इक्ष्वाकु के वंश में अत्यन्त बली वीर दशरथ नामक महाराजा रहते हैं । उनकी तीन रानियों से बड़े ही उत्तम गुणवान् एवं वीर चार पुत्र हुए । ज्येष्ठ रामजी, उनके बाद भरत, फिर लक्ष्मण और उनसे भी कनिष्ठ पुत्र शत्रुघ्न, जो सकल गुणों से सम्पन्न है । ५४ ज्येष्ठ पुत्र राम पिता की आज्ञा से सकल राज्य का त्यागकर वन में रहने के लिए सीता और लक्ष्मण को लेकर अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक एक दिन पंचवटी गये, जहाँ प्रभु का पड़ाव पड़ा । रावण ने अति छल करके सीता का हरण किया । ५५ राम-लक्ष्मण की अनुपस्थिति में (रावण ने) जैसे ही सीता की चोरी की, वैसे ही इस सत्य को जानकर राम के मन में घोर चिन्ता और विरह उत्पन्न हो आया । सीताजी की खोज में जाते हुए वन में (राम से) जटायु से भेंट हुई । उन पर प्रभु की कृपा हुई और वे वहीं तर गये । ५६

भेट सुग्रीवसित भो पछी प्रभुजिको लाया मित्यारी पनि ।
 बाली मारि रजाइँ बक्सनुभयो मित् हुन् इ मेरा भनी ॥
 वीर् वीर् वानर छानि सुग्रिवजिले सीताजि खोज्ने भनी ।
 हूकुम् बक्सनुभो र वीरहरु गया सीताजि खोज्ने पनि । ५७।
 तिन्मा एक विर ता म हूँ म त यहाँ आयाँ समुद्रै तरी ।
 सम्पाती-सित भेट हुँदा खबर भै उन्का वचन्ले गरी ॥
 लंका दाखिल भै गयाँ छिनमहाँ रामका प्रताप्ले गरी ।
 फुत्क्याँ लंकिनि देखि निर्भय भई अशोक वन्मा परी । ५८।
 देख्याँ सुन्दर बाटिका वरिपरी रूख् बेस् लताले गरी ।
 बेह्याका चहुँओर रत्न सरिका फल् फूल फल्याका भरी ॥
 देख्याँ आज सिताजिलाइ र यहाँ आनन्द पायाँ भनी ।
 येती बिनति गरेर चुप् भइ रह्या ताहाँ हनुमान् पनि ॥ ५९ ॥

सीताजिले जब इ वात् क्रमले सुनीथिन् ।
 आश्चर्य भैकन वरीपरि हेरि एकछिन् ॥
 कोही नदेखि ति सिता अरुलाइ ताहाँ ।
 भन्छिन् कुरा इ कहन्या जन को छ याहाँ ॥ ६० ॥

भ्रम् हो भनूँ पनि भन्या सब चेत् छ मेरा ।
 स्वप्ना कसोगरि भनूँ निद छैन मेरा ॥

बाद में प्रभुजी की भेंट सुग्रीव से हुई और उनसे मित्रता हुई । उन्होंने बालि को मारकर और उन्हें (सुग्रीव को) अपना मित्र कह कर राज्य सौंपने की कृपा की । एक से एक वीर वानरों को चुनकर सुग्रीव जी ने सीता जी की खोज में भेजा । समस्त वीर सीता की खोज में चल पड़े । ५७ उनमें से एक वीर तो मैं स्वयं हूँ । संपाती से भेंट होने पर (यह) समाचार मिला और उन्हीं के कथनानुसार, राम की कृपा से मैं क्षण-भर में ही लंका में प्रविष्ट हो गया । लंकिनी से भी निर्भयतापूर्वक बच निकला और अब अशोक वन में आया हूँ । ५८ चारों ओर वृक्ष और सुन्दर लताएँ देखीं, रत्नों के समान फल-फूलों से भरी हुई एक सुन्दर बाटिका देखी । आज सीता माता के दर्शन पाकर बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । इतनी बिनती कर हनुमान जी मौन हो गये । ५९ सीता ने जब इन बातों को क्रम से सुना तो आश्चर्य-चकित हो चारों ओर देखने लगीं और किसी को वहाँ न देख कहने लगीं—यह सब बातें कहनेवाला यहाँ कौन जीव है ? ६० यदि मैं इसे भ्रम कहूँ, तो किस प्रकार ? मैं

जो हो इ बात कहन्या उ अगाडि आई ।
 अमृत वचन् इ अति आज भनोम् मलाई ॥६१॥
 सीताजिको यति वचन् जव गुन्न पाया ।
 सानू स्वरूप लि हनुमान्जि अगाडि आया ॥
 दर्शन् प्रणाम् पनि गन्या र मित्ताजिलाई ।
 ताहीं खडा भइ रह्या अति हर्ष पाई ॥६२॥

लाल् मुख पीत शरीर् शरीर् पनि अधिक्	सानू भञ्जेरा सरी ।
धान्याका हनुमान देखि मनले	आफै ति शंका परी ॥
रावण्को छल हो कि यो भनि तहाँ	लाइन् अधोमुख् जरै ।
शंका भो अब साइलाइ भनि जट्	बोल्या हनुमान् तसै ॥६३
हे माता ! म त दास हूँ हजुरको	गम्का हुकूमने गरी ।
आयाको छु हजुरको खबरमा	गम्भीर् समुद्रै तरी ॥
राजा सुग्रीवको म मन्त्रि पनि हूँ	वायू पिता हुन् पनि ।
येती विन्ति गरेर चुप् भइ रह्या	क्याहुन्छ मर्जी भनी ॥६४
सीताजी पनि भन्दछिन् कसरि यो	जानूँ म मानिस् पनि ।
वानर् मीत मित्यारि लाउँछ कतै	क्या हुन् कुराको जनी ॥

तो सचेत हूँ । यदि स्वप्न कहूँ तो मैं सो नहीं रही हूँ । जो भी हो वह मेरे सम्मुख आकर इन अमृत-तुल्य वचनों को कहे । ६१ सीता जी के ये वचन सुनते ही हनुमान अपना छोटा-सा रूप धारण किये हुए उनके सामने आये । उन्होंने सीता जी का दर्शन कर प्रणाम किया और अत्यन्त हर्षोन्मुख होकर उनके थामे खड़े रहे । ६२ हनुमान का लाल मुँह तथा पीला शरीर और गौरैया के समान अत्यन्त छोटा आकार देख कर सीता जी के मन में शंका उत्पन्न हुई, उन्होंने सोचा कि कहीं रावण ही तो नहीं उनके साथ पुनः छल कर रहा है । इन्हीं विचारों में डूबी सीता को मुँह नीचा किये देख कर हनुमान समझ गये कि उन्हें शंका हो रही है, अतः वे तुरन्त बोल पड़े—६३ हे माता ! मैं तो आपका सेवक हूँ । राम की आज्ञा से कठिन समुद्र को पार कर यहाँ आपकी सूचना लेने आया हूँ । राजा सुग्रीव का मैं मंत्री हूँ और वायु मेरा पिता है । इतना कहकर वे मौन होकर सीता की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे । ६४ सीता जी कहती है कि मैं यह कैसे मान लूँ कि वानर और मनुष्य के बीच भी मित्रता होती है ? कहाँ क्या बात है, मैं वास्तविक सत्य को कैसे जानूँ ? अविश्वास प्रगट कर सीता जी जैसे ही चुप हुई, वैसे ही

येती बोलि सिताजि चुप् भइरहिन् साँचो नमानी जसै ।
 फेर् वृत्तान्त गरी सुनाइ सब बात् औंठी दिया पो तसै।६५।
 औंठी दीकन फेर् प्रणाम् पनि गरी जससै हनूमान् बस्या ।
 देखिन् औंठि जसै तसै वखतमा हर्षाश्रुधारा खस्या ॥
 बर्बर् आँसु खसाउँदै प्रभुजिको औंठी शिरोपर् धरिन् ।
 साह्रै खुश हनुमान उपर् भइ तहाँ प्राण् झैं पियारो गरिन्६६

हित गरि हनुमान्जीलाइ भन्छिन् ति माता ।
 मकन तिमि भयौ खुप् प्राणका आज दाता ॥
 तिमिसित रघुनाथले खूब विश्वास मान्या ।
 तब मसित पठाया येहि काम्ले त जान्याँ ॥६७॥
 अब त तिमि हनूमान् जल्दि गै रामलाई ।
 भन विपति पन्याकी देखिहालयौ मलाई ॥
 जति गरि म उपर् श्रीरामको हुन्छ माया ।
 तति गरि तिमिले खुप् युक्तिले बित्ति लाया ॥६८॥
 जिन्तिन् शरीर महिना दुई ता म धर्छु ।
 ताहाँपछी त तिमि निश्चय जान मर्छु ॥
 खान्या छ दुष्ट तरकारि वनाइ येही ।
 छैनन् यहाँ अरु सहाय मलाइ कोही ॥६९॥

हनुमान ने पुनः विस्तारपूर्वक सारा वृत्तान्त सुनाकर उन्हें श्रीरामचन्द्र जी की अंगूठी दी । ६५ अंगूठी देकर हनुमान ने पुनः प्रणाम किया और वहीं बैठ गये । सीता जी अंगूठी देखते ही हर्ष से विभोर हो उठीं और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो चले । अश्रु बहाते हुए उन्होंने प्रभु की अंगूठी अपने मस्तक से लगा ली । हनुमान के ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें प्राणों से बढ़ कर प्यार किया । ६६ हनुमान के प्रति कृतज्ञ होकर सीता माता कहती हैं—आज तुमने मुझको जीवन दिया है, अतः तुम मेरे प्राण-दाता हुए हो । अब मैं मान गयी कि प्रभु ने तुम्हारे ऊपर विश्वास कर इसी काम से मेरे पास भेजा है । ६७ हनुमान ! अब तो शीघ्र ही तुम राम के पास जाकर मेरी विपत्तियों का हाल कह दो । जैसा तुम देख रहे हो, श्रीराम से उसी प्रकार युक्तिपूर्ण विनती करना, जिससे उनकी महान् कृपा शीघ्रातिशीघ्र हो । ६८ एक-दो माह तक तो मैं किसी प्रकार अपने शरीर को धारण किये रहूँगी, तत्पश्चात् तुम निश्चित जानो कि मैं जीवित रहने में असमर्थ हो जाऊँगी । ये दुष्ट

तस्मात् अवश्य इ दुई महिना नजाई ।
 सुग्रीव् समेत् सकल सैन्य लियेर आई ॥
 यस् दुष्टलाइ सब वंश समेत मारून् ।
 यो दुःख-सागर पन्याकि मलाइ तारून् ॥७०॥
 सिप सित गरि विन्ती खुपु दयालू बनाया ।
 जति छ फजिति मेरा यो सबै थोक् जनाया ॥
 यति विनति गन्या लौ पाउला धर्म धेरै ।
 सकल भनि सक्याँ बात् क्या भनूँ बेरबेरै ॥७१॥

विन्ती श्री हनुमानले पनि गन्या माता म सेवक् त हूँ ।
 ख्वामित्का इ विपत् सबै म कहूँला धेरु बात् यहाँ क्या कहूँ ॥
 राम् लक्ष्मण् दुइ भाइ सुग्रीव समेत् बानर् कि सेना लिई ।
 वंशौ रावणको विनाश् गरिदिनन् घेरा शहरमा दिई ॥७२॥
 ख्वामित्लाइ लियेर फेरि रघुनाथ जानन अयोध्यामहाँ ।
 आवैनन् रघुनाथ, भनेर मनमा शङ्का नलागोस् यहाँ ॥
 यो विन्ती सुनि भन्दछिन् तहिं सिता राम्चन्द्रजी क्या गरी ।
 सेना लीकन आउनन् अति गभीरु यस्तो समुद्रै तरी ॥७३॥

मुझे तरकारी बनाकर खा डालेगे । यहाँ मेरा सहायक, मेरी रक्षा करने-
 वाला कोई नहीं है । ६९ उनसे कहना कि ये दो महीने व्यतीत होने
 के पूर्व ही निश्चित रूप से सुग्रीव-सहित समस्त सेना लेकर आयें और
 इस दुष्ट को सपरिवार नष्ट करके इस दासी को दुःखसागर से उबार
 लें । ७० अत्यन्त चातुर्यपूर्वक विनती करके प्रभु का हृदय दया और
 करुणा से द्रवित कर देना । जो भी मेरी कष्टमय दशा है, विस्तार-
 पूर्वक कह देना । केवल इतना ही कर देने से तुम्हें एक महान् धर्म
 करने का पुण्य प्राप्त होगा । अपना सब हाल तुमसे कह डाला, अब
 और क्या कहूँ ? ७१ श्रीहनुमान ने भी विनती की, हे माता ! मैं तो
 सेवक हूँ । स्वामिनी की समस्त विपत्तिजनक कथा कह सुनाऊँगा ।
 मुँह से अधिक क्या कहूँ ! राम-लक्ष्मण दोनों भाई एवं सुग्रीव समस्त
 बानर-सेना सहित यहाँ आयेंगे और सारे नगर में घेरा डाल कर रावण का
 उसके वंश-सहित नाश कर डालेगे । ७२ स्वामिनी को लेकर रघुनाथ
 पुनः अयोध्या जायेंगे । आप मन में तनिक भी चिन्ता न करें । आप
 ऐसी शंका न करें कि रघुनाथ कदाचित् न आयें, वे अवश्य आयेंगे ।
 यह विनती सुनकर सीताजी कहती हैं कि लंका आने के मार्ग में पड़ने-
 वाले ऐसे गम्भीर-गहन सागर को श्रीरामजी सेना-सहित किस प्रकार पार

जननिकन बुझाया यो हुकूम सूनि ताहाँ ।
 मइ छु प्रभुजिको दास् बोकुंला पीठमाहाँ ॥
 रघुपति दुइ भाईलाइ क्या दुःख पछन् ।
 सकल अरु र सुग्रीव कूदि आफै ति तछन् ॥७४॥
 जननि ! म त बिदा झट् पाउँ मर्जीत सून्याँ ।
 अब त उहिं गया पो हुन्छ काम् जल्दि हून्या ॥
 जउन चिज दिंदामा राम विश्वास मान्छन् ।
 उहिचिज पनि पाऊँ जान्छु दिन् मात्र जान्छन् ॥७५॥
 यति सुनि अधिदेखिन् केशपाशमा धन्याको ।
 मणि झिकि दिइहालिन् रामको मन्पन्याको ॥
 मणि दिइ फिरि भन्छिन् चित्रकूटमा भयाको ।
 शरण परि नजर् दी काग बाँची गयाको ॥७६॥

एक् दिन् हे हनुमान् ! म चित्रकूटमा रामका नजीकमा थियाँ ।
 मेरा काखमहाँ सुत्या र रघुनाथ हात्को तकिया दियाँ ॥
 मेरा लाल् दुइ पाउ देखिकन काग् आयो र ठूंग्यो जसै ।
 मेरा ई दुइ पाउदेखि बहुतै आयो रगत् पो तसै ॥७७॥

कर पायेगे ? ७३ सीता जी की यह शंका-युक्त बात सुनकर हनुमान ने समझाया—मैं तो प्रभुजी का दास हूँ । उन्हें पीठ पर उठा लूंगा । राम-लक्ष्मण दोनों भाइयों को कैसे कष्ट उठाना पड़ेगा । समस्त वानर-सेना तथा सुग्रीव (आदि) छलांग मार कर स्वयं ही पार हो लेंगे । ७४ हे जननी ! अब मुझे शीघ्र ही जाने की आज्ञा दें । आपकी आज्ञा का प्रत्येक शब्द मैंने ध्यानपूर्वक सुन लिया है । अब यहाँ अधिक रुकने से काम नहीं बनेगा, शीघ्रातिशीघ्र जाने से ही होगा । मुझे कोई ऐसा चिह्न दें, जिसे देखकर राम को विश्वास हो जाये; मैं वही लेकर चला जाऊँ । समय व्यर्थ ही व्यतीत न हो जाय । ७५ ऐसा सुनकर (सीता ने) पहले से ही केश-पाश में, धारण किये हुए मणि को निकाला, जो राम के मन को अधिक भाता था, वही हनुमान को दिया । मणि देकर चित्रकूट में घटित एक घटना सुनाने लगीं । यह घटना एक शरण में आये हुए कौए की, उनकी कृपा-दृष्टि द्वारा बच जाने के विषय में थी । वे पुनः कहती हैं—७६ हे हनुमान ! एक दिन मैं चित्रकूट में रामजी के निकट थी । वे मेरी गोद में हाथ का तकिया लगा कर लेटे हुए थे । मेरे दोनों लाल पाँवों को देख कर एकाएक, एक कौए को भ्रम हुआ और उसने आकर जैसे ही मेरे पाँवों में चौंच मारी कि दोनों पावों से रक्त

ऊठी श्रीरघुनाथको नजर भो
 पयाँक्या एक् तृण ली तहाँ प्रभुजिले
 त्यो काग् चौधभुवन् डुल्यो त पनि एक्
 फेरी आइ शरण् परी नजर दी
 मेरो आज शरण् पन्यो भनि दया
 मै माथी त दया कसो हुन गयो
 हात् जोरीकन विन्ति फेरि हनुमान्
 याहाँ छन् भनि यो खवर् नभइ पो
 रावण्ले हरि ली गयो भनि खवर्
 आज् तक् रावणको कुलै प्रभुजिले
 देख्छू रूप त सानु मानु भडिरा
 राक्षस् नाश् तिमि गर्दछौ तिमि ठुला
 तिम्रो रूप् अति सानु देख्छु अरु ता
 संझन्छू मनले र गम्छु मनमा
 यस्तो मर्जि सिताजिको सुनि तहाँ
 मेरु तुल्य स्वरूप् गरेर हनुमान्

वाहीं थियो काग् पनि ।
 यो काग माछू भनी ॥
 पायेन आधार् जसै ।
 बाँची गयो काग् तसै । ७८।
 आयो उ काग्मा पनि ।
 भन्थिन् भन्या यो पनि ॥
 वीर् गर्न लाग्या तहाँ ।
 आऊन ढीलभो यहाँ ॥ ७९ ॥
 हुन्थ्यो त वाँच्यो कहाँ ।
 सब् भस्म गथ्या यहाँ ॥
 जत्रो कसोरी लडी ।
 हुन्छौ स्वरूपकी वढी । ८०।
 कत्रा हुनन् झन् भनी ।
 आश्चर्य मान्छू पनि ॥
 पर्वत् सरीका भया ।
 साम्ने खडा भै रह्या । ८१।

वह निकला । ७७ श्रीरघुनाथ ने उठ कर देखा । कौआ भी वहीं था । इस कौए को मारने के लिए रघुनाथ ने कंकड़ उठाकर प्रहार किया । कौआ चौदहो भुवन में घूमा, परन्तु कहीं उसे कोई सहारा न मिला और पुनः उन्हीं की शरण में आ गिरा । राम की ही कृपादृष्टि पाकर उस कौए के प्राण बच गये । ७८ श्रीराम ने देखा कि अन्त में कौआ उन्हीं की शरण में आया । यही देखकर उनका हृदय पक्षी के प्रति करुण हो उठा और उन्होंने उसकी रक्षा की । अतः वे मेरे ऊपर भी अवश्य दया करेंगे और इन दुष्टों से मेरी रक्षा करेंगे । हनुमान पुनः हाथ जोड़कर विनती करने लगे—हे माता ! आप यहाँ हैं, यह पता लगाने में ही विलम्ब हुआ है । ७९ यदि यही निश्चय होता कि रावण द्वारा आपका हरण हुआ है तो वह बच कर कहाँ जाता ? प्रभु ने अब तक रावण को उसके वंश-सहित नष्ट कर डाला होता । हनुमान की विनती सुनकर सीता कहती है कि तुम्हारा रूप तो मैं अत्यन्त सूक्ष्म देख रही हूँ । गौरैया चिड़िया के समान हो । किस प्रकार लड़कर तुम रावण के वंश का नाश करोगे ? तुम बड़े होगे या तुम्हारा स्वरूप बड़ा होगा । ८० तुम्हारा रूप तो मैं अत्यन्त छोटा देखती हूँ । मैं विचार करती हूँ तो सोचती हूँ, तुम्हारे अन्य साथी कैसे होंगे । यह सब सोच कर आश्चर्य

जव त ति हनुमान्को रूप ठुलो देखिलीइन् ।
खुशि भइ तहिं बीदा माइले जल्दि दीइन् ॥
अब त तिमि हनुमान् धृष्ट चाला छिपाऊ ।
इनिहरु सब देख्छन् कूदि फेर जाइ जाऊ ॥८२॥

यति सुनि हनुमान्ले फेरि बिन्ती लगाया ।
सहज सित म जान्थ्याँ केहि फल खान पाया ॥
वरिपरि फल फल छन् मजि मात्रै म पाऊँ ।
हुकुम बिनु कसौरी आज आफै म खाऊँ ॥८३॥
यति विनति गन्याथ्या खानको मजि पाई ।
खुशि भइ फल खाई माइथ्यै जल्दि आई ॥
चरण परि बिदा भै क्यै गया दूर जसै ता ।
अलिकति कछु काम् फेर गर्न आँटचा तसै ता ॥८४॥

आफ्नै मन्मन भन्दछन् ति हनुमान् जुन् वीर दूत भै गई ।
जत्ती खामितको हुकूम छ उतिमा मात्रै चनाखो भई ॥
उत्ती काम् गरि फिर्छ पो पनि भन्या त्यो दूत अधम् हो भनी ।
भन्छन् सब दुनियाँ त भेटिकन जाँ कस्तो छ रावण पनि ॥८५॥

यति गमि ति बघैचा फेकन मनसुब चलाई ।
खुशि भइ ति महावीर् जल्दि फकि आई ॥

भी होता है । सीता की यह आश्चर्यपूर्ण वाणी सुनकर मेरु पर्वत के समान विराट् रूप धारण करके हनुमान सीता के सम्मुख खड़े हो गये । ८१ सीता माता ने जब हनुमान का ऐसा विराट् रूप देखा तो अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें तुरन्त विदा किया । उन्होंने कहा—हनुमान अब अधिक न दिखाओ, अपने कौशल को छुपा कर रखो, अन्यथा यहाँ के लोगों के सम्मुख प्रगट हो जायगा । अतः तुरन्त कूद कर चले जाओ । ८२ यह सुनकर हनुमान ने पुनः विनती की कि हे माता । यहाँ चारों ओर फल-फूलादि भरे पड़े हैं । यदि इतनी आज्ञा हो तो मैं कुछ खा लूँ तब जाऊँ । बिना आपकी आज्ञा, मैं स्वयं कैसे खा लूँ ? ८३ उनकी इतनी विनती सुनकर सीता ने आज्ञा दे दी । उन्होंने प्रसन्न होकर फल-फूल खाये और तुरन्त माता के निकट आकर विदा ली । जैसे ही कुछ दूर गये थे कि कुछ और काम करना चाहा । ८४ वे मन-ही-मन बोले—हनुमान एक वीरदूत होकर गया, जितनी स्वामी की आज्ञा हुई, उतना ही करके वापस लौटने पर सारी दुनिया कहेगी कि वह दूत अधम है । अतः

सकल वन उखेल्दै चौकि सम्पूर्ण मान्या ।
 फकत जननि बस्न्या एक् सिसौ शेष पान्या ॥८६॥
 जब त वन बिनास्या राक्षसी जल्दि आई ।
 पुगि नजिक सिताका सोधि सीताजिलाई ॥
 भन न तिमि सिताजी वीर्को हो कयान आयो ।
 अति असल बघैचा मासि मैदान् बनायो ॥८७॥
 यति सुनि तहिं सीता भन्दछिन् क्या म जानूँ ।
 विपत परि रह्याकी छू म ता चानुमानूँ ॥
 तिमि बुझन सबै बात् कौन हो क्या न आयो ।
 अति असल बघैचा कयान मैदान् बनायो ॥८८॥
 सकल छल त हो यो राक्षसै गछं माया ।
 जब त यति भनीथिन् राक्षसी सब् डराया ॥
 कहन भनि गया सब् रावणैका हजूरमा ।
 पुगि कहन ति लाग्या वन् गयो जो बिसुरमा ॥८९॥

ऐले हे महाराज ! अधीक बलियो आयो र वानर् यहाँ ।
 सीताजीसंग केहि बातचित गरी कूद्यो बघैचामहाँ ॥

रावण से भेंट करके भी देखना चाहिए, वह कैसा है । ८५ ऐसा विचार कर अशोकवाटिका उजाड़ने की आकांक्षा से प्रसन्न होकर वह महावीर पुनः लौट आया । सारे वृक्षों को नष्ट करते हुए समस्त वाटिका को उजाड़ डाला । केवल वही शिंशपा का वृक्ष, जहाँ सीता माता बैठी थीं, शेष रह गया । ८६ जब सारी वाटिका उजड़ गयी, तब वहाँ एक राक्षसी तुरन्त आ पहुँची और सीता के निकट आकर बोली—सीता तुम बताओ, यह वीर कौन है ? क्यों आया है ? ऐसी उत्तम वाटिका को नष्ट करके मैदान क्यों बनाया ? ८७ सीता जी ने कहा—मैं क्या जानूँ ? मैं तो स्वयं ही विपत्ति में पड़ी हूँ । स्वयं ही समझो, कौन है, क्यों आया है और इन उत्तम बगीचों को मैदान क्यों बनाया ? ८८ सर्वत्र छल है । सीता की यह बात सुनकर राक्षसी डर गयी और सब कुछ कहने के लिए रावण के पास गयी । उसने रावण के पास जाकर कहा कि वन में एक वीर सूरमा आया है । ८९ हे महाराज ! अभी आज यहाँ एक बलिष्ठ वानर आया । उसने सीताजी से कुछ बातचीत की और बगीचे की ओर कूदा और सारे वृक्षों को बड़ी सरलता से उखाड़ कर सारा बगीचा मैदान बना दिया । चौकी को चूर्ण कर हवेली को नष्ट करके बैठा है । ९० मैं तो यही विनती करने के लिए आयी हूँ ।

सब तो रूख सहजै उखेलिकन साफ्
 चौकी चूर्ण गरी हबेलि पनि सब्
 आयौं हामि त बिन्ति गर्न भनि यो
 सून्यो जल्दि उठेर पक्रन भनी
 हुकूम पायर लाख लशकर गयो
 एक लाख लशकरलाइ देखि हनुमान्
 त्यो शब्दै सुनि मोह लशकर भयो
 सब मान्या हनुमानले क्षणमहाँ
 लोहस्तम्भ उठाइ साफ् सब गन्या
 रावण् खूब रिसाइ फेर पनि ठुलो
 सेनाका पति पाँच् गया हुकुमले
 त्यो सेना पनि साफ् तहाँ गरिदिया
 फेर मन्त्री सुत सात् गया हुकुमले
 लोहस्तम्भ उठाइ साफ् फिरि गन्या
 सात् मन्त्री सुतलाइ सैन्य सहितै
 कान्छो रावणपुत्र अक्षयकुमार

मैदान् बनाईदियो ।
 नासी बस्याको थियो । १० ।
 बिन्ती गन्याथ्या जसै ।
 लशकर् पठायो तसै ॥
 पक्रेर ल्याऊं भनी ।
 अत्यन्त गर्ज्या पनि । ११ ।
 छोड्यो हतीयार् पनि ।
 ई हुन् भुसूना भनी ॥
 सम्चार पुगेथ्यो जसै ।
 सेना पठायो तसै । १२ ।
 ठूलै थियो तापनि ।
 उस्तै भुसूना गनी ॥
 खुप् भारि लशकर् लिई ।
 सब्लाइ ठक्कर् दिई । १३ ।
 मारी सक्याथ्या जसै ।
 पो लड्न आयो तसै ॥

रावण ने जैसे ही यह विनती सुनी, उसने उठकर सेना को आज्ञा दी कि उसे (हनुमान को) पकड़ लिया जाये । आज्ञा पाकर लाखों सैनिक दौड़ पड़े । एक लाख सैनिकों को देख कर हनुमान ने तीव्र गर्जना की । ११ उस गर्जना को सुनकर समस्त सैन्य-दल आकृष्ट हो उठा और अपने-अपने हथियार डाल दिये । हनुमान ने भी सबको भुनगे की तरह क्षण-भर में ही नष्ट कर डाला । गदा उठाकर सबका सफ़ाया कर डाला । जब यह समाचार (रावण के पास) पहुँचा तो रावण ने पुनः एक विराट् सेना भेजी । १२ आज्ञानुसार सेना बड़ी होते हुए भी साथ में केवल पाँच सेनापति ही गये; हनुमान ने उस विराट् सेना का भी उसी प्रकार सफ़ाया कर डाला । इस बार तो गिन-गिन कर एक-एक को समाप्त किया । उसके बाद रावण ने फिर एक भारी सेना भेजी जिसके साथ में सात मंत्री गये । (हनुमान ने) गदा उठाकर इन सबको भी धकेलते हुए समाप्त कर दिया । १३ जैसे ही सेना-सहित सातों मंत्रियों को समाप्त किया, वैसे ही रावण का कनिष्ठ पुत्र अक्षयकुमार लड़ने के लिए आया । तितली की तरह जैसे ही वह भारी सेना लेकर पहुँचा, वैसे ही हनुमान आकाश की ओर उछले और गदा से सरलतापूर्वक उसके सिर पर प्रहार

भारी फौज लिये र त्यो पुतलि झैं आई जसै ता पन्यो ।
 आकाशमा कुदि लोहदण्ड शिरमा ठोक्या सहज्मा मन्यो ॥१४॥
 पैले अक्षकुमार मारि अरु सब् सेना समेत नाश् गन्या ।
 आउँ दैमा तहिं बत्तिका पुतलि झैं हूँदै अनेक वीर् मन्या ॥
 सब् राक्षसहरूलाई मारिसकि फेर आऊँछ कुन् वीर् भनी ।
 लोहस्तम्भ लिई खडा भइ रह्या ताहाँ हनुमान् पनि ॥१५॥

जब त अति पियारो पुत्र कान्छो मन्याको ।

खबर कहन आयो फौज् समेत नाश् गन्याको ।

तब त अधिक ताप् भै भन्छ रावण् रिसाई ।

अब त गइ म आफै मारुँछ तेसलाई ॥१६॥

की माछू कि त बाँधि ल्याऊँछु यहाँ तेरा नजीक्मा भनी ।
 रावण्ले यति इन्द्रजित् सित भन्यो तेस् इन्द्रजित्ले पनि ॥
 हात् जोरीकन बिनति गर्छु म छँदै आफै हजूरले तहाँ ।
 जानूपछ कतै म गै सहजमा ल्याऊँछु बाँधी यहाँ ॥१७॥
 येती बिनति गरी चढ्यो रथमहाँ क्यै फौज् पनी साथ् लिई ।
 आयो श्री हनुमान् भयातिर गयो साम्ने मुहूडा दिई ॥
 देख्या श्रीहनुमानले पनि र खुप् गज्या ति साम्ने भई ।
 लोहस्तम्भ लिई कुदीकन उपर् आकाश बीचमा गई ॥१८॥

किया और मार डाला । १४ इस प्रकार (हनुमान ने) अक्षयकुमार को मार कर (उसकी) शेष सेना को भी नष्ट किया । आते ही दीपक के उपर नष्ट होनेवाले पतिंगों के समान सारे वीर समाप्त हो गये । सब राक्षसों को मारकर हनुमान यह सोच कर कि अब कौन सामने आता है, वहीं गदा लेकर खड़े रहे । १५ जब अपने अति प्रिय कनिष्ठ पुत्र के सेना-सहित मारे जाने की सूचना रावण को मिली तो वह अधिक चिन्तित हो क्रोध से कहता है—अब तो मैं स्वयं जाकर उसे मार डालूंगा । १६ अब या तो उसे मार ही डालूंगा या बन्दी बनाकर तेरे निकट ले आऊँगा । इन्द्रजीत से रावण ने इतना कहा, तो वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा—मेरे होते हुए श्रीमान् को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं । मैं स्वयं ही जाकर वहाँ से उसे बाँध कर यहाँ लाऊँगा । १७ इतनी विनती करके वह रथ पर आ-चढ़ा और कुछ सेना भी साथ में ले ली । जहाँ हनुमान थे वहीं जाकर सामने घेरा डाला । श्रीहनुमान ने देखा और तीन बार गरज कर आकाश की ओर उछले और

लोहस्तम्भ उचालि घुम्न बिचमा
पाँच् बाण् छोडि लगाइ आठ् अनि थपी
बाण् लाग्या भनि इन्द्रजित् खुशि भई
घोडा सूत् रथ चूर्ण पारि हनुमान्
फेर् अर्का रथमा चढेर अब ता
फाँक्यो जल्दिर ब्रह्मपाश ति हनुमान्
बाँधी श्रीहनुमानलाइ सँग ली
बाँध्याका हनुमान देखि शहरै
जुन् रामका चरणै स्मरण गरि सहज्
वैकुण्ठै सब पुग्दछन् भनि भन्या
बाँधिन्थ्या हनुमान् कहाँ तर पनी
रावण् भेटि त जाँ भनेर हनुमान्
जस्सै इन्द्रजितै गयो र हनुमान्-
फर्केथ्यो घर जाँ भनी तब तहाँ
रिस् फेन्थ्या पुरवासिले पनि मुठी
रिस् फेर्छन् भुसुना भनेर हनुमान्

लाग्या गरुड् झैं जसै ।
फेरी लगायो तसै ॥
गज्यो जसै ता तहाँ ।
कूद्या ति आकाश महँ ॥९९॥
बाँध्छू म ऐले भनी ।
जीलाइ बाँध्यो पनि ॥
फर्क्यो र दरबार गयो ।
सम्पूर्ण खूशी भयो ॥१००॥
अज्ञान पाश नाश गरी ।
तेस् ब्रह्मपाशमा परी ॥
बन्धन् पन्या झैं भया ।
चुपचाप लागी गया ॥१०१॥
जीलाइ बाँधी तहाँ ।
आयेर रस्तामहाँ ॥
ऊठाइ हान्दा भया ।
चुपचाप लागी गया ॥१०२॥

गदा लिये हुए आकाश के बीच में पहुँचे । ९८ वे गदा घुमाते हुए गरुड की तरह मध्य आकाश में ही मँडराने लगे । इसी समय (इन्द्रजीत ने उन पर) पाँच बाण छोड़े—आठ बाण और लगाये और उसके ऊपर और चलाये । बाण लगा, समझ कर इन्द्रजीत ने प्रसन्न होकर जैसे ही गर्जना की, वैसे ही घोड़ा-सहित रथ को धूरकर हनुमान आकाश में कूदे । ९९ फिर वह दूसरे रथ में चढ़ा और 'अब तो इसे बाँध लूँगा', यह सोचकर शीघ्रता से ब्रह्मपाश फेंक कर हनुमान जी को बाँध लिया । हनुमान को बाँधे देखकर सारा नगर प्रसन्नता में डूब गया । हनुमान को दरबार में ले जाया गया । १०० जिस राम का स्मरण करने-मात्र से ही मनुष्य अज्ञान-पाश से मुक्त हो जाता है और वैकुण्ठ पहुँच जाता है, तो भला (उस राम के कृपापात्र भक्त एवं दूत) हनुमान (जिससे इन्द्रजीत ने उन्हें बाँधा था) उस ब्रह्मपाश से कहाँ बाँध सकते थे ? वे तो केवल बाँध जाना दिखा रहे थे (वह बाँधना तो) ब्रह्माना-मात्र था, जिससे वे सरलता-पूर्वक रावण से मिल सकें । १०१ जैसे ही इन्द्रजीत हनुमान को वहाँ बाँधकर घर जाने के लिए लौटा, उसी समय मार्ग में नगरवासियों ने बदला चुकाने के लिए मुट्टी (मुक्का) उठाकर (हनुमान पर) प्रहार किया । यह सोचकर कि भुनगो बदला ले रहे हैं, हनुमान चुपचाप (उनकी) मार खाते

पैले ता ब्रह्मपास्मा परिकन क्षणभर् बाँधिनू काभ थियो ।
 ब्रह्माको वाक्य साँचो गरिकन पछि ता पाशले छोडिदियो ॥
 बन्धन्देखी त खुस्क्या तरपनि हनुमान् भेट्न मन्सुब् धन्याका ।
 पाँच्या रावण् छ जहाँ खुशिभइ अरुतामान्दछन् कर्पन्याका । १०३।
 रावण् वीर् पनि मन्त्रिवर्ग सँग ली भारी सभामा थियो ।
 पाँच्यो ताहिंर इन्द्रजित्ति हनुमान्- जीलाइ सुम्पीदियो ॥
 हात् जोरी विन्ती गन्यो अति हरीप् वानर् छ सेना पनि ।
 धेरै नाश गरेछ आज मइ गै ल्यायाँ खुनी हो भनी १०४।
 जो गर्नु अब पछ मन्त्रि सँगको सल्लाह बात्चित् गरी ।
 यस्को आज ठिकान् लगाउनु हवस् मन्मा विचार् खुप् गरी ॥
 येती विन्ति सुन्यो र इन्द्रजितको हेन्यो नजरले पनि ।
 लायो सोधन प्रहस्तलाइ किन यो आयेछ लौ सोध् भनी १०५।
 अस्सल्मा पनि क्या भनूँ अति असल् मेरो बघैचा पनि ।
 नास्यो वीर् पनि नाश् गरयो मकन ता मानू भुसूना गनी ॥
 हूकूम् यो मुनि त्यो प्रहस्त हनुमान् जीका अगाडी गई ।
 लाग्यो सोधन सबै कुरा पनि बहुत् आधार दीन्या भई । १०६।

हुए बैठे रहे । १०२ पहले तो ब्रह्मपाश में बंध जाने और कुछ देर इसी प्रकार बने रहने का काम था । ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के बाद उन्हें पाश से मुक्त कर दिया गया । बन्धन से मुक्त होने पर भी हनुमान को तो रावण से भेंट करना ही था । अतः वे जहाँ रावण था, वहाँ गये; और लोगों ने यही समझा कि वे विवश करके लाये गये हैं, परन्तु हनुमान स्वच्छापूर्वक (वहाँ) गये थे । १०३ रावण उस समय अपने वीर मन्त्रियों के साथ अपनी विराट सभा का संचालन कर रहा था । वहाँ पहुँचकर इन्द्रजीत ने हनुमान को रावण के हाथों में सौंप दिया । उसने रावण के सम्मुख हाथ जोड़कर विनती की कि यह बड़ा ही नटखट वानर है, इसने बड़ी-बड़ी सेनाओं का नाश किया है, अतः आज मैं स्वयं ही इस हत्यारे को पकड़कर लाया हूँ । १०४ (इन्द्रजीत ने आगे कहा—) जो कुछ भी करना उचित हो, अब सब मन्त्रियों से विचार-विमर्श करके, आज ही इसको ठिकाने लगाने की कृपा करें । इन्द्रजीत की विनती सुनकर रावण ने मन में एक पल विचार किया, फिर एक दृष्टि इन्द्रजीत पर डाली और कहा—पूछो, इसी से कि यह क्यों आया है ? १०५ क्या कहूँ ! इसने मेरे अति उत्तम बगीचे को भी नष्ट कर दिया और सारे

यै बीच्मा नडराइ रावण उपर
बोल्या श्री हनुमानले तँ बुझिले
भार्या जस्कि हरिस् उनै जगतनाथ
तेरो नष्ट भयो र अर्ति दिन यो
आया राम मतङ्ग पर्वतविषे
लाया सुग्रीवले मित्यारि खुशि भै
बाली मारि रजाई बक्सनुभयो
सीता खोज्न हुकूम हुँदा विरहरू
एक् वीर् ता मइ हूँ हुकूम शिर उपर
पायाँ देख्न सिताजिलाइ दूत हूँ
वानर् हूँ र उखेलि साफ गरिदियाँ
आया मार्न मलाइ जो अगि सरी

साम्ने नजर् दी तहाँ ।
काम्ले त आयाँ यहाँ ॥
राम्को म दास् हूँ, मति ।
आयाँ नले यो मति। १०७।
लक्ष्मण सहित् भै जसै ।
राम्चन्द्रजी थ्यै तसै ॥
सुग्रीव राजा भया ।
फेर् दस् दिशामा गया १०८।
लीयेर आयाँ यहाँ ।
राम्को मजान्थ्याँ कहाँ ॥
तेरो बघैचा पनि ।
उन्लाइ मान्याँ पनि। १०९।

यो इन्द्राजित् गइ यसै बिचमा मलाई ।

बाँधेर ल्याइकन आज दियो तँलाई ॥

बन्धन् परचो भनि नठान् त दियाँ जनाई ।

खूला छु अर्ति पनि दिन्छु म सुन् तँलाई ॥११०॥

वीरों को तो भुनगा समझकर सरलता से मार डाला । ऐसी आज्ञा पाकर एक प्रहरी हनुमान जी के सम्मुख आया और आश्वासन देते हुए सभी बातें पूछने लगा । १०६ इसी समय निडरतापूर्वक रावण की ओर दृष्टि डाल कर श्रीहनुमान जी बोले—समझ ले कि मैं यहाँ किसी कार्यवश ही आया हूँ । जिसकी पत्नों का तुमने हरण किया है, उन्हीं जगन्नाथ राम का मैं दास हूँ । तेरी मति भ्रष्ट हो गयी है और अब तेरे दिन भी निकट आ गये हैं, अतः (यदि कल्याण चाहता है तो) अपनी विचारधारा बदल दे । १०७ जैसे ही लक्ष्मण-सहित श्रीराम मतंगपर्वत पर आये, सुग्रीवजी ने अति प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजी से मित्रता कर ली । (श्रीरामचन्द्रजी ने) बालि को मारकर सुग्रीव को राज्य सौंप कर राजा बनाया और अब उनकी आज्ञा से ही सीता को ढूँढने के लिए बहुत से वीर दसों दिशाओं में गये है । १०८ (हनुमान ने आगे कहा—) उन्हीं में से एक वीर मैं (भी) हूँ । श्रीराम की आज्ञा शिरोधार्य कर (यहाँ) आया हूँ और सीताजी को देख चुका हूँ । राम का दूत हूँ । इसी लिए तेरा बगीचा उजाड़ कर साफ़ कर दिया है और जो कोई भी मुझे मारने के लिए आया, उसे ही मैंने मार डाला । १०९ उसी समय यह इन्द्रजीत मुझे बाँधकर ले आया और तुझे सौंप दिया है । यह न समझ कि मैं

लोक्को गती सब विचार गरि आज तैले ।
 यो राक्षसी मति नले हित भन्छु मैले ॥
 ब्राह्मण तँ होस् ऋषि पुलस्त्यजिको त नाती ।
 राक्षस् कसोगरि तँ होस् बुझिले न भाँती ॥१११॥

आत्मा स्वरूप उ त ज्ञान् छ स्वरूप काहाँ ।
 जाती र वर्ण लिइ भन्न सकिन्छ याहाँ ॥
 सो आत्मरूप भनि नित्य विचार गर्नु ।

आनन्दमा रहूँ भन्या मति येहि धर्न ॥११२॥

जो यो लोकविषे प्रपंच छ सबै जान् स्वप्प जस्तो भनी ।
 सूतुन्ज्याल् सपना छ सत्य उठिता लाग्दैन साँचो पनि ।
 तस्तै ज्ञान् त भयो भन्या त्रिभुवनै एक देख्छ आत्मा फकत् ।
 अज्ञान् रूपनिदमा पन्यो पनि भन्या देखिन्छ नाना जगत् ॥११३॥
 आत्मा सत्य म हूँ भनेर बुझिले यस् देहलाई पनि ।
 झूटो जान् पृथिवी र जल्हरु मिली झूटै बन्याको भनी ॥
 तर्लास् यो मनमा लिइस् पनि भन्या तान्या उनै विष्णु छन् ।
 जो हुन् विष्णु उ राम हुन् शरण पर् रिस् उठ्छतेरातज्ञन् ॥११४॥

बन्धन में हूँ । मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं मुक्त हूँ, तुझे उपदेश भी देता हूँ, सो सुन ! ११० जगत् की गति को विचार करो और इस राक्षसी मति का त्याग करो । मैं तेरे हित की बात कहता हूँ । तुम ब्राह्मण हो । श्रीपुलस्त्यजी के पौत्र (हो) । फिर तुम किस प्रकार राक्षस हो । भलीभाँति विचार करो । १११ । वह आत्मास्वरूप तो कहता है कि स्वरूप कहाँ है । जाति एवं वर्ण को लेकर जो कुछ भी यहाँ कहा जा सकता है, उसी को आत्मस्वरूप समझकर विचार करो । यदि आनन्द-पूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो ऐसी ही (मेरे उपदेश के अनुसार) मति को धारण करो । ११२ इस जगत् के जितने प्रपंच हैं, उन सब को स्वप्न-सदृश समझो । जैसे सपना सोते समय तक ही रहता है, जागने पर सब कुछ मिथ्या साबित हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसे तीनों भुवन एक ही आत्मा के समान दिखायी देते हैं । ११३ यह समझकर कि सत्य आत्मा मैं हूँ, इस शरीर को जो पृथ्वी-जल (आदि तत्वों) के मिश्रण से बना है, झूठ ही समझो । इस विचार को यदि मन में रखोगे तो तर जाओगे । तारनेवाला वही विष्णु है, वही राम है; उसी की शरण में जाओ । क्रोध, जो (तुम्हारे मन में) उत्पन्न होता है, उसे त्याग दो । ११४ ऐसी मूर्खता को मन से

यस्तो मूर्खपना नली अब सिता
 खुश् हनन् रघुनाथ् शरण् परि गया
 राम्को भक्ति- गरैन ता कसरि यो
 पर्ला जन्मनु मर्न यै फजितिमा
 यो जानीकन भक्ति गर् शरण पर्
 आफ्नु आत्म नरक् विषे नलइजा
 सीताराम् सितको विरोध् गरि तँहेर्
 फेर् उत्तीर्ण हुनु कठिन् छ बुझिले
 यस्ता बात् हनुमानका जब सुन्यो
 लाल् लाल् नेत्र गराइ भन्छ रिसले
 मेरो डर् रतिभर् नराखि बहुते
 राम् लक्ष्मण् दुइ भाइलाइ सहजै
 सुग्रीव्लाइ तँलाइ माछु पछि फेर
 राम् लक्ष्मण् सित क्या डराउँछुर की
 तिनका वानर सैन्यको पनि विनाश
 बोल्यो रावणले इ बात् सुनि तहाँ

सुम्पी शरण्मा तँ पर् ।
 यो दुष्ट चाला नगर् ॥
 संसार तर्ला उसै ।
 छुट्तेन यो ताप् कसै । ११५।
 राम्का हजूरमा गई ।
 यस्तो तँ जान्च्या भई ।
 गिलास् नरक्मा पनि ।
 अर्ती दियाँ यो पनि । ११६।
 रावण् रिसायो तहाँ ।
 सूनाइ संसद्महाँ ॥
 क्या बोल्दछस् रे यहाँ ।
 माछुँ म छोड्छू कहाँ । ११७।
 माछुँ सिताजी पनि ।
 मान्नु मलाई भनी ॥
 गन्याँछु येती जसै ।
 बोल्या हनुमान् तसै । ११८।

निकाल दो और सीता को लेकर प्रभु की शरण में जाओ । शरण में आया हुआ देखकर प्रभु प्रसन्न होंगे अतः यह दुष्टतापूर्ण व्यवहार न करो । राम की भक्ति बिना किस प्रकार भव-सागर तरोगे ? इन्हीं कष्टों में जन्म लेना पड़ेगा और अन्त में मरना पड़ेगा । यह (जन्म-मरण का) ताप (कभी नहीं छूटेगा) । ११५ यह सब जानकर अब राम की सेवा में जाकर उनकी भक्ति करो । अपनी आत्मा को नर्क की ओर मत लगाओ । बुद्धि धारण करो और सीता-राम का विरोध कर तुम नर्क में ही गिरोगे, फिर उबरना कठिन हो जायगा । अतः मैं तुम्हें केवल ऐसा उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा समझ लो । ११६ हनुमान की यह उपदेश-पूर्ण बातें सुनकर रावण को क्रोध आया । उसने लाल-लाल नेत्र कर कहा—मेरा किंचित् मात्र भी ध्यान न रखकर, निडरतापूर्वक यहाँ अधिक क्या बकता है रे ! राम-लक्ष्मण दोनों भाइयों को मैं सहज ही मार डालूंगा । मैं भला उन्हें कहाँ छोड़ सकता हूँ । ११७ फिर सुग्रीव, और तुझे मारने के पश्चात् सीता को मार डालूंगा । मैं क्यों डरूँ कि राम-लक्ष्मण कहीं मुझे न मार डालें । उसकी वानरसेना का मैं विनाश कर डालूंगा । रावण ने जैसे ही इतना कहा कि हनुमान बोले—११८ इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों अहंकार करते हो । प्रभु को तो अलग रक्खो, तुम मेरे ही बराबर नहीं

यसरि किन बहूतै गर्दछस् सेखि धेरै ।
 प्रभुकन त परै राख् जोरि छैनस् तँ मेरै ॥
 अधि सहँ ततँ जस्ता कोटि रावण् म माहँ ।

हुकुम त नभयाको मानं पो आज क्याहँ ॥११९॥

यस्ता बात् हनुमानका सुनि तहाँ रावण् रिसायो अति ।
 साँचा हुन् इ कुरा हुनाकन त हो लिन्थ्यो कहाँ दुर्मति ॥
 यो वानरकन काटि टुक् गर भनी यस्तो हुकूम पोदियो ।
 हात्मा बेस् हतियार् लिई अगि सन्यो जुन् वीर नजीक्माथियो २०
 यस् बीच्मा त विभीषणै अगिसरी हात् जोरि बिन्ती गन्या ।
 दूत् हो यो महाराज् ! कुरा पनि वहाँ लैजान्छ को यो मन्या ॥
 चिन्हूँ केहि लगाइ छोड् दिनुहवस् जावस् र विस्तार् गरोस् ।
 येसै वानरका कुरा सुनि यहाँ आउन्ति संग्राम् परोस् २१

साँचो भन्या भनि बुझी कपडा मगायो ।

तेल् घीउले मुछि पुछर् भरि बेर्न लायो ॥

हुकूम् दियो अब जलायर बाँधिलेऊ ।

सारा शहर पनि घुमायर छाडिदेऊ ॥१२२॥

जावस् ठुटो पुछर लीकन फर्कि वाहीं ।

पुच्छर् डढी नसकि छोडनु छैन काहीं ॥

हो । आगे बढ़कर तुम-जैसे कोटि रावणों को मैं मार डालूंगा । मारने की आज्ञा मुझे अभी नहीं मिली, क्या करूँ । ११९ हनुमान की ऐसी ओजपूर्ण बातें सुनकर रावण को और भी क्रोध आया । हनुमान की कही हुई बातें यद्यपि सत्य थीं, किन्तु रावण अपनी क्रुमति के कारण (भला उन्हें) क्यों मानने लगा । उसने आज्ञा दी कि इस वानर के टुकड़े कर दिये जायँ । उसकी आज्ञा पाकर, जो वीर निकट था, हाथ में अति उत्तम हथियार लेकर आगे बढ़ा । १२० इसी बीच विभीषण ने आगे बढ़कर करबद्ध विनती की—महाराज, यह तो दूत है, यदि यह मर जायगा तो वहाँ संदेश लेकर कौन जायगा ? कोई निशान लगाकर इसे छोड़ दें, जिससे कि यह वहाँ जाकर सब विस्तारपूर्वक कह सके । इसी वानर की बात सुनकर वे (राम-लक्ष्मण आदि) संग्राम के लिए (सामने) आयें । १२१ विभीषण की बात सत्य मानकर उसने (रावण ने) एक वस्त्र मँगाया और उसे तेल-घी में भिगोकर हनुमान की पूँछ में लपेट दिया और आज्ञा दे दी कि इसकी पूँछ में आग लगाकर सारे नगर में घुमाओ और छोड़ दो । १२२ (रावण ने आगे कहा—) अपनी जलती हुई पूँछ लेकर कहीं चला जाय । जब तक

यस्तो हुकूम जव दियो तब बाँधिलीया ।

आगो पनी पुछरतीर लगाइदीया ॥१२३॥

बाँध्याका हनुमान् लिएर खुशि भै	भेरी अगाडी फुकी ।
लाग्या घुम्न शहर ति राक्षसहरू	चोर्हो भनी खुप् भुकी ॥
चुप् लागी हनुमान् पनी खुरुखुरु	गम् हेरि हिंड्दै गया ।
ढोका पश्चिममा पुगी शहरको	ताहीं ति साना भया ॥१२४॥
बन्धन् देखि त खुशिक सूक्ष्म रूपले	पर्वत् सरीका भया ।
ठूलो स्तम्भ उठाइ राक्षस अनेक्	मान्या र कुद्दै गया ॥
बल्दो लामु पुछर् लियेर घर-घर्	कुद्दै शहरमा डुली ।
पोल्या सब शहर छुटेन कहिं घर	बाँकी कतै एक भुली ॥१२५॥
लाग्यो बलन शहर जल्या र सब घर	बन्द रस्ता भई ।
भागी जान नपाउँदा हुँदि अनेक्	राक्षस् अटाली गई ॥
फाल् हालीकन अग्निमा परि मन्या	यो चाल् शहरमा भयो ।
पोल्यानन् घर एक विभीषणजिको	त्यो मात्र बाँकी रह्यो ॥१२६॥
येती काम गरी सकी पुछरको	आगो निभाऊँ भनी ।
कूदी जल्दि समुद्रमा पुगि पुछर्	चोभी निभाया पनि ॥

पूँछ जलकर समाप्त न हो जाय, इसे छोड़ना नहीं । ऐसी आज्ञा होने पर हनुमान की पूँछ में आग लगा दी गयी । १२३ बँधे हुए हनुमान को लेकर नगाड़े बजाते हुए और चोर कहते हुए राक्षसगण सारे नगर में घूमने लगे । इस प्रकार खूब प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाते हुए सब आनन्दपूर्वक घूमने लगे । हनुमान भी प्रसन्नतापूर्वक सीधे-सीधे चलते रहे । अचानक पश्चिम द्वार की ओर जाते समय वे छोटे हो गये । १२४ हनुमान के कसे हुए बन्धन, सूक्ष्म रूप धारण करते ही, सब ढीले पड़ गये । अपना सूक्ष्म शरीर लेकर वे बन्धनों से (मुक्त होकर) बाहर निकले और तुरन्त ही एक पर्वत के समान (विशालकाय) हो गये । अब हनुमान एक बड़ा स्तम्भ उठा कर अनेक राक्षसों का संहार करते हुए उछलते गये । वे जलती हुई पूँछ लिये घर-घर में कूदते हुए नगर में घूमने लगे । इस प्रकार उन्होंने सारे नगर को जला कर भस्म कर दिया, एक भी घर शेष न बचा । १२५ सम्पूर्ण नगर के सभी घर जल गये । सारे मार्ग अवरुद्ध हो गये । भागने के लिए मार्ग न पाकर अनेक राक्षस घबरा कर आग में कूद पड़े । इस प्रकार बहुत से राक्षस जल कर मर गये । नगर में ऐसी (प्रलयकारी) स्थिति उत्पन्न हो गयी । केवल विभीषण का ही घर शेष रहा, जो अग्नि से सुरक्षित बचा । १२६ इतना कार्य करके पूँछ की आग बुझाने के लिए

अग्नीले पनि मित्र-पुत्र भनि ताप् केही गन्यानन् तहाँ ।
 सीताको पनि प्रार्थना हुन गयो डढ्थ्या हनूमान् कहाँ । १२७।
 राम्का फकत् स्मरणले पनि दुःख छुट्छन् ।
 अध्यात्मिकादिहर ताप् पनि जल्दि छुट्छन् ॥
 साक्षात् उनै प्रभुजिका द्रुत भै गयाका ।
 डढ्थ्या कहाँ ति हनुमान् अति हित् भयाका ॥ १२८ ॥

फिन्या मन् सब ली विदा हुन सिता जीथ्यै हनूमान् गया ।
 वीदा खूशि भयेर बक्सनुहवस् जान्छु म भन्दा भया ॥
 आऊँछन् रघुनाथ् अवश्य भनि यो विन्ती गरचाथ्या जसै ।
 साह्रै शोक् मनमा धरीकन सिता क्यै भन्न लागिन् तसै । १२९।

तिमिकन नजिकैमा देखि खुप् खूशि हुन्थ्याँ ।
 घडि घडि रघुनाथ्का मिष्ट वार्ता म सुन्थ्याँ ॥
 अब कसरि म यस्तो दुःखले प्राण धर्छु ।
 तिमि पनि फिरि जान्या फेरि ताप्मा म पर्छु । १३०।

सीताका इ वचन् सुनेर झटपट् हात् जोरि विन्ती गरचा ।
 यस्तो शोक् अब छाडि बक्सनुहवस् आपत्ति साह्रै भया ॥

(हनुमान) तुरन्त कूद कर समुद्र में पहुँचे और अपनी पूँछ पानी में डुबो कर अग्नि बुझा दी । अग्नि ने भी मित्र (पवन) का पुत्र जानकर उनकी पूँछ में प्रभाव न डाला । उनकी रक्षा के लिए सीता ने भी विनती की, अतः हनुमान भला कहाँ जलते ! १२७ केवल राम के स्मरण से ही दुःखों का नाश होता है, आध्यात्मिक तापों से भी शीघ्र ही छुटकारा मिलता है, फिर साक्षात् प्रभु के ही दूत बन कर (वहाँ) गये हुए हनुमान किस प्रकार जल जाते (जब) प्रभु ही उनके पक्ष में थे । १२८ लौटने की इच्छा से हनुमान विदा लेने सीता के पास गये । कहने लगे—प्रसन्न होकर आप मुझे विदा देने की कृपा करें । मैं जाता हूँ, रघुनाथ अवश्य आयेगे । हनुमान की विनती सुनकर सीता जी अत्यन्त शोकाकुल मन से कहने लगीं— १२९ तुम्हें अपने निकट पाकर मैं अत्यन्त प्रसन्न होती थी और बार-बार रघुनाथ की मधुर चर्चा करती थी । अब कैसे इन दुःखों के मध्य रहकर प्राणों को रख पाऊँगी । तुम भी लौट जाओगे तो मैं पुनः संकट में पड़ जाऊँगी । १३० सीता के वचन सुनकर हनुमान ने हाथ जोड़ कर विनती की कि आप इस शोक को त्यागने की कृपा करें । यदि आपको यहाँ रहने में अधिक कठिनाई है तो आज्ञा दें, मैं अभी आपको लेकर

ऐले दाखिल गर्छु राम्चरणमा
धेरै शोक् किन गर्नुहुन्छ मनमा
सीताजी पनि भन्दछिन् म त नजाँ
विस्तार् बिन्ति गरेर जल्दि रघुनाथ्
राम् आईकन दुष्टलाइ सहजै
लैजानन् रघुनाथ् त कीर्ति रहला

सीताको जब यो हुकूम हुन गयो
तीन् बेर् जल्दि परिक्रमा गरि प्रणाम्
पर्वत् माथि चढेर रूप् पनि ठूलो
आकाश् मार्ग लिई कुदेर खुशिले

सून्या शब्द ति अङ्गदादिहरुले
शब्दैले बुझियो अवश्य सहजै
यस्ता वात् तिरमा बसेर सब वीर्
पौंच्या श्रीहनुमान् तहाँ तिरमहाँ

भेट् भो अङ्गद वीर्हरूसित तहाँ
अङ्गद् वीर्हरु खुश् भई पुछरमा

वोकी हुकूम लौ हवस् ।
यो शोक्दुरैमा रहोस् १३१
जाऊ तिमि मात्र गै ।
लीयेर आऊ सँगै ॥
मारी मलाई सँगै ॥
क्या हुन्छ यसै म गै १३२।

बीदा हनुमान् भया ।
गर्दा छँदा ती गया ॥
पर्वत् सरीको धन्या ।
खुप् शब्द ठूलो गन्या १३३

बोल्या परस्पर् पनि ।
भेटेर आया भनी ॥
गर्दै थिया खुश् भई ।
आनन्द खूशी रही १३४।

विस्तार् कुरा सब् गर्या ।
पक्केर चुम्बन् गन्या ॥

रघुनाथ के चरणों में प्रस्तुत करूँगा । मन में अधिक शोक क्यों करती हैं ? इस शोक को दूर करने की कृपा करें । १३१ सीताजी कहती हैं—मैं तो नहीं जाऊँगी, केवल तुम ही जाकर विस्तारपूर्वक विनती करना और शीघ्र ही रघुनाथ को लेकर यहाँ आना । वे आकर शीघ्र ही दुष्टों को मारकर मुझे साथ ले जायें, तभी उनकी कीर्ति रहेगी, अन्यथा केवल मेरे इस प्रकार जाने से क्या होगा ? १३२ सीताजी की ऐसी आज्ञा पाकर हनुमान विदा हो गये । तीन बार (उनकी) शीघ्र परिक्रमा कर प्रणाम करते हुए वे चले गये । पर्वत के ऊपर चढ़ कर उन्होंने विशाल शरीर धारण किया । आकाशमार्ग ग्रहण कर कूद पड़े और अत्यन्त प्रसन्न होकर गगनभेदी नाद किया । १३३ उस गर्जना को सुनकर अंगदादि परस्पर कहने लगे कि अवश्य ही हनुमान सरलता से भेंट कर आया है । समस्त वीर प्रसन्नचित्त हो किनारे बैठ कर इसी प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय रघुनाथ भी निकट पहुँच गये, जिससे वहाँ पूर्णतया प्रसन्नता छा गयी । १३४ अंगदादि वीरों से वहाँ भेंट हुई और विस्तृत बातचीत हुई । अंगद तथा अन्य वीर प्रसन्न होकर (अपनी-अपनी) पूँछ पकड़ कर घूमने लगे । कोई प्रसन्न होकर नाचने लगा । इसी प्रकार सब लोग मिलकर

नाच्या कोहि खुशी भयेर यहि रीत्
 सुग्रीव्को मधुवन् मिल्यो नजिकमा
 विन्ती अङ्गदथ्यै गन्या पनि तहाँ
 अङ्गदले पनि खाउ जाइ हनुमान्
 दीया मर्जिर खाउँ फल फुल् भनी
 चौकी बानर जो थिया सब तहाँ
 रोकन्या बानरखाइ लात् दिइ पिया
 यो चुक्ली दधिवक्त्रले लिइ गया
 सब् विस्तार् दधिमूखले जब गन्या
 लूटपीट्को समचार सुन्या रपनि रिस्
 भेट्याछन् बुझियो सिताकन न ता
 ई बात् सुग्रीव गर्दथ्या प्रभुजिले
 सीताको पनि नाम् लिएर तिमिले
 सोधी बक्सनुभो र सुग्रीवजिले
 हे नाथ् श्रीमधुवन् थियो अति असल्
 ऐले ता हनुमान्हरू बलजफत्

गर्दै ति राम्थ्यै गया ।
 साहै खुशी ती भया १३५।
 खाऊँ इ फल् फुल् भनी ।
 जीका प्रसादले भनी ॥
 वानर् गयाथ्या जसै ।
 आया र रोक्या तसै १३६।
 मीठो मधुर् रस् तहाँ ।
 सुग्रीवजी छन् जहाँ ॥
 लूट्या मधुवन् भनी ।
 ऊठेन कत्ती पनि ॥ १३७॥
 लुट्थ्या मधुवन् कहाँ ।
 सून्या र सोध्या तहाँ ॥
 क्या बोल्दछौ बात् भनी ।
 विन्ती गन्या बात् पनि १३८
 मेरो बघेंचा तहाँ ।
 आएर एक् क्षण्महाँ ॥

एक साथ राम के पास गये । सुग्रीव को मधुवन के निकट मिले और सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए । १३५ (सभी ने) अंगद से विनती भी की कि (वे) फल-फूल आदि खा लें । अंगद ने भी (उनसे) कहा 'लो खा लो'—यही हनुमान जी का प्रसाद है । जैसे ही फल-फूल खाने की सहमति देकर (अंगद के) वानर साथी (वहाँ से) चले गये, वैसे ही (सुग्रीव के मधुवन के) चौकीदार वानरों ने वहाँ आकर (उन्हें) खाने से रोक दिया । १३६ रोकनेवाले वानर (चौकीदारों) को (हनुमान के संगी वानरों ने) लात मार कर मीठा मधुरस पान किया । यह शिकायत लेकर दधिवक्त्र सुग्रीव के पास गया और दधिमुख ने सविस्तार सब कुछ कह सुनाया । उसने कहा कि मधुवन लुट गया । लूट का समाचार सुनकर भी (सुग्रीव को) किंचित-मात्र क्रोध नहीं आया । १३७ उन्होंने (सुग्रीव ने) समझा कि (हनुमान की) सीताजी से भेंट हो गयी होगी, नहीं तो मधुवन में क्यों लूट-मार करता ! जब सुग्रीव को इस प्रकार बात करते प्रभुजी ने सुना तो वे (सुग्रीव से) प्रश्न करने लगे—सीता का नाम लेकर तुम क्या कह रहे थे ? सुग्रीव ने विनती की—१३८ हे नाथ ! मधुवन मेरा एक अति उत्तम ब्रगीचा था । अभी-अभी हनुमान के लोगों ने बल-

लूटचाछन् मधुरस् अनेक् तरहका
आया आज फिराद गर्ग मधुवन्
सोही बात म गर्दछू रघुपते !
भेटचाछन् तब पो लुटचार मधुवन्
यो बिन्ती गरि जल्दि सुग्निवजिले
दीया हूकुम जल्दि फकिंकन गै

आऊन् श्रीहनुमान्हरू अब यहीं
दीया निर्भय दी हुकूम उहि बखत्
मामा सुग्निवका गया र दधिमुख
खूशी भै हनुमान्हरू पनि गया

राम् सुग्रीव्कन दण्डवत् गरिलिया
सव् विस्तार् हनुमानले तर्हि गन्या
भेटचां आज सिताजिलाई रघुनाथ्
जस्सै देखिलियां सिताकन तसै

पात्का अन्तरमा लुकी जननिका
जो वृत्तान्त थियो सबै हजुरको

चौकी कुटचाछन् पनि ।
लूटचा रकूटचा भनी १३९
इन्ले सिताजी पनि ।
रोक्ता चुटचाको भनी ॥
ती चौकिलाई तहाँ ।
चाँडै पठाऊ यहाँ ॥ १४० ॥

चांडो भनी यो जसै ।
फक्या र दौडचा तसै ॥
हूकुम् सुनाईदिया ।
जाहां रघुनाथ् थिया १४१

साम्ने जमीन्मा परी ।
वृत्तान्त एक एक गरी ॥
लंका पुरीमा गई ।
सानू स्वरूपको भई १४२ ।

साम्ने नजीक्मा रह्यां ।
त्यै सूक्ष्म रूपले कह्यां ॥

पूर्वक एक ही क्षण में अनेक प्रकार के मधुरस की लूट मचायी है और वहाँ के (प्रहरी) मधुरस लुटने और मार-पीट की शिकायत लेकर आये हैं । १३९ हे रघुपते ! मैं वही बात कह रहा हूँ । इन्होंने सीताजी से भेंट कर ली है; इसी लिए मधुवन को लूटा है और मना करने पर मार-पीट भी की है । यह विनती करके सुग्रीव ने शीघ्र ही उस (उनमें से एक) प्रहरी को आज्ञा दी कि अभी लौटकर जाओ और उन्हें यहाँ भेज दो । १४० श्रीहनुमान आदि अब शीघ्र ही यहाँ आ जायें । ऐसी आज्ञा पाते ही (वे प्रहरी) निर्भयतापूर्ण तत्काल लौटकर दौड़ पड़े । सुग्रीव के मामा दधिमुख गये और आदेश सुना दिया । प्रसन्न होकर हनुमान आदि भी रघुनाथ के पास चले गये । १४१ सभी ने राम एवं सुग्रीव को साष्टांग दण्डवत की । वहीं हनुमान ने एक-एक बात का सविस्तार वर्णन किया—हे रघुनाथ ! लंकापुरी में जाकर आज सीताजी से भेंट कर ली । सीताजी को देखते ही मैंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया । १४२ (हनुमान ने आगे कहा—) पत्तों के अन्दर छिप कर जननी के सम्मुख ही, निकट रहा । आपके विषय में जो कुछ भी समाचार था, मैंने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । मैंने उनसे अपने उसी सूक्ष्मरूप में ही सारी बातें कीं । श्रीमन् से दूर

भोकी दुबिल हजूर दूर रहँदा
 राम्राम् बोलिद अनाथ् भईकन बहुत
 अशोकका वनमा सिसौ पनि छ एक
 झुन्डीन्या मतलब लिई खडि भइन्
 यो वृत्तान्त सुनी हुकूम पनि भयो
 क्या लूकीकन वोल्दछस् अब नलुक
 पायां येहि हुकूम जसै जननिको
 को होस् भन् भनि सोधिवक्सनुभयो
 फेर वृत्तान्त गरीसक्यां हजुरको
 बर्बर आंसु खसालनू पनि भयो
 आफनू दुःख हवाल् सवै कहनुभो
 आऊँछन् रघुनाथ् भनेर बहुतै
 आज्ञा भो रघुनाथका हजुरमा
 लङ्कामा प्रभुको सवारि तिमिले

संझेर साह्रै रुँदी ।
 विह्वल् निरन्तर हुँदी १४३
 त्यै वृक्षका बीचमा ।
 सूनिन् उसै बीचमा ॥
 को होस् तँ बोलछस् कहाँ ।
 आईज साम्ने महाँ १४४।
 वानर् स्वरूपले गयां ।
 फेर विन्ति गर्दो भयां ॥
 आँठी दियाथ्यां जसै ।
 विश्वास लाग्यो तसै १४५।
 यस्ता विपत् छन् भनी ।
 मैले बुझायां पनि ॥
 सव् दुःख मेरो कही ।
 चाँडो गराऊ गई १४६।

बात्चित् गरी जब यतातिर फिर्न लाग्यां ।
 विश्वास पार्न जननी सित चीज माग्यां ॥

विरह-पीड़ित, भूखी-प्यासी क्षीणगात हो सीता रोती रहती है । वे अनाथ-सी होकर हर समय राम-राम की रट लगाती, विलाप करती रहती हैं । १४३ अशोकवन में जो एक शीशम का वृक्ष है, उसी के बीच में लटकने के उद्देश्य से जैसे ही वे उठकर खड़ी हुई उसी समय यह वृत्तान्त सुनकर उन्होंने आज्ञा दी "तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो ? अब छिपो मत, सामने आ जाओ" । १४४ जननी का यह आदेश पाकर मैं वानर-स्वरूप में गया । (वे) पूछने लगीं—"कहो कौन हो ?", तब मैंने विनती की और आपकी मुद्रिका उन्हें दी । श्रीमन् की अंगूठी पाते ही उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और उन्हें मेरे ऊपर विश्वास हुआ । १४५ उन्होंने मुझसे अपनी सारी विरह-कथा कही और अपनी विपत्तियों का सविस्तार वर्णन कर डाला । तब मैंने समझाया कि रघुनाथजी निश्चय ही यहाँ आयेंगे । तब उन्होंने आज्ञा दी कि रघुनाथ की सेवा में मेरी सारी दुःखकथा सुना देना और शीघ्र ही जाकर प्रभु की सवारी लंकापुरी में लाने का प्रबन्ध करना । १४६ बातचीत करके जब इधर की ओर आने लगा तो आपको विश्वास दिलाने के लिए जननी की निशानी कोई वस्तु माँगी तो उन्होंने शिर में धारण किया हुआ चूड़ामणि निकाल कर दिया

चूडामणी दिनुभयो शिरमा रह्याको ।

कागुको कुरा कहनुभो अघि जो भयाको ॥१४७॥

लक्ष्मणलाइ अवाच्य बात् भनि बहुत्	बोल्याकि छू तापनि ।
त्यो रिस् लक्ष्मणले कदापि नलिउन्	येसो भनीथिन् भनी ॥
हात् जोरीकन विन्ति खुप् गरिदिया	येती हुकुम् भो जसै ।
सव् वृत्तान्त सुनी बिदा पनि भयाँ	फर्केर आयाँ तसै ।१४८।
माई सीत बिदा भई जब फिन्याँ	मन्मा लहड् यो गयो ।
रावणलाइ नभेटि जाँ म कसरी	भन्न्या विचार यो भयो।
भेटी रावणलाइ अति पनि दी	फिर्नु असल् हो भनी ।
फर्की ध्वस्त गन्याँ अशोक वनको	मान्याँ अनेक् वीर् पनि४९
कान्छो रावण-पुत्र अक्षय कुमार	मान्याँ र रावण जहाँ ।
थीयो ताहि गयाँ भन्याँ हित वचन्	टेरेन केही तहाँ ॥
गथ्यो बक्बक बात् अनेक् तरहका	मैले भुसुनै गनी ।
रावणकै अघि खाक् गरी सकिदियाँ	पोलेर लङ्का पनि ।१५०।
येती कर्म गरी यहाँ हुजुरमा	आयाँ म ऐले भनी ।
येती विन्ति गरी खडा भइ रह्याँ	ताहाँ ति सेवक् बनी ॥
श्रीराम्ले पनि काखमा लिनुभया	सर्वस्व दिन्छु भनी ।
वात्ले चित्त बुझाइ बक्सनुभयो	सर्वस्व यै हो भनी ।१५१।

और पहले की कभी घटी हुई कौए सम्बन्धी घटना भी सुनायी । १४७ लक्ष्मण को अनेक अवाच्य वाक्य मैंने कहा है, इसके लिए उन्होंने हाथ जोड़ कर विनती की है कि वे उनसे क्रोधित न हों । फिर मैं आज्ञा लेकर विदा हुआ, और लौट कर आया हूँ । १४८ माता (सीता) से विदा लेकर चला तो मन में विचार हुआ कि रावण से भेंट किये बिना कैसे चलूँ । यह सोच कर कि रावण से भेंट कर उसे उपदेश देकर लौटना ही उत्तम होगा, मैं लौट गया और अशोक वन को उजाड़ डाला । अनेक वीरों को भी मौत के घाट उतार दिया । १४९ मैंने रावण के कनिष्ठ पुत्र अक्षयकुमार को मार डाला और रावण जहाँ था, वहीं वह पहुँचाया गया । वहाँ मैंने उसी के हित की अनेक बातें बतायीं, किन्तु उसने किसी बात पर भी ध्यान नहीं दिया । वह अनेक प्रकार की बातें बकता, किन्तु मैंने सबको भुनगा की तरह समझ कर समाप्त कर दिया । रावण के ही सामने उसकी लंका जलाकर राख कर डाली । १५० इन सब कार्यों को समाप्त कर अब आप की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ । इतनी विनती

मैले खुश भइ काख् दियाँ पनि भन्या फेरू दीनु बाँकी रती ।
 केही चीज् रहँदै न सक् मिलि गयो यी बात् बताऊँ कति ॥
 काख्मा राखि हुकूम भयो यति जसै खूशी हनुमान् भया ।
 आनन्दाश्रु गिराइ भक्ति रसले हाजिर् हजूरमा रह्या ५२
 धन्य हुन् इ हनुमान् यि सरीको ।
 कोहि छैन अरु भक्त हरीको ॥
 भक्ति खुप् गरि त काख् पनि पाया ।
 लोकमा अधिक धन्य कहाया ॥१५३॥
 जस्को पुजा तुलसि-पत्र चढाइ गर्छन् ।
 उस्ता पनि त भवसागर-पार तर्छन् ।
 ई ता उनै प्रभुजिका दूत हुन् त काहाँ ।
 सक्नु छ वर्णन गरी यिनको त याहाँ ॥१५४॥

॥ सुन्दरकाण्ड समाप्त ॥

करके सेवक बन कर हनुमान वहाँ खड़े हो गये । “सर्वस्व देता हूँ”—
 कहते हुए रघुनाथ ने हनुमान को गोद में बैठा लिया और समझाते हुए
 बोले कि यही सर्वस्व है । वे बोले कि प्रसन्न होकर अपनी गोद अर्पण कर
 देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं शेष रहता । अतः तुम्हें सब
 प्राप्त हो गया, यह बात कहाँ तक बताऊँ ? गोद में रख कर जैसे ही
 (राम ने) यह आदेश दिया हनुमान आनन्द से ओतप्रोत हो गये—प्रेमाश्रु
 वहाते हुए वे (राम की) शरण में पड़े रहे । १५१-१५२ धन्य हैं यह
 हनुमान ! हरि के भक्तों में इनके समान कोई नहीं । इसी भक्ति की शक्ति
 से ही उन्हें हरि की गोद प्राप्त हुई । इसी लिए वे जगत् में अधिक धन्य
 कहलाये । १५३ इनकी (हनुमान की) पूजा केवल तुलसी चढ़ा कर
 की जाती है । जो ऐसा करते हैं, वे लोग भवसागर पार तर जाते
 हैं । ये तो उन्हीं प्रभुजी के दूत हैं, अतः इनका पूर्णतया वर्णन कर
 सकना भी अत्यधिक कठिन है । १५४

॥ सुन्दरकाण्ड समाप्त ॥

युद्ध काण्ड

लङ्कापुरी सकल खाक् गरि सैन्य मारी ।
 फेरी समुद्र सहजै तरि आइ वारी ॥
 सीताजिको जब सबै समचार बताया ।
 श्रीरामले ति हनुमान्कन खुप् सहाया ॥ १ ॥

भन्छन् श्रीरघुनाथ अहो इ हनुमान्-	ले खुप् ठुलो काम् गन्या ।
एकलै गैकन रावणादि विरको	सेखी इनैले हन्या ॥
यत्रो क्षार समुद्र कूदिकन फेर	खाक् गर्नु लंका अनि ।
को सक्ला सब डर्दछन् इ जति छन्	इन्द्रादि द्यौता पनि ॥२॥
सुग्रीवका सब मन्त्रिमा इ सरिको	होला न काही भया ।
छोरो रावणको निभाइकन ता	सामने उसैका गया ॥
सेवकले जति गर्नुपर्छ तति सब	सेवा इनैले गन्या ।
सीताको समचार बतायर यहाँ	हाम्रो ठुलो ताप् हन्या ॥३॥

सम्पूर्ण लंकापुरी को राख करके तथा सेनाओं को समाप्त करके जब हनुमान पुनः समुद्र पार करके इस ओर श्रीराम के पास आये और सीता जी का सब समाचार बताया तो श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान की भूरि-भूरि सराहना की । १ श्रीरघुनाथ जी कहते हैं, ओह ! इस हनुमान ने अत्यन्त महान् कार्य किया है । वहाँ जाकर रावणादि वीरों का अहंकार इसने अकेले ही नष्ट किया है । इतने महान् और विस्तृत सागर को छलांग मार कर पार करना, और फिर लंका को भस्म करना, दूसरा और कौन कर सकता है । इसी लिए ये इन्द्रादि जितने देवता हैं (उससे) सभी डरते हैं । २ सुग्रीव के सब मंत्री एवं भाइयों में इसके समान न कोई हुआ है न होगा, जो रावण के पुत्र को मार कर उसी के समक्ष प्रस्तुत हुआ । सेवक को जो कुछ भी करना चाहिए वह सभी कुछ इसने किया । सीता का समाचार ला कर यहाँ इसने हमारे विषम तापों का हरण किया । ३ यह हनुमान महान्वीर है, तभी तो (इतनी सरलता से)

वीर् हन् ई हनुमान् र कूदिकन गै कूदेर आया यहाँ ।
 यो सागर् कसरी तरी म अहिले पाँचन्छु लंकामहाँ ॥
 गैहो क्षार समुद्र यो छ विचमा जलमा अनेक् जन्तु छन् ।
 त्यो सागर् कसरी तरिन्छ भनि खुप् आत्तिन्छ मेरो त मन् ॥४॥
 रावण्लाइ कसोरि मारुँ कसरी तारुँ म फौज् यो भनी ।
 चिन्ता हुन्छ कसोरि पाउँछु अहो ! मेरी पियारी पनि ॥
 राघव्का इ वचन् सुनीकन तहाँ सुग्रीव् अगाडी सरी ।
 गछन् विन्ति हजूरमा रघुपते ! क्या हुन्छ चिन्ता गरी ॥५॥
 यो फौज् वानरको ठुलो छ बलियो लडन्या छ घुँडा धसी ।
 अग्नीमा पनि पस्नु पर्दछ भन्या पस्न्या छ कम्मर् कसी ॥
 सागर् तर्न उपाय मात्र त हवस् यो फौज जावस् तरी ।
 रावण् मारन कठिन् छ क्या सहजमा मारिन्छ यसै घरि ॥६॥
 मेरो चित्तमहाँ त यो छ रघुनाथ साम्ने हजूरमा परी ।
 लडन्या वीर् कहि छैन विन्ति गरियो सारा तिनै लोक भरी ॥
 हाँप्रो निश्चय जित् हुन्याछ बढिया देखिन्छ लक्षण पनि ।
 माछौँ राक्षसलाइ आज सहजै साना भुसुता गनी ॥७॥

कूद कर गया और कूद कर आया भी है । यह सागर पार करके मैं किस प्रकार लंका पहुँचूँगा । यह सागर अत्यधिक गहरा है, और जल के मध्य में अनेक जन्तु हैं । मेरा तो मन अत्यधिक घबरा रहा है, यह सागर कैसे पार किया जा सकेगा ! ४ मुझे यही चिन्ता हो रही है कि सेना को समुद्र-पार कैसे ले जाऊँ और रावण को कैसे मार डालूँ । अब मैं अपनी प्राणप्यारी प्रियतमा को पुनः कैसे प्राप्त कर पाऊँगा । राघव के इन दुःख-भरे वचनों को सुनकर सुग्रीव आगे बढ़ कर सेवा में विनती करते हैं—हे रघुपते ! चिन्ता करके क्या होगा । ५ ये वानरों की विशाल सेना है जो घुटने धँसा कर युद्ध करने में भी बलिष्ठ है । इन्हें यदि अग्नि में भी कूदना पड़ेगा तो कमर कस कर कूद पड़ेंगे । केवल सागर पार करने का उपाय बताने की कृपा करें । ये सेना जब सागर पार हो जायेगी । रावण को मारना क्या कठिन है । इसी समय सहज ही में मारा जा सकता है । ६ रघुनाथ ! मेरे विचार में तो यही है । श्रीमन् के सम्मुख आकर तो लड़नेवाला वीर कही तीनों लोक में नहीं । मेरी यही विनती है, हमारी विजय निश्चय ही होगी । लक्षण भी शुभ प्रतीत होते हैं । हम राक्षसों को आज सहज ही में भुनगों के समान नष्ट कर

सुग्रीवका इ वचन सुनी हुकुम भो
जुन पाठले त तरिन्छ सो गरियला
लङ्काको अकबाल सुनौ त पहिले
सब बूझीकन पो गया जितियला

श्रीरामजीको तहाँ ।
कस्तो छ लंकामहाँ ॥
कस्तो छ तेस्को तखत् ।
यै हो विचारको वखत् ॥८॥

ठाकुरका इ वचन सुनेर हनुमान्
भक्तीले गरि अञ्जली पनि बहुत
गछन् विन्ति जगत्पते ! रघुपते
देखिन्छे जति देख्छन् ति सबको

ताहाँ अगाडी सरी ।
न्यूहेर शिरमा धरी ॥
लंका पुरी सुन्दरी ।
लिन्छे सबै मन हरी ॥९॥

त्रिकुट पर्वतका उपर छ सुनको
थामे छन् मणिका जउन् घरमहाँ
एक खावा त समुद्र भो अरु नजीक
पर्खालका नजिके छ बेस्वरिपरी

पर्खाल छ चारौं तरफ् ।
देखिन्छ तिनको हरफ् ॥
अर्को खन्याको पनि ।
वैरी नआउन् भनी ॥१०॥

घर पनि सुनके छन् गल्लि जो छन् सुनैका ।

मणिजडित हुनाले झन् असल् छन् कुनैका ॥

धुमि धुमिकन हेच्यां सब बघैचा तलाऊ ।

सहज सित कसैको केहि लाग्दैन दाऊ ॥११॥

डालेंगे । ७ सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर श्रीराम की आज्ञा हुई कि जिस उपाय से समुद्र पार हो जाने की सम्भावना है वही किया जाएगा । पहले यह बताओ कि लंका में क्या दशा है, वहाँ का वर्णन तो सुनें कि वहाँ की राजगद्दी कैसी है । सब समझ-बूझ कर ही जाने से तो विजय प्राप्त होगी । यही विचार करने का समय है । ८ प्रभु के इन वचनों को सुनकर हनुमान आगे बढ़े और भक्तिपूर्वक पर्याप्त अंजली अर्पित की, तथा मस्तक में लगाते हुए विनती करने लगे—जगत्पते ! रघुपते ! लंकापुरी की सुन्दरी अत्यन्त सुन्दर दिखाई देती है और जितना देखती है सब के मन को मुग्ध कर लेती है । ९ त्रिकूट पर्वत के ऊपर चारों ओर सोने की दीवार है । जिन घरों में मणि के मन्दिर है उन्हीं पर उनके लेख दिखाई देते हैं । एक स्तम्भ तो समुद्र और दूसरा समीप ही में खड़ा हुआ है । दीवार के निकट चारों ओर खाई है, जिससे शत्रु न आ जाय । १० वहाँ के घर तथा मार्ग सभी सोने के हैं । कहीं-कहीं तो मणिजटित होने के कारण अत्यन्त रमणीक हो गया है । मैंने धूम-धूम कर चारों ओर सारे वगीचे तथा तालाब देख लिए हैं । सरलता से वहाँ प्रवेश होने का किसी को अवसर नहीं मिलता । ११ नगर के चार द्वार हैं, कहीं वीरों की विशाल सेना तत्पर

ढोका छन् चार् शहरका तहिं विरहरुको फौज् छ ठूलो बस्याको ।
जो ताहाँ पस्न जाला उ सित तहिं लडी मर्न कम्मर् कस्याको ॥
एक् अर्बुद् पूर्व ढोकातिर अति बलवान् जङ्गि पाले बस्याको ॥
राक्षस् छन् हात्ति घोडा रथ अरु खजना ली खडा भै रह्याका ॥१२॥

ढोकैपिच्छे यसै रीत्सित खडि पहरा छन् सदा नित्य ताहाँ ।
येती जम्मा छ फौज् सब् भनिकन त खबर् पाइसक्नु छ काहाँ ॥
यस्तो मज्बूतिको फौज् छ तपनि उहि फौज् ध्वस्त चौथाइपारचाँ ।
लंका पोलेर सब् खाक् गरिकन सहजै वैरिको सेखि झान्याँ ॥१३॥

यहिं ढिल किन ख्वामित् ! जाउँ सागर् छ जाहाँ ।
कछु ढिल तहिं होला तर्नुपन्याँ छ ताहाँ ॥
यति विनति हनुमान्ले गन्याथ्या जसै ता ।
हुकुम पनि ति सुग्रीव्लाइ भैगो यसै ता ॥ १४ ॥

हे सुग्रीव सखे ! असल् विजय यो मुहूर्त ऐले पन्यो ।
यस् सायेतमहाँ मुहूर्त नचुकी जस्ले त साइत् गन्यो ॥
तेस्ले जित्छ अवश्य यै बखतमा सायेत फौज्ले गरून् ।
मेरो दक्षिण नेत्र फुछ बढिया लक्षण् छ धीरज् धरून् ॥१५॥

हैं, जो भी वहाँ जाएगा उससे लड़कर मार डालने के लिए कमर कसे हुए हैं। पूर्व की ओर जो द्वार है वहाँ एक बलवान जंगी द्वारपाल है। राक्षसगण, हाथी, घोड़ा, रथ एवं खजाने लेकर खड़े हैं। १२ इसी प्रकार प्रत्येक द्वार पर सदैव पहरेदार खड़े रहते हैं। वहाँ की सेना के सैनिकों की संख्या ज्ञात करना भी सम्भव नहीं है। ऐसी बलिष्ठ सेना है, फिर भी उसका चौथाई भाग का तो ध्वंस कर दिया और समस्त वीरों के घमण्ड को चूर कर आया हूँ। १३ स्वामी ! अब यहाँ विलम्ब क्यों कर रहे हैं। सागर की ओर चलिए, भले ही वहाँ कुछ लोगों को उतारने में कुछ विलम्ब हो जाये। हनुमान के विनती करते ही सुग्रीव को आदेश दे दिया गया। १४ हे मित्र सुग्रीव ! यही वास्तविक विजय के शुभ मुहूर्त का अवसर है। इस अवसर को व्यर्थ गँवाये बिना जो कार्य करता है वह अवश्य ही विजय प्राप्त करता है। मेरा तो दक्षिण नेत्र फड़क रहा है, यह उत्तम लक्षण है। यदि इस शुभ अवसर को सेनाएँ हाथ से न जाने दें, तो हमें अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। १५ वानरसेना लंका में प्रस्थान करके लंका पर आक्रमण कर दे तथा रावण को वंश-सहित नष्ट

रावण्लाइ कुलैसमेत् क्षय गरी
वानर्को जति फौज् छ सब् अब चलोस्
लक्ष्मण् अंगदमा चढून् दुइ जना
सुग्रीव्लाइ यती हुकूम दिइ गन्या
राम् सुग्रीव् हनुमानमा चढि चल्या
वानर्को सब फौज् चल्यो पृथिवि सब्
चाहींदैन रसद् सबै विरहरू
गर्जन्छन् सब वीरहरू तस बखत्
रात्दिन् फौज चल्यो टिकेन बिचमा
विन्ध्याचल्कन नाघि फेरि मलया-
पौंच्या क्षार समुद्रका तिरमहाँ
वानर्को त्यति फौजले खचित भै
वानर्को सब फौज् तहाँ हुकुमले
सागर् तर्न उपाय केहि नहुदा
भन्छन् वीरहरू यो कसो गरि तरौं
यो सागर् नतरी त जान नहुन्या

ल्याइन्छ सीता पनि ।
ठोकिन्छ लंका भनी ॥
हामी हनुमान् महाँ ।
प्रस्थात् प्रभूले तहाँ ॥१६॥
लक्ष्मण्जि अंगदमहाँ ।
डग्मग् गराई तहाँ ॥
खान्छन् फलैफूल फकत् ।
सब् काम्न लाग्यो जगत् १७
काहीं कतै एक घरि ।
चल् नाघि यस्तै गरी ॥
डेरा प्रभूको पन्यो ।
सारा किनारा भन्यो । १८
तिर्मा जसै ता बस्यो ।
मन्मा ठुलो ताप् पस्यो ॥
साह्रै कठिन भो यहाँ ।
हींडेर लंकामहाँ ॥१९॥

करके महारानी सीता को स्वतन्त्र करे । लक्ष्मण अंगद की सहायता लें
और हम दोनों हनुमान की सहायता लेंगे । सुग्रीव को यह आज्ञा दे कर
प्रभुने भी वहाँ से प्रस्थान किया । १६ राम-सुग्रीव, हनुमान के
ऊपर सवार हुए तथा लक्ष्मण अंगद पर सवार हुए और इस प्रकार लंका-
विजय के लिए सम्पूर्ण बानरसेना को लेकर चल पड़े । बानरों के प्रस्थान
करने पर उनकी भीड़ से समस्त पृथ्वी ढक गई । रसद की कोई
आवश्यकता ही न थी, क्योंकि सभी वीर फल-फलादि खा कर ही दिन
पार कर सकते थे । सारे वीर गर्जते हुए जा रहे थे । उनके गर्जन से
समस्त भू-मण्डल काँप उठा । १७ सेना सारी-रात, सारा-दिन चलती
रही, क्षणभर को भी कहीं नहीं रुकी । विन्ध्याचल और फिर मलयाचल
को लाँघते हुए इसी क्रम से सब लोग क्षीरसागर के किनारे पहुँचे और
वहीं प्रभु ने पड़ाव डालने की आज्ञा दी । बानरों की असंख्य सेना से
समुद्र-तट खचाखच भर गया । १८ आज्ञा पाकर एक-एक कर सभी लोग
किनारे बैठ गए और सागर पार करने का उपाय सोचने लगे । कोई
उपाय समझ में न आया तो वे गहरी चिन्ता तथा ताप से भर गए ।
वीरजन कहते हैं कि इस सागर को किस प्रकार पार किया जाए, यह तो
अत्यन्त कठिन समस्या उत्पन्न हो गई है । अन्य कोई ऐसा मार्ग भी नहीं

सब राक्षसकन मार्दथ्यौ यहि बखत् सागर तरी पार गया ॥
 आपसमा यति वात् परस्पर गरी जम्मा प्रभूथ्यै भया ॥
 सीताजीकन संझि संझि रघुनाथ ज्ञानै स्वरूपी पनि ।
 लाग्या गर्न विलाप अनेक् तरहले सीते ! कहाँ छौ भनी । २० ॥
 रामको नाम फगत् लिन्याकन पनी सब दुःख ताप् टर्दछन् ।
 आफै श्रीरघुनाथलाइ पनि क्या सन्ताप् कतै पर्दछन् ॥
 सच्चित् रूप् परिपूर्ण अद्वितिय एक आत्मा स्वरूपी पनि ।
 गछन् मानुष भै लिला पनि अनेक् सुखी र दुखी वनी । २१ ॥

कुदि कुदि सब लङ्का पोलि फेर पुत्र मारी ।
 बहुत विरहरूको सैन्य खुप् ध्वस्त पारी ॥
 गरिकन सब भेटघाट् फेर हनुमान् फिन्याको ।
 सुनिकन तहिं रावण् भै गयो तूर् गिन्याको ॥ २२ ॥
 उहि बखतमहाँ त्यो मन्त्रणा गर्नलाई ।
 सब विरकन ताहाँ डावन जल्दी पठाई ॥
 वरिपरि सब राखी मन्त्रिथ्यै भन्न लाग्यो ।
 कसरि सहज उम्की त्यो हनुमान भाग्यो ॥ २३ ॥
 अब त जसरि मेरो हुन्छ सो हित् चिताऊ ।
 बुझिकन सवले एक मन्त्रणा लौ वताऊ ॥

जिससे पैदल चलकर ही लंका पहुँच जाए । १९ इसी समय किसी प्रकार सागर पार कर पाते तो सभी राक्षसों को मार डालते । परस्पर इसी प्रकार का विचार-विमर्श करते हुए सब लोग प्रभु के पास एकत्रित हो गए । सीताजी को बारम्बार स्मरण करके जान-सागर, श्रीरघुनाथजी भी, 'सीते कहाँ हो !' कहते हुए विलाप करने लगे । २० सच्चिदानन्द-रूपी होकर भी मनुष्य के समान अनेक प्रकार से सुखी एवं दुखी बन कर वे लीलाएँ करते हैं, परन्तु वास्तव में, राम का तो केवल नाम लेने से ही सारे दुःख-संकट टल जाते हैं । २१ रावण को समाचार मिला कि हनुमान ने कूद-कूद कर सम्पूर्ण लंका को जला डाला है । उसके पुत्र को मार कर अनेक वीरों की सेना को ध्वस्त करके, सीता से भेंट करके, पुनः हनुमान लौट गया है तो वह क्रिकर्तव्यविमूढ़ हो गया । २२ उसी समय विचार-विमर्श करने के लिए सब वीरों को बुलावा भेजा । सब को चारों ओर बैठा कर रावण मंत्रियों से कहने लगा कि हनुमान इतनी सरलता से बच कर किस प्रकार भागे निकला । २३ अब तो किसी प्रकार मेरे हित का कोई उपाय

तिमि सबकन नाघी काम सिद्धयाइ भाग्यो ।

सकत त हनुमान्का कामले लोज लाग्यो ॥ २४ ॥

यति हुकुम सुती सब घोचिया झै ति जाग्या ।

अगि सरि सरि बिनती सेखिको गर्न लाग्या ।

किन् बहुत हजूरको तेहि रामदेखि शंका ।

कसरि सहज जित्ला रामले आज लंका ॥ २५ ॥

कति बिनति गरौ धैर् इन्द्रजित् पुत्र जस्को ।

छ त कसरि ति जित्छन् पुग्छ जोर् आज कस्को ॥

फकत हजुरका एक पुत्रले इन्द्र जीत्या ।

यहि बुझि अरु दिग्पालका समेत सेखि बीत्या ॥ २६ ॥

अधिपति मय हुन् सब दैत्यका सो डरैले ।

खुरुखुरु यहि आई छोरि सुम्प्या करैले ॥

अरु अब कहि छन् क्या वीर हजुरका सरीका ।

सब विर वशमै छन् ई तिनै लोकभरीका ॥ २७ ॥

अलिकति हनुमान्ले जो यहाँ वीर मान्यो ।

कुदि कुदि सब लड्ड्या पोलि जो ध्वस्त पाग्यो ।

निकालो-और सब लोग सोच-समझ कर अपना-अपना विचार प्रकट करो । तुम सबके देखते-देखते आगे निकल कर अपना कार्य समाप्त करके भाग गया । मुझे तो हनुमान की इस कार्य-कुशलता पर बड़ा क्षोभ हो रहा है । २४ रावण के यह वचन तथा आदेश सुनकर सब के हृदय में एक चुभन सी हुई । वे सब वारी-बारी से आगे बढ़-बढ़ कर अपने अहंकार को प्रगट करते हुए इस प्रकार बोले—श्रीमन् ! उस राम से क्यों इतने भयभीत हैं ? आज लंका पर विजय प्राप्त करना राम के लिये सरल नहीं होगा । २५ अधिक बिनती क्या करूँ । आपका तो पुत्र इन्द्रजीत है, जिसने अकेले ही इन्द्र पर विजय प्राप्त की है । ऐसे पराक्रमी के सामने अन्य दिग्पालों का घमण्ड भी चूर हो गया, तो राम किस प्रकार टिक पायेगा । २६ समस्त दैत्यों ने भयभीत होकर, सीधे यहाँ आ कर विवश हो आत्मसमर्पण कर अपनी पुत्री आपको सौंप दी । हे श्रीमन् ! क्या अब भी आपके समान कहीं अन्य कोई वीर है ? तीनों लोक के समस्त वीर आपके वश में हो चुके हैं । २७ हनुमान अकेला था । वह अकेला ब्या कर लेगा, यही सोच कर हम लोग चुक गए और वह कूद-कूद कर सम्पूर्ण लंका को भस्म कर गया । जो कुछ भी तहस-नहस वह कर गया

उ त फकत यसैले गर्न क्या सकछ भन्दा ।
 चुकिदियाँ गरिहाल्यो फेरिको क्या छ धन्दा ॥ २८ ॥
 हुकुम दिनुहवस् लौ दश दिशा वीर जाऊँ ।
 जति जति अगि सछन् मारि तिन्लाइ आऊँ ॥
 सकल पृथिविमाका वानरै छुट्टि गछौँ ।
 सकल हजुरको ताप एक क्षणमा त हछौँ ॥ २९ ॥

येती गर्व गरी सबै ति विरले	विन्ती गन्याको सुनी ।
मेरो मत् पनि विन्ति गर्दछु भनी	आपना मनैले गुनी ॥
गछन् विन्ति ति कुम्भकर्ण विरले	हे नाथ लियौ क्या मति ।
सीता क्यान हन्यौ चुक्यौ तिमि यहाँ	कुन्हुन्छ तिम्रो गति । ३० ।
श्रीरामचन्द्रजिले अवश्य अधि नै	देख्थ्या त एक वाण धरी ।
तिम्ना प्राण लिन्या थिया तहिं कहाँ	वाँच्छ्यौ तिमि एक घरि ॥
सीता चोरि गन्यौ र पो तिमि बच्यौ	को टिक्छ साम्ने परी ।
तेस्को फल् सब पाउँछौ अब भन्या	माछन् कुलै साफ्गरी । ३१ ।
राम् जो हुन् प्रभु ई अनन्त अधिनाथ्	चौधै भुवन्का धनी ।
लक्ष्मी हुन् जगदम्बिका इ यिनकी	पत्नी सिताजी पनि ॥

वह केवल इसी कारण हुआ कि हमें उसकी ऐसी फुर्तीली कार्य-कुशलता का अनुमान नहीं था । अब आगे इस प्रकार के भय की कोई आशंका नहीं । अब हम सब पूर्णतया उसका सामना करने योग्य हैं । २८ आज्ञा देने की कृपा करें । दशों दिशाओं को सारे वीर चले जायें और जो-जो शत्रु सम्मुख पड़ता जाये उसे मार आएँ । इस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी के समस्त वानरों का सफ़ाया हो जायगा । हम सब मिल कर श्रीमन् के सकल तापों का हरण कर लेंगे । २९ उन सब वीरों द्वारा की गई गर्वपूर्ण विन्ती को सुनकर कुम्भकर्ण मन में विचार करते हुए कहता है—हे नाथ ! आपने कैसी मति को धारण किया । सीता का अपहरण क्यों किया । आपने यहाँ पर बड़ी चूक कर दी है । अब पता नहीं आपकी क्या गति होगी । ३० यदि श्रीरामचन्द्र जी ने पहले ही देख लिया होता तो अवश्य ही उसी समय उनके एक ही वाण के प्रहार से आपके प्राण चले जाते; फिर आप कहीं एक क्षण के लिए भी जीवित न दिखाइ देते । आपने सीता का हरण चोरी से किया है, इसी लिए अभी तक जीवित हैं । उनके सामने पड़ने से कौन टिक सकेगा, इसका परिणाम आप अब भोगोगे । अब तो, श्रीरामचन्द्र जी आपको वंश-सहित मार डालेंगे । ३१ राम चौदह

सब राक्षसहरू नाश गराउन यहाँ
साँचा हुन् इ कुरा अवश्य तिमिले
जुन् काम् गर्नु उचित् थियेन उहि काम्
सब हाम्रा भरले गन्यौ अधिक वीर्
लड्छौ निश्चय भाइ वर्ग पनि सब
स्वस्थै भै रहनु हवस् हजुरले

सीता तिमिले हन्यौ ।
आपनै बहुत् नाश गन्यौ ३२
ऐले गन्यौ तापनि ।
छन् भाइ छोरा भनी ॥
हामी जती छौं यहाँ ।
शोक गर्नुपर्ला कहाँ ॥ ३३ ॥

तेस् कुम्भकर्ण विरले सब यो भन्याको ।
श्री रामलाइ परमेश्वरमा गन्याको ॥
सून्यो र इन्द्रजित भन्छ हुकूम म पाऊँ ।
सेना समेत सहज राम्कन मारि आऊँ ॥ ३४ ॥
यस्तै तहाँ विरहरू सब बिनति पाथर्या ।
केवल गफै गरि मुखै तरवार माथर्या ॥
श्रीरामभक्त ति विभीषण ताहि आई ।
विन्ती गन्या बहुत हित् मनले चिताई ॥ ३५ ॥
श्रीरामजीसित विरोध् किन हो गन्याको ।
सीताजिलाइ तिमिले किन हो हन्याको ॥

भुवन के स्वामी हैं, अनन्त अधिनाथ प्रभु है । उनकी पत्नी सीता, जगदम्बिका लक्ष्मी हैं । सारे राक्षसों का नाश कराने के लिए ही आपने सीता का हरण किया है । ये बातें सत्य हैं, आपने निश्चय ही अपनी बड़ी भारी हानि को स्वयं निमंत्रण दिया है । ३२ जो कार्य करना उचित नहीं था उसे भी आपने किया, केवल हम लोगों के भरोसे पर । भाई और पुत्रादि अत्यन्त वीर हैं, लड़ेंगे ही । श्रीमन् अब आप शान्त हो जाएँ । शोक क्यों करते हैं, धैर्य्य धारण करने की कृपा करें । ३३ उस वीर कुम्भकर्ण की सब बातों को तथा श्रीराम को परमेश्वर की श्रेणी में गिनने की बात को सुन कर इन्द्रजीत ने कहा, मुझे आज्ञा हो ! मैं राम को उनकी सेना सहित सहज ही में अभी मार कर चला आऊँ । ३४ इसी प्रकार वहाँ पर समस्त वीर-केवल वाक् प्रहार कर रहे थे । लेकिन श्रीराम के भक्त विभीषण ने वहाँ आकर मन में शुभकामनाएँ कीं और कई प्रकार की विनती की । ३५ श्रीरामभक्त विभीषण ने रावण से पूछा कि ऐसे महाबली श्रीराम, जिसने कि खर, त्रिशिर और दूषण जैसे बलिष्ठ वीरों को मार डाला है, उसके सामने कोई विजय नहीं पा सकता है । अतः ऐसे पराक्रमी से विरोध कैसा, और आपने सीताजी का हरण क्यों किया ? ३६

श्रीरामचन्द्रकन सक्तछ जित्त कस्ले ।
मान्या खर त्रिशिर दूषण वीर जस्ले ॥ ३६ ॥
ठूला भन्नु इ कुम्भकर्ण विर हुन् कया चल्छ इन्को पनि ।
सेखी गर्दछ इन्द्रजित् नबुझि यो राम्लाइ माछु भनी ॥
सेखी गर्न जती छ सब् यहि गरून् को टिक्छ साम्ने परी ।
सब् राक्षस्हरु नाश् हुनन् जब तहाँ चेतनन् चुक्याको घरी । ३७ ॥
सीताजी ग्रहतुल्य भैकन सबै खाक् गर्न आँटिन् यहाँ ।
यो प्राणान्त बखत् भयो अझ पनी चेत छैन चेत गो कहाँ ॥
बाँचनाको यदि मन् छ पो त महाराज्! श्रीरामजीथ्यै गई ।
सीता सुम्पदिनू यही बखतमा सोझो र साम्ने भई । ३८ ॥
श्रीरामचन्द्रजि फौज् लिइकन यहाँ आई नलड्दै गया ।
आयो आज शरण् पन्यो भनि बहुत् गर्नन् प्रभूले दया ॥
चाँडै आज सिताजि सुम्पनुहवस् सीताजि लंका रही ।
बाँची सक्नु कदापि छैन अरुथ्यै काहीं शरण्मा गई ॥ ३९ ॥
हित् अमृत् सरिको विभीषणजिको सून्यो वचन् यो जसै ।
लिन्थ्यो त्यो इ कुरा कहाँ अधिक झन् रावण् रिसायो तसै ॥

कुम्भकर्ण कैसा ही बहादुर वीर क्यों न हों । श्रीराम के समक्ष उसकी भी कुछ नहीं चलेगी । इन्द्रजीत भी राम को मारने का व्यर्थ अभिमान कर रहा है । जितनी डींग मारनी हो यहीं मारलो, प्रभु के सामने कोई भी नहीं टिक पायेगा । समस्त राक्षणगण नष्ट हो जाने पर वीते अवसर के लिए पश्चाताप करेंगे । ३७ सीताजी ग्रह-तुल्य हो कर यहाँ पर सब खाक करना चाहती है । अब प्राणान्त का समय हो चुका है । सबकी चेतना कहाँ लुप्त हो गयी है ? अतः किसी को चेतना नहीं है । विभीषण रावण से कहता है कि महाराज, यदि जीवित रहना है तो यही अवसर है कि आप श्रीराम के पास जाकर सीता जी को उन्हें सौंप दें । ३८ श्रीराम-चन्द्र जी सेना लेकर यहाँ आ पहुँचे, इससे पहले ही यदि आप शीघ्र जाकर आज ही सीता जी को उन्हें सौंप दें, तो यह जानकर कि यह शरण में आया है, वे अत्यन्त दया प्रदर्शित करेंगे । सीताजी के लंका में ही रहने से आप सभी लोगों का जीवित रहना कठिन है । ३९ जैसे ही विभीषण की अमृत-बाणी रावण ने सुनी, वैसे ही उस बात को महत्व देने के वजाय उसको क्रोध आ गया । अत्यन्त ही क्रोधित होने पर उसने लोगों से कहा कि आज यह हमारा शत्रु बन गया है तथा इसे रामचन्द्र के प्रति श्रद्धा

लाग्यो भन्न रिसाइ आज सुन यो
मेरा शत्रु ति रामचन्द्र सित खुप्
आपनै ज्ञाति बढ्यो भन्या अरु सबै
भन्छन् निश्चय भन्दथ्या उहि छटा
ऐले मारिदिन्या थियाँ अरु भया
राक्षस्का कुलमा अधम् यहि भयो
मेरो आज नजीकमा रहनको
धिव्कार हो तँ अधम् भइस् भनि बहुत्
धिव्कारको यति बात् सुन्या र झटपट्
आकाश्मा झटपट् कुदीकन गया
लाग्या रावणलाइ भन्न महाराज् !
धिव्कारै तिमिले गन्यौ नबुझि झन्
दाज्यू हौ पितृ तुल्य छौ यति सही
खूशी भै तिमि राज् गन्या म त उनै
काली हुन् जगदम्बिका भगवती
भूभार् हर्ननिमित्त यो छ अवतार्

शत्रू सरीको भयो ।
प्रीत् बस्न यस्को गयो ॥४०॥
ज्ञाती गिरोस् यो भनी ।
यस्ले जनायो पनि ॥
भाई भयो क्या गरूँ ।
धिव्कार दिन्छू बरु ॥४१॥
लायक् तँ छैनस् भनी ।
धिव्कार दीयो पनि ॥
श्रीराममा मन् दिई ।
चार मंत्रि साथ्मा लिई ॥४२॥
हीतै भन्याँ तापनि ।
शत्रू त हो यो भनी ॥
ऐले फरक् लौ भयाँ ।
राम्का शरण्मा गयाँ ॥४३॥
सीताजि राम् काल हुन् ।
बाँचन्या छ पापी कउन् ॥

उत्पन्न हो गयी है । ४० अपने ज्ञान को देख कर दूसरों के ज्ञान का आभास हो जाता है, ऐसा निश्चय ही कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार लक्षण इसने भी दिखाये । राक्षसवंश में यही एक अधम उत्पन्न हुआ है । यदि मेरे स्थान पर कोई और होता तो इसे अभी समाप्त कर देता । लेकिन क्या कर सकता हूँ, अपना ही भाई तो है । ४१ अत्यन्त ही क्रोधित होने के कारण रावण ने विभीषण को धिव्कारते हुए कहा, तुम मेरे साथ रहने के योग्य नहीं हो और अधम हो । रावण के मुख से ऐसी बात सुनकर विभीषण ने श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान किया और चार मंत्रियों को लेकर वहाँ से चला गया । ४२ विभीषण ने रावण से कहा कि महाराज ! हित की बात कहने पर भी आपने मुझ पर व्यर्थ ही क्रोध किया । आप मेरे भाई है और बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, यह ठीक है । लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता । अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपना राज्य चलायें, और मैंने तो अब श्रीरामचन्द्रजी की शरण स्वीकार की है । ४३ महारानी सीता जी काली, जगदम्बिका तथा भगवती का रूप हैं और श्रीराम काल हैं । वे भू-भार को हरने के लिए ही इस संसार में अवतरित हुए हैं; ऐसे प्रभु से कौन पापी अपनी जान बचा सकेगा । श्रीराम ने

श्रीरामको मतलब छ मान तव पो
 कालरूप श्रीरघुनाथको अरु यहाँ
 सब राक्षसकुलको हुन्या छ अब नाश
 तिम्रा नाश कसरी म देखुँ म त लौ
 खूशी भै चिरकाल तक गर यहाँ
 येती विनति गरी विभीषण सबै
 चार मन्त्रीसँग ली विभीषण गया
 वाहाँ जान डराइ सम्मुख भया
 हेनाथ ! आज शरण पन्याँ चरणमा
 उच्चा शब्द गरी गन्या विनति खूप
 हे राम ! रावण कुम्भकर्ण विरको
 रावण आज अधम भयो हजुरमा
 सीता क्यान हन्यौ फिराउ भनि खुप
 झन् धिक्कार गरि खड्ग लीकन उठ्यो
 यस्तो रावणले गन्यो र रघुनाथ
 संसार पार सहजै उताछँ जसले

फिर्देन तिम्रो मति ।
 को बुझ्न सक्छन् गति । ४४।
 छोड्छन् प्रभूले कहाँ ।
 जान्छु प्रभु छन् जहाँ ॥
 राज्खुप चिरायु भया ।
 छाडेर राम्थ्यै गया । ४५।
 श्रीरामका पासमा ।
 टाढै ति आकाशमा ॥
 आयाँ म सेवक भनी ।
 वृत्तान्त आफ्नू पनि ॥ ४६ ॥
 भाई विभीषण म हूँ ।
 बिस्तार कहाँ तक कहूँ ॥
 हीतै भन्याँ तापनि ।
 काट्छु तँलाई भनी ॥ ४७ ॥
 आयाँ हजूरमा म ता ।
 सो छोडि जाऊँ कता ॥

तुम्हारा नाश करने के लिए ही जन्म लिया है, इसी कारण से तुम्हारी मति मे कोई परिवर्तन नहीं होता है । अतः काल-रूपी श्रीरघुनाथ की गति को यहाँ कौन समझ सकता है ? ४४ अब तो वे समस्त राक्षस-वंश का समूल नाश कर डालेंगे । लेकिन तुम्हारा नाश होते हुए मैं कैसे देख सकूँगा, इसलिए मैं तो भगवान श्रीरामचन्द्रजी की शरण में जाता हूँ । तुम प्रसन्न होकर राज्य सँभालो और चिरायु रहो । ऐसा कह कर विभीषण सब कुछ त्याग कर राम के पास चला गया । ४५ चार मंत्रियों को साथ लेकर विभीषण श्रीरघुनाथ के पास चला गया । वहाँ जाने से भयभीत होकर आकाश में ही दूर सम्मुख हुआ और अपना वृत्तान्त सुनाते हुए विभीषण ने श्रीराम से विनती की कि हे नाथ ! मैं आपका ही सेवक हूँ और आज आपकी शरण में आ गया हूँ । ४६ विभीषण ने राम से अपना वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि हे प्रभु ! मैं लंका के राजा रावण का भाई हूँ । वह आज अधम हो गया है, मैं कहाँ तक उसकी सेवा करता रहूँ । 'सीता को क्यों हरण किया? उसे श्रीराम को वापस सौंप दो', जब मैंने उससे ऐसा कहा तो वह क्रोधित हो-कर मुझे पर खड्ग लेकर प्रहार करने के लिए दौड़ा और मुझे तरह-तरह से धिक्कारा । ४७ जब रावण

यस्तो विन्ति सुन्या विभीषणजिको सुग्रीव्जिले जसै ।
 रावण्कै छल झैं बुझ्या र झटपट् विन्ती गन्या यो तसै ॥४८॥

विश्वास नमान्नु रघुनाथ ! इ त दुष्ट पो हुन् ।
 गर्नन् इ औसर पन्या हुँदि जीयमा खुन् ॥
 मर्जी हवस् इ सब पक्डि निभाइ हालुम् ।
 भाई म हूँ पनि भन्यो उ छँदै छ मालुम् ॥ ४९ ॥

विश्वास कत्ति नमानि बक्सनुहवस् सब दुष्ट पो हुन् इता ।
 रावण् कै यदि भाइ हो त किन ढील् मारौं-न भन्छू म ता ॥
 जैले पर्दछ छिद्र उस् बखतमा मारनन् इ दागा गरी ।
 मानांलाइ हुकूम हवस् सहजमा मारिन्छ यसै घरि ॥५०॥
 मेरो मत् विनती गन्यां हजुरको क्या मत् छ खवामित् भनी ।
 सुग्रीव्को विनती सुनेर रघुनाथ् हाँसेर बोल्या पनि ॥
 हे सुग्रीय सखे ! म आटुं न सब लोक ध्वस्त ऐले गरी ।
 फेर सृष्टी क्षणमा गरूँ सहजमा लाग्वैन एककाल् घरि ।५१।

ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो हे रघुनाथ ! मैं आपकी शरण में आ गया और अब आपकी ही सेवा करने की इच्छा है । जो प्रभु संसार को तारनेवाले हैं उस प्रभु को छोड़कर मैं और किसकी शरण में जाऊँ । विभीषण की ऐसी विनती सुनकर सुग्रीव ने भय के कारण श्रीराम से विनती की । ४८ सुग्रीव श्रीराम से विनती करते हुए कहने लगे, “हे रघुनाथ ! यह तो दुष्ट है । इस पर आप ज़रा भी विश्वास न करें । कहीं ऐसा न हो कि अवसर पाते ही आक्रमण कर दे । अपने को रावण का भाई बताता है और लगता भी ऐसा ही है । आज्ञा दें तो मैं अभी इन सब को पकड़ कर समाप्त कर डालूँ । ४९ हे रघुनाथ, आप किंचित्मात्र भी इसका विश्वास न करें । यदि रावण का ही भाई है तो फिर इसका नाश करने में विलम्ब कैसा । कोई अवसर मिलने पर उस अवसर का लाभ उठाकर ये हम पर आक्रमण कर दें, इससे पहले ही आप मारने की आज्ञा दें, जिससे इसका सहज ही नाश कर दिया जाय । ५० मेरा तो यही विचार है, हे प्रभु ! आपका क्या मत है ।” सुग्रीव की विनती सुनकर श्रीरामचन्द्र जी हँसकर बोले, “हे मित्र सुग्रीव ! यदि मैं चाहूँ तो अभी सारी सृष्टि ध्वस्त कर डालूँ और चाहूँ तो क्षण में ही पुनः सृष्टि निर्माण कर लूँ । ऐसा करने में तो कुछ भी समय नहीं लगेगा । ५१ अपना भक्त समझ कर विभीषण को अन्दर आने की अनुमति दे दो ।

तस्मात् भक्त बुद्धेर निर्भय दियाँ आउन् यि ल्याऊ यहाँ ।
 उस् माथी पनि शत्रुदल् यदि भया माथ्या म छोड्थ्याँ कहाँ ॥
 शत्रुका इ त ओरि हुन् तर पनी आया शरणमा यहाँ ।
 मेरो आज शरण् पन्या पनि भन्या तिन्लाइ छोड्छू कहाँ ॥५२॥

एकै बखत् पनि शरण् भनि जो मलाई ।

संज्ञेर पर्दछ शरण् त म तेसलाई ॥

लिन्छू शरण् यदि उ शत्रु हवस् दयैले ।

मेरो व्रतै छ यहि छोड्छु कसोरि ऐले ॥ ५३ ॥

श्रीराम्चन्द्रजिको हुकूम् यति हुँदा ल्याया विभीषण् पनि ।
 पाँचाया रघुनाथका हजुरमा ल्याई इनै हुन् भनी ॥
 श्रीराम्चन्द्रजिको विभीषणजिले पाया र दर्शन तहाँ ।
 खुप् साष्टांग गरी प्रणाम् पनि गन्या पस्नेर पृथ्वीमहाँ ॥५४॥
 दर्शन श्रीरघुनाथको जब मिल्यो खूशी विभीषण् भया ।
 जो ती दुःख थिया विभीषणजिका ताहीं तुरुन्तै गया ॥
 सर्वात्मा रघुनाथको स्तुती गन्या ईश्वर इनै हुन् भनी ।
 सर्वात्मा रघुनाथ् स्तुती सुनि बहुत खूशी हुनूभो पनि ॥५५॥
 क्या मागछौ वर माग दिन्छु म भनी हुकूम् भएथ्यो जसै ।
 भक्ती मात्र थियो वहाँ मनमहाँ त्यो भक्ति माग्या तसै ॥

यदि विभीषण के साथ शत्रु दल भी होते तो मैं उन्हें अवश्य मार डालता, छोड़ क्यों देता । शत्रु के तो ये सम्बन्धी हैं, तथापि मेरी शरण में आये हैं । जब मेरी शरण में आ पड़ते हैं तो मैं भी उन्हें छोड़ूँगा कहाँ ? ५२ श्रीराम ने बताया कि मुझे स्मरण करके जो भी एक वार मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो । यही मेरा सबसे बड़ा व्रत है, इसे मैं कैसे त्याग सकता हूँ । ५३ श्रीरामचन्द्रजी की ऐसी आज्ञा होने पर विभीषण को उनके सम्मुख लाया गया । यही हैं, ले आया हूँ, ऐसा कह कर रघुनाथ की शरण में पहुँचाया गया । वहाँ पहुँच कर विभीषण ने श्रीराम के दर्शन प्राप्त किये और पृथ्वी पर लेट कर रघुनाथ को प्रणाम किया । ५४ श्रीरघुनाथजी के दर्शन पाकर विभीषण अत्यन्त प्रसन्न हुआ तथा विभीषण का सम्पूर्ण दुःख क्षण भर में समाप्त हो गया । ईश्वर यही हैं, ऐसा सोच कर विभीषण ने श्रीरघुनाथ की स्तुति की । स्तुति सुनकर सर्वात्मा श्रीरघुनाथ बहुत प्रसन्न हुए । ५५ क्या वरदान माँगते

हे नाथ् ! भक्ति रहोस् सदा हजुरमा
छोटै मान्छु म भक्ति देखि अरु चीज्
तस्मात् कर्म विनाश गर्नकन एक
येतीले म कृतार्थ छू विषय सुख्
केवल भक्ती मिल्या प्रसन्न पनि छू
होला लौ तिमिलाइ भक्ति पनि त्यो
जस्ले यो तिमिले गन्यौ स्तुति जती
तेस्लाई यति वर् म दिन्छु सहजै
येती भक्त विभीषणै सित हुकूम
राज् दिन्छु अहिले भनीकन लहड्
भाई लक्ष्मणलाइ मजि पनि भो
राज् गर्नन् पछि तापनी म अभीषेक्
ल्याऊ जल् तिमि जाउ सागर भनी
दौडी सागरमा गई क्षणमहाँ
राजा भै तिमिले रहू अब उपर्
श्रीराम्चन्द्रजिले विभीषण-उपर्

कैले नविग्रोस् मति ।
यस् सृष्टिमा छन् जति ५६
ध्यान् मात्र तिम्रो हवस् ।
सम्पूर्ण दूरै रहोस् ॥
बिन्ती गन्याथ्या जसै ।
दीनूभयो वर् तसै ॥५७॥
मेरो यती पाठ् गरोस् ।
संसार सागर् तरोस् ॥
भो फेरि लङ्कामहाँ ।
आयो र मन्मा तहाँ ॥५८॥
हे भाइ ! लंकामहाँ ।
दीनेछु दिन्छु यहाँ ॥
हुकूम भएथ्यो जसै ।
ल्याईदिया जल् तसै ॥५९॥
लङ्का पुरीको भनी ।
दिया अभीषेक् पनि ॥

हो, माँगो । मैं तुम्हें दूंगा, कह कर जैसे ही यह आज्ञा हुयी वैसे ही जो उस समय उसके मन में भक्ति थी वही माँगते हुए उसने कहा, हे नाथ ! मेरी भक्ति सदैव आपकी ओर रहे और मेरी मति कभी भी भ्रष्ट न होने पाये । इस संसार में भक्ति के अतिरिक्त अन्य जो भी वस्तुएँ हैं उन्हें मैं तुच्छ समझता हूँ । ५६ कर्मों का विनाश करने के लिए केवल आपका ही ध्यान रहे । वस इतने से ही मैं आपका कृतार्थ हूँ, सम्पूर्ण विषय-सुख दूर ही रहे । केवल भक्ति-प्राप्त से ही मैं प्रसन्न हूँ । जैसे ही उसने ऐसा कहा, वैसे ही प्रभु ने यह कह कर कि 'तुम्हें भक्ति प्राप्त हो' वरदान दिया । ५७ तुमने जितनी मेरी स्तुति की है यदि उतनी स्तुति कोई और भी करता तो उसे भी मैं इतना ही वरदान देता, जिससे वह सहज ही संसार-सागर से तर जाये । भक्त विभीषण से ऐसा कह कर राम ने पुनः कहा, 'मेरे मन में विचार आया है कि लंका में तुम्हारा ही राज्याभिषेक करूँगा । ५८ हे भाई ! भले ही तुम वाद में लंका पर राज्य करो, परन्तु मैं तो तुम्हें अभी ही राज्याभिषेक करूँगा ।' ऐसा कह कर श्रीराम ने लक्ष्मण को सागर से जल लाने की आज्ञा दी । वैसे ही लक्ष्मण ने दौड़कर सागर से जल लाकर दिया । ५९ अब तुम लंका के राजा बनकर रहो,

लंकाका अधिराज् विभीषण हुँदा
 ताहीं सुग्रीवजी विभीषणजिका
 खूशी भैकन अङ्कमाल् पनि गरी
 सेवक् हौं सब रामका तर तिमी
 यस् रावण्कन मारनलाइ महाराज् !
 सुग्रीव्ले यति वात् गन्या जब तहाँ
 हे सुग्रीव् महाराज् ! सहाय दिनको
 तीन् लोकका अधिनाथ् परात्म रघुनाथ्
 दास हूँ श्री रघुनाथको म गरुँला
 यस्तै बात्चित गर्दथ्या द्रुत तहाँ
 रावण्को शुक द्रुत त्यो अगि सरी
 वाहीं जान त डर् भयो र डरले
 लाग्यो सुग्रीवलाइ भन्न महाराज् !
 राम्लक्ष्मण् सितको मिलापमसितको
 भाई हो मितको जनाउनु असल्
 हूकूम रावणको भयो र अहिले

सुग्रीव्हरू खुश् भया ।
 साम्ने नजीक्मा गया । ६०।
 सुग्रीव भन्छन् तहाँ ।
 छौं मुख्य सब्मा यहाँ ॥
 साहाय देऊ भनी ।
 बोल्या विभीषण् पनि । ६१।
 क्या शक्ति मेरो यहाँ ।
 आफैं खडा छन् जहाँ ॥
 सेवा त भर्सक् गरी ।
 आये अगाडी सरी ॥ ६२ ॥
 सुग्रीव साम्ने भई ।
 आकाश वीच्मा रही ॥
 सुग्रीव् खराबी भयो ।
 वैरी हुन्या मन् गयो ॥ ६३ ॥
 सम्झा तँ जा लौ भनी ।
 याहाँ म आयाँ पनि ॥

ऐसा कह कर रघुनाथ ने विभीषण का राज्यभिषेक किया । विभीषण के लंका का अधिराज बन जाने पर, सुग्रीव इत्यादि अत्यन्त प्रसन्न हुए । तत्पश्चात् सुग्रीव विभीषण के सम्मुख गये । ६० अत्यन्त प्रसन्नता से आलिङ्गन करते हुए सुग्रीव विभीषण से कहने लगे कि हम सब राम के सेवक हैं परन्तु हम सबमें से तुम मुख्य हो । हे महाराज ! अब रावण को मारने में सहयोग दो । सुग्रीव की यह बात सुनकर विभीषण बोले— । ६१ हे सुग्रीव महाराज ! सहयोग देने के लिए मेरे पास शक्ति कहाँ ! मैं तो श्रीरघुनाथ का दास हूँ । अतः मुझसे जो कुछ भी सहयोग हो सकेगा मैं अवश्य करूँगा । जहाँ तीनों लोक के अधिनाथ परमात्मा श्रीराम की शक्ति विराजमान हैं, तो वहाँ उनके सम्मुख किसी अन्य की शक्ति क्या है ? इसी प्रकार की वार्तालाप के बीच ही द्रुत उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ । ६२ रावण का शुकद्रुत सुग्रीव के सम्मुख आया, लेकिन भय के कारण आकाश के बीच में ही रहकर बोला— ' हे सुग्रीव महाराज ! बहुत बुरा हुआ जो राम-लक्ष्मण से मित्रता करके मुझसे वैर करने का विचार मन में आया है । ६३ तेरे भाई (बालि) के मित्र होने के नाते यह कहना उचित समझकर कहता हूँ कि तू यहाँ से चला जा'—ऐसी आज्ञा रावण ने दी है ।

तस्मात् रावणको हुकूम सुन तिमि सब लश्कर लिइ फर्कि जाउ तिमि फेरु लंका यो जितिसक्नु छैन अहिले वानर पो तिमि हौ त क्या गरूँ कुरा सीता जो अहिले हन्याँ त मइले भाई हौ मितका विरोध नगर यो मेरै भाइ समान हौ भनि बहुत् जो गछौँ तर फर्कि जाउ म त हित् यस्तो रावणको हुकूम छ महाराज् पक्र्या वानरले त खँचिकन खुप् वानरले बहुतै फजित् जब गन्या श्रीराम्चन्द्र सुनून् भनेर शुकले दूत् हूँ मारन उचित् त होइन प्रभू ! कुट्नु छैन भनी हुकूम हुन गयो वानर देखि छुट्यो जसै उहि बखत् क्या उत्तर दिनु हुन्छ पाउँम जवाफ

क्या काम आयौ यहाँ ।
लौ राजधानी महँ ॥६४॥
इन्द्रादिले ता पनि ।
यो स्थान् जितौला भनी ।
श्रीरामकी पो हन्याँ ।
तिम्नो बिराम् क्या गन्याँ ॥
हित् जानि अर्ती दियाँ ।
गदँ छु गदँ थियाँ ॥
येती भनेथ्यो जसै ।
हान्या मुठीले तसै ॥६६॥
हे राम् ! मन्याँ लौ भनी ।
साहँ करायो पनि ॥
बिन्ती गरेथ्यो जसै ।
सून्यार छोड्यो तसै ॥६७॥
कूदेर आकाश् गयो ।
जान्छु म भन्दो भयो ॥

उसके बाद रावण की आज्ञा पाकर आप, जिस काम से यहाँ पर आये हैं (उसे त्याग)समस्त सेना को लेकर आप राजधानी को लौट जाइए । ६४ इन्द्रादि के द्वारा भी लंका पर कोई विजय नहीं पा सकता है । आप तो वानर ही हैं इस लिए मैं यह कैसे कहूँ कि यह स्थान आप जीत ही लेंगे । रावण ने सीताजी का हरण यदि किया है तो राम की पत्नी सीता का ही हरण किया । आप उनके मित्र के भाई हैं, अतः विरोध न करें । आखिर उन्होंने आपका बिगाड़ा ही क्या है ? ६५ मेरे भाई के समान हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात कहता हूँ । वैसे तुम जैसा चाहो करो, मैं तो तुम्हारा हित चाहता था और चाह रहा हूँ और महाराजा रावण की यह आज्ञा है कि आप लौट जायें । जैसे ही दूत के मुख से यह बातें सुनीं, वानर ने उसको अपनी ओर खींच कर मुष्टि के द्वारा उस पर प्रहार किया । ६६ वानर ने जब अधिक परेशान किया तो शुक ने श्रीराम को सुनाने के उद्देश्य से कुछ तेज आवाज़ में चिल्लाकर कहा, हे राम ! लो अब मरा । जैसे ही उसने यह विनती कि कि दूत हूँ, अतः दूत को मारना उचित नहीं, उसी क्षण न मारने की आज्ञा हुई और आज्ञा सुनकर तुरन्त ही छोड़ दिया गया । ६७ वानरों से ज्यों ही छुटकारा मिला त्यों ही उछल कर वह

यस्को सुग्रीवले जवाफ् तहिं दिया
 वाली झैं गरि माहुंला अधम होस्
 श्रीरामचन्द्रजिकी सिता हरि कहाँ
 यस्तै रावणथ्यै भन्यास् भनि भन्या
 यस्तो सुग्रीवले जवाफ् जब दिया
 पकरून् वानरले नछोड अहिले
 श्रीरामचन्द्रजिको हुकूम् यति हुँदा
 यस् भन्दा अधि आइ शार्दूल फिन्यो
 विस्तार् शार्दूलदेखि राम-बलको
 चिन्तामा परि गैगयो अति ठुलो
 यै बीच्मा रघुनाथ् रिसाउनुभयो
 लाल् लाल् नेत्र गराइ लक्ष्मणजिका
 हे भाई ! तिमि हामिलाइ यसले
 भेटै आज गरेन हेर तिमिले
 सागर् शोषण गर्नलाइ धनु ली
 कामिन् भूमि पनी भयंकर स्वरूप्

मित्दाज्यु होस् तापनि ।
 भन्दीनं दाज्यु पनि ॥६८॥
 उम्केर जालास् उसै ।
 सुग्रीवजीले तसै ॥
 राम्को हुकूम् भो तहाँ ।
 क्यै दिन् रहोस् यो यहाँ ॥६९॥
 त्यो शुक बन्धन् पन्यो ।
 विस्तार् यसैले गन्यो ॥
 सून्यो र रावण् पनि ।
 आयेछ लश्कर् भनी ॥७०॥
 आयेन सागर् भनी ।
 साम्ने हुकूम् भो पनि ॥
 सामान्य मानिस् गनी ।
 यस्को तमाशा भनी ॥७१॥
 वाण् खैचनूभो जसै ।
 राम्लाइ देखी तसै ॥

आकाश को गया और कहने लगा, बोलो, क्या उत्तर देना है ? उत्तर मिल जाय तो मैं चला चाऊँ । सुग्रीव ने वहीं पर उत्तर दिया । मित्र हो या भ्राता हो अर्थात् भ्राता होने का विचार नहीं रखूँगा । बालि की तरह माहुँगा फिर चाहे अधम ही क्यों न हो जाये । ६८ सुग्रीव ने बताया कि रावण से कहना कि तुम श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी सीता जी को हर करके बचकर कहाँ जाओगे । सुग्रीव ने जब ऐसा जवाब दिया तब श्रीराम ने आज्ञा दी कि वानरों से कहो कि उसे पकड़ले और अभी न छोड़ें तथा कुछ दिन वह यहीं रहले । ६९ श्रीरामचन्द्र जी का यह आदेश होते ही उस शुक को बन्धन में कर लिया गया । इससे पहले ही शार्दूल वापस लौटा और उसीने रावण को सारा विस्तार बताया । शार्दूल के मुख से राम की शक्ति के बारे में विस्तार से सुना, और अति विशाल सेना आयी हुई है यह सुनकर रावण भी अति गम्भीर चिन्ता में पड़ गया । ७० इसी बीच में श्रीरघुनाथ सागर के न आने पर अत्यन्त क्रोधित हुए । लाल-लाल नेत्र करते हुए लक्ष्मण को आदेश दिया और कहा कि हे भाई ! ज़रा इसका तमाशा तो देखो ! इसने आज हमें और तुम्हें एक साधारण मनुष्य समझ कर भेंट तक नहीं की । ७१ जैसे ही सागर का शोषण करने के लिए

चार कोश तक् त समुद्रको जल पुग्यो
जो जन्तु जलमा थिया ति पनि ता
यस्तो देखि डराइ सागर तहाँ
भेटी खातिरलाइ रत्नहरु बेस्
श्रीराम्चन्द्रजिका गया शरणमा
पाऊमा परि दण्डवत् पनि गन्या
हात् जोरी स्तुति बिनति धीर् गरि गन्या
सीतानाथ् प्रभुलाइ जानुं कसरी
चेत् ऐले प्रभुले दिंदा हजुरमा
रस्ता दिन्छु दया रहोस् म छु अनाथ्
सागरका इ वचन् सुनी हुकूम भो
वाण्को थान् त खटाउनाकन पन्यो
मेरो वाण् त अवश्य काम नगरी
ज्यान् राख्छौ त अवश्य देउ बदला
श्रीराम्चन्द्रजिको हुकूम यति सुनी
पापी छन् द्रु मकुल्यमा अहिर हुनु

दश दिक् अँध्यारा भया ।
सब् खल्बलाई गया ।७२।
सुन्दर् स्वरूप् एक् धरी ।
लीयेर झट्पट् गरी ॥
भेटी अगाडी धरी ।
सब् शेखिशान् दूर् गरी७३।
हे नाथ् म हूँ जड् यसै ।
क्यै चेत् नपाई उसै ॥
आई शरण्मा पन्याँ ।
हात् जोरि बिनती गन्याँ७४।
साँचो भन्यौ ता पनि ।
यस्लाइ लौ हान् भनी ॥
फिर्देन ऐले यसै ।
टर्देन यो वाण् कसै ॥७५॥
हात् जोरि बिनती गन्या ।
उत्तर दिशामा परचा ॥

श्रीरघुनाथ ने धनुष-बाण खींचा, वैसे ही रामको देख कर भूमि भयंकर रूप धारण करके काँपने लगी । समुद्र का जल चार कोस दूर तक पहुँच गया तथा जो जन्तु जल में निवास करते थे उन सब में भी खलबली मच गयी । ७२ यह सब देख कर भयभीत होकर सागर एक सुन्दर स्वरूप धारण करके भेट देने के लिए रत्नादि लेकर श्रीरघुनाथ की शरण में गया और भेंट को रघुनाथ के सामने रखकर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया । ७३ धीरज धर कर तथा हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे नाथ ! मैं तो ऐसे ही जड़ हूँ, मैं सीता-पति प्रभु को कैसे जान सकता हूँ ! मुझमें तनिक भी चेतना नहीं आयी । प्रभु द्वारा चेतना जाग्रत कर देने से मैं आपकी शरण में आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ । अतः मैं आपको रास्ता देता हूँ, मुझ-पर दया करने की कृपा करें क्योंकि मैं अनाथ हूँ । ७४ सागर के इस वचन को सुनकर आज्ञा हुई कि रहने दो, यदि तुम सत्य भी कहते हो तब भी बाण का लक्ष्य तो प्राप्त करना ही है । अतः इससे प्रहार करते हैं । मेरे बाण तो अवश्य ही बिना कार्य को पूर्ण किये वापस नहीं लौट सकते । यदि प्राण चाहते हो तो बदले में कोई और प्राण दो लेकिन यह बाण किसी भी रूप में टलने वाला नहीं है । ७५

ठाकुरका यहि वाणले जति ति छन् पापी सबै नाशु गरोस् ।
 यस्काम्ले म अनाशु गरीवु हजुरको दास्को सबै तापु हरोस् ॥७६॥
 यति विनति गन्याको सुनि खुपु हर्षु मानी ।
 सकल हरिदिनुभो तेहि वाणु जल्दि हानी ॥
 रिससित गइ वाणुले पापिको नाशु गराई ।
 सकिकन फिरि ठोक्रैमा पन्यो वाणु आई ॥७७॥

यै वीच्मा ति समुद्रले चरणमा पस्नेर विन्ती गन्या ।
 कीर्ती खुपु रहन्याछ सेतु वलियो हालेर लशकरु तन्या ॥
 सेतु वाँधनमा समर्थ नल छन् इन्ले त वरदानु पनि ।
 पायाको छ इ विश्वकर्म सुत हुन् वाँधुन् इ सेतु भनी ॥७८॥
 येती विन्ति गरेर पाउ परि फेरु सागरु अदृश्यै भया ।
 सागरुको विनती सुनी नल पनि रामका हजुरमा गया ॥
 हूकूमु भो नललाइ सेतु तिमिले चाँडै बनाऊ भनी ।
 लशकरु साथ लिया र जल्दि नलले सेतु बनाया पनि ॥७९॥

खुशि भइ नलले सबु वीरको तेजु जगाई ।

वरिपरि जति छन् सबु वृक्ष पर्वतु मगाई ॥

श्रीरघुनाथ का ऐसा आदेश सुनकर हाथ जोड़कर उसने विनती की कि उत्तर दिशा की ओर द्रुमकुल्य नामक नगर मे अनेक पापी ग्वाले रहते हैं । प्रभु के इसी वाण द्वारा उन सब पापियों को नाश किया जाय । ऐसा करने के पश्चात् मुझ दीन अनाथ और प्रभु के दास के समस्त संतापों का हरण करें । ७६ उसकी ऐसी विनती सुनकर राम अत्यन्त हर्षित हुए और तुरन्त ही उस वाण से प्रहार करके सकल ताप का हरण किया । वाण सीधा जाकर पापियों का नाश करके पुनः लौटकर तरकस में प्रवेश कर गया । ७७ इसी वीच समुद्र ने चरणों में लेट कर विनती की कि शक्तिशाली पुल को वाँध कर सेना को पार लाने से अत्यन्त कीर्ति होगी । पुल वाँधने में नल समर्थ है तथा इन्हें वरदान भी प्राप्त है । यह विश्वकर्मा-सुत है, अतः यही पुल को वाँधे । ७८ इस प्रकार से विनती करके सागर पुनः अदृश्य हो गया । सागर की विनती सुनकर नल भी राम के पास गया । नल को शीघ्रता से पुल वाँधने की आज्ञा हुई । अतः वह सेना को साथ लेकर पुल का निर्माण करने लगा । ७९ प्रसन्न होकर नल ने सब वीरों की शक्ति जाग्रत की । चारों ओर जो कुछ भी वृक्ष और पर्वत थे उनको मँगवा कर आगे आकर पुल वाँधने लगा । उसी क्षण रघुनाथ

अगि सरिकन सेतू वाँधन लग्या जसै ता ।

शिव भनि रघुनाथ्ले मूर्ति थाप्या तसै ता ॥८०॥

रामेश्वर् भनि नाम् चलोस् अब उपर्	संकल्प	याहाँ	लिई ।
गङ्गाजल् लिन काशि गैकन उ जल्	ल्याई	नुहाई	दिई ॥
प्याँक्ला कामरु त्यो समुद्र जलमा	जस्ले	बगोस्	यो भनी ।
त्यो जन् मुक्त हवस् भनेर रघुनाथ	कोयो	हुकूम्	भो पनि ॥८१॥
बाँध्या सेतु छपन्न कोश पहिले	दिन्	दोसरा	दिन् असी ।
कोश चौरासि सक्का तृतीय दिनमा	कम्मर्	सबैले	कसी ॥
कोश अट्टासि सक्का चतुर्थ दिनमा	वाँकी	बयान्नब्बे	कोश ।
पाँचौं दीनमहाँ सक्का नजर भो	निस्वयेन	एक्	काहिंदोष् ८२
तेही मार्ग गरेर फौज् सब तरयो	ढाक्यो	त्रिकूट	पर्वतै ।
टाप ढाकिदियो रहेन बिचमा	खाली	भन्याको	कतै ॥
भाईलाइ चढाइ अङ्गदमहाँ	आफू	हनुमान्महाँ	।
चढ्नुभो रघुनाथ र जानु पनि भो	थीयो	जगा	ऊँच् जहाँ ॥८३॥
ताहीं गैकन त्यो विचित्र नगरी	लंकै	नजर्	भो जसै ।
त्यो रावण् पनि कौसिमा गइ तमास्	हेथ्यो	नजर्	भो तसै ॥
यै बिचमा शुक्लाइ छोडिदिनुभो	दौडेर	त्यो	शुक
रावण सीत तुरन्त गैकन सबै	बिस्तार	गर्दो	भयो ॥८४॥

ने शिवजी का स्मरण करके मूर्ति-स्थापना की । ८० रामेश्वर के नाम से प्रसिद्धि हो, ऐसा सोचकर वहाँ पर संकल्प किया । काशी से गंगाजल लाकर स्नान किया । जो यह सोचकर समुद्र में कामरू फेंकेगा कि यह बह जाय तो वह प्राणी मुक्त हो जायगा, यह कहते हुए रघुनाथ ने आज्ञा दी । ८१ पहले दिन छप्पन कोस का पुल बाँधा । दूसरे दिन अस्सी कोस तथा तीसरे दिन सबने कमर कस कर चौरासी कोस समाप्त कर दिया । चौथे दिन अट्टासी कोस और बाकी व्यानवे कोस, पाँचवे दिन समाप्त कर दिया । देखने पर कहीं कोई दोष नहीं दिखायी दिया । ८२ उसी रास्ते से सारी सेना पार हो गयी । त्रिकूट पर्वत और टापू सब ढक दिया । कहीं पर कोई रिक्त स्थान नहीं बचा । भाई को अंगद पर चढ़ा कर स्वयं हनुमान पर सवार होकर चल पड़े, यद्यपि स्थान काफ़ी ऊँचा था । ८३ जैसे ही वहाँ जाकर विचित्र नगरी लंका को देखा तो वहाँ पर रावण भी तमाशा देखते हुए नज़र आया । उसी बीच शुक को छोड़ दिया । शुक दौड़ कर गया और वहाँ जाकर रावण को तुरन्त ही सारा

ऐले हे महाराज ! गयाँ हजुरको हूकूम हुनाले तहाँ ।
 बाँध्या वानरले पन्याँ सकसमा आऊँ कसोरी यहाँ ॥
 ऐले पो रघुनाथका हुकुमले छोडी दिया जा भनी ।
 बाच्याँ बल्ल भनेर हर्षसित खुप् दौडेर आयाँ पनि ॥८५॥
 आयो फौज् रघुनाथको अति ठुलो याहीं समुद्रै तरी ।
 जीतीसक्नु कठिन् हुन्याछ बलले ऐले लडाई गरी ॥
 सीताजी लागि रामका शरणमा की आज पर्नु हवस् ।
 लड्ने मन् छ भन्या तुरन्त अब लौ संग्राम गर्नु हवस् ॥८६॥
 रामको एक समचार म भन्दछु हरिस् सीताजि उन्मत् लिई ।
 संग्राम गर्न अगाडि सर् वखत भो साम्ने मुहुँडा दिई ॥
 भोली ध्वस्त गराउँछु अधि खवर् दीयाँ उचित् हो भनी ।
 हाँकी भन्छु तँलाइ छोड्दिनँ यसै मैले नमारी पनि ॥८७॥
 रावण्लाइ सुनाउनु यति थियो हे शुक् ! सुनाई दियास् ।
 तँ जान्छस् त पठाउँ को अरु तहाँ तँले मनैमा लियास् ॥
 यस्तो श्रीरघुनाथको हुकुम भो भन्नु समचार भनी ।
 साँचो बिनित् गरीसक्याँ उ समचार मैले हजुरमा पनि ॥८८॥

विस्तार सुनाया । ८४ “हे महाराज ! अभी श्रीमन् के आदेशानुसार मैं वहाँ गया । यदि वानर द्वारा बाँध लिया जाता तो संकट में पड़ जाता और यहाँ न आ पाता । अभी तो रघुनाथ की आज्ञा से छोड़ दिया गया हूँ ताकि मैं चला जाऊँ । अब मैं संकट से बच गया इसी कारण से तीव्रगति से दौड़कर यहाँ आ गया हूँ । ८५ श्रीरघुनाथ अपनी विशाल सेना के साथ समुद्र पार कर यहाँ आ पहुँचे है । उनसे युद्ध करके भी विजय पाना कठिन ही है, अतः आज ही सीताजी को श्रीराम की शरण में ले जाकर सौंप देने की कृपा करें । या युद्ध ही करना है तो शीघ्र ही संग्राम प्रारम्भ करने की कृपा करें । ८६ रामचन्द्रजी ने एक संदेश भेजा है उसे मैं बताता हूँ । “कौन सी मति को अपनाकर आपने सीता का हरण किया है । अब समय हो चुका है अतः मुँह समक्ष रख कर संग्राम करने के लिए आगे आओ । कल तुझे मैं ध्वस्त कर डालूँगा, अतः मैं तुझे पहले से सूचना देता हूँ । मैं तुझे ललकार कर कहता हूँ कि यदि तुझको न भी मारा तो ऐसे नहीं छोड़ूँगा । ८७ हे शुक् ! केवल इतना ही तुम रावण को जाकर सुना देना । जब तुम ही जा रहे हो तो और किसको भेजूँ ? अतः तुम अपने मन में समझ लेना । ऐसा समाचार कहने के लिए श्रीरघुनाथ का आदेश हुआ है । अतः वह समाचार मैंने श्रीमन् के सम्मुख सत्य वर्णन

मेरो बुद्धि म बिनति गर्छु अहिले
जीती सकनु कदापि छैन अरुले
सीता आज लगेर सुम्पनु हवस्
बाँच्न्या येति उपाय देख्छु नहि ता
यो बिनती शुक्ले गन्यो र सुनि खुप्
लाग्यो भन्न मलाइ पाजि शुक यो
औरै कोहि भया त निश्चय यहाँ
यस्का गुण् अधिका थिया र गुणले
रावण्ले शुक्लाइ जा भनि तहाँ
त्यो शुक् ब्राह्मण हो अघी पछि सराप्
राक्षस् हूनु सराप् पनी तहिं छुट्यो
रावण्देखि विदा भयो र पछि ता
ब्राह्मण हुन् घरमा थिया शुकऋषी
भोजन् दिन्छु अगस्तिलाइ म भनी
स्नान् सन्ध्या गरि आउँछू तब भनी
आयो राक्षस वज्रदंष्ट्र रिसले

राम् हुन् जगत्का पति ।
क्या भो हजुरको मति ॥
राम्का चरण्मा परी ।
आयो मरण्को घरि ॥८९॥
रावण् रिसायो तहाँ ।
अती दीन्या भो यहाँ ॥
मारीदिन्याँ पो थियाँ ।
बाँचिस् बिदा जा दियाँ ॥९०॥
बीदा जसै ता दियो ।
पर्दा तहाँ त्यो थियो ॥
बीदा तुरुन्तै भयो ।
शुक ब्राह्मण भै गयो ॥९१॥
एक् दिन् अगस्ती गया ।
निम्ता ति गर्दा भया ॥
हीड्या अगस्ती जसै ।
पायो र अन्तर् तसै ॥९२॥

किया है । ८८ मैं अभी यही विनती करता हूँ कि मेरे विचार से श्रीराम संसार के स्वामी हैं, अतः उनसे कोई भी नहीं जीत सकता । श्रीमन् की बुद्धि को क्या हो गया है । अब तो बचने का एक ही उपाय दीखता है कि राम की शरण में पड़कर सीताजी को सौंपने की कृपा करें, नहीं तो मृत्यु की घड़ी नजदीक आ गयी है ।” ८९ शुक की इस विनती को सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया और कहने लगा—पाजी शुक ! आज तू ही मुझे शिक्षा दे रहा है । तेरी जगह यदि कोई और होता तो अवश्य ही उसे मार डालता । लेकिन पहले के तेरे कुछ गुण (सेवाएँ) हैं उसी कारण बच गया है; जा तुझे छोड़ दिया । ९० रावण ने शुक को विदा किया । वैसे ही उस शुक ने जो पहले शाप के फलस्वरूप वहाँ, ब्राह्मण से राक्षस की योनि में उत्पन्न हुआ था, शाप से तुरन्त मुक्ति पाई और रावण से विदा लेने के पश्चात् वह पुनः ब्राह्मण हो गया । ९१ ब्राह्मण होने के समय, शुक के घर में एक दिन ऋषि अगस्ति पधारे । उसने अगस्ति को भोजन के लिए निमंत्रित किया । जैसे ही अगस्ति जी ‘स्नानादि करके आऊँगा’ कहकर चले गये, वैसे ही ब्रजदंष्ट्र नामक राक्षस क्रुद्ध होकर आ गया । ९२ जैसा रूप मुनि अगस्ति का है, ठीक वैसा ही

जस्तो रूप छ अगस्तिको उहि स्वरूप धान्यो र वोल्यो पनि ।
 मासू खान मलाइ देउ तिमिले इच्छा छ मेरो भनी ॥
 यस्तो छल् पहिले गन्यो र पछि फेर खान्या बखत्मा पनि ।
 मासू मानिसको लगी मिसिदियो ठीक् शुक्क पत्नी वनी । ९३।
 भाग् देख्ता ति अगस्तिकारिसउठ्यो दीया सरापै पनि ।
 मासू मानिसको दिइस् त तँ भयास् राक्षस् अवश्यै भनी ॥
 शुक्ले विन्ति गरचा खवर् हुन गयो यो छल् परचाको जसै ।
 चाँडै छुट्ट हुन्या अगस्ति ऋषिले वेला बताया तसै ॥ ९४ ॥
 हेशुक ! राम् अवतार् हुन्याछ बसलौ रावण् कहाँ गै तहीं ।
 रामको दर्शन पाउला तहिं सराप छुट्ला नजाऊ कहीं ॥
 यस्तो अर्ति अगस्तिको सुनि उसै माफिक् गरचाका थिया ।
 रामको दर्शनले सराप छुटिगयो फेर वृत्ति आफ्नै लिया ॥ ९५ ॥
 रावण्की महत्तारिको पनि पिता हूँ हित् म भन्छू भनी ।
 रावण्का नजिकै गईकन भन्यो हित् माल्यवान्ले पनि ॥
 राम् नारायण हुन् सिता पनि उनै लक्ष्मी भनी ज्ञानले ।
 सीता सुम्पिदिहाल राख मनमा पूजा गरी ध्यानले ॥ ९६ ॥

स्वरूप धारण क्रिया और बोला, कि मुझे मांस दो, मेरी मांस खाने की इच्छा है। इस प्रकार का छल पहले भी किया और भोजन के समय भी किया। ठीक शुक की पत्नी बनकर मनुष्य का मांस ले जाकर मिला दिया। ९३ मांस देखते ही अगस्ति ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय शाप दे दिया कि तुमने मनुष्य का मांस दिया है, तुम अवश्य ही राक्षस हो जाओ। इस छल किये जाने की बात सुनकर शुक ने विनती की। तब अगस्त ऋषि ने शीघ्र ही छुटकारा पाने का समय बताया। ९४ हे शुक ! राम का अवतार होगा। अतः रावण के यहाँ जाकर राम के दर्शन पाने पर ही तुम्हारा शाप समाप्त होगा; अब अन्यत्र कहीं न जाओ। अगस्ति का ऐसा उपदेश सुनकर शुक ने उसी के कहे अनुसार किया। फिर राम के दर्शन पाकर शाप से मुक्ति पायी और पुनः अपनी (ब्राह्मण-) वृत्ति को अपनाया। ९४ “हे रावण ! मैं तेरी माता का भी पिता हूँ अतः हित के लिए ही कहता हूँ कि राम नारायण हैं और सीता जी साक्षात् लक्ष्मी हैं। अतः तुम तो स्वयं ज्ञानवान् हो। सीता को विना देर किये ही श्रीरघुनाथ को सौंप दो।” रावण के पास जाकर, मल्यावान ने इस प्रकार कहा और समझाया कि मन में ध्यान देकर राम का पूजन करो। ९६ नगर में उत्सव का

उल्का हुन्छ अनेक् अनेक् शहरमा
 काहीं छैन बताउँ यो म महाराज् !
 तस्मात् बिन्ति छ यो बहुत् हजुरमा
 सीतानाथकन ईश्वरै बुझि सिता
 यो बिन्ती सुनि माल्यवान् सित बहुत्
 लाग्यो भन्न रिसाइ आज तिमि क्या
 क्याले राम् परमेश्वरै भनि भन्यौ
 लिन्छन् वानरको सहाय कसरी
 तिम्रा बात् सुनि चित्त पोल्छ तिमिता
 मन्त्री वर्ग लगाइ साथ घरमा
 रावण् उच्च अटालिमा बसि कती
 हेर्दै लड्न त मन् गरीकन हुकूम् दिन्थ्यो लडून् वीर् भनी ॥९९॥
 देख्नुभो रघुनाथले र तहि वाण् छोडीदिनुभो जसै ।
 तेस् बाण्ले दश छत्रदश मुकुट सब् काटी खसाल्यो तसै ॥
 आपना छत्र र दश मुकुट जब गिन्या लाज् मानि रावण् पनि ।
 ओल्यो जल्दि अटालिदेखि र गयो हान्नन् इफेरी भनी ॥१००॥

कहीं नामोनिशान नहीं है । उधम ही मात्र है । हे महाराज ! यहाँ कुछ भी नहीं जो आपको बताऊँ । इसीलिए श्रीमन् से मेरी यह विनती है कि इसे हित की बात समझें और सीतापति को ईश्वर जानकर सीता को उन्हें सौंपने की कृपा करें । ९७ इस विनती को सुनकर रावण को माल्यवान पर अत्यधिक क्रोध आया और क्रोधावस्था में ही कहने लगा कि वृद्ध होकर भी तुम आज यह क्या कह रहे हो, राम को कैसे परमेश्वर कहा, वह भी तो मनुष्य ही है । वह तो वानरों की सहायता लेता है, उसे मैं किस प्रकार ईश्वर मानूँ । ९८ तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा चित्त ही जलने लगता है । अतः तुम घर लौट जाओ । तुरन्त ही माल्यवान को मन्त्रियों के साथ करके उसे घर भेज दिया । वहाँ उच्च अट्टालिका में बैठ, कितना बड़ा वीर आया है, देखते हुए लड़ना समाप्त करके, वीरों को लड़ने की आज्ञा दे रहा था । ९९ रघुनाथ ने जैसे ही देखा वैसे ही अपने बाण से प्रहार किया । उस बाण के प्रहार से ही दस छत्र और दसों मुकुट टूट कर गिर गये । अपने दस छत्र तथा मुकुटों को गिरा देखकर रावण अत्यन्त ही लज्जित हुआ और अट्टालिका से उतर कर चला गया, इस भय से राम फिर से प्रहार न कर दें । १०० दरबार के

दर्बार् भित्त पसी हुकूम् पनि दियो लौ लड्न जाऊ भनी ।
 निस्क्या लड्न भनी प्रहस्तहरु वीर् छोपेर भूमी पनि ॥
 रांगा ऊँट् गदहा र सिंहहरुमा वीर् वीर् सवारी भया ।
 नाना शस्त्र र अस्त्र लीकन अनेक् वीर् लड्न जल्दी गया ॥१०१॥
 चार् ढोकातिरवाट निस्किकन फौज् साम्ने भेयेथ्यो जसै ।
 वानरले नजिकै गईकन जगा घेरी लिया सब तसै ॥
 रावणको सब फौज निस्कन तहाँ पायेन ठाऊँ पनि ।
 गर्जन्छन् सब वीर वानरहरु राम्चन्द्र जित्छन् भनी ॥१०२॥
 यस्तै रीत्सित घेरिहान्न पनि जब् लाग्या यि वानरहरु ।
 राक्षस्को पनि फौज् हटेन डरले प्राण् त्यज्ज लाग्या वरु ॥
 संग्राम् यस् रितले जसै हुन गयो ताहाँ ति वानर् भन्या ।
 श्रीराम्को करुणा कटाक्ष हुनगै अत्यन्त योद्धा बन्या ॥१०३॥
 राक्षस्तर्फ भन्या घटचो बल सबै ठूला ठूला वीर् मन्या ।
 मान्या वानरले ति राक्षस सबै चौथाइ बाँकी गन्या ॥
 आफ्नू फौज् सब नष्ट देखिकन वीर् साह्रै लडाकी शुरो ।
 आयो इन्द्रजितै म लड्दछु भनी सर्वास्त्रमाको पुरो ॥१०४॥

अन्दर प्रवेश करते ही रावण ने वीरों को लड़ने के लिए जाने की आज्ञा दी । समस्त वीर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर, भैंस, ऊँट, गर्दभ, और सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए शीघ्र ही चल दिये । १०१ जैसे ही चारों ओर के द्वारों से रावण की सेना निकली, वैसे ही वानर-सेना ने आकर उन सबको घेर लिया । रावण की सेना को वहाँ से निकलने का कोई स्थान नहीं रहा । समस्त वीर वानर गर्जना करते हुए कह रहे थे कि श्रीराम ही विजयी होंगे । १०२ इसी क्रम से घेरते हुए वानर-सेना रावण की सेना पर प्रहार करने लगी । राक्षसों की फौज वहाँ से भागी नहीं, बल्कि राक्षसगण भयभीत होकर अपने प्राण त्यागने लगे । जब संग्राम इस प्रकार होने लगा तब वानर कहने लगे, “यह सब श्रीराम की महिमा है । उन्हींकी कृपा है कि हम सब अत्यन्त योद्धा बन गये हैं” । १०३ राक्षसों की सारी शक्ति जाती रही और सब बड़े-बड़े वीर मारे गये । वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, जिनमें से अब केवल चौथाई ही बाकी थे । अपनी सेना को इस प्रकार समाप्त होते देख वीर सूरमा इन्द्रजीत, जो सब अस्त्रों में प्रवीण था, युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा । १०४—वानर और सेना पर हथियारों से

वानर्को सब फौजलाइ हतियार छाडेर मर्दन् गन्यो ।
 श्रीराम्ले पनि ब्रह्मपाश अति ठुलो जान्ने र मान्ने पन्यो ॥
 एक छिन् चुप् रहनु भयो र रघुनाथ फेरी तयारी भई ।
 ऐले मार्दछु मेघनादकन भनी साम्ने उसका गई ॥१०५॥
 माग्नभो धनु देउ लक्ष्मण ! भनी श्रीरामजीले जसै ।
 मार्छन् की भनि मेघनाद डरले फर्केर भाग्यो यसै ॥
 भाग्दामा प्रभुजी मुसुक्क मनले हाँसेर भन्छन् अनि ।
 यो बच्चा पनि जोरि खोज्न मकनै चाहन्छ कच्चा बनी ॥१०६॥

पृथिवितल गिन्याका वीर् बचाऊनलाई ।
 हुकुम प्रभुजिको भो वीर् हनुमानलाई ॥
 ढिल नगर हनुमान् ! क्षीर सागर छ जाऊ ।
 तहिं छ अगम पर्वत् द्रोण लीयेर आऊ ॥१०७॥
 वखति तहिं छ तेही ख्वाइ यो फौज बचाऊ ।
 यति गरि शुभ कीर्ति दश दिशामा चलाऊ ॥
 हुकुम सुनि तुरुन्तै द्रोण लीयेर आया ।
 पृथिवितल गिन्याका वीरलाई बचाया ॥१०८॥
 यति गरि हनुमान्ले कीर्तिले लोक छाया ।
 फिरि लगि उहिं पर्वत् द्रोण राखेर आया ॥

प्रहार करने लगा । श्रीरामचन्द्र को अत्यधिक विराट ब्रह्मपाश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य होना ही पड़ा । श्रीराम एक दिन तो चुप रहे, किन्तु पुनः तैयार होकर, यह कहते हुए कि मेघनाद को अभी मारता हूँ, उसी के सामने जा डटे । १०५ जैसे ही श्रीरामने मेघनाद को मारने के लिए लक्ष्मण से धनुष-बाण माँगा, वैसे ही भयभीत होकर मेघनाद वहाँ से भाग खड़ा हुआ । उसको भागते देख कर प्रभु मन ही मन मुस्कराते हुए कहते हैं कि यह बच्चा इतना कमजोर होते हुए भी मुझसे लड़ने की अभिलाषा रखता है । १०६ भूमि पर गिरे हुए वीरों को बचाने का आदेश वीर हनुमान को देते हुए प्रभु राम ने कहा, हे हनुमान ! अब विलम्ब न करो । तुम क्षीरसागर चले जाओ और वहाँ पर एक अगम द्रोणपर्वत है, उसे उठा लाओ । १०७ उसी औषधि के द्वारा इस सेना को बचाओ और ऐसा करके दसों दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाओ । श्रीराम की ऐसी आज्ञा सुनकर हनुमान तुरन्त ही जाकर द्रोणपर्वत उठा लाये और उस औषधि को खिलाकर धराशायी वीरों को बचाया । १०८

जब त वखति पाई होश भो वानरै ता ।

तव त भइ खुसालू नाचन लाग्या सबै ता ॥१०९॥

लाग्यो वानर-सैन्य गर्जन यसै वीच्मा र रावण् तहाँ ।
 लाग्यो भन्न मलाइ मारन बलवान् यो शत्रु आयो यहाँ ॥
 जाऊ लौ अतिकाय वीरहरु तहाँ खुप्लडन कम्मर् कस्या ।
 मान्याछू तिमिलाइ निश्रय नगै याहीं घरैमा वस्या ॥११०॥
 हुकुम् यो अतिकाय वीरहरुले सुन्या र कम्मर् कसी ।
 पाँच्या वानर सैन्य मारन हतियार् छोड्या अगाडी पंसी ॥
 वानरले पनि वृक्ष पर्वत मुठी दाह्या नखैले गरी ।
 रावण्का बलको बिनाश् गरिदिया ताहाँ अगाडी सरी ॥१११॥
 मारनू भो रघुनाथले कति तहाँ सुग्रीवजीले कति ।
 अङ्गद् श्री हनुमान लक्ष्मण इनै वीरले गिराया कति ॥
 श्रीराम्को करुणा कटाक्ष हुन गै वानर् बलीया भया ।
 राक्षस्मा करुणा भयेन र तहाँ राक्षस् मरी गै गन्या ॥११२॥
 सर्वेश्वर् सर्वरूपी प्रभुकन यसरी लडन पो क्यान पथर्यो ।
 वाक्वाण्एक्छोडि दींदा पनि तति रिपुको नाश् उसैले त गथर्यो ॥

ऐसा करने से हनुमान का यश सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हो गया । फिर से जाकर हनुमान उस द्रोणपर्वत को वहीं पर रख आये । औषधि खाकर जब उन वानरों को चेतना आयी, तो वे सब प्रसन्नता के वशीभूत हो नाचने लगे । १०९ इसी बीच वानर-सेना की गर्जना हुई । इस गर्जना को सुनकर रावण ने कहा कि मुझे मारने के लिए शक्तिशाली शत्रु यहाँ आये हैं । हे विशाल शरीर वाले वीरो ! कमर कस कर शत्रु से लड़ने के लिए जाओ और यदि वहाँ न जाकर घर पर ही बैठे रहे तो मैं तुम सबको निश्चय ही मार डालूंगा । ११० रावण की विशाल सेना ने आज्ञा पाते ही कमर कस कर वानर-सेना को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ कर प्रहार किया । वानर-सेना ने भी रावण की विशाल सेना पर पर्वत, गदा, मुष्टिक, एव नाखूनों से प्रहार किया । उनके इस प्रहार ने रावण की शक्ति को नष्टप्राय कर डाला । १११ कितनों को रघुनाथ ने स्वयं मारा और कितनों को सुग्रीव ने मारा । अंगद, हनुमान और लक्ष्मण जैसे वीरों ने न जाने कितनों को समाप्त कर डाला । श्रीराम की कृपा से समस्त वानर बलवान हो गये और राक्षसों पर कोई कृपा नहीं की; अतः अनेक राक्षस मारे गये । ११२ सबके ईश्वर प्रभु राम

मायाले सच्चिदात्मा नर भइ नरका युद्ध लीलादि गर्छन् ।
जुन् लीलाले त पापी अधम पतितको पाप सन्ताप हर्छन् ॥११३॥
रावणले अतिकाय वीरहरूको फौज मारिएको जसै ।
सून्यो दुःखि भएर पूर्ण रिसले खुप् लड्न आँट्यो तसै ॥
सुन्दर एक् रथमा चढ्यो र हतियार् शस्त्रास्त्र फेर सब लियो ।
लङ्का रक्षण गर्नु इन्द्रजितले भन्न्या हुकूम्यो दियो ॥११४॥
केही फौज पनि साथमा लिइ गयो श्रीरामजी छन् जहाँ ।
रोक्या वानर सैन्यले र रिसले मान्यो अनेक वीर तहाँ ॥
सुग्रीवादि बडा बडा जति थिया वीर वीर तिनैले पनि ।
जीतीसक्नु भयेन सबकन जित्यो मान्यो जमीन्मा गनि ॥११५॥

देख्यो विभीषणजिलाइ गदा लियाका ।

श्रीरामका चरणमा दृढ मन् दियाका ॥

झन् मुख्य शत्रु त यही छ भनेर ठान्यो ।

साह्रै रिसाइकन शक्ति उठाइ हान्यो ॥११६॥

आयो शक्ति तहाँ विभीषणजिको प्राण खँचन्या सुर् गरी ।
लक्ष्मणले तहिं झट् बचाउनु भयो आफू अगाडी सरी ॥

के साथ युद्ध करने की क्या पड़ी थी । एक ही वाक्प्रहार से तो वे शत्रुओं को वहीं नष्ट कर सकते थे । माया-मोह से रहित सच्चिदानन्द, मानव-जन्म लेकर, मानव ही की भाँति लीला करते हैं, जिस लीला के द्वारा अनेक पापियों, अधम लोगों और पतितों के पाप और संताप का हरण होता है । ११३ रावण ने जैसे ही यह सुना कि उसकी विशाल सेना मार डाली गयी है, तो उसे बहुत दुःख हुआ और क्रुद्ध होकर वह स्वयं ही युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया । तत्पश्चात् एक सुन्दर रथ पर सवार हुआ, और शस्त्रास्त्र सब कुछ लेकर आदेश दिया कि इन्द्रजीत अब लंका की रक्षा करेगा । ११४ कुछ फौज लेकर श्रीराम जहाँ थे वहीं जा पहुँचा । वानर-सेना ने उसे रोककर अनेक वीरों को मार डाला । सुग्रीव आदि बड़े-बड़े जितने भी वीर थे उनको कोई भी नहीं जीत सका; बल्कि रावण के वीरों को ही जमीन पर गिरा-गिराकर मार डाला । ११५ श्रीराम के चरणों में ध्यान करता हुआ और हाथों में गदा लिए विभीषण को देख कर सोचा कि असली शत्रु तो यही है, और क्रोधित होकर उसी पर अपनी शक्ति से प्रहार किया । ११६ शक्ति विभीषण के प्राणों को समाप्त करने के उद्देश्य से मारी थी, लेकिन लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उन्हें

शक्ती लक्ष्मणलाइ बज्रन गयो लक्ष्मण्जि मूर्छा पन्था ।
 मूर्छा पर्नु कहाँ थियो प्रभुजिले चेष्टा नरैको गन्था ॥११७॥
 लक्ष्मण्लाइ उठाउनाकन तहाँ दौडेर रावण् गयो ।
 सक्थ्यो रावणले उठाउन कहाँ आश्चर्य मान्दो भयो ॥
 लक्ष्मण्लाइ उठाउन्या बखतमा देख्या उठयो रिस् पनि ।
 यै बीचमा हनुमान् गया नजिकमा रावण् गिराऊं भनी ॥११८॥
 हान्या बज्र समान् कठोर मुठिले बज्ज्यो मुठी त्यो जसै ।
 रावण् हो बलवान् तथापि रगतै छाद्दै गिन्यो पो तसै ॥
 लक्ष्मण् श्रीहनुमानदेखि खुशि भै साह्रै हलूका भया ।
 लक्ष्मण् लाइ उठाइ जल्दि हनुमान् राम्चन्द्रजीथ्यै गया ॥११९॥
 लक्ष्मण् नारायणै हुन् भनि बुझि डर भै शक्तिले छाडिदीयो ।
 रावण् मूर्छा पन्थाको पनि उठि उ बखत् फेर धनुर्बाण लीयो ॥
 सीतानाथ् श्रीजगन्नाथ् प्रभु पनि हनुमान् वीरका पीठमाहाँ ।
 चढ्नुभो लड्नु मनसुब् गरिकन लिनु भो फेर धनुर्बाणताहाँ ॥१२०॥
 टङ्कार् खुप् धनुको गरी हुकुम भो उम्केर जालास् कहाँ ।
 तेरा बन्धु निभाइ यो रणमहाँ माछू तँलाई यहाँ ॥

बचा लिया । शक्ति लक्ष्मण के जाकर लगने से, वे मूर्छित हो गये । लक्ष्मण का मूर्छित होना था कि श्रीराम मनुष्य की ही भाँति प्रयत्न करते रहे । ११७ लक्ष्मण को उठाने के लिए रावण दौड़कर वहाँ गया, लेकिन रावण कहाँ उठा सकता था । यह देखकर आश्चर्य हुआ । लक्ष्मण को उठाते देख (हनुमान को) क्रोध आया । इसी बीच हनुमान रावण को मार गिराने के उद्देश्य से उसके नजदीक जा पहुँचे । ११८ उन्होंने आकर बज्र के समान दढ़ मुठी से रावण पर ऐसा प्रहार किया कि रावण इतना बलिष्ठ होते हुए भी रक्त वमन करते हुए उसी क्षण गिर पड़ा । लक्ष्मण ने हनुमान से प्रसन्न होकर अपने को भारों से विमुक्त अनुभव किया । तत्काल ही हनुमान लक्ष्मण को उठाकर श्रीराम के पास ले गये । ११९ लक्ष्मण को नारायण जानकर शक्ति ने मूर्छित मात्र करके छोड़ दिया । उसी समय रावण ने भी मूर्छावस्था से उठकर अपना धनुष-बाण संभाला ।” सीतापति श्रीजगन्नाथ प्रभु ने भी वीर हनुमान की पीठ पर सवार होकर युद्ध करने की इच्छा से धनुष-बाण संभाल लिया । १२० धनुष-बाण को ठीक करते हुए आज्ञा दी, “बचकर कहाँ जाओगे । तुम्हारे सभी बन्धुओं को समाप्त कर

रावणले इवचन् सुन्यो र विजवाफ् भै रिस् मनैमा लियो ।
 हान्यो श्रीहनुमानलाइ शरले घाऊ लगाई दियो ॥१२१॥
 घाऊ श्रीहनुमानका शरिरमा देख्नु भयेथ्यो जसै ।
 साह्रै रिस् उठि कालरुद्र सरिका ठाकुर हुनु भो तसै ॥
 घोडा रथ ध्वज सूत शस्त्र धनु सब छत्र पताकै पनि ।
 काटी रावणलाइ हान्नु पनि भो मूर्छा परोस् योभनी ॥१२२॥
 काटी रावणलाइ हान्नु पनि भो मूर्छा तुरुन्तै पन्यो ।
 हातैमा धनु थाम्न शक्ति नहुँदा हात्देखि भैमा झन्या ॥
 यै बीचमा शिरका किरिट शरले काटी खसाली दिया ।
 रावणका सब सेखि सान् प्रभुजिले खँचेर ताहीं लिया ॥१२३॥
 बाधा रावणलाइ खुप् सित भयो बीदा प्रभुले पनि ।
 ऐले जा घरमा भनी दिनुभयो भोली लडौंला भनी ॥
 सेखी सान् रतिभर् तहां नरहुँदा रावण् मन्या झै भयो ।
 लाज् मानीकन लड्न शक्ति नहुँदा फर्केर घर्मा गयो ॥१२४॥
 लक्ष्मण् मूर्छित झै भया र रघुनाथ् शोक् गर्न लाग्या हरि ।
 जस्तो मानिस गछ सोहि रितका चेष्टा अनेकौं गरी ॥

तुमको भी इसी रणभूमि में मार डालूंगा । रावण ने इन बातों को सुना तो अत्यन्त क्रोधित हुआ और क्रुद्धावस्था में ही हनुमान को सर से टक्कर लगाकर आहत किया । १२१ जैसे ही श्रीराम ने हनुमान के शरीर में लगी चोट देखी, वैसे ही अत्यन्त क्रोधित होकर उन्होंने कालरूप के समान देवता का रूप धारण कर लिया, और घोड़ा, रथ, ध्वज, सूत, शस्त्र धनुष तथा पताकाओं को काटकर अंत में रावण पर भी प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो जाये । १२२ ज्यों ही श्रीराम का बाण लगा वैसे ही रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा । शक्ति क्षीण हो जाने के कारण धनुष हाथ से भूमि पर गिर पड़ा । इसी बीच उन्होंने रावण के सिर का मुकुट भी काट कर गिरा दिया और उसके सारे अभिमान को खींच लिया । १२३ रावण को भी अत्यन्त बाधा हुई । प्रभु भी विदा होते हुए बोले कि अभी घर जाओ, कल फिर युद्ध करेंगे । अभिमान इस तरह टूट जाने पर रावण मृत के समान हो गया और शक्ति न होने के कारण लज्जित होकर वापस लंका लौट गया । १२४ लक्ष्मण के मूर्छित होने पर प्रभुजी शोक करने लगे । और जिस प्रकार मनुष्य प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार प्रभु भी चेष्टा करने लगे । लक्ष्मण को

लक्ष्मण लाइ वचाउ फेरि हनुमान् ! ली आउ औषध् भनी ।
 हुकूम यो रघुनाथको तहि हुँदा दौड्याहनुमान् पनि ॥ १२५ ॥
 औषध् लीन गया जसै त हनुमान् चाल् पाइ रावण् पनि ।
 रात्रीमा उठि कालनेमि सित गो क्यै विघ्न पाऊँ भनी ॥
 राजा रावणलाइ रात्रि विचमा देखयो अकस्मात् जसै ।
 सन्मान् खुप् गरि ताहि हाजिर रह्यो त्यो कालनेमी तसै ॥ १२६ ॥
 मैले क्या गरुँ कीन आउनु भयो यो राति एकलै यहाँ ।
 यो विन्ती सुनि कालनेमि सित सब् विस्तार् वतायो तहाँ ॥
 यस्तो भो सुन कालनेमि अहिले लक्ष्मण् गिन्याका थिया ।
 तिन्लाई पनि फेरु वचाउन ठुलो राम्चन्द्रले सुर्लिया ॥ १२७ ॥
 औषध् लीन भनेर आज हनुमान् द्रोणाचलैमा गयो ।
 औषध् ल्याउन विघ्न पार तिमिले लौ जाउ वेला भयो ॥
 मायाले मुनि वेष् धरेर हनुमान्- लाई भुलाऊ गई ।
 सक्या छौ तिमिले भुलाउन ठुलो योगी सरीका भई ॥ १२८ ॥
 यस्तो रावणले हुकूम जब दियो लौ विघ्न गर् जा भनी ।
 राम् ईश्वर् बुझि कालनेमि विरले क्यै विन्ति पान्यो पनि ॥

वचाओ हनुमान ! शीघ्र ही औषधि ले आओ । रघुनाथ की इस आज्ञा को सुनकर हनुमान भी दौड़ पड़े । १२५ औषधि लाने के लिए हनुमान का चले जाना जैसे ही रावण को ज्ञात हुआ उसी क्षण रावण कोई विघ्न डालने के उद्देश्य से रात्रि को ही उठकर कालनेमि के पास गया । रात्रि में अचानक राजा रावण को जैसे ही देखा कालनेमि ने वहाँ उपस्थित रहकर अतिथि-सत्कार किया । १२६ मैं क्या सेवा कर सकता हूँ ? इतनी रात्रि गये अकेले कैसे पधारने की कृपा करी ? यह विनती सुनकर रावण ने कालनेमि से सारा विस्तार कह सुनाया । रावण ने कहा ऐसा हुआ है, सुनो कालनेमि ! अभी लक्ष्मण मूर्छित हो कर गिरा है और उसे वचाने के लिए श्रीराम ने एक बड़ा उपाय किया है । १२७ आज हनुमान औषधि लाने के लिए द्रोणाचल को गया है । औषधि लाने में तुम विघ्न उत्पन्न कर दो । समय हो गया है और तुम अभी जाओ । मायारूपी मुनि का भेष धरकर हनुमान को भुलावा दो । एक महान् योगी बनकर तुम अवश्य ही उसको भुलावा दे सकोगे । १२८ जैसे ही रावण ने विघ्न उत्पन्न करने की आज्ञा दी कालनेमि ने भी श्रीराम को ईश्वर जानकर रावण से विनती की कि हे अधिराज मैं आपके

येती हित् बुद्धि बिनित् गर्छु अधिराज् ! हीतं भन्यो यो भनी ।
 मेरो बिनित् सघाइ वक्सनु हबस् होला ठुलो हित् पनि ॥१२९॥
 ज्यान्को आश् पनि कत्ति छैन अधिराज् दीन्यैछु यो ज्यान् पनि ।
 जीतीन्या तर छैन जान इत हुन् चौधै भुवन्का धनी ॥
 भाई बन्धु मराइ बाँचिकन पो क्या सोख् एकलो भई ।
 ईश्वर हुन् पर रामका शरणमा ऐले तुरन्तै गई ॥१३०॥
 सीता सुम्पदिहाल राज्य पनि यो देऊ विभीषण् गरून् ।
 खूशी भैकन आजदेखि रघुनाथ् तिम्रा विपत्ती हरून् ॥
 जाऊ लौ वनमा र लेउ मनमा आत्मै विचारको मति ।
 मायाले त भुलाउँछिन् जगतमा यस्तै छ तिनको गति ॥१३१॥
 आत्मा चिन्न अवश्य पर्छ महाराज् एकाग्र भै ध्यान् गरी ।
 आत्मा चिन्न समर्थ होइ नसक्या राम् भज्नु एकम्न् गरी ॥
 कौस्तुभ् हार किरीट केयूर अनेक् भूषण् शरीर्मा धरी ।
 आपना यै हृदयारविन्द बिचमा राखेर खुप् ध्यान् गरी ॥१३२॥
 सीताराम्कन भज्नुपर्छ अधिराज् ! राम् हुन् जगत्का पति ।
 ईश्वर् जानि अश्य छोड तिमिले यस्तो विरोधको मति ॥

हित के लिए ही यह कहता हूँ । मेरी विनती को स्वीकार करने की कृपा करें, बड़ा ही हित होगा । १२९ प्राण की तो मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं है अधिराज ! ये प्राण भी दे दूंगा, तब भी आप जीत नहीं पायेंगे । स्वयं ही सोचिए कि वे तो चौदह भुवन के स्वामी हैं । भाई-बन्धुओं को मरवाकर राजा के बचे रहने में क्या सुख है । राम ईश्वर ही हैं, अतः तुरन्त राम की शरण में जायें । १३० आज ही सीता को भी सौंप दें और राज भी विभीषण को दे दें । तत्पश्चात् प्रसन्नचित्त से रघुनाथ आपकी विपत्ति का हरण करेंगे । वन में जाकर मन में आत्मतत्त्व का चिन्तन करें । उनकी गति ही ऐसी है कि इस संसार में माया द्वारा भुलाया जाता है । १३१ एकाग्रचित्त से ध्यान करके आत्मा को अवश्य पहचानना पड़ता है । और यदि पहचानने में असमर्थ हों, तो एक मन से राम का भजन करें । कौस्तुभ, हार, मुकुट और केयूर, अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त राम को अपने इसी हृदय-अरविन्द में ग्रहण कर ध्यान करें । १३२ सीता तथा राम को तो अवश्य ही भजना चाहिए । श्रीराम तो जगत् के स्वामी हैं । उनको ईश्वर समझकर इस विरोधपूर्ण मति को अवश्य ही त्याग दें । इतनी

येती बिनति गरेर चुप् भइरह्यो त्यो कालनेमी तहाँ ।
 अमृततुल्य वचन् सुन्यो तपनि त्यो लिन्थ्यो अधम्ले कहाँ ॥ १३३ ॥
 रावणले त रिसाइ तेस्कन तहाँ झन् मारन मन्सुब् गन्यो ।
 मान्यै मन् बुझि कालनेमि विरले फेर बिनति ताहाँ गन्यो ॥
 यस्तो क्यान रिसानि हुन्छ अधिराज्! ऐले तहाँ मै गई ।
 सर्कारको सब काम बन्दछ भन्या जान्छू तयारी भई ॥ १३४ ॥
 येती बिनति गरेर तेहि बिचमा ऊठेर दौड्यो पनि ।
 लाग्यो गर्न उपाय फेरि हनुमान् फिर्नन् नपाउन् भनी ॥
 रस्तामा गइ एक तपोवन असल् तेस्ले तयारी गरचो ।
 मायाले फुलका र फल् सहितका वृक्षादिले वन् भन्यो ॥ १३५ ॥
 एक आश्रम पनि कल्पना तहिं गन्यो आफू मुनीश्वर् वनी ।
 तेसै आश्रममा बस्यो म हनुमान्- लाई छल्ला भनी ॥
 तेस्का शिष्य अनेक् थिया वरिपरी ताहीं हनुमान् गया ।
 क्या देख्याँ अधि आश्रमै पनि यहाँ थीयेन भन्दा भया ॥ १३६ ॥
 कस्को आश्रम हो बुझी जल पिई जाँलाँ म जल्दी भनी ।
 बुझ्नै खातिर तेहि आश्रम विषे पाँच्या हनुमान् पनि ॥

विनती करके कालनेमि शान्त हो गया । लेकिन वह अधम रावण
 इन अमृत तुल्य बातों को क्यों मानने लगा । १३३ क्रोधित होकर
 रावण ने उसे मार डालने की सोची । अपने मारे जाने के
 निश्चय को जानकर कालनेमि ने फिर से विनती की, हे अधिराज !
 आप वृथा क्रोधित क्यों होते हैं । यदि मेरे वहाँ जाने से आपका
 काम बनता है, तो मैं अवश्य ही जाऊँगा । १३४ इतना कहकर
 उसी समय वह उठकर चला गया । वह ऐसा उपाय करने लगा
 कि हनुमान पुनः लौट ही न सकें । रास्ते में उसने एक उत्तम
 तपोवन की रचना की जो मायारूपी फूल तथा फलों के वृक्षों से भर
 गया । १३५ मुनीश्वर वन कर वहाँ पर उसने एक आश्रम की कल्पना
 की और उसी आश्रम में हनुमान से छल करने के उद्देश्य से बैठ गया ।
 उसमें चारों ओर अनेक शिष्य बैठे थे । हनुमान वहाँ गये और कहा
 यह मैं क्या देख रहा हूँ ? पहले तो यहाँ पर कोई उपवन नहीं था । १३६
 आश्रम किसका है, यह पता लगाने के लिए तथा जल पीने के लिए
 हनुमान उस आश्रम में पहुँचे । योगी के रूप में कालनेमि शिव का
 पूजन करके हनुमान के कार्य में बाधा डालने का उपाय सोचने

योगी भैं भइ कालनेमि शिवको पूजा विधानले गरी ।
 कुन् रीत्ले हनुमानलाइ ठगुंला भन्त्या इरादा धरी ॥१३७॥
 थियो आश्रममा र दर्शन गरूँ भन्त्या इरादा धन्त्या ।
 योगेश्वर् बुझि भक्ति राखि हनुमान् ज्यूले नमस्कार् गन्त्या ॥
 दू तहूँ श्रीरघुनाथको म हनुमान् भन्छन् मलाई पनि ।
 औषध् ल्याउन जो हुकूम प्रभुजिको हूँदा म आयाँ भनी ॥१३८॥
 सब् वृत्तान्त गन्त्या र जल्पिउनको इच्छा बहूतै थियो ।
 खोज्या जल् हनुमानले र खुशि भै तेस्ले तहाँ जल् दियो ॥
 आऊ फल् फुल खाउ पीउ हनुमान् ठण्डा छ यो जल् पनि ।
 साह्रै हत्पत गर्नु छैन तिमिले कैले म जालाँ भनी ॥१३९॥
 योगी हूँ सब जान्दछू म अहिले राम्ले नजर् खुप् गरी ।
 लक्ष्मण्लाइ बचाइ बक्सनु भयो सम्पूर्ण बाधा हरी ॥
 बानर् को पनि फौज् खडा सब भयो येती भनेथ्यो जसै ।
 तिर्खा मेटिइन्त्या नदेखि जलले बोल्या हनुमान् तसै ॥१४०॥
 तिर्खा ज्यादि छ जल् कमी छ यतिले मेट्त्तैन तिर्खा पनि ।
 धेरै जल् छ कहाँ बताउनु हवस् वाहाँ म खाँलाँ भनी ॥
 सून्यो श्रीहनुमानका र इ वचन् क्वै एक् तलाऊ थियो ।
 त्यो देखाउनलाइ एक अगुवा शिष्यै पठाई दियो ॥१४१॥

लगा । १३७ आश्रम के अन्दर दर्शन करने के विचार से जाकर और कालनेमि को मुनी समझ कर हनुमान ने उसे प्रणाम किया । वे बोले मैं श्रीरघुनाथ का दूत हूँ, मुझे हनुमान कहते हैं । प्रभुजी द्वारा औषधि लाने की आज्ञा पाकर मैं यहाँ आया हूँ । १३८ सब वृत्तान्त सुनाकर, पिपासा-शान्ति के लिए हनुमान ने जल माँगा, और उसने भी प्रसन्न होकर जल दे दिया । आओ हनुमान, फल फूल आदि खाकर ठण्डा पानी पियो । उसने पुनः कहा कि तुम्हें लौटने के लिए शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है । १३९ मैं योगी हूँ और सब कुछ जानता हूँ । अभी श्रीराम ने कृपादृष्टि करके सब बाधाओं को दूर करके लक्ष्मण को बचाने की कृपा की । वानरों की फौज भी पुनः खड़ी हो गयी है । जैसे ही यह बात कही वैसे ही, प्यास न बुझते देख कर, हनुमान बोले । १४० प्यास अधिक लगी है और जल इतना कम है कि प्यास बुझेगी भी नहीं । अधिक जल कहाँ है मैं वहीं जाकर पी लूँगा; बताने की कृपा करें । हनुमान की बात सुनकर एक शिष्य को अगुवा बनाकर

ऐले जाउ र जल् पियेर हनुमान् फर्केर आऊ यहाँ ।
 केही मन्त्र म दिन्छु त्यो सुनि गया मिलन्या छ औषध् तहाँ ॥
 सून्या श्रीहनुमानले र इ वचन् बेस् हो हवस् लौ भनी ।
 पौंच्या जल्दि तलाउमा र हनुमान् वीर्ले पिया जल्पनि ॥१४२॥
 ताहाँ तेहि तलाउ-भित्र मकरी क्वै एक वस्याकी थिई ।
 खेंची श्रीहनुमानलाइ निलुंला भन्न्या ठुलो सूर् लिई ॥
 च्यापू च्याति पछारि ताहि मकरी- लाई निभाया जसै ।
 स्त्रीको सुन्दर रूप् बन्यो र विनती त्यो गर्न लागी तसै ॥१४३॥
 स्वर्गमा म त अप्सरा अधि थियाँ नाम् धान्यमाली थियो ।
 ब्राह्मणका त सरापले मकरिको रूप् यो वनाईदिया ॥
 तसै रूप्कन मारि बक्सनु हुँदा आपत्ति मेरा गई ।
 जान्छू स्वर्गविषे म फेरि हनुमान् जस्ता कि तस्ती भई ॥१४४॥
 अर्को ब्रिन्ति म गर्छु अति सरिको त्यो हो हजूरको खुनी ।
 जस्लाई मुनि भन्नु हुन्छ हनुमान् ! थियो कहाँ त्यो मुनि ॥
 औषध् लीन गयेछ आज हनुमान् लौ विघ्न गर् जा भनी ।
 रावण्ले उपदेश् दियो र बलवान् त्यो कालनेमी पनि ॥१४५॥

जहाँ पर एक तालाब था, उसे दिखाने के लिए भेज दिया । १४१ अभी जाओ हनुमान ! और जल पीकर यहीं लौट आना । मैं तुम्हें कुछ रहस्य बताऊँगा । उसे सुनकर जाने से औषधि मिलेगी । हनुमान ने इन वचनों को सुना और तालाब में पहुँच कर शीघ्र ही जल पिया । १४२ उसी तालाब में एक मगरमच्छिनी रहती थी । हनुमान को निगल जाने के इरादे से उसने उन्हे खींच लिया । तत्काल ज्योंही जबड़ा फाड़कर उस घड़ियालिन को पछाड़ कर मार डाला त्योंही एक सुन्दर स्त्री का रूप धारण कर विनती करती हुई बोली । १४३ मैं स्वर्ग की अप्सरा थी । मेरा नाम धान्यमाली था । ब्राह्मण के शाप से मैं मगरमच्छ बन गयी । उसी रूप को नष्ट कर देने से मेरी विपत्ति समाप्त हो गयी है । हे हनुमान ! मैं जैसी की तैसी ही होकर पुनः स्वर्ग को जाती हूँ । १४४ एक विनती मैं करती हूँ कि वह आपका वध करने वाला है, जिसे आप मुनि समझते हैं । हनुमान ! वह मुनि कहाँ है ? आज हनुमान औषधि लेने गये हैं, ऐसा जानकर रावण ने उस बलिष्ठ कालनेमि को विघ्न उत्पन्न करने के लिए यहाँ आने की आज्ञा दी । १४५ तभी उसने विघ्न उत्पन्न करने के लिए एक चाल यह

विघ्नै गर्न भनेर आइ अहिले त्या चाल तेस्ले गन्यो ।
 तेस्लाई तहिं मार औषधि पनी ली जाउ बेला पन्यो ॥
 यो बिन्ती गरि इन्द्रका हजुरमा त्यो धान्यमाली गई ।
 आश्रममा हनुमान् फिन्या उहि बखत् केही नजान्ग्या भई ॥ १४६ ॥
 देख्यो श्रीहनुमानलाइ नजिकै आई पुग्याको जसै ।
 मेरो काम् अब सिद्ध गर्दछु भनी त्यो बोल्न लाग्यो तसै ॥
 ऐले दिन्छु म सिद्ध मन्त्र हनुमान् ! यो मन्त्र लेऊ पनि ।
 देऊ लौ गुरु-दक्षिणा पनि ठुला मेरा गुरु हौ भनी ॥ १४७ ॥
 छल्छाम्का इ वचन् सुन्या र हनुमान् वीर्को उठ्यो रीस् पनि ।
 हान्या मुड्कि उठाइ तेहि बिचमा लौ दक्षिणा ले भनी ॥
 पायो चोट् तहिं मुड्किको र मुनि वेष् तेस्को तुरुन्तै गयो ।
 जस्तो राक्षसको स्वरूप अधि थियो सोही स्वरूपको भयो ॥ १४८ ॥
 माया राक्षसको अनेक् तरहका त्यो गर्न लाग्यो जसै ।
 हान्या मुड्कि उठाइ फेरि शिरमा ताहीं मन्यो त्यो तसै ॥
 येती कर्म गरेर जल्दि हनुमान् द्रोणाचलैमा गया ।
 पर्वत् बोकि तुरन्त फर्कि सहजै दाखिल् प्रभूथ्यै भया ॥ १४९ ॥
 खूशी खुप् रघुनाथ् तहाँ हुनुभयो औषध् सुषेण्ले गन्या ।
 बाधा लक्ष्मणमा सबै जति थिया त्यै औषधिले हन्या ॥

चली कि उसे वहीं मारकर औषधि लेकर चला जाये । इन्द्र जी की सेवा में वह धान्यमाली भी गयी और उसी समय आश्रम में श्रीहनुमान भी अनजान बनकर आये । १४६ हनुमान को निकट आते देख कर उसने सोचते हुए कि अब मैं अपना कार्य सिद्ध करता हूँ, कहने लगा— “हे हनुमान ! अभी मैं तुमको एक सिद्धमंत्र देता हूँ । इस मंत्र को स्वीकार करो तथा मुझे अपना गुरु जानकर दक्षिणा दो । १४७ उसके मुख से इस प्रकार के कपट के वचन सुनकर हनुमान अत्यन्त क्रोधित हुए । तुरन्त ही मुट्टी बाँध कर उस पर प्रहार करते हुए कहा—लौ दक्षिणा ! प्रहार होते ही उसका मुनि का रूप भंग हो गया । तत्काल ही वह राक्षस-रूप बन गया । १४८ जब वह राक्षस अनेक प्रकार से छल करने लगा तो क्रुद्ध हनुमान ने फिर से उस पर अपनी मुठि से सिर पर प्रहार किया, ऐसा करने से वह राक्षस तुरन्त ही मृत्यु को प्राप्त हुआ । इस कार्य को समाप्त करके हनुमान तुरन्त ही द्रोणाचल की शरण में गये और (उस) पर्वत को उठाकर बड़ी ही सरलता से श्रीरघुनाथ के समक्ष आ उपस्थित हुए । १४९ यह सब देख कर

रावण्माथि दगा धरेर सहजै लक्ष्मण् उठचाथ्या जसै ।
 बाँच्या भाइ दया गन्यौ र हनुमान्! भन्न्या हुकूम भो तसै ॥१५०॥
 संग्राम्को मतलब् गरेर प्रभुजी सामने हुनूभो तहाँ ।
 वानर्को पनि फौज् सबै अधि सन्यो ऊ झन् रहन्थ्यो कहाँ ॥
 जस्तै सर्प गिराउँछन् गरुडले सोही तमासा गरी ।
 रावण्लाइ गिराइ बक्सनु हुँदा गीरेर मूर्छा परी ॥१५१॥
 ऊठी दुःख बहूत पाइ मनले हारी गयाको थियो ।
 श्रीराम्चन्द्रजिको प्रचण्ड बल त्यो बूझी लहड् खुप् लियो ॥
 बेस् सिंहासनमा बसी सकल वीर् राखी सभा खुप् गरी ।
 लाग्यो भन्न म- मर्छु हेर विर हो ! राम्का अगाडी परी ॥१५२॥
 राम् नारायण हुन् अवश्य बुझियो चौधै भुवन्का धनी ।
 मानिस्को अवतार् लिया प्रभुजिले मार्छन् मलाई पनि ॥
 मानिस्देखि त मर्नुपर्छ मइले ब्रह्माजिको वर् छ यो ।
 मानिस् भै रघुनाथ् सन्या अधि भन्न्या काल् टार्न सकन्याछ को ॥१५३॥
 राजा वीर् अनरण्य सूर्य कुलमा ववै एक महात्मा थियो ।
 मैले व्यर्थ विरोध् गन्याँ र उ बखत् तिन्ले सराप् पो दिया ॥

रघुनाथ अत्यन्त प्रसन्न हुए और औषधि लेकर लक्ष्मण का उपचार करने लगे । लक्ष्मण के शरीर में जितनी पीड़ा थी, समस्त पीड़ा उसी औषधि से शान्त हुई । रावण से प्रतिशोध लेने की भावना के उत्पन्न होते ही लक्ष्मण उठ खड़ा हुआ । भाई को तुरन्त ही स्वस्थ हुआ देखते ही श्रीरघुनाथ ने प्रसन्न होते हुए हनुमान को धन्यवाद दिया । १५० संग्राम करने के विचार से श्रीरघुनाथ सामने आये तथा समस्त वानरसेना भी वहाँ उपस्थित हो गयी । जिस प्रकार गरुड ने सर्प को गिराने के लिए तमाशा किया था, उसी प्रकार रघुनाथ ने रावण को भी गिराकर मूर्च्छित कर दिया । १५१ बड़े कष्ट के साथ (वह) उठ कर मन-ही-मन अपनी हार पर पश्चाताप करने लगा । अतः श्रीरामचन्द्र की प्रचण्ड शक्ति को रावण समझ गया । तत्पश्चात् समस्त वीरों को बुलाकर एक सभा की और कहने लगा, वीरो ! मैं राम के आगे जाकर ही मृत्यु को प्राप्त होऊँगा । १५२ श्रीराम नारायण हैं तथा चौदह भुवनों के मालिक हैं—यह बात रावण की समझ में आ गयी । मुझे मारने के लिए ही राम ने मनुष्य का अवतार लिया है । मनुष्य के हाथों ही मुझे मरना है—यही वर ब्रह्मा ने दिया

मेरा वंशमहाँ अवश्य अवतार नारायणैले लिनन् ।
तेरो राक्षसवंश मारि सहजै तैलाइ मारीदिनन् ॥१५४॥
दीया येति सराप् र तेस् बखतमा राजा बिती पो गया ।
सोही पूर्ण गराउनाकन यहाँ श्रीराम् तयारी भया ॥
आया श्रीरघुनाथ् मलाइ अहिले माने इरादा धरी ।
माछेन् निश्चय आज मछुँ सहजै राम्का अगाडी परी ॥१५५॥
भाई मूर्ख छ कुम्भकर्ण अज्ञतक् यस्तो पन्यो तापनि ।
सूतेको छ उठाइ ल्याउ अहिले चाँडो हुकूम भो भनी ॥
हूकूम पाइ बड़ा बड़ा विर गया ल्याओँ उठाई भनी ।
पाँची जल्दि उठाइ झट् हजुरमा ल्याई पुन्याया पनि ॥१५६॥
पाऊमा परि कुम्भकर्ण बलवान् साम्ने बसेथ्यो जसै ।
रावण् ले पनि दीन् वचन् गरि सबै विस्तार सुनायो तसै ॥
हे भाई ! सुन कुम्भकर्ण ! अहिले आपत् मलाई पन्या ।
छोरा नाति समेत् बड़ा विरहरू ऐल्हे बहूतै मन्या ॥१५७॥
प्राण्को अन्त्य हुने बखत् भइ गयो बाँचन्या उपायै कहू ।
राम् शत्रू बलवान् बुझिन्छ तिमिलौ साह्रै चनाखा रहू ॥

है । १५३ (रावण ने आगे कहा—) सूर्य-कुल में एक महात्मा राजा अरण्य थे । उनका विरोध करने पर उन्होंने मुझे शाप दे दिया था कि नारायण मेरे वंश में अवश्य ही अवतार लेंगे और तेरे राक्षस वंश के साथ तुझे भी सहज ही समाप्त कर डालेंगे । १५४ ऐसा शाप देकर उस समय उस राजा का प्राणान्त हो गया । उनका कार्य पूर्ण करने के लिए श्रीरघुनाथ ने यहाँ अवतार लिया, वे मुझे ही समाप्त करने के लिए अवतरित हुए हैं । आज वे निश्चय ही मुझे मार डालेंगे । १५५ रावण कहने लगा कि कुम्भकर्ण महामूर्ख है, जो इतना सब होने पर भी अभी तक सो रहा है, अतः (उसने) उसे जगा लाने के लिए (प्रहरियों को) आज्ञा दी । आज्ञा पाते ही बड़े-बड़े सैनिक उसे उठाने के लिए गये और लाकर रावण के सम्मुख उपस्थित किया । १५६ जैसे ही कुम्भकर्ण रावण के पाँव में पड़कर सम्मुख बैठा, तभी रावण ने दीन वचनों में उसे सारा विस्तार कह सुनाया और बोला—देखो भाई कुम्भकर्ण ! इस समय मुझ पर भारी विपत्ति आयी है । पुत्र-पौत्र सहित अनेक वीर मारे जा चुके हैं । १५७ अब तो प्राणों के अन्त होने की घड़ी आ गयी है । अब वचने का क्या उपाय किया जाय ?

गम्भीर् येहि समुद्रमा पनि सहज् साँघू लगाई तन्यो ।
 वानर्को सब फौज् समेत् तरि यहाँ धेर् वीरको नाश् गन्यो ॥१५८॥
 वानर् देख्छु म वीर् अनेक् तरहका सूरा लडाकी बडा ।
 हाम्रा लशकरमा अनेक् विर मन्या वानर् सबै छन् खडा ॥
 तिन्को नाश् गरिसक्नु देखितनँ यहाँ कौनै उपायै गरी ।
 नाश् तिन्को तिमिले गराउ अहिले चाँडो अगाडीसरी ॥१५९॥
 रावण्ले इ वचन् विलाप सरिका बोली सकेथ्यो जसै ।
 हाँस्यो खुप् सित कुम्भकर्ण र तहाँ बिनती गन्यो साफ् तसै ॥
 मैले क्यागर्ह बिनति आज अधिराज् पले गन्याथ्याँ पनि ।
 राम्नारायण हुन् सिता प्रभुजिकी हुन् योगमाया भनी ॥१६०॥
 मेरो बिनति सधेन उस् बखतमा झन् खुप् रिसानी भयो ।
 तेसैको फल हो अवश्य अधिराज जो वीरको ज्यान् गयो ॥
 एक् दिन् पर्वतका उपर् शिखरमा थीयाँ म रात्री महँ ।
 नारदजीकन मध्यरात्रि बिचमा देख्याँ अकस्मात् तहाँ ॥१६१॥
 सोध्याँ आउनुभो हजुर् किन यहाँ जानू छ काहाँ भनी ।
 मेरो बिनति सुनेर सब ति ऋषिले बिस्तार् बताया पनि ॥

हमारा शत्रु राम काफ़ी बलिष्ठ मालूम देता है, अतः तुम लोग अत्यन्त सतर्क रहो । इतने गहरे समुद्र में भी वह सेतु बाँधकर सरलता से इस पार आ गया है (और उसने) वानर-सेना-सहित (आकर) यहाँ के अनेक वीरों का नाश किया है । १५८ रावण कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि वानरों में प्रत्येक शूर, वीर और कुशल योद्धा है; उनको नष्ट करने का मुझे कोई उपाय नहीं दीख रहा है । अब तुम ही इन सबका नाश करो । १५९ जैसे ही रावण ने ऐसा कहा, वैसे ही कुम्भकर्ण ठहाके लगाकर हँसा और बिनती करते हुए बोला, हे अधिराज ! आज मैं क्या निवेदन करूँ ? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि रामचन्द्र नारायण हैं और सीता जी उन्हीं प्रभु की योग-माया हैं । १६० उस समय आपने मेरी बिनती स्वीकार नहीं की और मेरे ऊपर अत्यन्त क्रोधित हुए थे । हे अधिराज ! यह उसी अस्वीकृति का फल है, जिससे अनेक सैनिकों का प्राणान्त हो गया । एकदिन रात्रि के समय मैं पर्वत के शिखर पर था कि अचानक बीच वन में नारद जी दिखायी दिये । १६१ मैंने नारद जी से पूछा था कि श्रीमन् आप यहाँ कैसे पधार पड़े और इस समय कहाँ जायेंगे ? मेरे बिनती करने पर उन्होंने सब विस्तारपूर्वक

विस्तार लौ सुन कुम्भकर्ण ! अहिले जीतेर सब् लोक लियौ ।
इन्द्रादीहरलाइ दुःख तिमिले अत्यन्त साह्रै दियौ ॥१६२॥

सब् इन्द्रादि ति विष्णुका हजुरमा पौंची शरण्मा पन्या ।
यस् रावण्कन मारिदेउ भगवन् भन्त्या त बिन्ती गन्या ॥
ब्रह्माको वरदान् छ मनु तईले मानीसदेखी भनी ।
मानिस् भैकन मारि बक्सनु हवस् मन्याछ रावण् पनि ॥१६३॥

येती बिन्ति गरेर देवगण सब् पाऊ पन्याथ्या जसै ।
सोही रीत्सित मारुँला भनि हुकूम् श्रीविष्णुको भो तसै ।
सोही बात् परिपूर्ण गर्न रघुनाथ् ऐले तयारी भया ।
मान्यैछन् तिमिलाइ निश्चय भनी ऊठेर नारद् गया ॥१६४॥

तस्मात् अवश्य रघुनाथ्कन देव जानी ।

ई वैरि हुन् भनि यहाँ रति भर् नमानी ॥

यो वैरभाव तिमिले अब छाडिदेऊ ।

भक्ती गरीकन भजन् गरि आज लेऊ ॥१६५॥

भक्ती मुख्य छ सर्व साधनमहाँ भक्ती छ सब् ज्ञान् दिन्या ।
भक्तीले सब मुक्त हुन्छ दुनियाँ हो नित्य जानी लिन्या ॥
भक्ती हीन् भइ कर्म गर्दछ भन्या यो निष्फलै हो भनी ।
जानी श्रीरघुनाथका चरणमा भक्ती लगाऊ पनि ॥१६६॥

बताया और कहने लगे—हे कुम्भकर्ण ! तुमने इन्द्रादि देवो को अधिकाधिक कष्ट दिया है । १६२ वे सब विष्णु भगवान के पास गये और विनती करने लगे कि इस रावण का वध करने की कृपा करें । उसे मनुष्य के हाथों मरना है—यही ब्रह्मा का वरदान है । अतः आप मानव-रूप धारण करके उसका वध करने की कृपा करे । १६३ जैसे ही देवगणों ने इस प्रकार विनती की, वैसे ही विष्णु देवता ने कहा कि मैं उसे मार डालूंगा । वही कार्य पूरा करने के लिए रघुनाथ तैयार हुए हैं, वे तुम्हें निश्चय ही मार डालेंगे—इतना बता कर नारद उठ खड़े हुए । १६४ अतः हे अधिराज ! रघुनाथ को देव जानकर इस आपसी वैर भाव को समाप्त कर दें तथा भक्तिपूर्वक भजन (राम-नाम-जप) आदि करे । १६५ इन सभी साधनों में भक्ति ही महान है, भक्ति ही ज्ञान को बढ़ाती है । भक्ति के अभाव में व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसे निष्फल जानकर आप श्रीरघुनाथ की भक्ति में लीन होने की कृपा करे । १६६ श्रीरघुनाथ जी

हज्जारन् अवतार छन् प्रभुजिका रामावतारले सरी ।
 अर्को छैन भजन् गन्यो पनि भन्या जस्का भजन्ले गरी ।
 जाला दुःख कतै नपाइ सहजै संसार-सागर् तरी ।
 सोही ठाम् पुगिजान्छ पूर्णरूपले जहाँ रहन्छन् हरि ॥ १६७ ॥
 जो रामचन्द्रतिर रात् दिन चित्त धर्छन् ।
 राम्कै चरित्र पढि खुप् सित मग्न पर्छन् ॥
 तिनका ति कर्मवशका सब पाप छुट्छन् ।
 बैकुण्ठका सकल सौख्य तिनै त लुट्छन् ॥ १६८ ॥

सून्यो विन्ति र कुम्भकर्ण विरको साह्रै रिसायो पनि ।
 लाग्यो भन्न तँलाइ डाकिनँ यहाँ ज्ञान् सुन्न देलास् भनी ॥
 जस्तो भन्छु म सोहि मान्नु छ भन्या गर् युद्ध साम्ने सरी ।
 सुत्नाको मतलब् छ पो पनि भन्या जा सुत् पलङ्मा परी ॥ १६९ ॥
 रावण्का इ वचन् सुनेर अहिले साह्रै रिसाया भनी ।
 क्वै उत्तर नगरी उठीकन गयो खुप् लड्न आँट्यो पनि ॥
 पर्खाल् नाधि गयो र लड्नकन सुर् बाँधी करायो जसै ।
 कालै तुल्य बुझेर वानरहरू साह्रै डराया तसै ॥ १७० ॥
 वीर् वीर् वानरलाइ पक्रि मुखमा हाल्दै र निल्दै गयो ।
 प्वाँख् लागीकन पर्वतै उडि तहाँ आई गया झैं भयो ॥

के हजारों अवतार हुए हैं, उनमें श्रीराम के बराबर कोई अन्य नहीं है। उनका भजन किया जाना चाहिए, जिससे कि मनुष्य समस्त संसार-सागर तर जायेगा तथा उसी स्थान का आनन्द प्राप्त कर सकेगा, जहाँ प्रभु विराजमान हैं। १६७ जो मनुष्य श्रीराम की ओर अपनी भक्ति लगाये रखते हैं और राम के चरित्र को पढ़ते रहते हैं, उनके पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अतः वे ही स्वर्ग का आनन्द प्राप्त कर पाते हैं। १६८ इस प्रकार कुम्भकर्ण की ऐसी विनती सुनकर रावण अत्यन्त क्रोधित हुआ और कहने लगा यहाँ तुम्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया गया है। अतः जो मैं कहता हूँ, वह तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम राम के सामने जाकर युद्ध करो और यदि सोने की इच्छा है तो जाकर पलंग पर लेट सकते हो। १६९ रावण के इन शब्दों को सुनकर वह (कुम्भकर्ण) समझ गया कि यह अत्यन्त क्रोधित है, वह उठ कर खड़ा हो गया और युद्ध के लिए चल पड़ा। वह दीवार लाँघ कर जैसे ही लड़ने के लिए गया, वैसे ही वानर-सेना (उसे साक्षात्) काल समझ कर भयभीत हो गयी। १७० युद्ध-स्थल में आये हुए वीर

सक्थ्या कुन् अघि टिकन तेस् बखतमा तेस्का अगाडी परी ।
 वानर्को सब फौज् तहाँ हटिगयो साहैसकस्मा परी ॥१७१॥
 दाज्यू भनी तहि विभीषण भेट्न आया ।
 पाऊ परीकन बहुत् गरि बिनति लाया ॥
 कान्छो विभीषण म हूँ करुणा म पाऊँ ।
 लङ्कामहाँ मकन बस्न मिलेन ठाउँ ॥१७२॥
 सीता नराख घरमा तिमि सुम्पिदेऊ ।
 राम्चन्द्रलाइ परमेश्वर जानिलेऊ ॥
 बिनती गन्याँ यति र लात् पनि मारिलीया ।
 निकलेर जा भनि मलाइ निकालिदीया ॥१७३॥
 चार् मन्त्रि साथ लिइ निक्लि म याहिं आयाँ ।
 श्रीरामका शरणमा परि बिनति लायाँ ॥
 ठूलो दया गरिलिया प्रभुले मलाई ।
 आज्काल् खुशी छु रघुनाथ् सित बस्न पाई ॥१७४॥
 बिनती विभीषणजिको जब सूनिलीया ।
 भाई चिन्हीकन खुशी भइ काख लीया ॥

वानरों को (उसने अपने) मुख में रखकर निगलना आरम्भ कर दिया । उसी समय एक पर्वत उड़कर वहाँ आया, फिर भला उस विशाल पर्वत के सामने कौन व्यक्ति टिक सकता था ! सभी वानर संकट में पड़ गये और भय के कारण वहाँ से दूर भाग गये । १७१ विभीषण अपने भाई रावण से भेंट करने वहाँ आया तथा पाँव पकड़ कर विनती करने लगा मैं आपका भाई विभीषण हूँ । मुझे लंका में रहने की कोई जगह नहीं मिली, अतः मुझ पर कृपा करें । १७२ विभीषण ने रावण से जैसे ही यह कहा कि आप सीता को अपने महल में न रखें तथा श्रीराम को परमेश्वर जानकर सीता को उन्हें सौंप दें, वैसे ही रावण ने उसे लात मारते हुए, महल से निकल जाने की आज्ञा दी । १७३ रावण के द्वारा निकाल देने पर विभीषण श्रीराम की शरण में गये तथा चार मंत्रियों को (अपने) साथ (भी) ले लिया । साथ ही यह विनती भी की कि आज मैं श्रीरघुनाथ के चरणों में रहकर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की । १७४ विभीषण की ऐसी विनती सुनकर श्रीरघुनाथ ने विभीषण को अपनी गोद में बैठा लिया और आशीर्वाद दिया—भाई ! तुम चिरंजीव रहो और श्रीराम को देव

भाई ! चिरञ्जिवि रह्या तिमि देव जानी ।
 राम्चन्द्रको गर भजन् अति हर्ष मानी ॥१७५॥
 खुप् भक्त छौ बुझिलियाँ तिमि भाइलाई ।
 भन्थ्या चिन्हेर अघि नारदले मलाई ॥
 साँच्चै भयो ति ऋषिले जति हो भन्याको ।
 प्रत्यक्ष देख्छु तिमि भक्त बडा बन्याको ॥१७६॥
 भाई विभीषण ! परै रहु जल्दि जाऊ ।
 संग्रामका बखतमा नजिकै नआऊ ॥
 यस्ता वचन् सुनि विदा भई फर्कि आया ।
 थामी नसक्नु भइ आँसु पनी सखाया ॥१७७॥

विदा भै जब ता विभीषण फिन्या यो फौज् गिराऊँ भनी ।
 लाग्यो घुम्न र कुम्भकर्ण विरले धेरै फौज् गिरायो पनि ।
 वानरको सब फौजलाई बलले थिचतै र मिचतै गयो ।
 कुन् सक्थ्यो अघि टिकन तेस् बखतमा खुप् ध्वस्त गर्दो भयो ॥१७८॥
 मुद्गर् हात लियेर येहि रितले त्यो घुम्न लाग्यो जसै ।
 फौज्को नाश् बहुतै गन्यो र रघुनाथ् साह्रै रिसाया तसै ॥
 वायव्यास्त्र उठाइ मुद्गर समेत हातै खसाल्छु भनी ।
 हान्या श्रीरघुनाथले र सहजै काटी खसाल्या पनि ॥१७९॥

जानकर हर्षित मन से (उनका) भजन करो । १७५ पहले ही किसी समय मुझे नारद जी ने बताया था कि तुम मेरे बड़े भक्त हो । उन्होंने जो कुछ भी बताया, वह सब कुछ सत्य निकला । अतः मैं तुम्हें एक महान भक्त के रूप में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । १७६ भाई विभीषण ! दूर ही रहो, युद्ध के समय सामने मत आओ । ऐसे वचनों को सुनकर विभीषण लौट पड़े (उस समय) उनकी आँखों में जो आँसू मचल रहे थे और बाहर निकल पड़ना-चाहते थे, उन्हें वे रोक न सके । १७७ विभीषण वहाँ से विदा लेकर लौट पड़े । वीर कुम्भकर्ण सेना को मार-गिराने में लीन था और अनेक (वानर-) सैनिकों को धराशायी भी कर दिया । वह वानरों के अनेक सैनिकों को अपनी शक्ति से रौंदता रहा । १७८ हाथों में गदा लेकर जब उसने (वानर-) सेना को क्षति पहुँचायी तो रघुनाथ अत्यन्त ही क्रोधित हुए । गदा-सहित हाथों को गिराने के लिए वायव्यास्त्र से श्रीरघुनाथ ने प्रहार किया और बड़ी ही सरलता से (उसके हाथों को) काटकर गिरा दिया । १७९

गीन्यो हात् जब कुम्भकर्ण विरको मुद्गर् सहित्को तहाँ ।
ठूलो शब्द गरेर फेरि रिसले धाया प्रभू छन् जहाँ ॥
साल्को वृक्ष उखेलि हान्न भनि त्यो आयो नजीकमा जसै ।
तेही हात् पनि काटिबक्सनुभयो वानर् भया खुश् तसै ॥१८०॥
हातै गिन्या जब दुवै तब खूप करायो ।
साह्रै रिसाइ रघुनाथ्तिर दौडि आयो ॥
फेरु अर्धचन्द्र सरिका दुइ बाण लीया ।
गोडै पनी सहज काटि खसालिदीया ॥१८१॥
हात् पाउ केहि नहुँदा अति दुःख पायो ।
मुख बाइ रामकन निलुँ भनि घस्तिर आयो ॥
राम्चन्द्रले पनि मुखैभरि बाण हान्या ।
त्यो देखि फौजहरुले अति हर्ष मान्या ॥१८२॥
यै रीत् गरेर अघिबाट थला बसाया ।
फेरु हानि इन्द्रशरले शिर नै खसाया ॥
ढोका थुन्यो शहरको शिरले त ताहाँ ।
फेर उफ्रि गैकन पन्यो र समुद्रमाहाँ ॥१८३॥

जब कुम्भकर्ण का (एक) हाथ गदा-सहित (कटकर) नीचे गिर पड़ा तो श्रीरघुनाथ भयंकर गर्जना के साथ वहाँ गये । (परन्तु दूसरे हाथ से एक) विशाल वृक्ष को उखाड़कर जब वह पुनः प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा तो वह हाथ (भी) श्रीरघुनाथ ने फिर से (बाण मारकर) नीचे गिरा दिये । ऐसा होते देखकर वानर-सेना अत्यन्त खुश हुई । १८० जब उसके दोनों हाथ कट कर गिर गये तब वह पीड़ित होकर चिल्लाने लगा तथा अत्यन्त क्रोधित होकर वह रघुनाथ की ओर दौड़ा । फिर (रामचन्द्र ने) अर्ध-चन्द्र के समान दो बाण चला कर उसके पाँव भी काट कर गिरा दिये । १८१ (जब उसके) हाथ-पाँव सभी समाप्त हो गये तो (वह) मुख खोलकर (उन्हें) निगलने के लिए खिसकता हुआ आगे आया । श्रीराम ने भी निरन्तर बाणों से (उस पर) प्रहार किया । यह दृश्य देखकर (वानर-) सेना में अत्यधिक हर्ष फैल गया । १८२ इस प्रकार श्री राम ने प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उसे धराशायी किया । बाद में (रामचन्द्र ने) इन्द्रशर के प्रहार ने उसका सिर भी काट गिराया, जिससे उसका समस्त चेतन (होश) समाप्त हो गया । उसके पश्चात् जैसे ही (शेषधड़ के बल) वह (अचानक) उछला, वैसे ही वह समुद्र में (जाकर) गिर पड़ा । १८३ (श्रीरघुनाथ

ग्राहादि जन्तु मित्रि नाश् बहुतै गरायो ।
 इन्द्रादि देवगणको पनि ताप् हरायो ॥
 खुप् पुष्प-वृष्टि रघुनाथ-उपर् खसाया ।
 राम्लाइ भेट्न भनि नारद ताहि आया ॥१८४॥

नारदले स्तुति खुप् गन्या प्रभुजिको नारायणै हुन् भनी ।
 भोलीदेखि हुन्या कुरा जति थिया सो सब् बताया पनि ॥
 हे नाथ् ! वीर् यहि कुम्भकर्ण विर हो यो ता सहज्मा गयो ।
 खूपै वीर् अब इन्द्रजित् छ उसको लौ भोलि बेला भयो ॥१५८॥

भोली मर्दछ इन्द्रजित् पनि यहाँ लक्ष्मण्जिका हात् परा ।
 आफैँ मारुहुन्याछ रावण भन्या पर्सी लडाईँ गरा ॥
 देख्नै छन् मुनि देव सिद्धगणले त्यो सब् तमाशा भनी ।
 नारद ताहि विदा भईकन गया त्यो ब्रह्मलोकमा पनि ॥१८६॥

रावणले पनि कुम्भकर्ण त मन्यो भन्या सुनेथ्यो जसै ।
 साह्रै दुःख परी विलाप् पनि गरी मूर्छा पन्यो खुप् तसै ॥
 रावण्लाइ बुझाउनाकन अधी त्यो इन्द्रजित् वीर् सन्यो ।
 जल्दी बिनित् मन्यो खडै छु म छँदै कुन् ताप् हजूर्मा परचो ॥१८७॥

ने) ग्राह आदि जल-जन्तुओं का भी दमन कर कितनो (ही अनाचारियों) को नष्ट किया । इन्द्रादि देवगणों के अन्दर जो ताप था, वह शीतलता में बदल गया और उन्होंने श्रीरघुनाथ के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करके उनका स्वागत किया । इस अवसर पर नारद जी भी रामचन्द्रजी से मिलने आये । १८४ नारद जी ने प्रभुजी के समक्ष दोनों हाथों को जोड़कर स्तुति की और आगे जो कुछ बातें घटने वाली थीं, उन सबकी सूचना दी । हे नाथ ! यही (वह) वीर कुम्भकर्ण था, जो परलोक सिधार गया । इसके बाद (लंका) का वीर इन्द्रजीत है, जिसको कल ही सामना करके समाप्त करना होगा । १८५ नारद जी ने बताया कि कल यही इन्द्रजीत लक्ष्मण के हाथों मारा जायेगा तथा परसों के युद्ध में आप स्वयं ही रावण का वध करेंगे और यह सारा तमाशा मुनिगण तथा सिद्ध लोग देखेंगे—ऐसा कह कर नारद जी वहाँ से विदा हो गये । १८६ रावण के कानों में जैसे ही कुम्भकर्ण की मृत्यु की खबर पड़ी, वह विलाप करता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा । रावण को सान्त्वना देते हुए वीर इन्द्रजीत आगे बढ़ा और कहने लगा—अभी मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ । मेरे होते हुए आपके ऊपर कौन-सा संकट

शत्रूको भय आज कति नरहोस् ई शत्रु मै मारँला ।
 सब् शत्रूहरु मारि ताप् हजुरको चाँडै सहज् टारँला ॥
 होम् गछूँ म निकुम्भिलास्थल महाँ ऐले तुरुन्तै गई ।
 होम् सम्पूर्ण गन्या मलाइ अहिले अग्नी प्रसन्नै भई ॥१८८॥
 दीन्याछन् हतियार् तिनै लिइ गई संग्राम गछूँ जसै ।
 कुन् साम्ने भइ टिकछ तेस् बखतमा सब् ध्वस्त हुन्छन् तसै ॥
 येती बिनित् गन्यो र होम् गरँ भनी ऊठेर जल्दी गयो ।
 भक्ती राखि निकुम्भिलास्थल महाँ होम्गर्न लाग्दो भयो ॥१८९॥
 सून्या त्यो समचार् विभीषणजिले होम् गर्न लाग्यो भनी ।
 सो विस्तार् रघुनाथका हजुरेमा गै बिनित् पान्या पनि ॥
 ऐले हे रघुनाथ ! इन्द्रजितले होम् गर्न लाग्यो भनी ।
 सून्याँ यो सुनि बिनित् गर्नु अहिले आयाँ हजूरमा पनि ॥१९०॥
 होम्को बिघ्न त गर्नु पछँ अधिराज् ! होम् सिद्ध पान्यो भन्या ।
 राक्षसगण् जितिसक्नु छैन अहिले ई सब् अजेयै वन्या ॥
 लक्ष्मण्लाइ मलाइ बक्सनुहवस् हूकूम् म जान्छु तहाँ ।
 मारँन् लक्ष्मणले अवश्य अहिले त्यो बाँचन सक्ला कहाँ ॥१९१॥

आ पडा । १८७ (इन्द्रजीत ने आगे कहा-) आप शत्रुओं से बिल्कुल भी भयभीत मत होइये । मैं समस्त शत्रुओं का नाश करके आपके ताप को हर लूँगा । वह हवन करने के लिए कुम्भिला नामक स्थल पर चला गया, हवन के सम्पूर्ण होने पर अग्नि देवता प्रसन्न हो गये । १८८ हवन करने से पहले इन्द्रजीत ने सोचा, अग्निदेव प्रसन्न होकर मुझे हथियार प्रदान करेंगे और जिस समय मैं संग्राम करूँगा सबको ध्वस्त कर डालूँगा; कोई नहीं टिक सकेगा मेरे सामने । ऐसा सोचकर (वह) तुरन्त हवन करने के लिए चल पडा । १८९ हवन करने की बात जैसे ही विभीषण ने सुनी, वैसे ही श्री रघुनाथ के पास जाकर (उसने) विनती की हे रघुनाथ ! इन्द्रजीत हवन कर रहे है, यही कहने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ । १९० (विभीषण ने आगे कहा-) हे अधिराज ! इस हवन में तो विघ्न उत्पन्न करना ही होगा । यदि यह हवन सिद्ध हो गया तो राक्षसगणों को पराजित कर सकना असम्भव होगा तथा वे सब विजयी हो जायेंगे । लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दें । मैं उनके साथ जाकर उस हवन को भंग कर दूँगा । अतः मुझे आज्ञा दें; मैं वहाँ जाऊँगा और लक्ष्मण तो उसे निश्चय ही मार डालेंगे । १९१ उसकी

येती विन्ति सुनी हुकूम हुन गयो जान्छू म माछू भनी ॥
 फेरी विन्ति विभीषणै सरि गन्या यस्तो छ यो वीर् भनी ।
 खाँदै कत्ति नखाइ कत्ति नसुती रात् दिन् नियम् खुप् गरी।
 जस्को वर्त छ वाह् वर्ष उ पुरुष् तेरा अगाडी सरी ॥१९२॥
 तेरो प्राण लिन्याछ यो छ वरदान् यस्तो हुनाले गरी ।
 मारीसक्नु कदापि छैन अहिले कोही अगाडी सरी ॥
 रात् दिन् कत्ति नखाइ कत्ति नसुती तेस्तो रह्याको यहाँ ।
 लक्ष्मण् छन् अब लौ हुकूम दिनुहवस् तेस्लाइ मारून्तहाँ ॥१९३॥

ईश्वर् तिमौ हौ रघुनाथ् इ भाई ।

लक्ष्मण् त शेष हुन् करुणा जनाई ॥

भूभार हनकिन जन्म लीयी ।

यो रूप् भजन् गर्न बनाइदीयी ॥१९४॥

साँचो विन्ति गन्या म जान्दछु सबै यो वीर् छ यस्तो भनी ।
 हिँड्दैदेखि नखाइ कत्ति नसुती लक्ष्मण् रह्याको पनि ॥
 जानीजानि म चूप रह्याँ किन भन्या लाग्न्यैछ यो काम् भनी ।
 उत्तर् येति तहाँ विभीषणजिका साम्ने हुकूम भो पनि ॥१९५॥

ऐसी विनती सुनकर श्रीरघुनाथ ने कहा कि मैं स्वयं उसे मारने के लिए जाता हूँ । पुनः विभीषण (ने राम का) मार्ग रोककर कहा कि लक्ष्मण ऐसा महान वीर है कि जिसने बिना खाये-पिये-सोये निरन्तर बारह वर्ष तक व्रत किया है । १९२ इन्द्रजीत लक्ष्मण के हाथों मारा जायेगा—ऐसा वरदान है । इस कारण अब कोई भी (अन्य व्यक्ति) अग्रसर होकर उसे नहीं मार सकता । दिन-रात न सोकर बिना खाये-पिये, सचेत होकर रहने वाले (वह) लक्ष्मण (ही) हैं (जो उसे मार सकते हैं) अतः अब उन्हें (लक्ष्मण को) इन्द्रजीत का वध करने की आज्ञा दें । १९३ हे रघुनाथ ! आप ईश्वर हैं । ये आपके भाई हैं अर्थात् लक्ष्मण तो (आपके ही) शेष भाग (अंश) है । और भू-भार हरने के लिए ही (आप दोनों ने मानव रूप में मृत्यु लोक में) जन्म लिया है और इस रूप का निर्माण भजन करने के लिए (ही) किया गया है । १९४ मैं यह जानता हूँ कि इन सब वीरों के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह सब सत्य कहा गया है । चलते समय भी बिना खाये और बिना सोये ही लक्ष्मण रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चुप ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि किसी न किसी समय यह भी काम आयेगा । १९५ और उसी क्षण लक्ष्मण को (राम की) आज्ञा हुई

लक्ष्मणलाइ पनी हुकूम तहिं भयो भाई ! तयारी भया ।
 केही फौज पनि साथमा लिइ तहाँ ऐले तुरुन्तै गया ॥
 चाँडै प्राण् लिइहाल इन्द्रजितको जान्छन् विभीषण् पनि ।
 सब्को छिद्र बताउनन् बखतमा यस्तो छ याहाँ भनी ॥१९६॥
 हुकूम यो रघुनाथको सुनि धनु लीई तयारी भया ।
 राम्का पाउ समाइ लक्ष्मण तहाँ क्यै बोलन लागी गया ॥
 मेरा बाण् अब इन्द्रजीत विरको प्राण्लाइ जल्दी हरी ।
 पाताल् भोगवतीमहाँ पुगि तहाँ निर्मल् हुनन् स्नान् गरी ॥१९७॥
 येती बिनति गरी घुमी वरिपरी लक्ष्मण् चरण्मा पन्या ।
 बीदा भै रघुनाथका हुकुमले साइत् तुरुन्तै गन्या ॥
 केही फौज् लिइ जाम्बवान् र हनुमान् अङ्गद् इ साथमा गया ।
 पौंच्या जल्दि र इन्द्रजीत विरका फौज्लाइ देखता भया ॥१९८॥

हुकूम सिरपर धरीकन जल्दि पौंची ।

लक्ष्मण् अघी जब सन्या धनुलाई खेंची ॥

लशकर्हरू पनि अगाडि सरेर धाया ।

ताहाँ विभीषण अगी सरि बिनति लाया ॥१९९॥

कालो मण्डल देखिइन्छ अघि जो त्यो फौज हो वीरको ।
 टुक टुक पारि गिराइबक्सनु हवस् सब् वीरका शीरको ॥

कि हे भाई ! कुछ सेना साथ लेकर, तुरन्त जाकर, तुम इन्द्रजीत का नाश करो । तुम्हारे पीछे विभीषण भी जायेगा । (इन सबका) रहस्योद्घाटन यथा समय होगा । १९६ श्रीरघुनाथ की ऐसी आज्ञा सुनते ही लक्ष्मण धनुष लेकर तैयार हो गये तथा श्रीराम के चरणों में पड़कर कुछ विनती कर बोले कि मेरा बाण अब वीर इन्द्रजीत का प्राणान्त करके पातालभोगवती में जाकर निर्मल जल में स्नान करेगा । १९७ चारों ओर परिक्रमा करके लक्ष्मण श्रीराम के चरणों में पड़े; फिर विदा लेकर रघुनाथ की आज्ञानुसार तुरन्त मुहूर्त निकाला । फ़ौज के साथ जामवन्त, हनुमान, अंगद आदि भी गये (और) वहाँ पहुँचकर वीर इन्द्रजीत की फ़ौज को निहारने लगे । १९८ आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र ही वहाँ पहुँचे और तुरन्त जब धनुष-बाण खींच आगे बढ़े तो विभीषण ने विनती की । १९९ हे लक्ष्मण ! आगे जो काला दल दीख रहा है वह सब इस फ़ौज के वीर है । इनके सिरों के टुकड़े-टुकड़े कर डालिए और इनको धराशायी करने की कृपा करें । यदि आप

ऐले जल्दि नहानिबक्सनु भया होम् सिद्ध गन्या छ यो ।
 होम्को सिद्ध गन्यो भन्या हुँदि कसै जीती नसक्नु छ यो ॥२००॥
 तेस् फौज्लाइ गिराइवक्सनुभया त्यो इन्द्रजित् वीर् पनि ।
 होम् छोडीकन लड्न आउँछ यहाँ त्यो फौज् गिरायो भनी ।
 येही युक्ति तहाँ विभीषणजिले विन्ती गन्याथ्या जसै ।
 लक्ष्मण्ले पनि सैन्यमाथि शरको वर्षा गराया तसै ॥२०१॥
 वानर्ले पनि वृक्ष पर्वत शिला फौज्माथि फेक्या जसै ।
 राक्षस्को पनि फौज् अघी सरि सरी खुप् लड्न लाग्यो तसै ॥
 लक्ष्मण्ले शरले अनेक् तरहले मान्यो र नाश्यो भनी ।
 साह्रै क्रोध गरेर इन्द्रजित वीर् होम् छोडि आयो अनि ॥२०२॥
 पक्का बेस् रथमा चढी धनु लिइ साम्ने अगाडी सरी ।
 लाग्यो लक्ष्मणलाई भन्न अव हेर् मेरा अगाडी परी ।
 आँ टिस् मर्न भन्या र ताहिं नजिकै थीया विभीषण् पनि ।
 तिन्लाई पनि खुप् भन्यो तँ कुलको शत्रू अधम् होस् भनी ॥२०३॥

येती भन्यो र रिसले रथमा बस्याको ।

सब्लाइ जित्त भनि कम्मर खुप् कस्याको ॥

इसी समय शीघ्रता से प्रहार नहीं करेंगे तो वह हवन सिद्ध कर लेगा और यदि हवन सिद्ध हो गया तो फिर इस पर विजय पाना असम्भव हो जायेगा । २०० उस सेना को यदि आप धराशायी कर दें तो वीर इन्द्रजीत अपनी सेना को धराशायी होते जानकर, हवन को त्याग देगा और युद्ध करने के लिए पहुँच जायेगा । विभीषण की ऐसी युक्तिपूर्ण विनती लक्ष्मण ने सुनी और उसी समय विपक्षी सेनाओं पर वाण-वर्षा आरम्भ कर दी । २०१ जैसे ही वानरों ने वृक्ष तथा पर्वत-शिलाओं से उन सेनाओं पर प्रहार किया, राक्षसी सेना भी आगे बढ़ी और उसने युद्ध आरम्भ कर दिया । इन्द्रजीत को जैसे ही लक्ष्मण द्वारा चलाये गए वाणों तथा अनेक प्रकार से सैनिकों के मारे जाने की सूचना मिली, वह अत्यधिक क्रोधित होकर हवन को त्याग कर लड़ने के लिये आ पहुँचा । २०२ वह एक उत्तम रथ पर सवार तथा हाथ में धनुष लिये हुए अग्रसर हुआ और लक्ष्मण से कहने लगा, अरे मेरे सम्मुख आकर अपनी मृत्यु को क्यों आमंत्रित करने लगे हो । वहीं निकट से विभीषण भी आ गया अतः उसे भी 'तुम कुल के अधम शत्रु हो' आदि कह कर कटु-वचनों से प्रहार करने लगा । २०३ इतना कहकर क्रोधित मन से वह रथ पर सवार हो

केही नटेरि अरु वानरलाइ हेला ।
 साह्रै गराइकन भन्छ परे इ फेला ॥२०४॥
 बाण् हानि प्राण सबको म हरेर लिन्छु ।
 तिम्रो शरीर् पृथिविमा म गिराइदिन्छु ॥
 यस्ता वचन् सुनि ति लक्ष्मणजी रिसाया ।
 हान्या र बाण् तहिं तुरन्त थला बसाया ॥२०५॥
 मूर्छा पन्यो दुइ घरी र जुह्वक उठयो ।
 लाल् लाल् नजर् गरि रिसाइ अगाडि छूटयो ।
 मेरो पराक्रम रती नबुझेर पैले ।
 हानिस् पराक्रम तँ लौ बुझिले न ऐले ॥२०६॥
 येती भन्यो र मनले अति वीर मानी ।
 लक्ष्मणजिलाइ तहिं सात् शर जल्दि हानी ॥
 दस् वाणले त हनुमान् विरलाइ हान्यो ।
 झन् मुख्य शत्रु त विभीषणलाइ मान्यो ॥२०७॥

हान्यो फेर् सय शर् विभीषण उपर येती गरेथ्यो जसै ।
 हान्या लक्ष्मणले कवच् शरिरको काटीदिया पो तसै ॥

गया । सब ओर से मन हटाकर केवल विजय प्राप्ति हेतु समस्त वानरों को तिरस्कृत करके वह कहने लगा कि अब ये सब अपने पंजे में आ गये हैं । २०४ प्राण लेने वाला बाण चला कर मैं सबको मार डालूंगा तथा उनके शरीर को धराशायी कर दूंगा । उसके ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और तुरन्त ही बाण से प्रहार करके उसे वहीं धराशायी कर दिया । २०५ वह दो घड़ी मूर्छित हो कर पड़ा रहा । पुनः चेतन हो कर उठा और लाल नेत्र करके क्रोध से आगे बढ़ा और कहने लगा कि तुमने मेरे पराक्रम को किंचित मात्र भी नहीं समझा और पहले ही प्रहार कर दिया । अतः अब समझ लेना । २०६ इतना कह कर उसने मनमें अपने को एक बड़ा वीर समझ कर लक्ष्मण पर सात बाणों से प्रहार किया और दस बाण वीर हनुमान पर फेंके । विभीषण को तो उसने विशेष शत्रु ही समझा । २०७ पुनः सौ बाणों का प्रहार विभीषण पर जैसे ही उसने किया लक्ष्मण ने अपने बाण से उसके शरीर के कवच को काट दिया । अपने शरीर के कवच को कटे हुए देख कर उसने भी हजार शरों के प्रहार से लक्ष्मण के कवच के टुकड़े-टुकड़े कर दिए । २०८ लक्ष्मण ने

हज्जार शर्कन हानि लक्ष्मणजिका गाथ्का कवचको पनि ।
 टुक् पारेर गिराउँ दो तहिँ भयो मेरो गिरायो भनी ॥२०८॥
 लक्ष्मणले पनि फेरि पाँच शरले घोडा र रथ सूत् धनु ।
 काटी वक्सनुभो उसै बखतमा अर्को उठायो धनु ॥
 फेर तेसै धनुलाइ काटिदिनुभो तीन् वाणले फेर धनु ।
 लीयो लक्ष्मणलाइ धेर शरले हान्यो छिटो क्या भनूँ ॥२०९॥
 बाणैले गरि सब् भन्यो दश दिशा वानर् सकस्मा पन्या ।
 लक्ष्मले पनि इन्द्रजीत विरको प्राण् लीन मन्सुब् धन्या ।
 जुन् इन्द्रास्त्र थियो उही धनुमहाँ लाई अगाडी सन्या ।
 चिन्तन् श्रीरघुनाथको गरि तहाँ जल्दी प्रतिज्ञा गन्या ॥२१०॥
 धर्मात्मा यदि सत्य दाशरथि छन् हुन् नाथ् जगत्काधनी ।
 साँचै ता अब इन्द्रजित् यहिँ मरोस् येसै शरैले भनी ॥
 छोड्या बाण र इन्द्रजीत विरको शीरै खसाया जसै ।
 इन्द्रादीहरु पुष्प वृष्टि खुशि भै खुप् गर्न लाग्या तसै ॥२११॥
 हर्षेले नगरा बज्या पृथिविको जुन् भारि हो त्यो गयो ।
 हर्षेले जय शब्दको ध्वनि पनी ताहाँ बहूतै भयो ॥
 लक्ष्मण लेपनि शङ्खको ध्वनि र खुप् टङ्कार् धनूको गन्या ।
 वानरले गहुतै गन्या स्तुति तहाँ आनन्दमा सब् पन्या ॥२१२॥

भी पुनः पाँच शरों से प्रहार करके उसके घोड़े, रथ, सारथी तथा धनुष काट दिये और उसने उसी क्षण दूसरा धनुष धारण कर लिया । उस धनुष को भी लक्ष्मण ने तीन वाणों के प्रहार से पुनः काट दिया । उसने फिर धनुष धारण किया और वड़ी ही तीव्रता से लक्ष्मण को अनेक शरों से पुनः प्रहार किया । २०९ वाणों के प्रहार से वानर-सेना दसों दिशाओं से संकट में घिर गई । लक्ष्मण ने भी वीर इन्द्रजीत के प्राण लेने की ठान ली । जो इन्द्रास्त्र थे उन्हें वह धनुष पर चढ़ा कर आगे बढ़े और श्रीरघुनाथ जी का चिन्तन कर तुरन्त यह प्रतिज्ञा की कि— २१० यदि सत्यावादी दशरथ वास्तव में धर्मात्मा हैं और श्रीरघुनाथ जगतपति हैं तो अब इन्द्रजीत इसी वाण से यहीं पर मर जायेगा । इतना कहकर उन्होंने वाण से प्रहार किया और वीर इन्द्रजीत के सिर को जैसे ही गिराया, इन्द्रादि देवगण अत्यन्त प्रसन्न हो कर पुष्प-वर्षा करने लगे । २११ पृथ्वी पर वड़े-वड़े नगाड़े वज उठे और जय-जयकार की ध्वनि गूँजने लगी । लक्ष्मण ने भी शंख

लक्ष्मणजी सब फौज लिये रघुनाथ
 पाऊमा परि दणवत् गरि तहाँ
 खुशी खुप् हुनुभो सुनेर रघुनाथ
 मान्यौ इन्द्रजितै त आज तिमिले
 मेरो शत्रु अवश्य छैन अब वीर
 यस् रावण्कन मारनलाइ सजिलो
 ऐले युद्ध हुँदा म माछु सहजै
 रावण् वीर पनि सब् सुन्यो र समाचार
 मूर्छादिखि उठी विलाप अति गरी
 हात्मा एक तरवार लिएर रिसले
 दौड्यो त्यो र सुपाश्वर् मन्त्रि नजिकै
 स्त्री घात् गर्नु अवश्य छैन महाराज्!
 सुपाश्वर्को बिनति सुन्यो र ताहाँ ।
 फक्यो फरकै दरबारमाहाँ ॥
 शोकले बहुत् मूर्ख समान भैगो ।
 फेरी सभा गछु भनेर गैगो ॥२१६॥

ज्यूका हजूरमा गया ।
 सब् बिनति गर्दा भया ॥
 हूकूम भयो बेस् गन्यौ ।
 सब् शत्रुको मूल हन्यौ ॥२१३॥
 जुन् वीर हो सो गयो ।
 यै वीर जाँदा भयो ॥
 भन्न्या हुकूम यो भयो ।
 मूर्छा परी गै गयो ॥२१४॥
 फौज लड्न पेल्यो पनि ।
 सीता म काट्छु भनी ॥
 थियो अगाडी सन्यो ।
 यो जल्दि विन्ती गन्यो ॥२१५॥

की ध्वनि की और धनुष को बड़ी जोर-जोर से टंकारा ! आनन्दित होकर सभी वानरों ने भी खूब स्तुति की । २१२ लक्ष्मण जी समस्त सेना को लेकर रघुनाथ जी के पास गए और उनके चरणों में गिर कर दण्डवत की और सविस्तार सब हाल कह सुनाया । सारा समाचार जानकर रघुनाथ जी अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि आज इन्द्रजीत को मारकर तुमने शत्रुओं की जड़ नष्ट कर दी । २१३ अवश्य ही अब मेरा कोई शत्रु नहीं, जो वीर शत्रु था वह सो गया । इस वीर के चले जाने से अब रावण का मारना सरल हो गया । युद्ध होने पर मैं सरलता से उसे मार डालूंगा । ऐसा श्रीरघुनाथ ने कहा । उधर रावण ने जब यह समाचार सुना तो वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा । २१४ जब मूर्छा से उठा तो विलाप करने लगा, फिर मन स्थिर करके अधिकाधिक सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा । स्वयं हाथ में तलवार ले क्रोध में भरा हुआ और यह कहता हुआ कि सीता को मैं अभी मार डालूंगा दौड़ा किन्तु मंत्री ने रोक लिया और विनती की कि स्त्रीघात करना उचित नहीं । २१५ सुपाश्वर् की विनती सुनकर वह तत्क्षण दरबार को लौट गया । शोक में डूबा हुआ वह किकर्तव्य-विमूढ़ सा पुनः दरबार में

सब् मन्त्रिले सँग बसेर विचार गर्दा ।
 हीतै हुन्या ठहरियो र अगाडि सर्दा ॥
 जो बाँकि राक्षस थिया सब साथ लीयो ।
 खुप् लड्नालाइ रघुनाथ् तिर चित्त दीयो ॥२१७॥
 त्यो अग्निमा सलह झैं जब पर्न आयो ।
 सब्थ्यो कहाँ अधिक ठक्कर फेरि पायो ॥
 धेर् वीर् मन्या हृदयमा पनि वाण लाग्यो ।
 टिकनै तहाँ नसकि जल्दि फिरेर भाग्यो ॥२१८॥
 सम्झ्यो गुरूकन विपत्ति पन्यो र ताहाँ ।
 चाँडै गुरूसित गई शिर पाउमाहाँ ॥
 राखी गन्यो विनति दुःख बहूत पायाँ ।
 यै दुःखको विनति गर्न त आज आयाँ ॥२१९॥
 हे नाथ् ! हजूर गुरु भई पनि दुःख पन्या ।
 क्या भो मलाइ कसरी अब चित्त धन्या ॥
 यस् रामले सकल बन्धु र पुत्र मान्यो ।
 शूरा अनेक् विरहरू पनि छुट्टि पान्यो ॥२२०॥

रावणको विनती सुन्या र गुरुले पाएछ आपत् भनी ।
 गर्नुसम्म गरौस् भनेर उपदेश दीया गुरुले पनि ॥

सभा करने के विचार से प्रविष्ट हुआ । २१६ सब मंत्रियों ने बैठकर
 रावण के हितार्थ विचार-विमर्श किया । शेष बचे हुए राक्षसों को
 लेकर आगे बढ़कर रघुनाथ जी से युद्ध करना ही उत्तम ठहराया
 गया । २१७ रणभूमि में पहुँच कर राक्षसों की वही दशा हुई जो आग
 में कूदने पर होती है । वे अधिक क्या कर सकते थे । पुनः पराजित
 हुए । अनेक वीर मारे गए । उनके हृदय में वाण लगा । वे टिक
 न सके और भाग खड़े हुए । २१८ विपत्ति पड़ने पर रावण
 ने गुरु का स्मरण किया और उनकी शरण में जाकर चरणों में गिरकर
 अत्यधिक शोक ग्रस्त होकर विनती की कि दुःख के कारण ही मैं आज
 आपके पास प्रार्थना करने आया हूँ । २१९ हे नाथ ! आप जैसे गुरु
 को पाकर भी मैं इतना दुःख पा रहा हूँ । अब मेरे चित्त को कैसे
 शान्ति मिलेगी । मुझे आखिर ये क्या हो गया, इस राम ने मेरे सभी
 बन्धु-बान्धवों को मार डाला और मेरे अनेक शूर-वीरों को वीर गति
 दे दी । २२० रावण की दुःख भरी विनती सुनकर गुरु ने उसे सांत्वना

हे रावण ! सुन मंत्र दिन्छु अब गै
होम् सम्पूर्ण गन्यो भन्या त हतियार्
जित्न्याछौ सब वीरलाइ भनि यो
पाएथ्यो खुशि भै उठी घर गई
पाताल् तुल्य गुफा खनी तहि बस्यो
ढोका बन्द गन्यो सबै शहरको
लूक्यो रावण येहि रीत्सित र खुप्
लूक्यो रावण तापनी तर धुवाँ
देख्या तेहि धुवाँ विभीषणजिले
पायाँ भेद् भनि रामका हजुरमा
लाग्यो रावण होम गर्न महाराज् !
साँचो बिनति म गर्दछू हजुरमा
हूकुम् वानरलाइ बक्सनुहवस्
जल्दी गैकन यज्ञ नाश् गरिदिउन्
बिन्ती येति गन्या विभीषणजिले
अङ्गद वीर् हनुमान् दुवै इ खटिया

होम् गर्नु खुप् ध्यान् धरी ।
मिलनन् तिनैले गरी ॥२१॥
आज्ञा गुरूको जसै ।
होम् गर्न आँट्यो तसै ॥
होम् गर्नलाई पनि ।
कोही नआउन् भनी ॥२२॥
होम् गर्न लाग्यो तहाँ ।
लूकी रहन्थ्यो कहाँ ॥
होम् गर्न लाग्यो भनी ।
गै बिनति पाग्या पनि ॥२२३॥
होम् सिद्ध पाग्यो भन्या ।
ई सब अजेयै बन्या ॥
वीर् वीर् अगाडी सरी ।
हूकुम् शिरोपर् धरी ॥२२४॥
हूकुम् प्रभूको भयो ।
दश कोटिको फौज गयो ॥

के लिए उपदेश दिया । हे रावण ! सुनो, मैं मंत्र देता हूँ । ध्यान-पूर्वक हवन करना । यदि हवनादि सम्पूर्ण रूप से करोगे तो उसके प्रभाव से तुम्हें शस्त्र प्राप्त होंगे । २२१ जैसे ही गुरु का यह आशीर्वाद मिला कि सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, वह अत्यन्त प्रसन्न होकर उठा और हवन की तैयारी में लग गया । पाताल के समान गुफा बनाई । नगर के सारे द्वार बन्द कर दिये जिससे कोई भी अन्दर प्रवेश न कर सके । इस प्रकार पूर्ण प्रबन्ध करके वह अन्दर बैठ गया । २२२ इस प्रकार रावण ध्यान-मग्न हो कर हवन करने के लिये छिप कर बैठ गया । परन्तु धुवाँ कैसे छिप सकता था । उस धुवें को देखकर विभीषण ने भेद को जान लिया । उसने राम की सेवा में जाकर यह सारा समाचार सविस्तार वर्णन कर दिया । २२३ महाराज ! रावण हवन करने लगा है । यदि उसने हवन सिद्ध कर लिया तो मैं सत्य कहता हूँ कि वह अजेय हो जायेगा । आप वानरों को आज्ञा दें कि वे वीर उसको शिरोधार्य कर शीघ्र ही जाकर उसके यज्ञ को नष्ट कर दें । २२४ विभीषण की विनती सुनकर प्रभु ने आज्ञा दी कि अंगद, वीर हनुमान तथा दस कोटि सेना दीवार लांघ कर

पर्खालू नाघि गया र तेस् शहरमा दवार् पुग्याथ्या जसै ।
 चौकी रावणका थिया जति तहाँ तिन्लाइ मान्या तसै ॥२२५॥
 रानी हुन् सरभी विभीषणजिकी लंकै शहरमा थिइन् ।
 रावण् लूकिरहेछ ताहिं छ भनी तिन्ले इशारा दिइन् ॥
 गुफाका मुखमा त पत्थर ठुलो लाएर पक्का गरी ।
 होम् गथ्यो तहिं भित्त रावण उहीं पाँच्या ठुलो वेग् गरी ॥२२६॥
 त्यो पत्थरकन लात्ति अङ्गदजिले दीया धुलै भै खस्यो ।
 होम्को विघ्न गराउनाकन तहाँ क्यै फौज भित्तै पस्यो ॥
 रावण् येति हुँदा पनी दृढ भई ध्यान् गर्न लाग्यो जसै ।
 वीर् वीर् वानरले अनेक् तरहले त्यो यज्ञ नाश्या तसै ॥२२७॥
 रावण्ले तहिं होम गर्न भनि एक सूरो लियाको पनि ।
 खोस्या श्रीहनुमानले र रिसले हान्या उठोस् यो भनी ॥
 ध्यानैमा दृढ मन् गरी अचल भै रावण् बसेथ्यो जसै ।
 ल्याया अङ्गदले त खँचि नजिकै मन्दोदरी पो तसै ॥२२८॥
 ती मन्दोदरिलाइ रावण नजीक् पाँचाइ हुर्मत् लिया ।
 चोलो खोलि अफालि फेरि कटिको सारी खसाली दिया ॥
 लायाका गहना समेत् शरिरका वस्त्रै अफाल्या जसै ।
 रूँदै रावणका नजीक रहँदी बिन्ती गरिन् यो तसै ॥२२९॥

नगर के द्वार में पहुँच कर, रावण के सभी रक्षकों को मार डालें । २२५
 विभीषण की रानी उसी नगर में थी और उन्होंने ही यह सकेत किया
 था कि रावण वहाँ छिपा हुआ है । गुफा के द्वार पर दृढ़ पत्थर लगा
 कर रावण छिपा हुआ हवन कर रहा था । वहीं सारे वानर आँधी के
 समान पहुँच गए । २२६ उस पत्थर को लात मार कर अंगद ने धूल
 के समान बिखेर दिया । हवन में विघ्न डालने के लिए समस्त सेना
 अन्दर प्रवेश कर गई । इतना होने पर भी रावण दृढ़तापूर्वक ध्यानमग्न
 बैठा हवन करता रहा । वीर वानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया । २२७
 रावण ने हवन करते समय एक शूर को भी अपने साथ रक्खा था । उसे
 भी श्री हनुमान ने प्रहार करके भगा दिया । रावण अभी भी ध्यान-मग्न
 अटल बैठा था । अंगद मन्दोदरी को भी वहाँ खींचकर ले आया । २२८
 वह मन्दोदरी को रावण के सामने लाकर सताने लगा । चोली उतार
 कर फेंक दी और साड़ी भी कमर से नीचे गिरा दी । उसके शरीर पर
 धारण किए हुए समस्त वस्त्राभूषण जब उसने उतार कर फेंक दिये तो

हे नाथ ! आज कता गयो हजुरको पत्नीका इ विलाप सुनी जिउनु धिक् येती बिनति गरिन् र पुत्रकन खुप् अर्को कोहि थिएन ताहि तिनको भर्ताले पनि बाँचुला भनि यहाँ तेरो ज्यान् अधि गै गयो गरुँ कसो ती मन्दोदरि रानिको अति विलाप ऊठ्यो खड्ग लिएर अंगदजिका होभुको नाश गराइ अंगदहरू ती मन्दोदरि रानि रावण यिनै लाग्यो रावण भन्न रानि ! अहिले बाँचनै खातिर ता म चूप भइरह्याँ बाँ चेदेखि त देखिइन्छ सब थोक् यो शोकदूर् गरिहाल हुन्छ अब क्या अज्ञानै छ भुलाउन्या शरिरमा त्यै अज्ञान् बलवान् भयो पनि भन्या

लज्जा अनाथ क्या गरुँ । मर्नु निको हो बरु ॥ संझेर लागिनु रुनै । साहाय हून्या कुनै ॥२३०॥ लज्जै समेत त्याग्न गन्या । ऐल्हे विपत्ती पन्या ॥ साम्ने सुनेथ्यो जसै ॥ हान्यो कटीमा तसै ॥२३१॥ दौडेर राम्थ्यै गया । का बात् तहाँ खुप् भया ॥ बाँचु असल् हो भनी । येती हुँदामा पनि ॥२३२॥ यस्तो बुझी ज्ञानले । यस्ता असत् ध्यानले ॥ यो देह मै हूँ भनी । फैलिन्छ संसार पनि ॥२३३॥

दुःखी होकर मन्दोदरी रावण के निकट जा कर विलाप करती हुई कहने लगी । २२९ हे नाथ ! आज आपकी लाज कहाँ चली गई । मैं अनाथा क्या करूँ । पत्नी का विलाप सुन कर रावण का ध्यान भंग हुआ । वह सोचने लगा, इस प्रकार जीवित रहने से तो मर जाना श्रेयस्कर है । मन्दोदरी ऐसी बिनती कर पुत्र को सोच-सोच कर रोने लगी । २३० स्वामी द्वारा बचाये जाने की आशा से उसने लज्जा का भी त्याग किया और बोली कि यदि पहले ही आपके प्राण चले गए तो इस विपत्ति में मैं क्या करूँगी । मन्दोदरी का ऐसा विलाप सुनकर वह खड्ग ले कर उठा और अंगद की कमर में प्रहार किया । २३१ हवन का विध्वंस कर अंगदादि राम के पास दौड़े गये । रानी मन्दोदरी और रावण के ही विषय में चर्चा हुई । रावण ने कहा कि रानी ! अभी बच के रहना ही उत्तम है, यही सोच कर इतना सब कुछ होने पर भी मैं चुपचाप बैठा रहा । २३२ बच जायेंगे तो सब कुछ देख सकेंगे, यही सोच कर अपने मन से शोक को दूर करो । अब ध्यान से अज्ञान को हटा कर रखना है । यह धारणा भी व्यर्थ है कि शरीर में जो प्राण हैं वह मैं ही हूँ । ऐसी अज्ञान की भावना यदि प्रबल हो गयी तो यह संसार भर में फैल जायगी । २३३ हे मन्दोदरी ! आत्मा को ज्ञान

आत्मज्ञान स्वरूप बुझेर मनले अज्ञानको नाशू गरी ।
 स्वस्थै भै रहू शोक् नमानि तिमिले क्या हुन्छ यो शोक् गरी ॥
 हे मन्दोदरि ! माछुं राम्कन सहज् संग्राम ठूलो गरी ।
 रामैले यदि मार्दछन् त पनि बेस् जान्याछु संसारतरी ॥२३४॥
 संग्राम्मा मरिगै गयाँ पनि भन्या मानू र सीता यहाँ ।
 अग्नीमा तिमिले प्रवेशू तब गरी आया म जान्छु जहाँ ॥
 रावण्का इ वचन् सुनेर अति ताप् मान्दी ति मन्दोदरी ।
 साँचो बिनित म गर्छु आज महाराज् ! भन्दै अगाडी सरी ॥२३५॥
 बिनती रावणथ्यै गरिन् पनि तहाँ राम् हुन् जगन्नाथू हरि ।
 जीती सक्नु कदापि छैन अरुले कस्तै लडाईँ गरी ॥
 वैवस्वत् मनुलाइ मत्स्यरूपले जस्ले र रक्षा गन्या ।
 फेरी कूर्म भएर मन्दर पनी जस्ले पिठैमा धन्या ॥२३६॥
 प्राण खैचेर लिया वराह रूपले जस्ले हिरण्याक्षको ।
 बाँची कोहि फिरेन लड्दछु भनी साम्ने गयाको छ जो ॥
 ठूलो दैत्य थियो हिरण्यकशिपू मान्या नृसिंहै भई ।
 राज्यै खैचिलिया छलेर बलिको वामन् स्वरूपले गई ॥२३७॥

स्वरूप समझ कर मन से अज्ञान का नाश कर दो और स्वस्थ मन से रहो । शोक न करो । शोक करने से होगा भी क्या ? मैं राम से घोर युद्ध करूँगा और उन्हें मार डालूँगा । यदि मैं राम के हाथों मारा भी गया तो भी उत्तम होगा । मुझे मोक्ष मिलेगी और मैं संसार सागर से तर जाऊँगा । २३४ यदि संग्राम में मैं मर भी जाऊँ तो सीता जी यहाँ हैं उन्हें मार डालना और तुम अग्नि में प्रवेश कर वहीं आ जाना जहाँ मैं जा रहा हूँ अर्थात् स्वर्ग को । रावण के वचन सुनकर मन्दोदरी को अत्यन्त ताप हुआ । वह विनती करते हुए आगे बढ़ी और बोली महाराज ! मैं सत्य कहती हूँ । २३५ राम जगन्नाथ हरि हैं । अतः संग्राम में किसी प्रकार उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता । जिसने मत्स्यरूप धारण कर वैवस्वत्मनु की रक्षा की और पुनः कूर्म होकर मन्दर को अपनी पीठ पर धारण किया । २३६ वाराहरूप धारण कर जिसने हिरण्याक्ष का बध किया । जो भी युद्ध करने के लिए सामने आया कोई भी बचकर नहीं निकला । हिरण्यकश्यपु एक बहुत ही बड़ा बलवान राक्षस था उसे भी उन्होंने नरसिंह रूप धारण कर मार डाला । वावन रूप धारण कर छल से बलि के राज्य को छीन लिया । २३७ पृथ्वी में परशुराम

थीया क्षत्रिय पृथ्विमा परशुराम्
 तिम्रो प्राण् लिनलाइ आज पनि नाथ्
 सीता हनु^{र्} थिएन हेलन गरी
 ये काम्ले इ विपत् पन्या हजुरमा
 सीता सुम्पनुपछ आज अधिराज्
 लङ्कामा पनि राज् विभीषण गरून्
 सब् छोडीकन आज जाउ वनमा
 रावण्ले पनि ई वचन् सुनि जवाफ्
 हे मन्दोदरि! इन्द्रजित् पनि मन्यो
 कुम्भैकर्ण मन्यो अनेक् अरु पनी
 येतीसम्म भएपछी कसरि फेरु
 शत्रुथ्यै[ँ] गइ लत्ति बाँचनु ननिको
 विष्णु हुन् रघुनाथ् सिता पनि यिनै
 जानी जानि सिता हन्याँ त म उसै
 राम्का हात परी मरूँ भनि त हेरु
 राम्का हात परी मन्याँ पनि भन्या

भै नाथ् सबैको गन्या ।
 राम् भै अगाडी सन्या ॥
 सीताजि हर्नुभयो ।
 ज्यान् इन्द्रजित्को गयो ॥२३८॥
 राम्चन्द्रजीथ्यै गई ।
 राम्का पियारा भई ॥
 येती भनीथिन् जसै ।
 खुप् दीन लाग्यो तसै ॥२३९॥
 ठूला ठूला वीर् मन्या ।
 संग्राममा वीर् पन्या ॥
 लत्रेर पाऊ परूँ ।
 प्राण् आज जावस्बरु ॥२४०॥
 लक्ष्मी भनी जान्दछु ।
 क्या आज डर् मान्दछु ॥
 सीताजिलाई हन्याँ ।
 संसार सहज्मा तन्याँ ॥२४१॥

का रूप धारण कर सबका विनाश किया । आज राम के रूप में नाथ आपके प्राण लेने के लिए सम्मुख आये है । आपको सीता का हरण नहीं करना चाहिये था । आपने बिना किसी विचार के सीता जी को हरने की धृष्टता की, इसी कारण आपके ऊपर विपत्ति आई है । इन्द्रजीत का भी प्राणान्त इसी कारण हो गया । २३८ हे अधिराज ! आज राम-चन्द्रजी के पास जाकर आप सीता जी को सौंप दें । यही उचित और उत्तम होगा । लंका में विभीषण ही राम का प्रिय होकर राज्य करे । सब छोड़कर आप वन को चले । मन्दोदरी के वचन सुन कर रावण बोला— २३९ हे मन्दोदरी ! इन्द्रजीत भी मर गया तथा बड़े-बड़े वीर मारे गये । कुम्भकर्ण भी मर गया तथा अनेक वीर संग्राम में मारे गये । इतना सब कुछ हो जाने पर भी अब मैं किस प्रकार झुक कर पांव पडूँ । शत्रु के सामने इस प्रकार झुकने से तो अच्छा यही है कि मेरा प्राण ही चला जाये । २४० रघुनाथ विष्णु हैं और सीता लक्ष्मी हैं, यह मैं भली प्रकार जानता हूँ, यह सब जानबूझ कर भी मैंने सीता जी का हरण किया तो फिर मैं अब भयभीत क्यों होऊँ । राम के हाथों मरने की इच्छा से ही मैंने सीताजी का हरण किया । राम के हाथों

फेरी तुरन्त रघुनाथ् सित लङ्गन जान्छु ।
 मानन् मलाइ रघुनाथ् तब खूशि मान्छु ॥
 संसारका सकल ताप्हरुलाइ तोडी ।
 जान्याछु पारि तिमिलाइ त वारि छोडी ॥२४२॥

राग् द्वेषका भेल चलछन् भँवरि सरि यि युग् घुम्दछन् बीचमाहाँ ।
 पुत्रादी मत्स्य झैं छन् रिस पनि वडवानल् सरीको छ ताहाँ ॥
 कामैको जाल् छ ठूलो तर पनि बलियो ताहि जाल्लाइ फारी ।
 संसार-सागर् सहज्मा तरिकन हरिथ्यै बस्न जान्याछु परि ॥२४३॥
 मन्दोदरी सित यती भनि लङ्गनलाई ।
 कम्मर् कसेर बलियो रथ एक मगाई ॥
 रथ्मा चढेर रघुनाथ् सित जान आयो ।
 राम्चन्द्रको सकल वानर फौज् डरायो ॥२४४॥

त्यो रावण् रणभूमिमा जब पुग्यो साम्ने हनुमान् गया ।
 मूर्छा पारि गिराउँ यस्कन भनी एक मुड्कि हान्दा भया ॥
 छातीमा जब मुड्कि बज्रन गयो खुप् वज्र तुल्यै गरी ।
 घूँडा टेकि गिन्यो पनी दुइ घडी मूर्छा तुरुन्तै परी ॥२४५॥

यदि मैं मरा तो सहज ही में संसार सागर से तर जाऊँगा । २४१ पुनः शीघ्र ही रघुनाथ जी से युद्ध करने जाता हूँ । रघुनाथ मुझे मार डालें तब भी मैं प्रसन्न हूँ । संसार के समस्त तापों से दूर, तुम्हें इस ओर छोड़ कर मैं उस पार चला जाऊँगा । २४२ राग द्वेष की नदी बहेगी और इस के मध्य जीव भँवर के समान चक्कर लगायेगा । पुत्रादि मछली के समान हैं । क्रोध भी वडवानल के समान है, काम से युक्त महाजाल बिछा हुआ है तथापि इस देह को जलाकर चला जाऊँगा और सहज ही इस संसार सागर से तर कर हरि के पास सदा के लिए उस पार चला जाऊँगा । २४३ मन्दोदरी से इतना कह कर, उसने युद्ध के लिए कमर, कसी और एक शक्तिशाली रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर राम से लड़ने के लिए आया । रामचन्द्र की समस्त वानर सेना एक बार भयभीत हो गई । २४४ रणभूमि में पहुँचते ही रावण के सामने हनुमान गया । उसे मूर्छित कर धराशायी करने के उद्देश्य से उसने रावण पर एक मुक्के से प्रहार किया । वक्षस्थल पर मुक्का पड़ते ही बज्र के समान आघात हुआ और वह दो घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा । २४५ मूर्छा से उठ कर रावण ने हनुमान को (शावाशी) देते हुए कहा कि तू

मूछादिखि उठ्यो र रावण तहाँ
ठूलो वीर् हनुमानलाइ बुझि खुप्
रावण्ले हनुमानको सहनि खुप्
रावण्का सब सेखि तोड्न हनुमान्
हे रावण् ! किन गर्दछस् सहनि यो
मेरो मुड्कि पन्यापछी पनि बचिस्
एक् चोट् हान् तँ पनी तँलाई म पनी
एक् मुड्की अब हानुंला त नमरी
ई बात् श्री हनुमानले जब गन्या
एक् चोट् श्री हनुमानका हृदयमा
फेरी श्रीहनुमान् सन्या अधि तहाँ
रावण् टिकन सकेन एक् क्षण पनी
रावण्का संग चार् जना विर थिया
ई चार् वीर्कन चार् जना अधि सन्या
अङ्गद् श्रीहनुमान नील नल यी
रावण्का संगका ति चार् विर सहज्

स्याबास् तँ होस् वीर्भनी ।
साहँ सहायो पनि ॥
ताहाँ गरेथ्यो जसै ।
वीर् बोलन लाग्या तसै ॥४६॥
धिव्कार् म मान्छू बरु ।
बोल्छस् यहाँ क्या गरूँ ॥
फेर् हान्छु छातीमहाँ ।
उम्केर जालास् कहाँ ॥२४७॥
बेसै भन्यो यो भनी ।
ताकेर हान्यो पनि ॥
मुड्की उठाई जसै ।
अन्यत्र भाग्यो तसै ॥२४८॥
मन्त्री लडाका पनि ।
ऐले निभाऊँ भनी ॥
चार् वीर कूदी गया ।
मारेर फिर्दा भया ॥२४९॥

ती चार् जना जब मन्या तब झन् रिसायो ।

राम्का उपर् अधि सरीकन वाण् खसायो ॥

ही एक वीर है । हनुमान को महावीर समझ कर उनकी सराहना की । रावण की प्रशंसा युक्त बातें सुनकर हनुमान ने कहा, "हे रावण ! तुम क्यों इस प्रकार प्रशंसा कर रहे हो मैं तो इसे धिक्कारता हूँ और तुच्छ समझता हूँ ।" २४६ मेरे मुक्के के प्रहार से भी तुम बच गए और कहते हो क्या करूँ । एक बार तुम भी मुझ पर प्रहार करो तब पुनः मैं तुम्हारे वक्षस्थल पर प्रहार करूँगा । अब एक मुक्की और मार लूँ तो फिर देखें तुम बच कर कहाँ जाते हो । इतना कह कर हनुमान चुप हो गए । तुमने ठीक कहा है, यह कहते हुए— २४७ (रावण ने भी उसी समय) हनुमान के हृदय को लक्ष्य बना कर एक चोट कसकर प्रहार किया । पुनः एक मुट्टी बाँध कर जब श्री हनुमान अग्रसर हुए तो रावण एक क्षण भी वहाँ टिक नहीं सका, वह अन्यत्र भाग गया । रावण के संग चार लडाकू वीर भी थे । २४८ इन चार वीरों को हम चार वीर अग्रसर होकर अभी समाप्त कर दें, ऐसा सोचकर, अंगद, श्री हनुमान, नील तथा नल चारों वीर कूद पड़े । रावण के साथ जो चार वीर थे वे उनको सहज ही में

बाक्ला बुँदै सरि ति शर् जव खस्न आया ।

खुप् वानरादि विरले पनि दुःख पाया ॥२५०॥

यो चाल् वानरको बुझी रघुपती साम्ने अगाडी सरी ।
 लाग्या लड्न तहाँ अनेक् तरहले वैलोक्यका नाथ् हरी ॥
 त्यो रावण् रथमा थियो रघुपति खाली जमीन्मा थिया ।
 राम्का खातिर इन्द्रले अति असल् एक् रथ् पठाई दिया ॥२५१॥
 जल्दी मातलि सारथी रथ लिई राम्का हजूरमा गया ।
 हात् जोरीकन रामका हजुरमा यो बिनति गर्दा भया ॥
 हे नाथ् ! रथ् लिइ इन्द्रका हुकुमले आयाँ खडा छू पनि ।
 यै रथमा चढिबक्सियोस् हजुरले बेस् बिनति पाऱ्यो भनी ॥२५२॥
 यो बिनती गरि मातली अधि सऱ्या खवामित् सितानाथ् पनि ।
 तेस् रथ् लाइ परिक्रमा गरि चढ्या चढ्नै उचित् हो भनी ॥
 ताहाँ देखि त मच्चियो अधिक झन् संग्राम् निरन्तर् गरी ।
 जुन् बाण् रावणले त छोड्छउहिवाण् काट्छन् रमानाथ् हरि ॥२५३॥
 यस्ता रीत्सित शस्त्र अस्त्र सब थोक् काट्या प्रभूले जसै ।
 रावण्ले पनि राक्षसास्त्र लिइ खुप् फेर हात्र लाग्यो तसै ॥

मारकर लौट आये । २४९ जब उन चारों वीरों को उन्होंने मार डाला तो रावण क्रोधित होकर आगे बढ़ा और राम के ऊपर बाण फेंका । मूसलाधार पानी के समान जब बाण-वर्षा होने लगी तब वानर सेना घोर संकट में फंस गई । २५० वानरों की ऐसी अवस्था देखकर श्रीरघुनाथ आगे बढ़े और युद्ध करने में लीन हो गये । रावण रथ पर था तथा रघुपति नाथ भूमि पर विराजमान थे । इसलिए उनकी सुविधा के लिए एक अत्यन्त सुन्दर रथ इन्द्र ने भेज दिया । २५१ मातली सारथी रथ लेकर श्रीरघुनाथ के पास पहुँचे और, विनती की कि हे ! रघुनाथ ! इन्द्रदेव की आज्ञानुसार रथ लेकर आया हूँ, अतः इस रथ पर आप विराजने की कृपा कीजिए । २५२ मातली के विनती करने पर सीताजी आगे बढ़ीं और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गयीं । तत्पश्चात् संग्राम और अधिक भयावह रूप धारण करने लगा तथा जिस बाण को रावण छोड़ता है उसे श्रीरघुनाथ अपनी शक्ति से नष्ट कर डालते हैं । २५३ जब श्रीरघुनाथ ने रावण के सारे अस्त्रशस्त्र काट डाले तो रावण ने राक्षसशस्त्र का उपयोग करना शुरू कर दिया । रावण जितने भी बाणों का प्रहार कर रहा था उसके सारे बाण सर्परूप होकर धरती पर गिर

रावण् हान्दछ बाण् जती जति तहाँ सब् सर्प रूप् भै खस्या ।
 हान्या वाण् रघुनाथले पनि र ती बाण् ता गरुड् भै खस्या ॥२४॥
 काट्या सर्प पनी सबै गरुडले पकरे टुक टुक गरी ।
 तेस् बीचमा शरवृष्टि खुप् सित गन्यो राम्का अगाडी सरी ॥
 धक्का केहि दियो प्रभूकन तहाँ फेरी गिराऊँ भनी ।
 हान्यो मातलिलाइ वाण् र पछि फेर् केतू खसाल्यो पनि ॥२५॥
 घोडैलाइ पनी अनेक शरले खुप् हान्न लाग्यो जसै ।
 आश्चर्यै भइ देव पितृ ऋषिगण् खेद् मान्न लाग्या तसै ॥
 लीलाले रघुनाथ् पनी जब तहाँ दुःखी सरीका भया ।
 वानर्को सब फौज् विभीषण समेत् साह्रै डराई गया ॥२५६॥
 बीस बाहू दश शिर् भयङ्कर स्वरूप् मैनाक् सरीको भई ।
 लड्थ्यो रावण रामका हजुरमा साम्ने नजीकै गई ॥
 उठ्थ्यो रिस् प्रभुको र तेहि बिचमा कालाग्नि जस्ता बनी ।
 रावण्का दश शिर् गिराउन लिया जल्दी धनुर्वाण् पनि ॥२५७॥
 कालाग्नी सरिको भयङ्कर स्वरूप् राम्को बनेथ्यो जसै ।
 कामिन् पृथ्वि पनी भयङ्कर स्वरूप् देखिन् र राम्को तसै ॥
 रावण् को पनि चित्तमा भय पन्या उल्का बहूतै भया ।
 क्या गछन् प्रभुले यहाँ भनि तहाँ सब् लोक् डराई गया ॥२५८॥

पड़ते थे । परन्तु जो बाण रघुनाथ ने छोड़ा था वह बाण गरुड रूप में नीचे आ गिरा । २५४ सम्पूर्ण सर्पों को पकड़ कर गरुड ने टुकड़े-टुकड़े कर डाला । और श्रीरामचन्द्र जी पर बाणों की वर्षा की । श्रीरघुनाथ को इससे धक्का तो लगा पर उन्होंने आगे बढ़कर मातली पर बाण प्रहार किया और केतु को भी मार गिराया । २५५ जब घोड़ों के ऊपर भी बाण प्रहार होने लगा तो देवपितृ ऋषिगण भी आश्चर्य-चकित और अत्यन्त ही दुखित हुए । साथ ही साथ श्रीरघुनाथ को भी अत्यन्त ही खेद हुआ और विभीषण सहित वानरों की सेना भी अत्यधिक भयभीत हो गयी । २५६ बीस हाथ और दस सिर वाला रावण भयंकर स्वरूप धारण करके श्रीरघुनाथ के सामने युद्ध करने में मस्त था । यह देखकर श्रीरघुनाथ को अत्यन्त ही क्रोध आया और उन्होंने भी रावण की भुजाओं और सिरों को काट गिराने के लिए धनुष बाण सम्भाल लिया । २५७ श्रीरघुनाथ के कालाग्नि जैसे भयंकर स्वरूप को देख कर पृथ्वी भी कांपने लगी । उनके इस भयंकर रूप को देखकर रावण भी बहुत भयभीत

आकाशमा बसि हेर्दथ्या जति थिया सब् देवतागण् पनि ।
 कस्ता रौत्सित मर्छ रावण तहाँ हेरौं तमाशा भनी ॥
 राम्को रावणको परस्पर तहाँ खुप् युद्ध ठूलो भयो ।
 रात्रीको दिनको प्रकाश् नभइ काल् धेर युद्ध हुँदा गयो ॥२५९॥
 रावण् को शिर काट्नलाइ जब बाण् फेंक्या प्रभूले तहाँ ।
 तालैका फल झैगिन्या तपनि शिर् गीरेन पृथ्वीमहाँ ॥
 एकोत्तर शय शिर् गिन्या जति गिरुन् सब् बन्न लाग्या जसै ।
 क्या भो आज भनी प्रभूकन पनी आश्चर्य लाग्यो तसै ॥२६०॥
 ठूला दैत्य बडा बडा विर पनी जुन् बाणले मारिया ।
 सौही वाण् पनि आज रावण्-उपर् ताकेर खुप् हानिया ॥
 काट्छन् शिर् पनि वाणले र दशशिर् भैमा खसाल्छन् पनि ।
 फेर ज्युंकातिउँ शिर् हुन्या गरुँ कसो क्या भो यहाँको जनी ॥६१॥
 यो चिन्ता रघुनाथमा जब पन्यो साम्ने विभीषण् गया ।
 यो हेतू छ भनेर हेतु जति हो सब् बिन्ति गर्दा भया ॥
 ब्रह्माको वरदान् छ शिर् खसिगया फेर उम्रनन् शिर् भनी ।
 फेर अमृत् पनि नाभिमा छ तव यो मर्दन काट्या पनि ॥२६२॥

हुआ और साथ ही यह सोचकर कि क्रोध में प्रभु न जाने क्या कर डालें सभी लोग अत्यन्त भयभीत हुए और चारों ओर कौलाहल मच गया । २५८ समस्त देवगण आकाश से यह तमाशा देखने लगे कि रावण किस प्रकार मारा जाता है । राम और रावण में परस्पर युद्ध छिड़ा हुआ था, गत दिन उसमें ही वीत गया । २५९ जब प्रभु ने रावण के सिर को काटने के लिए प्रहार किया तो जितने सिर वह गिराते जाते उतने ही फिर से वहाँ बन जाते । यह देखकर राम अत्यन्त ही आश्चर्य में डब गये और दूसरा उपाय सोचने लगे । २६० जिन वाणों से बलशाली दैत्यों को मार गिराया गया था उन्हीं वाणों से तो रावण के सिरों पर प्रहार किया जा रहा है लेकिन वे सिर तो ज्यों के त्यों फिर अपनी जगह आ जाते हैं, यह सोचकर श्रीरघुनाथ अत्यन्त ही चिन्तित हुए । २६१ जब विभीषण ने देखा कि श्रीरघुनाथ अत्यन्त ही चिन्तित हैं तो उसने श्रीरघुनाथ को बताया कि उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, इसलिए उसका सिर कटकर फिर से उत्पन्न हो जाता है । उसकी नाभि में अमृत है, अतः सिर कटने पर भी वह नहीं मरता है । २६२ विभीषण ने श्री राम से विनती की कि हे रघुनाथ ! आप उस अमृत का शोषण कीजिए । जब सारा अमृत सूख जायेगा तो

त्यो अमृत सब शोषि बक्सनुहवस् सब सुक्छ अमृत जसै ।
 चाँडैत्यो मरिजान्छ तेस् बखतमा उठ्तेन फेरी कसै ॥
 हात् जोरेर जसै विभीषणजिले यो गुह्य खोलीदिया ।
 ठाकुरले पनि अग्निबाण झटपट हानेर शोषीलिया ॥२६३॥
 त्यो अमृतकन शोषिबक्सनु भयो यो दिन्छ अर्ती भनी ।
 रिस्ले शक्ति लिई विभीषण उपर ताकेर हान्यो पनि ॥
 राम्ले शक्ति र शिर् दशै छिनिदिया फेर् एक शिर्को भई ।
 नाना शस्त्र लिएर खुप् सित लड्यो राम्का अगाडी गई ॥२६४॥
 तेस् बीचमा पनि मातली अधि सरी हात् जोरि विन्ती गन्या ।
 हे नाथ ! रावण लड्छ यो अज्ञ भन्या फेर् शस्त्र हान्ने पन्या ॥
 ब्रह्मास्त्र अब छोडि बक्सनुहवस् खुप् मर्म तोड्न्या गरी ।
 मान्या युक्ति त एक यही छ नहिं ता मर्देन काट्या पनि ॥२६५॥
 विन्ती मातलिको सुनी प्रभुजिले एक बाण् तुरुन्तै लिया ।
 जस्मा अग्नि र वायु सूर्य इ समेत लोकपाल बस्याका थिया ॥
 मन्त्री वेदविधानले र धनुमा त्यो बाण लगाया जसै ।
 प्राणीलाइ पनि बहुत् भय भयो खुप् भूमि कामिन् तसै ॥६६॥

वह तुरन्त ही मर जायेगा तथा फिर वह उठ नहीं सकेगा । इस रहस्य को सुनकर श्रीरघुनाथ अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अग्निबाण का प्रहार करके तुरन्त ही उसके नाभि के अमृत को सुखा डाला । २६३ श्रीराम ने जब उसके नाभि का अमृत सुखा डाला तब रावण ने क्रोधित होकर विभीषण के ऊपर शक्ति बाण से प्रहार किया । इतने में राम ने भी शक्ति बाण से प्रहार किया तथा उसके दसों सिरों को छिन्न-भिन्न कर दिया तथा रावण पुनः एक ही सिर वाला रह गया । रावण भी राम के सम्मुख आगे बढ़कर भाँति-भाँति के हथियारों द्वारा रामचन्द्र जी से खूब लड़ा । २६४ इसी बीच मातली ने हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथ से विनती की कि हे नाथ ! रावण तो अभी तक लड़ ही रहा है और इसके ऊपर फिर से प्रहार करना ही पड़ेगा, अतः इस बार आप ब्रह्मास्त्र छोड़िये जो अत्यन्त ही मर्मभेदी हो तभी ये मरेगा । इसके मारने की यही एक युक्ति है अन्यथा यह किसी प्रकार नहीं मर सकता है । २६५ मातली की विनती को सुनते ही प्रभु ने एक ऐसा बाण लिया जिसमें अग्नि, वायु तथा सूर्य इन तीनों से युक्त स्वयं लोकपाल प्रविष्ट थे । सम्पूर्ण वेद विधान के साथ उन्होंने जैसे ही उस बाण को धनुष पर रखा रावण के

दाज्यूको किरिया गरून् सब हरून्
 हूकूम् येति मित्यो र लक्ष्मण गया
 लाग्या भन्न अहो विभीषण ! तिमी
 लाग्यौ गर्न विलाप् अनेक् तरहले
 तिम्रो यो अधि जन्ममा कउन हो
 फेरी क्या हुनलाइ रावण यहाँ
 जम्मा भैकन बालुवा जसरि फेर
 यस्तै रीत्सित फिर्दछन् इ दुनियाँ
 अज्ञान्को मति यो नलेउ तिमिले
 जानी श्री रघुनाथका चरणमा
 प्रारब्धै बलवान् बुझेर सब यो
 जो पछिन् परिआउन्या सब कुरा
 दाज्यूको गहिराल आज तिमिले
 रुन्छन् रानिहरू बुझाउ अहिले

ती रानिका शोक् पनि ।
 जल्दी बुझाऊ भनी ॥
 क्या यो न जान्नुया सरी ।
 खाली जमीन्मा परी ॥२७४॥
 ऐले त दाज्यू भयो ।
 छोडेर काहाँ गयो ॥
 फिर्छन् र गङ्गामहाँ ।
 कवै छैन आपनू यहाँ ॥२७५॥
 झूठो जगत् हो भनी ।
 खुप् ध्यान् लगाऊ पनि ॥
 राज्यादि गेदँ रहू ।
 नीका ननीका सहू ॥२७६॥
 क्रीया विधान्ले गरी ।
 चाँडै अगाडी सरी ॥

कहते है कि तुम सब दुःख में ही डूबे हुए हो, समस्त रानियाँ शोक में डूबी हुई विलाप कर रही हैं और तुम भी उनके साथ केवल रो रहे हो और अपने कर्तव्य का कुछ भी ख्याल नहीं करते। उठो और मन में शांति धारण करके विलाप करना छोड़ो तथा भाई का क्रिया-कर्म ग्रथोचित रूप से सम्पन्न करो। २७४ लक्ष्मण जी विभीषण से कहते हैं कि पिछले जन्म में रावण तुम्हारा कौन था कौन जानता है पर इस जन्म में तो वह तुम्हारा बड़ा भाई हुआ। अब पुनः वह तुम्हें छोड़कर काहाँ चला गया कुछ पता नहीं। जिस प्रकार बालू गंगा जी में जन्म लेती है और एक जगह से दूसरी जगह बहती रहती है उसी प्रकार मानव जीवन और आत्मा भी ऐसी है। किसी के जीवन का कोई ठीक नहीं अर्थात् जीवन अमर नहीं है। २७५ यह संसार झूठा है, अतः मन में अज्ञान बस इस संसार को कोई महत्व न दो और समस्त झूठी बातों से अपने ध्यान को हटाकर श्रीरघुनाथ जी के चरणों में लगा लो। संसार में समय ही बलवान है ऐसा समझ कर रहो। समय के प्रभाव से ही मनुष्य किसी समय यहाँ राज्य करता है और कभी दुःख भी पाता है। समय के प्रभाव से जो कुछ भी होता है वह सब सहन करना ही पड़ता है। २७६ इसलिए बड़े भाई का क्रिया-कर्म उचित ढंग से कर डालो। देखो रावण की सब रानियाँ रो रही हैं, आगे बढ़कर इन्हें समझाओ। श्रीराम-चन्द्र जी की आज्ञानुसार लक्ष्मण ने पूर्ण प्रयास के साथ दुःखी परिवार को

यस्तै ठाकुरको हुकूम छ भनि बेस् रीतले बुझाया जसै ।
 विस्तार लक्ष्मणको सुन्या र झटपट् ऊठ्या विभीषण तसै । २७७।
 बिनती गर्न भनी जहाँ प्रभु थिया ताहाँ तुरुन्तै गया ।
 हात् जोरीकन रामका हजुरमा क्या बिनति गर्दा भया ॥
 हेनाथ मजि भया कबूल गरि लियाँ आज्ञा शिरोपर् धरी ।
 बिनती गर्छु तथापि सत्य भगवान् ! एक भारिशंका परी ॥ २७८ ॥

यो क्रूर हो प्रभु ! परस्त्रि पनी त हन्या ।

यस्को क्रिया कसरि योग्य भनेर गन्या ॥

बिनती गन्या यति विभीषणले र ताहाँ ।

खूशी भई हुकुम भो उहि बीचमाहाँ ॥ २७९ ॥

बाचुन्ज्याल् रिस हुन्छ शत्रुसितको ऐले मरी यो गयो ।
 यस्को रिस् अब गर्नु छैन अब ता मेरो त रिस् दूर भयो ॥
 रुन्छन् रानिहरू बुझाउ गर लौ क्रीया विधानले गरी ।
 पैले यै नगरी हुँदैन तिमिले यै हो क्रियाको घरि ॥ २८० ॥
 हुकूम येति सुन्या जसै प्रभुजिका योग्यै हुकूम भो भनी ।
 रानीलाइ बुझाउनाकन गया चाँडै विभीषण् पनि ॥

समझाया । लक्ष्मण जी के सांत्वना भरे वचनों को सुनकर विभीषण झटपट उठ बैठा । २७७ श्रीरामचन्द्र जी के पास कुछ विनती करने के लिए वह गया और उनकी शरण में विनती करने लगा कि हे नाथ ! आपकी आज्ञा शिरोधारि है लेकिन मेरे मन में एक शंका आई, है आप उसका समाधान कर दें । २७८ विभीषण ने कहा कि हे प्रभु ! यह तो ऐसा पापी जीव था कि पराई स्त्री का इसने हरण किया । ऐसे पापी का मैं क्रिया संस्कार किस प्रकार करूँ आप मुझे बतायें । विभीषण के यह बचन सुनकर प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्र ने कहा— २७९ हे विभीषण ! क्रोध तो जीवित और चल मनुष्य से किया जाता है अब तो वह मर चुका है । उसके साथ क्रोध करने से क्या लाभ, उससे किसी प्रकार का क्रोध करना उचित नहीं । अतः मेरा क्रोध समाप्त हो चुका है । सर्वप्रथम रोती हुई रानियों को समझाओ और क्रिया संस्कार पूर्ण विधान से करो । अब तो यही समय है, यह तुरन्त होना चाहिए । इसको न करना उचित न होगा । २८० प्रभुजी की आज्ञा को सुनकर विभीषण तुरन्त रानियों को समझाने के लिए गया । रानियों को समझा बुझा कर घर भेज दिया और पूर्ण विधान के साथ रावण का क्रिया-कर्म सम्पन्न किया और फिर स्वयं राम के

रानलाइ बुझाइ सब गरिसक्या क्रीया विधानले गरी ।
 रानी सब घरमा पठायर गया जाहाँ थिया रामहरि॥२८१॥
 खुशी खुप् रघुनाथ् पनी हनुभयो सम्पूर्ण खुशी भया ।
 बीदा भैकन मातली पनि तहाँ फेर् इन्द्रथ्यै गै गया ॥
 लक्ष्मण्लाइ हुकूम दिया प्रभुजिले पैले दियाँ तापनि ।
 गादीमा लगि फेर् विभीषण उपर् ऐले तिमिले पनि ॥२८२॥
 देऊ लौ अभिषेक् भनी प्रभुजिको हुकूम भएथ्यो जसै ।
 लक्ष्मणले पनि गादिमाथि लगि फेर् दीया अभीषेक् तसै ॥
 गादीमाथि बसाइ साथ लिइ फेर् राम्चन्द्रजीथ्यै गया ।
 लक्ष्मण्ले रघुनाथका हजुरमा सब बिनित गर्दा भया॥२८३॥
 तेस् बीच्मा रघुनाथ् प्रसन्न हनुभो पूग्यो प्रतिज्ञा भनी ।
 सुग्रीव्लाइ पनी सह्लाउनु भयो तिम्रो कृपा हो भनी ॥
 ऐले हे हनुमान् ! विभीषणजिको मत्ले सिताथ्यै गई ।
 सब सम्चार बताउ जाउ अहिले सूनुन् बहूत् खुश भई॥२८४॥
 जो भन्छिन् ति कुरा बताउन यहाँ फेर् जल्दि आऊ भनी ।
 हुकूम हून गयो विभीषणजिका मत्ले हनुमान् पनि ॥

पास गया । २८१ सब काम से निवृत्त होकर विभीषण जब श्रीराम के पास गया तो वे उसे देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और एक खुशी का वातावरण छा गया । मातली ने भी प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से विदा होकर इन्द्र के निवास-स्थान को प्रस्थान किया । तत्पश्चात् रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी को आज्ञा दी । २८२ हथेली में सामग्री रखकर प्रभु जी ने कहा कि लो विभीषण अब तुमको भी अभिषेक करते हैं । लक्ष्मण ने भी हथेली में सब सामग्री रखकर विभीषण का अभिषेक किया । पुनः हथेली में सामान रखकर साथ ही साथ वे रामचन्द्रजी के पास गये और उनके सम्मुख लक्ष्मण ने विनती की । २८३ श्रीरघुनाथ जी इस अवसर पर हादिक प्रसन्न हुए और बोले कि अब प्रतिज्ञा पूरी हुई । सुग्रीव से भी यही कहा कि यह सब तुम्हारी ही कृपा है, तत्पश्चात् हनुमान को आज्ञा दी कि हे हनुमान ! विभीषण की सलाह लेकर सीता के पास जाओ और यह सब शुभ समाचार सुनाओ जिसे सुनकर वह बहुत प्रसन्न होगी । २८४ सीता जी जो कुछ भी पूछें वह सब विस्तारपूर्वक कहना और शीघ्र ही वापस आना । ऐसी आज्ञा पाकर विभीषण से परामर्श लेकर हनुमान सीता की ओर गये, जब सीता के पास हनुमान पहुँचे तो

सीताथ्यै हनुमान् पुग्या रुखमनी सीता बस्याकी थिइन् ।
पाऊमा हनुमान् पग्या जननिले चुप् भै नजर् खुप् दिइन् ॥२५॥

चीह्नीन् ई हनुमान हुन् भनि र खुप् खूशी भईथिन् जसै ।
विस्तार् बिनित् गग्या सबै जननिथ्यै श्रीरामजीका तसै ॥
झन् खूशी जननी भइन् खुशि हुँदै क्यै बोलन लागिन् तहाँ ।
क्या दीन्या तिमिलाइ चीज हनुमान् खूशी गरायौ यहाँ ॥२६॥
तिम्नो यै प्रिय वाक्य तुल्य त अनेक् रतनादिको हार् पनि ।
लागदैनन् अरु चीजदेखि त ठुलो यो चीज् दिन्या हो भनी ॥
झट् बिनित् अरु चीजदेखि त ठुलो श्रीराम् जगत्का पति ।
खूशी खुप् हुनुहुन्छ ता खुशि म छू चाहिन्न दौलथ् रती ॥२७॥
यो बिनित् सुनि खूशि भैकन तहाँ येती अह्नाइन् पनि ।
राम्को दर्शन गछु बिनित् गर गै भेट् गर्न खोज्छिन् भनी ॥
सीताका इ वचन् सुनेर हनुमान् राम्का हजूरमा गया ।
दर्शनको मतलब् थियो जननिको सो बिनित् गर्दा भया ॥२८॥

वह चुपचाप बैठी थीं । हनुमान जाते ही उनके चरणों में झुक गये । सीता जी ने भी आँखों-आँखों में ही आशीर्वाद दिया । २८५ सीता जी ने हनुमान जी को पहचाना और उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई । हनुमान ने विस्तारपूर्वक सब हाल कहा । सीता जी यह सब समाचार सुनकर बहुत ही प्रफुल्लित हुई और कहने लगीं कि तुमने ऐसी शुभ सूचना दी है जिसके प्रत्युपकार में तुम्हें क्या दूँ । २८६ हनुमान ने सीता जी के वचन सुनकर यह प्रार्थना की कि हे माता ! तुम्हारे प्रिय वचन ही अनेक रत्नों से जटित हार से भी बढ़ कर हैं । आपके प्रेम भरे वाक्य ही इतने अमूल्य हैं कि उनके सामने हर वस्तु तुच्छ है । हनुमान ने इतनी विनती करके कहा कि श्रीराम तो इस संसार के मालिक हैं, उनकी कृपा मुझे प्राप्त है, अब इससे बढ़कर आप मुझे और क्या देना चाहती हैं । आप हमसे प्रसन्न हैं और मैं आपकी कृपा पाकर गौरवान्वित हुआ हूँ, अतः अब मुझे कुछ नहीं चाहिए । २८७ हनुमान की ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर सीताजी अत्यन्त प्रेम विभोर हो गईं और उन्होंने राम के दर्शन पाने की इच्छा प्रगट की और कहा कि मैं श्रीराम के पास चलना चाहती हूँ । सीता जी के इन वचनों को सुन कर हनुमान जी तुरन्त राम के पास गये । और सीता जी की अभिलाषा को राम के सामने प्रगट किया । २८८ सीता की इस इच्छा को सुनकर श्रीराम ने हनुमान और विभीषण दोनों को

यो विन्ती हनुमानले हजुरमा ताहाँ गन्याथ्या जसै ।
 मर्जी भो प्रभुको विभीषणजिको साथ् लागि आया तसै ॥
 जाऊ ल्याउ सिताजिलाइ तिमिले सब् देह निर्मल् गरी ।
 आउन् भेट्न सिता अनेक् तरहका भूषण शरीरमा धरी ॥२८९॥
 हुकूम्ले हनुमानलाइ सँगमा लीई विभीषण् गया ।
 जल्दी स्नान गराउनाकन तहाँ खुप् यत्न गर्दा भया ॥
 पैले स्नान गराइ शुद्ध कपडा पैहाइ भूषण् पनि ।
 दीया सुन्दर जुन् थिया खुशि हुँदै पैहून् सिताजी भनी ॥२९०॥
 डोली माथि सिता चढाइ खुशि भै हीँड्या विभीषण् जसै ।
 दर्शन् गर्न भनेर बानरहरू आयेर घेन्या तसै ॥
 चौकी गर्न भनेर डोलि नजिकै जो ता रह्याका थिया ।
 सब् बानरहरूलाइ तेस् बखतमा तिनले हटाईदिया ॥२९१॥
 कोलाहल् अधिकै भयो प्रभुजिले सून्या नजर् भो पनि ।
 हुकूम् भो रघुनाथको किन तहाँ वानर् हटायो भनी ॥
 आमा जानि ति हेर्दछन् सब जना हेरून् ति वानरहरू ।
 डोलीमा किन चढ्दछिन् अब सिता पैदलति आउन् बरु ॥२९२॥
 सूनिन् खामितको हुकूम् र जननी जल्दी जमीन्मा झरिन् ।
 पाऊ पर्छु भनेर खुप् खुशि हुँदै साम्ने अगाडी सरिन् ॥

आज्ञा दी कि नहा धोकर (निर्मल होकर) वे दोनों जाकर सीता जी को ले आवें तथा सीता जी से कहें कि वे अपने समस्त आभूषण शरीर में धारण करके सजी-संवरी हुई आयें । २८९ विभीषण हनुमान के साथ सीता जी को लेने गये । सीता जी स्नानादि करके शुद्ध वस्त्रों से सुसज्जित हुई और उन्होंने सारे आभूषण पहनकर अपना श्रृंगार किया । रामचन्द्र जी के भेजे हुए आभूषण पहनकर सीता जी अत्यन्त प्रसन्न हुई । २९० जैसे ही सीता जी को विभीषण ने डोली में बैठाया समस्त बानर उनके अंतिम दर्शन के लिए दौड़ पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर लिया । जो लोग डोली की रखवाली कर रहे थे उन सब बानरों को उस समय वहाँ से हटा दिया गया । २९१ इतने बीच में वहाँ कोलाहल होने लगा । सबने देखा कि प्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन बानरों को वहाँ से क्यों हटाया गया सीता सभी की माता हैं, सभी उनका दर्शन पाने के लिए आ रहे हैं, अतः डोली में चढ़ कर आने की क्या आवश्यकता है अब सीता पैदल ही आयेंगी । २९२ सीता जी

काम्को सिद्ध गराउनाकन सिता माया लियाकी थिइन् ।
 काम् हो रावण मारनको कुल समेत् सब् सिद्ध पारीदिइन् ॥२९३॥
 अग्नीमा अघि राखियाकिकन फेरु लीन्या तहाँ सूर् गरी ।
 दोष दीया रघुनाथले किन यहाँ आयौ नजीकै भनी ॥
 अर्काका घरमा बस्याकि भनि यो दोषै दिनुभो जसै ।
 लक्ष्मण्लाइ हुकूम दिइन् जननिले विश्वासखातिर तसै ॥२९४॥
 हे लक्ष्मण ! तिमि अग्नि बाल अहिले ताहीं प्रवेश गर्दछु ।
 साँचै छू त म बाचुँला झुटि भया ऐल्हे तहीं मर्दछु ॥
 हुकूम लक्ष्मणले तहाँ जननिको सून्या र राम्को पनि ।
 मत् पाईकन अग्नि खुप् गरि ठुलो बालीदिया बेस् भनी ॥२९५॥
 सीताजी पनि खुप् प्रदक्षिण गरिन् राम्को र भक्ती गरी ।
 अग्नीको नजिकै खडा पनि भइन् केही अगाडी सरी ॥
 द्यौता ब्राह्मण संझि राम्चरण को ध्यान् भित्ति मन्मा धरिन् ।
 सब्का साक्षिभनेर अग्निसित हात् जोरी पुकारा गरिन् ॥२९६॥
 जस्ता रीत्सित रामका चरणमा ध्यान्मा रह्याकी म छु ।
 तस्तै रीत्सित अग्नि शीतल हऊन् तापै नलागोस् कछु ॥

ने प्रभु के आज्ञा भरे स्वर को सुना और तुरन्त ही जमीन में उतर पड़ीं । अत्यन्त ही प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और सबके सामने ही आगे बढ़ गयीं । कार्य सिद्ध होने के लिए सीता जी ने मायारूप धारण किया था अब वह सब कार्य सिद्ध हो चुके । रावण कुल सहित समाप्त हो चुका था । २९३ सीता जी तो पहले ही अग्नि में प्रवेश कर चुकी थीं क्योंकि रघुनाथ जी ने उनके ऊपर दोष लगाया था कि इतने दिन पराये घर में रहकर आयी हुई स्त्री शुद्ध नहीं हो सकती । उस समय सीता जी ने अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाने के लिए लक्ष्मण से कहा— २९४ हे लक्ष्मण ! तुम अभी अग्नि की चिता जलाकर तैयार करो मैं उसमें प्रवेश करूँगी । अगर मैं शुद्ध हूँ तो बच जाऊँगी अन्यथा मर जाऊँगी । लक्ष्मण ने राम और सीता की आज्ञा सुनी, चिता तैयार की और उसमें आग लगा दी । एक बड़ी सी चिता तैयार हो गई । २९५ सीता जी ने अपने हृदय में राम की भक्ति और प्रेम को संजोकर अग्नि की परिक्रमा की । समस्त देवता, ब्राह्मण और रामचन्द्र जी को मन ही मन प्रणाम किया । सबको साक्षी करके दोनों हाथ जोड़ के अग्नि को संबोधित करके सीता जी ने कहा— २९६ हे अग्निमाता ! तुम साक्षी हो । मेरे

बोलिन् येति र अग्निमा पसिगइन् ताहाँ सिताजी जसै ।
 सब्को ताप् मनमा भयो विरहका बात् गर्न लाग्या तसै ॥२९७॥
 सीता अग्निविषे जहाँ त पसिथिन् इन्द्रादि लोकपालूहरू ।
 ब्रह्मा रुद्र समेत् सबै व्हि गया जो देवता छन् अरू ॥
 जम्मा भै रघुनाथको स्तुति गन्या सब् देवगण्ले पनि ।
 ब्रह्माले पनि खुप् गन्या स्तुति तहाँ मालिक् यिनै हुन् भनी ॥९८॥
 अग्नीले पनि बिन्ति खुप् सित गन्या राम्का चरण्मा परी ।
 भूषण् वस्त्र अनेक् धन्याकि जननी सीता अगाडी धरी ॥
 सीताजीकन आजसम्म त यहाँ राखी दियाको थियाँ ।
 काम्को सिद्ध भया लिन् अब हवस् सीताहजूरमा दियाँ ॥२९९॥
 अग्नीले पनि बिन्ति बात् गरि तहाँ सीता जसै ता दिया ।
 खूशी मन् रघुनाथको हुन गयो सीताजिलाई लिया ॥
 सीताजीकन काखमा लिइ तहाँ ठाकुर बस्याथ्या जसै ।
 भक्तीले स्तुति इन्द्रले पनि गन्या खूशी भया सब् तसै ॥३००॥
 फेर बिन्ती शिवले खुशी भइ गन्या राम्का हजूरमा तहाँ ।
 सीतानाथ् ! म त आउन्याछुपछि फेर वाहीं अयोध्यामहाँ ॥

ध्यान में केवल राम ही राम रहे हैं और हर समय रहेंगे, यदि ऐसा है तो तुम शीतल हो जाओ और मुझे बिल्कुल भी तुम्हारा ताप न लगे । इतना कहकर सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गयीं । यह देखकर वहाँ सारे उपस्थित जन अत्यन्त दुःखी हुए और सभी शोकयुक्त बातें करने लगे । २९७ सीता जी ने अग्नि में जहाँ पर प्रवेश किया था वहाँ पर इंद्रादि तथा समस्त लोकपाल प्रविष्ट थे । ब्रह्मा जी भी रुद्र सहित अन्य देवताओं के साथ आ पहुँचे । समस्त देवता रघुनाथ जी की वन्दना करने लगे । ब्रह्मा जी ने भी राम की घोर स्तुति की और कहने लगे कि श्रीराम मनुष्य नहीं साक्षात् परमेश्वर हैं और तीनों लोक के मालिक हैं । २९८ श्रीराम के चरणों में गिरकर अग्नि ने भी स्तुति की और समस्त वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सीता जी को उनके सम्मुख रख दिया और कहा कि यह वही सीता जी है जिनको आपने मुझमें प्रवेश कर दिया था । २९९ अग्नि ने विन्ती की कि अब सीता आपकी सेवा में हाजिर हैं । इतना कहकर सीता को ज्यों का त्यों राम के हाथों में लौटा दिया । रघुनाथ जी ने प्रफुल्लित मन से सीता को ग्रहण किया और एक राजा के समान सीता को अपने पास बैठाकर सुशोभित हुए । ऐसा सुहावना अवसर देखकर सभी के मन प्रसन्नता से झूम उठे । ३०० शिवजी ने पुनः प्रसन्न होकर

ऐले ई दशरथ् पिता हजुरका मिल्ला कि दर्शन् भनी ।
 आया दर्शन आज बक्सनुहवस् ख्वामित् प्रभूले पनि ॥ ३०१ ॥
 यो बिन्ती शिवको सुनेर दशरथ्- जीका हजूरमा गई ।
 पाऊमा शिर राखिबक्सनुभयो अत्यन्त खूशी भई ॥
 आलिङ्गन् दशरथ्जिले पनि गन्या तान्यौ मलाई भनी ।
 बीदा भै दशरथ् खुशी भइ गया फेरु स्वर्ग लोकमा पनि ॥ ३०२ ॥
 वानरको जति फौज् मन्यो रणहुँदा ती सब् बचाऊ भनी ।
 अमृत वृष्टि गराउनाकन हुकूम भो इन्द्रलाई पनि ॥
 हुकूम पाइ ति इन्द्रले पनि तहाँ अमृत गिराया जसै ।
 वानरका सब फौज् खडा पनि भया राम्का कृपाले तसै ॥ ३०३ ॥
 बिन्ती ताहिं गन्या विभीषणजिले राम्का चरणमा परी ।
 मंगल् स्नान् गरिबक्सियोस् हजुरले यो स्नानको हो घरि ॥
 मंगल् स्नान् गरि वस्त्र भूषण धरी राज् आज याहीं हवस् ।
 सेवक् हूँ करुणा निधान् ! हजुरको प्रीतीम माथी रहोस् ॥ ३०४ ॥
 बिन्ती सूनि हुकूम भयो हुन त हो जान्या त हो स्नान् गरी ।
 क्याहूँ आज घरै छ भाइ त भरत् मै झैं जटाजूट धरी ॥

श्रीराम के समक्ष विनती की । सीता नाथ ! मैं तो बाद में पुनः अयोध्या आऊँगा अभी तो आपके दशरथ पिता जी के दर्शन पाने की इच्छा से आया था अतः स्वामित् ! आज प्रभु आप भी दर्शन देने की कृपा करें । ३०१ शिवजी की यह विनती सुनकर दशरथ जी के पास जाकर पैरों में सिर रख दिया । अत्यन्त प्रसन्न होकर दशरथ जी ने भी आलिङ्गन करते हुए कहा कि मेरा भी आपने उद्धार किया । इस प्रकार प्रसन्न होकर दशरथ जी ने विदा ली और पुनः स्वर्गलोक को चले गये । ३०२ रणभूमि में जितने भी वानर सेना मारे गये थे उन सब को बचाने के लिए अमृत-वृष्टि कराने हेतु इन्द्र को भी आज्ञा दी । आज्ञा पाकर इन्द्र ने भी वैसे ही अमृत वृष्टि की । राम की कृपा से वानर सेना पुनः खड़ी हो गयी । ३०३ विभीषण ने भी श्रीराम के चरणों में पड़कर विनती की कि यह स्नान करने का समय है अतः आप कृपया मंगलास्नान करने का कष्ट करें । मंगलास्नान के पश्चात् वस्त्राभूषणादि धारणकर आज यहीं विराजने की कृपा करें । हे करुणानिधान ! मैं सेवक हूँ, श्रीमन की कृपादृष्टि मुझ पर रहे ! ३०४ विनती सुनकर कहने लगे— है तो ठीक ही । परन्तु क्या कहेँ घर में भाई भरत मेरे ही समान जटाजूट होकर बैठा

त्यो भाई पर राखि आज म यहाँ कुन् रीतले स्नान् गरुँ ।
 सुग्रीव् वीरहृष्ट छन् इ देउ तिमिले यिन्लाइ खिल्लत् वरु ॥३०५॥
 हूकूम् येति हूँदा विभीषणजिले रत्नादि वृष्टी गन्या ।
 जस्ले जुन् चिज खोज्छ सो चिज दिई सब् फौजको ताप् हन्या ॥
 सब फौजलाइ बिदा पनी दिनुभयो राम्ले कृपा खुप् गरी ।
 फौज् वानरहृष्टको पनी तरिगयो आनन्दमा खुप् परी ॥३०६॥
 काम् सब् सिद्ध भयो यहाँ किन वसूँ जान्छू अयोध्या भनी ।
 सीता लक्ष्मण साथमा लिइ चढ्या श्रीराम् विमान्मा पनि ॥
 सुग्रीव् अङ्गदजी विभीषण समेत् राम्का हजूरमा थिया ।
 तिन्लाई पनि जाउ राज्गर भनी बीदा प्रभूले दिया ॥ ३०७ ॥
 ती सब्ले तहिं विन्ति खुप् सित गन्या जान्छौं अयोध्यै भनी ।
 सब्को आग्रह देखि खूशि हुनुभो ताहाँ रमानाथ् पनि ॥
 पुष्पकमा चढ आज झट्ट अब लौ भन्न्या हुकूम् भो जसै ।
 सुग्रीव् श्रीहनुमान अङ्गद चढ्या पुष्पक् विमान्मा तसै ॥३०८॥
 आपना मन्त्रि लिई विभीषण पनी तेसै विमान्मा वस्या ।
 सेना सुग्रीवका पनी हुकुमले सम्पूर्ण ताहीं वस्या ॥

है इसलिये भाई को अलग रखकर आज मैं यहाँ किस रीति से स्नान करूँ । सुग्रीव वीर आदि यहाँ है, इन्हें तुम आश्रय दो । ३०५ ऐसी आज्ञा होने पर विभीषण जी ने रत्नादि की वृष्टि की । जो जिस प्रकार की वस्तु आदि चाहते थे वही वस्तु देकर सब सेनाओं का ताप हरण किया । अति कृपाकर राम ने सब सेनाओं को विदा भी दे दी । वानर सेना भी अत्यन्त आनन्दित हो मुक्त हो गयी । ३०६ सब कार्य सिद्ध हो चुका है— अब यहाँ क्यों रहूँ, अयोध्या ही चला जाता हूँ । ऐसा सोचकर सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर श्रीराम विमान में चढ़े । सुग्रीव, अंगद जी तथा विभीषण सब राम ही के पास थे । उन्हें भी जाकर राज करने को कहते हुए प्रभु ने विदा दी । ३०७ उन सबने भी अयोध्या ही जाने के लिये विनती की । सभी के इस आग्रह को देखकर श्रीरामनाथ अत्यन्त प्रसन्न हुए । तब सबको पुष्प विमान में चढ़ने की जैसे ही आज्ञा दी; सुग्रीव, श्री हनुमान और अंगद पुष्प विमान में चढ़ गये । ३०८ अपने मंत्री को साथ में लेकर विभीषण भी उसी विमान में बैठ गये । सुग्रीव की सम्पूर्ण सेना भी आज्ञानुसार वहीं

सीतानाथहरू सबै बसि रही शोभा अधिक गर्दथ्या ।
सो शोभाकन वानरादि विरले देखेर छक् पर्दथ्या ॥ ३०९ ॥

सेना समेत सब विमान उपर चढाई ।

हूकूम दिया प्रभुजिले जब जानलाई ॥

आकाश मार्ग गरि जान विमान धायो ।

शोभा अपूर्व रघुनाथ चढ्या र पायो ॥३१०॥

दौड्यो पुष्प विमान् जसै हुकुमले आकाश बीचमा पसी ।

पृथ्वीको पनि याद् सबै हुन गयो तेसै विमान्मा बसी ॥

जुन् जुन् काम जहाँ जहाँ अधिभयो याहाँ गन्याँ यो भनी ।

सीतालाइ नजर् गराउनु भयो खुश भै प्रभूले पनि ॥३११॥

यो लङ्कापुरि हो अगम् छ बलले को जान सक्छन् अरू ।

त्यो भूमी रणभूमि हो तहिं मन्या ठूला ठूला वीरहरू ॥

ताहीं रावण कुम्भकर्ण त मन्या भारी लडाई गरी ।

लक्ष्मणले तहिंइन्द्रजित्कन जित्या साम्ने अगाडी सरी ॥३१२॥

सागर्मा पनि हेर सेतु बलियो बाँध्याँ र सागर् तर्याँ ।

रामेश्वर् भनी नाम राखि शिवको स्थापन् किनार्मा गर्याँ ॥

बैठ गयी । सीतानाथ आदि सब वहाँ बैठे रहने से अधिक शोभायमान हो रहा था और उस शोभा से वीर वानरों का मन और हर्षित होता था । ३०९ सेना सहित सबको विमान में चढाकर जब प्रभु ने चलने के लिये आज्ञा दी, विमान आकाश मार्ग से जाने लगा । श्रीरघुनाथ जी के विराजमान होने से विमान की शोभा और भी बढ़ गयी । ३१० आज्ञा पाकर पुष्प विमान आकाश के मध्य से उड़ने लगा तब श्रीरामचन्द्र जी को पृथ्वी की समस्त घटनाओं का स्मरण होने लगा । जहाँ-जहाँ जो-जो कार्य हुआ था इस-इस स्थान पर किया गया था, कहते हुए प्रसन्न होकर प्रभु सीता को दिखाने लगे । ३११ यह लंकापुरी है, अत्यन्त अगम-बलपूर्वक यहाँ कौन प्रवेश कर सकता है । वह भूमि रणभूमि है, जहाँ अनेक बड़े-बड़े वीर योद्धा मारे गये । वहीं पर भीषण युद्ध करके रावण और कुम्भकरण भी मारे गये । वहीं लक्ष्मण ने अग्रसर होकर इन्द्रजीत को भी परास्त किया था । ३१२ सागर पार करने के लिए एक दृढ़ पुल का निर्माण किया जिसके ऊपर से सारी सेना पार उतरी थी । किनारे पर शिव जी की स्थापना करके रामेश्वर नाम रखा । उसी जगह पर चार मंत्रियों सहित विभीषण

चार् मन्त्रीसँग ली विभीषण तहाँ आई शरण्मा पन्या ।
 किष्किन्धा यहि हो यसै नगरिमा सुग्रीव राजा भया ॥ ३१३ ॥
 वार्ता येति गर्या सिरासित र फेर् तारा झिकाया पनि ।
 सुग्रीव्लाइ हुकूम भयो प्रभुजिको तारा झिकाऊ भनी ॥
 तारा रानिहरू समेत् चढिसक्या ताहाँ विमान्मा जसै ।
 सीतालाइ नजर् गराउनुभयो वाली गिन्याको तसै ॥ ३१४ ॥
 सीता ! हेर अगाडि पञ्चवटि वेस् राक्षस् तहाँ धेर् मर्या ।
 त्यो आश्रं पनि हो अगस्ति ऋषिका जस्ले कृपा खुप् गर्या ॥
 तेसै पल्लिरको सुतीक्षण ऋषिका धेरै ऋषी छन् जहाँ ।
 त्यो हो पर्वत चित्रकूट भरतले भेट्नै गयाध्या जहाँ ॥ ३१५ ॥
 जो आश्रम यमुनाजिको छ तिरमा ताहाँ भरद्वाज छन् ।
 गंगा हुन् इ अगाडिकी नजरले देख्तै खुशी हुन्छ मन् ॥
 जो देखछ्यौ अज्ञ ज्ञन् परै सरयु हुन् ती हुन् अयोध्या पुरी ।
 हे सीते ! गर लौ प्रणाम तिमिले भक्ति मनैमा धरी ॥ ३१६ ॥
 सीताजीकन येहि रित्सित सबै खोलेरी विस्तार् गरी ।
 भारद्वाजकन गै प्रणाम पनि गन्या जल्दी जमिन्मा झरी ॥

आकर प्रभु की शरण में पड़ा था । यह देखो, किष्किन्धा पर्वत है जहाँ पर बसी हुई नगरी का राज्य सुग्रीव को दिया गया । ३१३ सीता जी के साथ इतनी बात करके तारा को बुलाने के लिए सुग्रीव को आज्ञा हुई । उनकी आज्ञानुसार तारा को बुलाया गया । तारा भी रानियों सहित जैसे ही विमान में चढ़ने जा रही थी उसी समय सीता जी को वह स्थान दृष्टिगत हुआ जहाँ बालि धराशायी हुआ था । ३१४ सीते ! देखो !! आगे पंचवटी को देखो । वह स्थान जहाँ अत्यन्त बलिष्ठ राक्षसगण मारे गये थे । वह आश्रम अगस्त्य ऋषि का है जिन्होंने बड़ी सहायता की थी । उसी के आगे सुतीक्षण का आश्रम है जिसे चित्रकूट पर्वत कहते हैं जहाँ पर भरत जी हम लोगों से भेट करने आये थे । ३१५ यमुना नदी के किनारे जो आश्रम है वह भरद्वाज मुनि का है । आगे देखने से दूसरी गंगा नदी है जिसके दर्शन मात्र से मन आनंदित होता है । उसके भी आगे सरयू नदी है जिसके तट से लगी हुई अयोध्या नगरी है भक्तिपूर्वक शीश झुकाकर इस नगरी को प्रणाम करो । ३१६ श्रीरामचन्द्र सीता तथा लक्ष्मण सहित भरद्वाज मुनि के आश्रम में उनसे भेंट करने गये । वहाँ वे सब अयोध्या नगरी तथा अपने माता

हात् जोरीकन सोधनुभो अनि यहाँ सब् जन् कुशल छन् भनी ।
 वृद्धै हुन् महतारिको छ गति क्या ज्युँदै ति छन् की भनी ॥३१७॥
 क्याबात् भाइ ठुला भरत् पनि भया सब्का उपर् काम् गरी ।
 चौधै वर्ष रह्या व्रती भइ ति झन् चिन्ता म-माथी गरी ॥
 भारद्वाज् ऋषिले पनी सब कुशल थीया बताईदिया ।
 हे नाथ् ! छन् कुशलै सबै भरतका मात्रै विपत्ती थिया ॥ ३१८ ॥

हजुर पर हुनाले रोज् फलै मात्र खान्छन् ।
 हजुर सरि खराऊ गादिमा राखि मान्छन् ॥
 शिर भरि छ जटाजुट् वल्कलै छन् धन्याका ।
 फकत हजुरमा छन् प्राण अर्पण् गन्याका ॥३१९॥
 सब् जान्दछू हजुरले पनि काम् गन्याको ।
 राक्षस् विनाश गरि भार् भुमिको हन्याको ॥

पिता व भाइयों का समाचार जानने के लिये उत्सुक होते हैं। सीता जी को मार्ग में आये हुए महत्वपूर्ण स्थानों के विषय में रामचन्द्र जी, विस्तारपूर्वक ज्ञान कराते हैं। इतने में ही आश्रम में पहुंच गये। वे तुरन्त ही पृथ्वी पर उतर गये और मुनि के पास जाकर शीघ्रता से झुककर प्रणाम किया। तत्पश्चात् हाथ जोड़कर सबकी कुशलता पूछते हैं। ३१७ वे सोचते हैं—मातायें वृद्धा हो गयी होंगी पर जीवित तो होंगी ही। उन्होंने प्रश्न किया तथा भरत के हाल पूछे। इस पर भरद्वाजजी कहते हैं कि भरत मानवों में सर्वोपरि है। वे राज्य-कार्य संचालन करते हुए भी एक व्रती के रूप में रह रहे हैं और चिंतन मनन में ही चौदह वर्ष पूरे कर रहे हैं अर्थात् वे राज्य सुखों के बीच रहकर भी उनके भोग से उदासीन हैं। शेष सबकी कुशलता के बीच केवल भरत के ऊपर ही विपत्तियां छायी हुई हैं। ३१८ श्रीमान् से दूर रहकर भरत उपवास में रह रहे हैं। वे केवल फलाहार पर ही जीवन निर्वाह कर रहे हैं। राजगद्दी पर आसीन आपकी पादुकाओं में वे आपके ही रूपका दर्शन पाकर, आपही के ध्यान में खोये रहते हैं। सिर पर जटा-जूट धारणकर लिया है और आपके ही चरणों में अपने प्राण अर्पित किये हुए हैं। भरत आपके ही प्रेम में मग्न होकर आपके ही नाम से राज्य संचालन कर रहे हैं। ३१९ श्री भरद्वाज कहते हैं कि चौदह वर्ष वन में भ्रमण करके जो परोपकारी कार्य आपने किये है वह भी मैं भलीभांति जानता हूं। इस स्थान के दुष्ट राक्षसों को मारकर आपने पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। यहां के ऋषि मुनि

हो सब् प्रसाद् हजुरको सब तत्त्व जान्याँ ।
 जो ब्रह्म हो उ त हजूरकन आज मान्याँ ॥३२०॥
 लीला गरी हजुरले अवतार् धन्याको ।
 ब्रह्मादि देवगणको पनि ताप् हन्याको ॥
 जो ई चरित्रकन खुष् भइ गान गर्छन् ।
 संसार् समुद्र सहजै सित पार तर्छन् ॥३२१॥
 ब्रह्माजिका वचनले यहि रूप धारी ।
 भार् हर्नुभो सकल रावणलाइ मारी ॥
 सब लोकको हित हुन्या अरु काम् गरीनन् ।
 चौधै भुवन् हजुरका यसले भरीनन् ॥३२२॥

मेरो आज पवित्र घर् पनि हवस् एक् रात् यहाँ राज् गरी ।
 भोली जानु असल् हुन्याछ पुरिमा विन्ती छ पाऊ परी ॥
 भारद्वाज् ऋषिले यती हजुरमा विन्ती गन्या राज् भयो ।
 सन्मान् सैन्य समेतको गरिलिया सम्पूर्णको ताप् गयो ॥३२३॥

सभी उनके आतंक से दबे हुए थे । हमारे यज्ञ-पूजा आदि में विघ्न डालनेवाले राक्षसों को समाप्त करके आपने हम सभी के ऊपर महान कृपा की है । उन प्रसाद स्वरूप तत्वों को आज जान गया हूँ जो ब्रह्म है वही आज आपको मान गये हैं । ३२० आपकी इस मानवलीला को जान लिया । पृथ्वी पर अवतार लेकर आपने दुष्टों को समाप्त किया तथा ब्रह्मादि देवगणों के तापों का हरण किया । आपके इस चरित्र से प्रसन्न होकर आज सभी आपकी इस महत्वपूर्ण लीला का भक्ति तथा प्रेम से गुणगान करते हैं । आपके ऐसे पुरुषार्थ भरे चरित्र का गुणगान करनेवाले सहज ही इस संसार सागर से पार हो जाते हैं । ३२१ ब्रह्मा जी के वचनों के अनुसार आपने यह मानव रूप धारण करके रावण को मारा और इस प्रकार सारे भू-मण्डल का भार हरण किया । यह समस्त पृथ्वी शान्ति का साम्राज्य बन गयी । इस प्रकार आपने इन कार्यों से समस्त लोक का हित किया । उनकी यही मनोकामना है कि इसी प्रकार लोकहित के और भी कार्य आप करें जिससे आपके यज्ञ-गान से चौदहों भुवन परिपूर्ण हों । ३२२ इतना सब कुछ कहकर ऋषि ने प्रभु के चरणों में झुककर विनती किया कि आज की रात आप यहीं मेरे आश्रम में ही व्यतीत करें और कल ही नगर को पधारें जिससे मेरा आश्रम भी पवित्र हो जाये यही

हूकूम भो हनुमानलाइ हनुमान् !	लौ शृङ्गवेर्मा गई ।
मेरा खुप् प्रिय छन् सखा गुह तहाँ	तिन्थ्यै समाचारू कही ॥
नन्दीग्राम् गइ भाइलाइ गरि भेट्	श्रीराम आया भनी ।
मेरो लक्ष्मणको सिताजिहरुको	सम्चारू बताऊ पत्ति ॥३२४॥
मैले काम जती गन्याँ भरतथ्यै	सम्पूर्ण विस्तार् गरी ।
वाहाँको समचारू लिईकन फिन्या	सन्ताप् सबैको हरी ॥
हूकूम यो हनुमानले जब सुन्या	मानिस् सरीका बनी ।
जल्दी गै गुहलाइ सब् कहिदिया	आयासिताराम् भनी ॥३२५॥
फेर् जल्दी सरयू तरीकन गया	देख्या अयोध्या पनि ।
नन्दीग्राम् जब देखियो तहिं गया	जान्या उहीं हो भनी ॥
वैलाई रहँदा जउन् तरहले	फूल सुकछ फुस्रो भई ।
तेस्तै रैयतिको दशा नजर भो	साह्रै करुणा भई ॥३२६॥
देख्या तहाँ भरतलाइ जटा धन्याका ।	
श्रीरामका चरण-चिन्तन खुप् गन्याका ॥	

अत्यंत शुभ होगा । प्रभु ने ऋषि की विनती स्वीकार किया और उस रात्रि वे सैन्य समेत वहीं रुक गये । भरद्वाज जी ने सब अतिथियों का सम्पूर्ण रूप से सम्मान सत्कार किया जिससे उनके मन को अलौकिक शान्ति मिली । ३२३ प्रभु ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि तुरन्त शृंगवर्म चले जाओ और वहाँ मेरे परम मित्र गुह से मिलो । उनसे कहना कि वे नन्दी ग्राम जाकर भाई से मिल लें और मेरे आने का समाचार भी कह दें । मेरे साथ लक्ष्मण एवं सीता के समाचार भी अवगत करा दें । ३२४ यहां वन में रहते हुए मैंने जो कुछ भी कार्य कर डाले वे सब भरत को विस्तार-पूर्वक समझा दें । इस प्रकार वहाँ के सब समाचार लेकर तथा उनकी हमारे कुशल समाचार देकर समस्त जनों के मन को शीतल करके तुम तुरन्त यहां लौट आओ । हनुमान ने जब यह आदेश सुना तो वे तुरन्त मनुष्य रूप को प्राप्त हो गये और गुह के पास पहुँचे तथा राम लक्ष्मण सीता सहित सबके वहाँ पहुँचने का समाचार दिया । ३२५ पुनः शीघ्रता से जाकर सरयू पार किया और अयोध्या नगरी का भी अवलोकन किया । नन्दी ग्राम जब देखा तो मन में सोचा कि यहीं जाना है अतः वे वहाँ गये । उन्होंने देखा समस्त जनता की ऐसी दशा हो गयी है जिस प्रकार मुर्झाया हुआ फूल सूखकर पीला पड़ जाता है । जनता की यह दशा देख उनका मन करुणा से भर उठा । ३२६ उन्होंने देखा भरत सिर पर जटा रमाये श्रीराम के चरणों में स्वयं को अर्पित

राम्का खराउकन मालिक जानि मानी ।
 हूकूम दिदा फनि त सेवक आफू जानी ॥३२७॥
 सब् गेरुवा पहिरि मन्त्रि पनी बस्याका ।
 राम्को भजन् तिर त कम्मर खुप् कस्याका ॥
 देख्या भरत्कन र खुश् भइ हात जोडी ।
 बिन्ती गन्या भरतका सब ताप तोडी ॥३२८॥

जस्को चिन्तन गर्नुहुन्छ महाराज् सो नाथ् सिताराम् पनि ।
 आई पुगनुभयो मलाइ अधि जा भेट् भाइलाई भनी ॥
 हूकूम भो रघुनाथको र म यहाँ आयाँ हूकूमले गरी ।
 सीता लक्ष्मणले सहित् कुशल छन् त्रैलोक्यका नाथ् हरि ॥३२९॥
 येती वीरहरु साथ छन् भनि कुशल विस्तार् सुनाया जसै ।
 खूशी भैकन अङ्कमाल् पनि गन्या ताहाँ भरतले तसै ॥
 राम्को सुग्रीवको कहाँ हुन गयो भेट् सब् बताऊ भनी ।
 सोध्या ताहिँ भरत्जिले र हनुमान्- ले सब् बताया पनि ॥३३०॥
 सुग्रीब् सीत मित्यारि गर्नु पनि भो साहाय सुग्रीब् भया ।
 लंकामा रहिछन् सिता र रघुनाथ् ज्यूका संगै ती गया ॥

किये हुए चिन्तन में डूबे हुए हैं । राम की पादुकाओं को ही स्वामी मानकर रखा है उन्हीं की पूजा उत्तम समझकर कर रहे हैं । राज्य शासन की आज्ञा पाकर भी वह स्वयं को सेवक ही जानते हैं । ३२७ भरत जी गेरुए वस्त्र धारणकर एक यती के समान प्रभु के ध्यान में मग्न हैं । चिन्तन भजन में कमर कसकर बैठे हुए भरत को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उनके ध्यान को भंगकर विनती किया । ३२८ हे महाराज ! जिसके ध्यान में आप खोये हुए हैं वे नाथ सीता-राम भी आ गये हैं । आगे जाकर भाई से भेंट करने का आदेश पाकर ही मैं यहाँ आया हूँ । उन्होंने यह समाचार आपके पास भेजा है सीता, लक्ष्मण सहित प्रभु कुशलपूर्वक हैं । उनके संग अनेकों अन्य वीर भी हैं । ३२९ इतने वीर आदि साथ में कहते हुए कुशल समाचार सविस्तार सुनाया जिसे सुनते ही भरत जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आलिंगन बद्ध कर लिया । उन्होंने पूछा कि राम और सुग्रीव की भेंट कहाँ और किस प्रकार हुई सब विस्तारपूर्वक कहो । तो हनुमान ने भी विस्तार-सहित सब कह सुनाया । ३३० हनुमान ने भरत को बताया कि सीता को रावण ने हरण किया और अत्यन्त

सीता रावणले हरेछ र बहुत
 सीताजीकन खोजि खोजि रघुनाथ
 लंमामा गइ भारि युद्ध गरियो
 लंकामा अधिराज् विभीषण गरी
 सब् विस्तार् हनुमानदेखि रघुनाथ्
 भाईलाइ हुकूम दिया नगरिको
 हे शत्रुघ्न ! गराउ सब् नगरिको
 सब् देवालयमा पुजा अब गरून्
 सुत् वैतालिक बन्दि जन्हरु समेत्
 सब् जाउन् रघुनाथका हजुरमा
 भारी फौज लियेर मन्त्रिहरुले
 ब्राह्मण्लाइ अगाडि लायर हिडून्
 हुकूम् येति दिया तहाँ भरतले
 हात्मा भेटि लियेर लशकर चलयो

दुःखी सरीका भई ।
 फेर ऋष्यमूकमा गई ॥ ३३१ ॥
 सब् रावणादी गिन्या ।
 श्रीराम् अयोध्या फिन्या ॥
 ज्यूका सुन्याथ्या जसै ।
 संस्कार-खातिर् तसै ॥ ३३२ ॥
 संस्कार् अगाडी सरी ।
 नाना विधान्ले गरी ॥
 निस्कून् ति कस्वीहरू ।
 जो जो यहाँ छन् अरू ॥ ३३३ ॥
 सब् राजपत्नी लिया ।
 सब्लाइ ऊर्दी दिया ॥
 हुकूम् बमोजिम् गरी ।
 खुप् हर्ष भो तेस् घरि ॥ ३३४ ॥

दुःखित होकर प्रभु सीता को खोज रहे थे और उसी समय सुग्रीव भी उनके साथ सीता की खोज में ऋष्यमूक गये । इस प्रकार सुग्रीव और रघुनाथ की मित्रता घनिष्ट होती गयी । ३३१ हनुमान ने बताया कि लंका जाकर भीषण युद्ध करके रावण को मौत के घाट उतार दिया । तत्पश्चात रावण के भाई विभीषण को वहाँ का राज्य सौंपकर श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या को लौटे हैं । इस प्रकार हनुमान द्वारा सविस्तार हालचाल ज्ञात होते ही भरत जी उठे और रामचन्द्र जी के स्वागतार्थ प्रबन्ध में लग गये । उन्हें बड़े सत्कार के साथ नगर में लाने की आज्ञा सारे नगर में दे दी । ३३२ हे शत्रुघ्न । आगे बढ़ो और नगर मे राम-आगमन की शुभ सूचना दो तथा भलीभांति नगर को सजाने का प्रबन्ध करो । कह दो सभी देवालयों में विधिवत् पूजा-हवन प्रारम्भ हो जाये । सभी नौकर, चाकर तथा बन्दीजन जो उपस्थित हैं वह इसी समय शीघ्र जाकर श्रीरघुनाथ के चरणों में पड़ जायें । ३३३ श्रीराम-आगमन की शुभ सूचना सारी अयोध्या नगरी में फैल गयी । असंख्य सेनानियों को लेकर समस्त मंत्रीगण सपत्नीक चल पड़े । ब्राह्मणों को आगे रखकर सब लोगों को चल पड़ने की आज्ञा हुयी । भरत की आज्ञानुसार सब लोग हाथों में पूजा-सामग्री तथा भेंट-सामग्री सहित अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े । ३३४ श्रीरामचन्द्र जी के

श्रीरामचन्द्रजिका खराउ शिरमा	राखी तयारी भया ।
भाई साथ लिई भरत प्रभुजिथ्यै	हीडेर पैदल् गया ॥
आयो श्रीरघुनाथको पनि विमान्	चन्द्रै सरीको बनी ।
देखाया हनुमानले प्रभुजिको	तेही विमान् हो भनी ॥३३५॥
देख्या श्रीरघुनाथको जब विमान्	कीर्तन् सबैले गन्या ।
घोडामा रथमा जती विर थिया	ती सब् जमीन्मा झन्या ॥
पृथ्वीमा, नझरीकनै प्रभुजिको	दर्शन् मिलेथ्यो जसै ।
टाढैबाट गन्या प्रणाम् भरतले	खुप् हर्ष मान्या तसै ॥३३६॥
भाईलाइ विमानमा लिनुभयो	ताहीं जमीन्मा झरी ।
फेरी जल्दि पन्या भरत चरणमा	साष्टाङ्ग सेवा गरी ॥
काखैमा पनि राखिबक्सनुभयो	राम्ले भरत खुश भया ।
सीताजीकन दण्डवत् गर्ह भनी	साम्ने अगाडी गया ॥३३७॥
खवामित् ! हूँ म भरत पन्याँ चरणमा	यस्तो पुकारा गरी ।
सीताका पनि पाउमा परिगया	आनन्द सागर् परी ॥
लक्ष्मण लाइपनी प्रणाम् तहि गन्या	काम्ले बडा छन् भनी ।
आलिङ्गन् गरि सुग्रीवादि विरको	दिल् खुश गराया पनि ॥३३८॥

खड़ाऊँ सिर पर रखकर अपने भाई को साथ लेकर भरत जी पैदल ही चल पड़े और दौड़ते हुए जाकर प्रभु के पास पहुँचे। श्रीरघुनाथ का विमान भी चन्द्रमा के विमान के समान आ गया। हनुमान ने उसी विमान की ओर संकेत किया, कहा कि यही प्रभु जी का विमान है। ३३५ श्रीरघुनाथ के विमान के दर्शन करते ही सबने एक साथ कीर्तन आरम्भ किया। घोड़ों तथा रथों पर सवार समस्त वीर उतर पड़े। पृथ्वी पर उतरने से पूर्व ही प्रभु के दर्शन मिल गये। भरत ने दूर से देखकर ही प्रणामकर हर्षोल्लास प्रगट किया। ३३६ पृथ्वी पर उतरकर भाई को आदर सहित ले जाकर विमान में बिठाया और भरत जी ने तत्काल ही श्रीराम के चरणों में पड़कर साष्टांग दण्डवत् किया। राम ने प्रेम-विभोर हो उन्हें गोद में उठा लिया। ऐसा प्रेम-आलिगन पाकर भरत हर्षोन्माद में डूब गये। पुनः वे सीता जी को दण्डवत् करने के उद्देश्य से आगे बढ़े। ३३७ स्वामिन ! आपके चरणों में गिरा हुआ मैं भरत हूँ, ऐसा कहते हुए भरत ने सीता जी के पाँव पकड़ लिये और आनन्द-सागर में डूब गये। वहीं उन्होंने लक्ष्मण को भी प्रणाम किया क्योंकि कर्तव्यपरायण होने के कारण वे वरिष्ठ हैं। तत्पश्चात् सभी

सुग्रीवादि जती त वानर थिया ती मानिसै झैं भई ।
 सोध्या प्रश्न कुशल सबै भरतको आफनू कुशल सब् कही ॥
 मर्जी सुग्रीवलाइ तेस् बखतमा यस्तो भरतको भयो ।
 याहींबाट दया भयो प्रभुजिको सब् शत्रुको ज्यान् गयो ॥३३९॥

चारै भाइ थियौं अगाडि अहिले पाँचौं हुनूभो यहाँ ।
 भाईका झईं यो सहाय नभया राक्षस् जितिन्थ्या कहाँ ॥
 यस्ता प्रेम्सित बात् गन्या भरतले सुग्रीवजीथ्यै गई ।
 श्रीराम्चन्द्रजिका पन्या चरणमा शत्रुघ्न खूशी भई ॥३४०॥

लक्ष्मण्जीकन दण्डवत् गरि सिता ज्यूका चरण्मा पन्या ।
 सेवक् हूँ करुणानिधान् ! हजुरका यो ताहिं बिन्ती गन्या ॥
 श्रीराम्चन्द्रजिका खराउ शिरमा राखी गयाका थिया ।
 बेला भो पनि पाउमा भरतले ताहीं लगाई दिया ॥३४१॥
 हात् जोरी विनती गन्या पनि तहाँ नासो लियाको थियाँ ।
 यो गादी लिइबक्सियोस् हजुरले ऐले हजूरमा दियाँ ॥

को प्रेम विभोर हो आलिंगन करके सबको आनन्दित किया । सुग्रीव तथा अन्य वीर उनके आलिंगन से अत्यन्त हर्षित हुए । ३३८ भरत ने सबकी कुशलता पूछी । सुग्रीव आदि जितने भी वानर थे सभी ने मनुष्य के समान होकर अपनी-अपनी कुशलता से उन्हें परिचित कराया । सबकी वीरता की कहानी सुनकर भरत जी उन सबके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हुए और कहने लगे कि हे प्रभु जी ! आप लोगों की ही दया से हमारे समस्त शत्रुओं का नाश हुआ है । ३३९ वे कहने लगे पहले हम केवल चार भाई ही थे अब पाँचवें आप हुए । भाई के समान यदि आप सहायक न होते तो राक्षसों पर विजय किस प्रकार मिलती । तत्काल ही सुग्रीव के निकट जाकर उन्होंने इस प्रकार प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया । श्रीरामचन्द्र जी के पास जाकर शत्रुघ्न भी उसी समय उनके चरणों में पड़कर अत्यन्त प्रसन्न हुए । ३४० लक्ष्मण जी को भरत ने दण्डवत् की और सीता जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे करुणानिधान मैं आपका सेवक हूँ । इस प्रकार विनती करके वे राम की ओर अग्रसर हुए और जो राम की पादुकायें अपने सिर पर रखकर लाये थे उन्हें उचित अवसर देखकर उनके चरणों में पहना दिया । ३४१ उनके चरणों में पादुकायें धारण करवाकर वे विनती करने लगे—हे प्रभु । आपकी यह राजगद्दी मैंने अमानत के रूप में सुरक्षित रखी है आज यह

सब् कोशमा पनि अन्नको र धनको
 राख्याको छु दयानिधान् ! हजुरको
 यो बिन्ती खुशिले तहाँ भरतले
 देख्या भक्ति भरतजिको खुशि भई
 नन्दीग्राम् पुगि उत्रिबक्सनु भयो
 पुष्पक्लाइ बिदा पनी दिनुभयो
 ताहाँ श्रीरघुनाथ वशिष्ठ गुरुका
 याहाँ राज्गरिबक्सियोस् भनि असल्
 आसन्मा गुरुलाइ राखि नजिकै
 पाया दर्शन रामको र सबको
 कैकेयी र भरत् मिलेर रघुनाथ्
 हात् जोरीकन राज्य अर्पण गन्या
 जस्ले एक कटाक्षले सहज यो
 जो ऐश्वर्य छ इन्द्रको उ पनि एक
 यस्ता शुद्ध अनन्त पूर्ण सुख रूप्
 क्या राज् गर्नु थियो तथापि लिनुभो

दस् खण्ड बढ़ता गरी ।
 सेवाविषे मन् धरी ॥३४२॥
 साम्ने गन्याथ्या जसै ।
 सम्पूर्ण रोया तसै ॥
 ठाकुर् जमीन्मा पनि ।
 कूबेरथ्यै जा भनी ॥३४३॥
 पाऊ नमस्कार् गरी ।
 आसन् अगाडी धरी ॥
 आसन् विषे राज् भयो ।
 सम्पूर्ण सन्ताप् गयो ॥३४४॥
 ज्यूका चरण्मा परी ।
 बिन्ती बहूतै गरी ॥
 ब्रह्माण्ड सब् हर्दछन् ।
 क्षण्मा तयार् गर्दछन् ॥३४५॥
 ब्रह्म स्वरूप्ले पनि ।
 खूशी हउन् ई भनी ॥

सब कुछ आपको सौंप रहा हूं अब आपही इसे संभालें । यह सारी राज्य सम्पदा पुनः स्वीकार करने की कृपा करें । समस्त भंडार तथा कौषागार में अन्न तथा धन को दस गुना वृद्धि करके, मैं केवल श्रीमन् का ध्यान धर के सम्हालता रहा हूँ । ३४२ भरत की ऐसी भक्ति पूर्ण विनती सुनकर वहां के समस्त उपस्थित जन रो पड़े । नन्दी ग्राम पहुंचकर भगवन् भी पृथ्वी पर उतर पड़े । पुष्पक को कुबेर के पास जाने की आज्ञा देकर विदा दे दी । ३४३ श्रीरघुनाथ जी गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया । गुरु की ओर एक उत्तम आसन बढ़ाकर उनसे विराजने का अनुरोध किया । स्वयं भी उनके आसन के ही निकट आसन ग्रहण किया । समस्त उपस्थित जन उनके पावन दर्शनों को पाकर पापों से मुक्त हो गये । ३४४ कैकेयी और भरत दोनों ही रघुनाथ जी के चरणों में नत हो, हाथ जोड़कर राज्य-पाठ सौंपते हुए विनीत भाव में डूब गये । ऐसे महाशक्ति-शाली प्रभु जिनके संकेत मात्र से सारा ब्रह्माण्ड हिल उठता है तथा इन्द्र के ऐश्वर्य की भी रचना क्षण भर में कर देते हैं । ३४५ ऐसे शुद्ध अनन्त सुखसागर प्रभु जिनमें ब्रह्म भेद छुपा पड़ा है जिसका पता कोई

पैलहे स्नान् भरतादिले जब गन्या
स्नान् सीतापतिको पछी तहिं भयो
माला चन्दन वस्त्र हार पहिरी
राम्को स्नान् र सिताजिको तहिं सँगै
सीताराम् रथमा सवार् हुनुभयो
हात्तीमा रथमा सवार् हुन गया
राम्का सारथि ता भरत् हुन गया
सेतो छत्र लिया बहुत् खुशि हुँदै
षड्धा लक्ष्मणले लिया प्रभुजिको
अर्को चामर एक विभीषणजिले
मानिस्ले त बखान् कहाँतक गरुँ
रम्को कीर्तन खुप् गन्या र सुनियो
भेरी शङ्ख मृदङ्ग आदि नगरा
श्रीराम्को पनि कुच् भयो रथ चढी

क्षौरले जटा साफ् गरी ।
तेस्तै प्रकारले गरी ॥३४६॥
आसन् विषे राज् भयो ।
हुँदा सबै ताप् गयो ॥
सुग्रीव् विभीषण्हरू ।
घोडैमहाँ क्वै अरू ॥३४७॥
सेवा म गर्छु भनी ।
शत्रुघ्नजिले पनि ॥
सुग्रीवले ता चँवर ।
खूशी भया सब् अवर् ॥३४८॥
सब् देवताले पनि ।
मीठो मधूरो ध्वनि ॥
खुप् बज्ज लाग्या पनि ।
जाऊँ अयोध्या भनी ॥३४९॥

नहीं लगा सका, उन्हें क्या राज्य करना था उन्होंने तो सबके संतोष के लिए भरत द्वारा सौंपे हुए राज्य भार को स्वीकार किया। सर्वप्रथम भरत ने स्नान किया और अपनी जटाओं का कर्तन किया। उसी प्रकार सीतापति रामचन्द्र जी ने भी स्नानादि करके छुटकारा पाया। ३४६ रामचन्द्र जी सीता सहित स्नानादि से निवृत्त होकर वस्त्रादि धारण किये। उन्होंने चन्दन से अपना अंग सुगन्धित किया तथा मालाओं से सुसज्जित हुए। तत्पश्चात् प्रभु सीता सहित आसन पर आरूढ़ हुए जिससे वहाँ के उपस्थित जनों के हृदय का सारा दुःख भूल गया और वहाँ एक सुखपूर्ण वातावरण बन गया। सीताराम रथ में सवार हुए। सुग्रीव विभीषणादि हाथी व रथ पर सवार हुए। अन्य लोग घोड़ों पर सवार हो गये। ३४७ भरत ने कहा मैं आपकी सेवा करूँगा और उनके सारथी बनकर उनके रथ पर बैठ गये। शत्रुघ्न ने अत्यन्त प्रसन्न भाव से छत्र हाथ में धारण किया। लक्ष्मण ने प्रभु पर पंखा झलने का काम लिया और सुग्रीव ने चँवर डुलाने का कर्तव्य पालन किया। एक और चँवर लेकर विभीषण भी तत्पर हो गये। ऐसे आनन्दमय वातावरण में अन्य सभी लोग आनन्द—विभोर हो गये। ३४८ ऐसे समय में मनुष्य द्वारा किये गये कीर्तन भजन का वर्णन कहाँ तक किया जाये यहाँ तक कि देवताओं ने भी प्रसन्न होकर कीर्तन-भजन अत्यन्त मधुर ध्वनि में गाया। घंटा, शंख, मृदंग तथा नगाड़ा आदि भी बज उठे। श्रीराम ने

श्रीराम्को पुरिमा प्रवेश् जब भयो सब पौरवासी पनि ।
 निस्क्या बालक वृद्ध दर्शन गरौं हेरौं तमाशा भनी ॥
 देख्या श्रीरघुनाथलाइ रथमा थीया पिताम्बर् धरी ।
 श्याम्सुन्दर् छ शरीर् किर्रीट शिरमा भूषण् शरीर्मा भरी ॥३५०॥
 लाल् छन् नेत्र विशाल खुप् हृदयवेस् वेस् मोतिका हार छन् ॥
 शोभा चन्दन पुष्पको पनि छ वेस् देख्तै भयो खूशि मन् ॥
 सून्या स्त्रीहरुले पनि शहरमा आया सिताराम् भनी ।
 सब्को चञ्चल चित्त भो र बहुतै हेरौं सिताराम् भनी ॥३५१॥
 छोड्या काम् घरको चढ्या गृह-उपर् सब् स्त्री अटाली गई ।
 लावा पुष्प गिराउँदै प्रभुजिको दर्शन् गन्या खूश भै ॥
 राम्को मोहनमूर्तिमा जब नजर् सब् स्त्रीहरुका पन्या ।
 खूशी भैकन अङ्कमाल मनले सब् स्त्रीहरुले गन्या ॥३५२॥
 ईषत् हास्य गरी प्रजाकन नजर् दीदै रमानाथ् पनि ।
 दर्वार् पाँचनुभो जहाँ त दशरथ् वस्थ्या उहीं जाँ भनी ॥

रथ में चढ़कर अयोध्या जाने की आज्ञा दी । ३४९ श्रीराम ने अयोध्या नगरी में जैसे ही प्रवेश किया समस्त नगरवासी उनके दर्शनार्थ दौड़ पड़े । बालक, वृद्ध सभी उस उत्सव पूर्ण मेले को देखने के लिए निकल पड़े । श्रीरामचन्द्र जी पीताम्बर धारण किए हुए रथ पर विराजमान थे । श्यामलगात में अत्यन्त सुन्दर आभूषण चमक रहे थे तथा उनके शीश पर मुकुट शोभायमान हो रहा था । ३५० सारी अयोध्या नगरी में राम के आगमन की सूचना फैल गयी । स्त्रियों ने भी इस शुभ सूचना को पाया जिससे उनके मन प्रभु के दर्शनों के लिये आतुर हो उठे । श्रीरामचन्द्र की शोभा अतुलनीय थी । उनके विशाल एवं गुलाबी नेत्र अत्यन्त सुन्दर लग रहे थे । उनके वक्षस्थल पर उत्तम मोतियों की माला शोभायमान हो रही थी । उनके चारों ओर चन्दन तथा पुष्पों की बहार थी जिसे देखते ही मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठता था । ऐसे मनोरम रूप को देखने के लिये समस्त स्त्री-दल व्याकुल हो उठा । ३५१ सभी स्त्रियों ने तुरन्त घर के धन्धों को छोड़ दिया और ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ गयीं । प्रेमानन्द से उमंगित होकर लावा तथा पुष्पों को वे लोग पावन रूप के ऊपर बरसाने लगीं । हृदय में प्रेम से ओत-प्रोत होकर वे प्रभु के दर्शन करने लगीं । जिसने उस भव्य रूप के दर्शन किये, मन ही मन उनके आर्लिंगन का अनुभव करने लगीं । ३५२ इसी प्रकार प्रजाजनों पर दृष्टिपात करते हुए

कौसल्याहृलाइ योग्य रितले ताहाँ नमस्कार गरी ।
सुग्रीवको पनि वास् खटाउनु भयो साह्रै पियारो गरी ॥३५३॥

सुग्रीवजीकन राख भाइ तिमिले पैलहे म बस्थ्याँ जहाँ ।
सबलाई तिमिले खटाउ बढिया घर बस्नलाई यहाँ ॥
हुकूम येति हुँदा तहाँ भरतले सोही बमाजिम् गन्या ।
सबको वास खट्नु भयो सब तहाँ आनन्दसागर् पन्या ॥३५४॥

आफै श्रीरघुनाथ हुकूम अब गरुन् यो मन् भरतले गरी ।
सुग्रीवलाइ अह्लाउनु पनि भयो खुश भै अगाडी सरी ॥
हे सुग्रीव ! खटाउनु अब पन्यो वीर् वीर् विचार खुप् गरी ।
चारौँतर्फ गई समुद्र पुगि जल् ल्याउनु कलशमा भरी ॥३५५॥

श्रीरामचन्द्रजिलाइ राज्य अभिषेक् गर्न्या बखत् भो भनी ।
मर्जी भो र भरतजिको उहि बखत् ल्याई दिया जल् पनि ॥
जल् लीनाकन जाम्बवान् र हनुमान् अंगद् सुषेण् चार् गया ।
पौंच्या जल्दि समुद्रमा सहज जल् लीयेर दाखिल् भया ॥३५६॥

श्रीरामचन्द्र जी ने दरबार में प्रवेश किया और उसी जगह पहुँचे जहाँ राजा द्रुशरथ विराजते थे । उन्होंने माता कौशल्या से मिलकर यथा-योग्य रीति से उन्हें प्रणाम किया तथा सुग्रीव के रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया । ३५३ उन्होंने कहा, हे भाई ! जहाँ पर मैं रहता था वही स्थान सुग्रीव के लिये उचित होगा । यह प्रबन्ध करने के लिये तुरन्त सबको भेजो । आज्ञा पाते ही तुरन्त ही भरत जी ने राम की इच्छानुसार सारी व्यवस्था कर दी । सब लोग उचित निवास स्थान पाकर विश्राम करने लगे और ऐसे सुखद मिलन की बेला में सभी लोग आनन्द में डूब गये । ३५४ भरत ने सारे आदेशों का पालन किया और पुनः उनके आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हो गये । उन्होंने अग्रसर होकर सुग्रीव से अनुरोध किया कि हे सुग्रीव ! अब हमें जल की व्यवस्था करनी चाहिये और इसके लिये चारों दिशाओं में वीरों को भेजना होगा जिससे वे समुद्रों तक पहुँचकर कलश में जल भरकर ले आयें । ३५५ जल लेने के लिये जाम्बवन्त, हनुमान, अंगद तथा सुषेण नामक वीर गये । वे शीघ्रता से समुद्र तट पर पहुँचे और जल भरकर ले आये । भरत जी ने वीरों द्वारा लाये गये जल को लिया और श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी में लग गये । ३५६ भरत जी जल लेकर गुरु

त्यो जल् साथ लिई वशिष्ठ गुरुका
 यो हो चार समुद्रको जल भनी
 फेरू बिन्ती करजोरि खुप् सित गन्या
 श्रीरामचन्द्रजिलाई राज्य अभिषेक्
 यस्तो बिन्ति सुनी वशिष्ठ गुरुले
 श्रीरामचन्द्रजिलाइ राखनु भयो
 गौतम वाल्मिकि वामदेव इ समेन्
 ती सब्ले संग भै वशिष्ठ गुरुले
 कन्या ब्राह्मणले पनी तुलसिदल्
 मन्त्रै पूर्वक खूशि भैकन छन्या
 सेतो छत्र लिया तहाँ प्रभुजिको
 सुग्रीव्ले र तहाँ विभीषणजिले
 माला काञ्चन वायुले पनि दिया
 नाना रत्न खचित् गरायर दिया
 गाऊँछन् तर्हि देवतागणहरू
 वर्ष्यो खुप् सित पुष्पवृष्टि नगरा

साम्ने भरतजी गया ।
 यो बिन्ति गर्दा भया ॥
 यै जल् हजुरले छरी ।
 दिनू हवस् यस् घरि ॥३५७॥
 वेस् बिन्ति गछौ भनी ।
 सिंहासनैमा पनि ॥
 जावालि ताहीं थिया ।
 जल्दी अभीषेक् दिया ॥३५८॥
 हालेर कुशले असल् ।
 रामका उपर् शुद्ध जल् ॥
 शत्रुघ्नजीले गई ।
 हाँक्याचमर् खुश भई ॥३५९॥
 हार् इन्द्रजीले पनि ।
 पैरून् सिताराम् भनी ॥
 सब् अप्सरा नाचछन् ।
 बज्दा भयो खूशी मन् ॥३६०॥

वशिष्ठ जी के समक्ष गये और विनीत भाव से बताया कि यह चार समुद्रों का जल है। उन्होंने उनसे नम्र निवेदन किया कि आप इस जल को छिड़ककर शीघ्रातिशीघ्र श्रीरामचन्द्र जी का अभिषेक करें और इस शुभ कार्य को सम्पन्न करने की कृपा करें। ३५७ भरत जी की विनती सुनकर गुरु जी ने कहा ठीक है और उन्होंने उसी समय श्रीराम को सिंहासन पर बिठाया। गौतम, वाल्मीकि, वामदेव एवं जावालि सब वहीं उपस्थित थे। उन सब ने मिलकर गुरु जी के साथ इस शुभ कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। ३५८ ब्रम्हचारी ब्राह्मणों ने भी प्रसन्न होकर मन्त्रोच्चारण करते हुए कुश से तुलसी-दल तथा जल इत्यादि लेकर श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर छिड़का। शत्रुघ्न ने उसी समय श्वेत छत्र लेकर प्रभु के ऊपर लगाया। आनन्द तथा प्रेम में डूबकर सुग्रीव और विभीषण ने भी चंवर डुलाया। ३५९ वायु ने कंचनहार प्रभु को पहनाया तथा इन्द्र ने प्रसन्न होकर रत्नजटित हार सीताराम को पहनने के लिये भेंट किया। देवगण गीत गा उठे तथा अप्सरारयें नाचने लगीं, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा नगाड़ों की ध्वनि गूँज उठी। समस्त वातावरण एक अद्भुत रस में डूब गया। ३६०

गम्भीर् श्यामशरीर् किसीट् छ शिरमा माला पिताम्बर् धरी ।
 कोटी कामसमान सुन्दर स्वरूप वाम्तर्फ सीता धरी ॥
 सिंहासन् बसि सब् प्रजातिर नजर् दीनू भएथ्यो जसै ।
 दर्शन गर्न भनेर पार्वति समेत् आया सदाशिव् तसै ॥३६१॥
 डिम् डिम् शब्द भयो तहाँ डमरुको नन्दी र भृङ्गी पनि ।
 ताल् वेतालहृ नाचन लागि त गया आया सदाशिव् भनी ॥
 शम्भूका पछि देवगण् सब तहाँ आएर हाजिर् भया ।
 श्रीराम्को स्तुति खुप् गरेर खुशि मै सब् जल्दि फर्की गया ॥३६२॥

बाजा खुप् शब्द गछन् स्तुति गरि ऋषिगण् देवगण् पाउ पछन् ।
 वर्षन्छन् पुष्प वृष्टि प्रभु-उपर अनेक् प्राणिले सौख्य गछन् ॥
 सिंहासन्मा विराज्मान् सकल गुणनिधान् राम् हूनूभो जसै ता ।
 सीता लक्ष्मण् सँगै छन् प्रभुकन हुनगो पूर्ण शोभा तसै ता ॥३६३॥

राजा श्रीरघुनाथ् हुँदा पृथिविमा सस्यादि खूबै बढ्यो ।
 थियानन् अति गन्ध जौन फुलमा तिन्मा सुगन्धी चढ्यो ॥

राज्याभिषेक के समय श्यामलगात श्रीरामचन्द्र जी के बायीं ओर सुमुखि सीता उनकी महारानी बनकर विराज रहीं हैं । प्रभु के तन में पीताम्बर तथा वक्षस्थल पर सुन्दर माला सुशोभित हो रही है । उनके मस्तक पर राज्य मुकुट चमक रहा है । राज्य सिंहासन पर सीता सहित सुशोभित प्रभु ने समस्त प्रजा पर एक दृष्टि भर देखने की कृपा की । उसी समय उनके दर्शनों की अभिलाषा से श्री शंकर पार्वती के साथ उपस्थित हो गये । ३६१ उनके पहुंचते ही उनके डमरु के डिम-डिम स्वर की ध्वनि गूँज उठी । नन्दी और भृंगी तथा ताल वेताल उनकी उपस्थिति का आभास पाकर नृत्य कर उठे । तत्पश्चात् अन्य देवगण भी वहां पहुँच गये । सभी ने मिलकर बड़े हर्ष के साथ नाचते गाते हुए श्रीराम के राज्याभिषेक के अवसर पर धूमधाम से उत्सव सम्पन्न किया । तत्पश्चात् सन्तुष्ट मन से अपने-अपने निवास स्थान को लौट गये । ३६२ सकलगुण निधान श्रीरामचन्द्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ जैसे ही सिंहासन पर विराजे, सम्पूर्ण दृश्य एक अद्भुत शोभा को प्राप्त हो जाता है । बाजे गाजों का तीव्र स्वर गूँज उठा । समस्त ऋषिगण स्तुतिकर उनके चरणों में पड़ जाते हैं । अनेकों प्राणी सुख का अनुभव करते हैं । प्रभु के ऊपर पुष्प-वर्षा होने लगती है । ३६३ श्रीरघुनाथ के आधीन राज्य होते ही

धेनुदान् वृषदान् गन्या प्रभुजिले तीस् कोटि सुन् दान् गरी ।
 वस्त्राभूषण रत्न दान् पनि गन्या दारिद्र्य सव्को हरी ॥३६४॥
 दान्ले ब्राह्मण खुश् गराइ रघुनाथ् सुग्रीवलाई पनि ।
 माला सूर्य समानको दिनुभयो दीन् उचित् हो भनी ॥
 मर्याद् खुप् गरी बाजु बन्ध दिनुभो अङ्गदजिलाई पनि ।
 ताहीं एक अमूल्य हार् दिनुभयो सीताजिलाई पनि ॥३६५॥
 सीताले हनुमानलाई दिन सूर् वाँधेर हात्मा लिइन् ।
 कस्तो हुन्छ हुकूम भनीकन नजर् खामित्तरफ्खु प्दिइन् ॥
 जस्लाई दिन मन् छ देउ भनि यो हुकूम भएथ्यो जसै ।
 प्यारा श्रीहनुमान् थियातर्हि दिइन् त्यो हार् सिताले तसै ॥३६६॥
 झन् दर्जा हनुमानको तर्हि बढ्यो फेरी प्रभूले पनि ।
 क्या माग्छौ वरदान माग तिमिले दिन्छू म त्यो वर् भनी ॥
 हुकूम बक्सनुभो तहाँ र हनुमान् खुश् भै अगाडी सन्या ।
 जो माग्न मनमा थियो हजुरमा हात् जोरि विन्ती गन्या ॥३६७॥

सारे राज्य में सुख चैन की वर्षा होने लगी । समस्त पृथ्वी पर ऐश्वर्य वैभव की वृद्धि हुई । प्रभु ने तीस करोड़ धेनु, वृक्ष तथा स्वर्ण दान करके तथा वस्त्र आभूषण तथा सभी को ऐसा दान दिया कि समस्त दरिद्रता का नाश हो गया । जिन पुष्पों में दुर्गन्धि थी उनमें प्रभु की कृपा से सुगन्धि आ गयी । ३६४ दान दक्षिणा से ब्राम्हणों को प्रसन्न करके प्रभु ने सुग्रीव की ओर ध्यान किया और उन्हें सूर्य के समान माल्यार्पण किया । मन ही मन उन्होंने अंगद का भी स्मरण किया और उन्हें एक बाजूबन्द देने की कृपा की । तत्पश्चात् महारानी सीता की याद आई और उन्होंने उन्हें एक अमूल्य हार प्रदान करने की अनुकम्पा की । ३६५ सीता जी ने मन ही मन वह हार हनुमान को देने का निश्चय किया किन्तु आज्ञा की प्रतीक्षा में उन्होंने प्रभु की ओर देखा । प्रभु ने उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की और कहा जिसे देना चाहो दे दो । स्वामी की आज्ञा पाते ही उन्होंने प्रिय हनुमान को जो वहीं पर उपस्थित थे, बुलाया और वह हार उनके हाथों में दे दिया । ३६६ इस प्रकार हनुमान की स्थिति में वृद्धि हुई और प्रभु ने उन्हें वरदान मांगने की आज्ञा दी । उन्होंने कहा मैं वरदान देता हूँ तुम जो मांगोगे वही मिलेगा । प्रभु की इस आज्ञा को पाकर हनुमान प्रसन्न होकर अग्रसर हुए और कुछ मांगने की इच्छा से वे हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गये । ३६७

खामित् ! नाम हजूरको जब तलक्
ताहींसम्म शरीर् रहोस् हजुरको
खामित् ! नाम हजूरको स्मरणमा
त्यो आनन्द कतै मिलेन महाराज्
यो बिन्ती सुनि लौ भनी हुकुम भै
बित्ला कल्प र यो बित्यापछि भन्या
हूकूम् यो रघुनाथको हुन गयो
जो जो हुन् सुख भोग् सबै वश रहुन्
आशीर्वाद् यति बक्सन् जब भयो
आनन्दाश्रु गिराइ तप् गरुं भनी
फेर् ठाकुर् गुहका अगाडि गइ यो
जाऊ लौ घरमै बसीरहु फकत्
यो प्रारब्ध ठुलो छ भोग नगरी
हून्यैछौ तिति मुक्त देह पछि ता

लीनन् जगत्मा बडा ।
नाम् सुन्नलाई खडा ॥
आनन्द जो पाउँछु ।
तेही नछूटोस् कछु ॥३६८॥
फेरी कृपा भो पनि ।
मुक्तै हुन्याछौ भनी ।
फेर् जानकीले पनि ।
तिम्ना हनूमान् भनी ॥३६९॥
बीदा हनूमान् भया ।
हीमालयैमा गया ॥
हूकूम् कृपाले गन्या ।
मन् मात्र मैमा धन्या ॥३७०॥
टर्देन कस्तै गरी ।
संसार सहज्मा तरी ॥

उन्होंने प्रभु से इस प्रकार निवेदन किया । हे स्वामी ! जब तक इस संसार में आपके नाम का जाप होता रहे तब तक श्रीमान का नाम सुनने हेतु यह शरीर रहे । आपके नाम मात्र के स्मरण से ही जो आनन्द प्राप्त होगा वह और कहीं भी नहीं । अतः यही आनन्द मुझसे न छूटने पाये । ३६८ हनुमान की भक्तिपूर्ण विनती सुनकर प्रभु ने तथास्तु कह कर पुनः आज्ञा करने की कृपा की, यह शरीर समाप्त होने के पश्चात तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे । रघुनाथ की ऐसी आज्ञा सुनकर जानकी जी ने भी उन्हें यह वरदान दिया कि समस्त सुख भोग हनुमान जी के वशीभूत होकर रहेंगे अर्थात् किसी सांसारिक सुख की इच्छा अपने वश में करके उन्हें भक्ति मार्ग से हटा नहीं सकती । सीता माता से ऐसा आशीर्वाद पाकर हनुमान हर्ष से गद्गद हो गये । ३६९ भगवान के ऐसे आशीर्वाद एवं वरदान से भरे पूरे हनुमान वहाँ से विदा हुए । आनन्द के अश्रुपात करते हुए वे तपस्या करने के लिये हिमालय पर्वत की ओर चले गये । प्रभु ने पुनः गुह्य के सम्मुख जाकर उन्हें यह आज्ञा दी कि घर में बैठकर केवल मन से ही मेरा ध्यान करते रहो वही प्रेम सच्चा होगा । ३७० ये प्रारब्ध महान हैं । जितना कुछ भोगना भाग्य में आ चुका है उसे शान्तिपूर्वक भोगना ही उचित है वह कदापि टल नहीं सकता है । हृदय से मेरा ध्यान करने मात्र से ही इस शरीर से मुक्ति

हूकम् यो गरि मुख्य भक्त गुहका साम्ने अगाडी सरी ।
 आलिगन् गरि भूषणादि दिनुभो राज्यै समेत् थप् गरी ॥ ३७१ ॥
 तत्त्वै ज्ञान् पनि वक्सन् तहिं भयो आनन्द सागर् परी ।
 बीदा भै गुहजी गया घरमहाँ मन् राम्-चरण्मा धरी ॥
 यस्तै रीत्सित सब् विदा तहिं हुँदै सुग्रीव् विभीषण् गया ।
 लक्ष्मण् सेवक छन् सदा हजुरमा राम् राज्य गर्दा भया ॥ ३७२ ॥
 आत्मा रूप् सब कर्मका अधिपती निर्मल् अकर्ता पनि ।
 कर्ता भैकन लोकलाइ उपदेश् गर्नालायक अश्मेधहर जो गन्या उचित् हो भनी ॥
 ती सब् यज्ञ पनी गन्या प्रभुजिले ठूला ठूला यज्ञ हुन् ।
 राजा राम् भइवक्सन् जब भयो वाँकी रहन्थ्यो कउन् ॥ ३७३ ॥
 जो पथ्या अधि ताप् अनेक् तरहका प्राणी प्रजा खुश् भया ।
 ती सब् प्रजाका गया ॥

पाने के पश्चात् तुम संसार सागर से पार हो जाओगे । ऐसी आज्ञा देने के बाद मुख्य भक्त गुह्य के सम्मुख जाकर आगे बढ़े और उन्हें अपनी बाहों में भरकर आभूषणों का दान दिया । ३७१ उसी समय उन्होंने उन्हें तत्त्वज्ञान से भी परिचित कराया । अतः सम्पूर्ण आनन्द में डूबकर गुह्य श्रीराम के चरणों में अपने मन को अर्पण कर चले गये । इसी प्रकार से सुग्रीव विभीषण सभी वहाँ से विदा हो गये । लक्ष्मण जी राम की सेवा में सदा के लिये ही उनके चरणों में ही रहे और राम-राज्य का अलौकिक आनन्द लेते हुए राम की सेवा में लीन रहे । ३७२ श्रीरामचन्द्र जी प्रत्येक कार्य के कर्ता हैं । वे आत्मास्वरूप हर कार्य में रहते हैं कुछ बड़े-बड़े कार्य उन्होंने स्वयं किये जिसे मानव ने समझा कि वे कार्य स्वयं प्रभु ने अपने हाथों सम्पन्न किया किन्तु कुछ कार्य वे मानव के अन्दर प्रेरणा बनकर करते हैं । उन्होंने राज्यकाज सम्हालने पर बड़े-बड़े अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किये । समस्त संसार को अपने पावन उपदेशों से भर दिया । सारी प्रजा को मुख शान्ति तथा सन्तोष प्रदान किया । अब उनके लिये क्या करना शेष था । ३७३ श्रीराम जब राजा बने तो समस्त प्रजा में प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गयी । रामराज्य से पूर्व होने वाले सारे कष्टों का नाश हो गया । किसी विधवा का शोक विलाप नहीं रह गया । देश में रोग बीमारी का नाम तक नहीं रहा । किसी व्याधा का भयंकर प्रकोप भी नहीं रहा । चोरी या डकैती आदि घिनौने कार्य की प्रवृत्ति भी देश से मिट गयी । सबके हृदय छल, कपट तथा द्वेष से मुक्ति पाकर निर्मल हो गये । नगर में किसी को अपनी वस्तुयें

गर्देनन् विधवा विलाप् मुलुकमा लाग्दैन : रोग्ग्याध् पनि ।
 सब् डाक् दबिया परेन कर्हि ताप् यो चीज् हरायो भनी ॥३७४॥
 बूढो बाँचि मरेन बालक कहीं यस्तो मुलुकमा भयो ।
 छोरा झै गरि पालिबक्सनु हुँदा सब् ताप् प्रजाको गयो ॥
 गछन् राघवको भजन् जनहरू वर्षन्छ मेघ् कालमा ।
 वर्णाश्रम् सब धर्म छन् दिन बित्या सब्का सुखै चालमा ॥३७५॥

अयुत वर्ष त राज् प्रभुको भयो ।

सकल ताप् दुनियाँहरूको गयो ॥

शिवजिले यति पार्वतिथ्यै कहा ।

सकल पाप् छुटिजान्छ सुनी रह्या ॥३७६॥

श्रीरामका यति कथानक जो कहन्छन् ।

सब् थोकले ति परिपूर्ण भई रहन्छन् ॥

धन् पुत्र राज्यहरू कम्ति हुँदैन केही ।

पाप् हर्नलाइ पनि मुख्य छ धर्म येही ॥३७७॥

जन्मन्छन् तर मर्दछन् पनि सबै जस्का त छोराहरू ।
 तेस्ता स्त्रीहरूले भने यति सुन्या बाँच्छन् पछीका अरू ॥

खोने या चोरी हो जाने की आशंका ही नहीं रही । ३७४ अकाल मृत्यु से सब छुटकारा पा गये । वृद्धों के जीवित रहते हुए बालकों की मृत्यु कहीं नहीं देखी जाने लगी । प्रजा जनों का पालन राजा अपने पुत्र के समान कर रहे थे । अतः सबके हृदय दुःख तथा ताप से मुक्त थे । समस्त राज्य में राघव के गीत-भजन गूँजते थे । समय पर वर्षा होती तथा अकाल से मुक्ति मिली । वनाश्रमों में धर्म-कर्म होते अतः सबका जीवन सुख संतोषमय हो गया । ३७५ अनेकों प्रकार से लोग राजा के गुणगान करते । सबके मन सन्तुष्ट थे, सब सुखी थे किसी को किसी प्रकार का दुःख नहीं था । ऐसे राज्य की प्रशंसा सुनकर शिव ने पार्वती से कहा कि सुनते हैं ऐसे राम-राज्य के अन्दर निवास करने से ही सकल पापों का नाश होता है । ३७६ इस संसार में धन-पुत्र आदि से मोक्ष नहीं मिलता यह सब तो क्षण भंगुर है, बड़े-बड़े राज-पाठ भी अंतिम दशा को प्राप्त हो गये । अपने पापों को नाश करने का एक धर्म मार्ग यही है कि प्रभु के गुणगान किये जायें । श्रीराम की कथा जो कहता है वह मनुष्य सभी सुखों से परिपूर्ण रहता है । ३७७ श्रीराम के भजन से मनुष्य के जीवन की कोई भी कमी पूरी हो सकती है । कभी किसी के पुत्रादि जन्म लेकर तुरन्त ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं कितनी

बन्ध्या स्त्री पनि पाउँछे सुत असल् गछन् कृपा राम् धनी ।
 आधिव्याधि अनेक दुःख भय ताप् पर्देन कैल्यै पनि ॥३७८॥
 श्रीरामको यति कथा जतिले त सुन्छन् ।
 सब् देवता तिसँग खुप्सित खूशि हुन्छन् ॥
 जो विघ्न हुन् ति पनि नष्ट भएर जान्छन् ।
 सम्पूर्ण जन् पनि तिनैकन आइ मान्छन् ॥३७९॥

आधि व्याधि त छुट्छन् अरु उपर् धन्धान्य सन्तान् पनि ।
 बढ्छन् इष्ट कुटुम्ब मित्रहरुका मान्या ति हुन्छन् भनी ॥
 यस्ताको त बखान् कहाँतक गरू यो मन् प्रभूमा धरी ।
 गछन् राम भजन् त मुक्ति पनि भै जान्छन् तिसंसार तरी ॥३८०॥
 शम्भूले सब वेद मन्थन गन्या श्रीरामको नाम् सरी ।
 अर्को तत्त्व मिलेन केहि र लिया साह्रै पियारो गरी ।
 सोही तत्त्व त पार्वतीकन दिया अध्यात्म रूप्ले गरी ।
 जस्ले प्रेम् गरि सुन्छ यो सहज त्यो उत्रन्छ संसार तरी ॥३८१॥

॥ इति युद्धकाण्ड समाप्त ॥

ही स्त्रियाँ संतान पाने के सुख से ही वंचित रह जाती है एक बन्ध्या का जीवन ही व्यतीत करती हैं। प्रभु के स्मरण करते रहने से यह सभी व्याधायें, दुःख तथा भय नहीं रह जाते। ३७८ श्रीराम की इस पावन कथा को जो लोग सुनते या कहते हैं उनसे समस्त देवगण सदैव प्रसन्न रहते हैं और सदा सहायक रहते हैं। मानव जीवन में आने वाली समस्त विघ्न बाधायें दूर रहती हैं, समाज में उनका आदर बढ़ता है और सभी उनसे प्रेम-पूर्ण व्यवहार रखते हैं। ३७९ प्रभु की कृपा से आधि-व्याधि सभी नष्ट हो जाते हैं। धन-धान्य एवम् सन्तान से मनुष्य परिपूर्ण रहता है और दिन पर दिन उसके जीवन में इन सुखों की वृद्धि होती रहती है। इष्ट-मित्र तथा कुटुम्ब के सदस्य श्रद्धा-आदर तथा प्रेम देते हैं। प्रभु की प्रशंसा कहाँ तक की जाये। उनके भजन मन से जो करता है वह संसार की समस्त बाधाओं से मुक्ति पाकर तर जाता है। ३८० शम्भु ने भी श्रीराम नाम के समान सब वेदों का मन्थन किया अर्थात् अध्ययन किया। उन्हें भी कोई दूसरे तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। अतः उसी तत्व का ज्ञान प्राप्तकर उन्होंने प्रेमपूर्वक पार्वती जी को आध्यात्म रूपसे प्रदान किया। जो प्रेम-पूर्वक रामकथा को सुनता और कहता है वह सहज ही संसार से पार होकर किनारे आ जाता है। ३८१

॥ इति युद्धकाण्ड समाप्त ॥

उत्तरकाण्ड

शम्भुका मुखदेखि राज्य अभिषेक्
 सोधिन् पार्वतिले सदाशिवजिथ्यै
 पृथ्वीमा कति वर्ष राज् हुन गयो
 कस्ता रीत्सित राज्य छोडि रघुनाथ्
 शम्भो ! श्रीरघुनाथका जति त छन्
 आज्ञा आज हवस् म सुन्छु भगवान् !
 यो बिन्ती जब शम्भुका चरणमा
 सब लीला प्रभुका कह्या शिवजिले
 रावण् मारि उतारि भारि भुमिको
 जानी एक दिन ता गया ऋषि अनेक
 दुर्वासा भृगु अङ्गिरा इ पनि छन्
 विश्वामित्र असित् र कण्व सहितै
 सब शिष्यै सहितै अगस्तिजि गया
 हाजिर् जल्दि पठाइ मर्जि भइ सब
 राम्को सुनीथिन् जसै ।
 लीला पछीका तसै ॥
 लीला तहाँ कुन् भया ।
 वैकुण्ठ धाम्मा गया ॥ १ ॥
 लीला कृपाले गरी ।
 बिन्ती छ पाऊ परी ॥
 श्रीपार्वतीले गरिन् ।
 खुप् हर्षमा ती परिन् ॥ २ ॥
 राम् राज्य गछन् भनी ।
 भेटौं सिताराम् भनी ॥
 कश्यप् र वाम्देव् भया ।
 सप्तर्षि अत्रि गया ॥ ३ ॥
 द्वारमा पुग्याथ्या जसै ।
 पौंच्या हजूरमा तसै ॥

जब शम्भु के मुँह से श्रीराम के राज्याभिषेक के बारे में सुना, पार्वती ने सदाशिवजी से उसके बाद की लीला के विषय में प्रश्न किया। पृथ्वी पर कितने वर्ष तक राज्य किया गया और किस-किस प्रकार की लीला हुई और किस प्रकार श्रीरघुनाथ राज्य को छोड़कर बैकुण्ठधाम को पधारे। १ शम्भो ! श्रीरघुनाथ की जो कुछ भी लीलाएँ हैं कृपाकर आज बताने का कष्ट करें, मैं सुनना चाहती हूँ। भगवन् ! आपके शरण में मेरी यही विनती है। जब इतनी विनती पार्वती जी ने शम्भु के चरणों में रखी, शिवजी ने भी प्रभु की समस्त लीलाओं के बारे में बताया और ये जानकर वह अत्यन्त हर्षित हुई। २ रावण को वध कर तथा भू-भार को उतार कर राज्य करनेवाले श्रीराम को जानकर एक दिन अनेक ऋषि मुनि सीताराम से भेंट करने के लिए गये। दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, विश्वामित्र, असित एवं काण्डव सहित सप्तऋषि अत्रि आदि भी गये। ३ समस्त शिष्यों सहित जब अगस्ति जी द्वार पर पहुँचे थे, आने की सूचना देने पर तुरन्त बुलाने की आज्ञा हुई और सब प्रभु के पास पहुँच गये। प्रभु जी ने समस्त ऋषियों का

पूजा सब ऋषिको गन्या प्रभुजिले सबलाइ आसन् दिया ।
 खूशी सब ऋषिगण भया हजुरमा जो जो गयाका थिया ॥ ४ ॥
 पैले प्रश्न गन्या तहाँ कुशलको राम्ले र आदर् गरी ।
 सोध्या सब ऋषिले पनी कुशलको विस्तार् बडो प्रेम् गरी ॥
 विन्ती सब ऋषिले गन्या हजुरमा ख्वामित् ! ठुलो काम् भयो ।
 पृथ्वीको अति भार इन्द्रजित हो भार् तेहि जाँदा गयो ॥ ५ ॥
 वीर् हुन् रावण कुम्भकर्ण त पनी यो इन्द्रजित् झन् जवर् ।
 वीर् हो त्यो पनि मारिवक्सनुभयो को जित्त सब्थ्यो अवर् ॥
 लङ्कामा यिनि दुष्टको मरण भो साँचा विभीषण् थिया ।
 पाया राज्य कनक् झई र खुशिले चाकर् सदाका भया ॥ ६ ॥

जो दक्षिणा अभयको अघि हो दियाको ।
 सो पूर्ण गर्नकन दुष्ट हरी लियाको ॥
 देख्याँ कृतार्थ हुनुभो रघुनाथ ऐल्हे ।
 मथ्याँ इ राक्षसहरू अरुदेखि कैल्हे ॥ ७ ॥

यो विन्ती ऋषिको सुन्या प्रभुजिले आश्चर्य मान्या पनि ।
 क्याले रावणदेखि झन् अति ठुलो भो इन्द्रजित् वीर् भनी ॥

पूजन करके सबको आसन अर्पित किया । समस्त ऋषिगण जो भी प्रभु के पास गये अत्यन्त खुश हुए । ४ श्रीराम ने सर्वप्रथम सबसे कुशलता के बारे में पूछा और आदर-सत्कार किया । सब ऋषियों ने भी अति प्रेमपूर्वक कुशलता सविस्तार बतायी । सब ऋषियों ने विनती की, स्वामिन् ! अत्यन्त बड़ा कार्य सम्पन्न हुआ । पृथ्वी का अति-भार इन्द्रजीत भी है और उसी के चले जाने से भार का हरण हुआ है । ५ वीर तो रावण तथा कुम्भकर्ण भी हैं परन्तु इनसे भी महावली वीर इन्द्रजीत है, उसे भी मारने की कृपा की । इस प्रकार अन्य वीर भी कैसे टिकते । लंका में इन दुष्टों का अन्त हुआ । केवल सच्चे विभीषण थे और कनकरूपी राज्य पाकर तथा प्रसन्न होकर सदैव के लिए सेवक बन गये । ६ अभयदान के रूप में दी हुई दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए दुष्टों का हरण किया हुआ देखा । श्रीरघुनाथ ! हम कृतार्थ हैं । ये राक्षसगण औरों के द्वारा किस प्रकार मारे जाते । ७ ऋषियों की ऐसी विनती सुनकर प्रभुजी ने आश्चर्य किया । इन्द्रजीत रावण से भी अति महान वीर कैसे हुआ,

सोध्या सब ऋषिका अगाडि र तहाँ	साम्ने अगस्ती थिया ।
यस्तो हो तब वीर् भन्यां भनि सबै	विस्तार् बताईदिया ॥ ८ ॥
ब्रह्माका सुत हुन् पुलस्त्य तपका	खातिर् सुमेरू गया ।
राजर्षी तृणबिन्दुका नगिचमा	आश्रम् ति गर्दा भया ॥
तप् गथ्या तहिं देवपुत्रिहरु सब	आएर खुप् गान् गरी ।
नाच्छ्या हास्यकला अनेक् तरहका	गढै नजरमा परी ॥ ९ ॥
तप्को विघ्न हुन्या पुलस्त्य ऋषिले	बूझ्या बडा धीर् थिया ।
जुन् स्त्री देखछु म गर्भिणी उहि हवस्	भन्न्या सराप् पो दिया ॥
भाग्या सब तृणबिन्दु पुत्रि त सुनी	साम्ने नजीक्मा गइन् ।
देख्या तहिं पुलस्त्यले र ति उसै	झट् गर्भिणी पो भइन् ॥ १० ॥
कामिन् खुप् डरले पितासित गइन्	जान्या पिताले पनि ।
छोरी गर्भिणि भैछ आज ऋषिका	साँचा वचन्ले भनी ॥
जानी छोरि पुलस्त्यजीकन दिया	जल्दी नजीक्मा गई ।
ती कन्या ति पुलस्त्यले पनि लिया	अत्यन्त खूशी भई ॥ ११ ॥
तिन्का पुत्र ति विश्रवा हुन गया	खुप् ब्रह्म जान्न्या मुनि ।
भारद्वाज् ऋषिले तिनैकन दिया	छोरी वडा गुण सुनी ॥

कहते हुए सब ऋषियों के सम्मुख जहाँ अगस्ति भी थे, प्रश्न किया । तब उसकी वीरता के विषय में सविस्तार बता दिया । ८ पुलस्त्य ब्रह्मा का पुत्र तपस्या करने के लिए सुमेरु पर्वत को गया । राजर्षि तृणबिन्दु के निकट आसन की स्थापना की और वहीं तपस्या करने लगे । वहाँ पर सब देव-पुत्रियाँ आदि आकर खूब गान करतीं, नृत्य करतीं तथा अनेक प्रकार की हास्यकला करते हुए नजरों के सामने पड़तीं । ९ पुलस्त्य ऋषि तपस्या में विघ्न होने की संभावना को जान गये । वे बड़े वीर थे । उन्होंने यह शाप दिया कि जिस स्त्री को मैं देखूंगा वह गर्भिणी हो जाये । सब-तृण बिन्दु भाग गये और यह देव-पुत्री यह सुनकर निकट गयी । पुलस्त्य के उसे देखते ही तत्काल वह गर्भिणी हो गयीं । १० अत्यन्त भयभीत होकर काँपते हुए पिता के पास गयी, पिता ने भी जान लिया कि ऋषि के सत्य वचन से पुत्री आज गर्भिणी हुई है । यह जानकर शीघ्रता से निकट जाकर पुलस्त्य जी को पुत्री अर्पित कर दिया । पुलस्त्य जी ने भी उस कन्या को प्रसन्न होकर ग्रहण कर लिया । ११ उनके विस्रवा नामक पुत्र हुए जो ब्रह्म-गुणों से परिपूर्ण थे । भरद्वाज ऋषि ने उनके

तिन्का पुत्र कुबेर् भया गुणनिधान् तिन्ले तपस्या गरी ।
 ब्रह्मालाइ रिझाउँदा ति धनका मालिक् भया तेस् घरि ॥ १२ ॥
 मालिक् दौलथका गरायर गरुन् यस्मा सयल् खुप् भनी ।
 ब्रह्माले तहिं फेरि पुष्पक विमान् तिन्लाइ दीया पनि ॥
 तेसैमाथि चढी पितासित गई तप्को सबै फल् कह्या ।
 सब् पायाँ तर वास् त पाइन कता जाऊँ म भन्दा भया ॥ १३ ॥
 सून्या बिनित कुबेरको र खुशि भै ती विश्रवाले पनि ।
 लङ्का खालि थियो र तेहि दिनुभो लौ राज्य गर् जा भनी ॥
 लङ्कामा अधि राज्य राक्षसहरू गथ्या बडा वीर् थिया ।
 तिन्कै खातिर विश्वकर्म खुशि भै लङ्का बनाई दिया ॥ १४ ॥
 आज्कल राक्षस विष्णुले जितिलिदा भागेर पातालमा ।
 लुक्ना-खातिर गै गया र शहरै खाली छ यस् कालमा ॥
 आज्ञा येति दिया कुबेर्कन तहाँ ती विश्रवाले जसै ।
 लंकामा ति कुबेर् गईकन बस्या राज् गर्न लाग्या तसै ॥ १५ ॥
 एक् दिन् कैकसि छोरि लीकन ठुलो राक्षस् सुमाली पनि ।
 डुल्थ्यो यस् पृथिवीविषे सब घुमी हेरूँ तमाशा भनी ॥

महान गुण को सुनकर अपनी पुत्री दे दी । उनसे पुत्र कुबेर का जन्म हुआ । पूर्ण विधान-सुसंपन्न कुबेर के तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करने पर वे उस समय धन के मालिक हो गये । १२ दौलत के स्वामी बनकर उसमें सुखी रह सकें यह सोच ब्रह्मा ने उन्हें पुनः पुष्पक विमान भी दिया । उसी में चढ़कर पिता के साथ तप करने हेतु गये । जो कुछ उसे फल प्राप्त हुआ, विस्तारपूर्वक बताया परन्तु मुझे रहने का कोई स्थान नहीं मिला और मैं किस ओर जाऊँ, सोचने लगा । १३ कुबेर की इस विनती को सुनकर विस्त्रवा ने भी प्रसन्न होकर लंका जो उस समय खाली थी उसी को राज करने के लिए दे दी । इससे पूर्व लंका में अत्यन्त वीर राक्षसगण राज्य करते थे । उन्हीं के लिए विश्वकर्मा ने प्रसन्न होकर लंका का सृजन किया । १४ आजकल राक्षस, विष्णु द्वारा पराजित होने के कारण भागकर छिपने के लिए पाताल को चले गये । अतः इस समय पूरा शहर खाली है । जैसे ही विस्त्रवा ने कुबेर को यह आज्ञा दी वैसे ही कुबेर लंका जाकर राज करने लगे । १५ एक दिन राक्षस सुमाली भी अपनी पुत्री कैकसी को लेकर पृथ्वी-तल

पाताल्वाट सयल् गरुं भनि यहाँ
 पुष्पकमाथि चढेर खुपसित सयल्
 लाग्यो दृष्टि सुमालिको र मनले
 यस्तो वीर् कुलमा कसो गरि हुनन्
 लाग्यो कैकसिलाइ भन्न अहिले
 कोही वर् पनि आउँ दैन गरुं क्या
 तस्मात् आज त विश्रवा ऋषिजिथ्यै
 हात् जोरी ऋतुदान माग तिमिले
 यस्तै पुत्र हुनन् अवश्य इ उनै-
 छोरीलाइ त विश्रवा सित तहाँ
 जल्दी कैकसि विश्रवा सित गई
 पृथ्वी तर्फ नजर् दिई चरणले
 चेष्टा कैकसिको नजर् गरि-तहाँ
 कन्या कस्कि तँ होस् बता किन यहाँ
 सोध्या कैकसिलाइ लाज् हुन गयो
 ध्यानैले सब जानिबक्सनुहवस्

आएर डुल्दा तहाँ ।
 गथर्या कुबेर्जी जहाँ ॥ १६ ॥
 मान्यो बडा हुन् भनी ।
 यस्तो चितायो पनि ॥
 पुत्री ! यती काल् गयो ।
 यौवन् त तिम्रो भयो ॥ १७ ॥
 जाऊ र सामने गई ।
 दासी चरणकी भई ॥
 का पुत्र हुन् वीर् भनी ।
 तेस्ले पठायो पनि ॥ १८ ॥
 सामने खडा भै रहिन् ।
 लेख्ती जमीन्मा भइन् ॥
 ती विश्रवाले पनि ।
 आइस् अगाडी भनी ॥ १९ ॥
 लाज्का सकस्मा परिन् ।
 यस्तो त बिन्ती गरिन् ॥

में तमाशा देखने हेतु पर्यटन कर रहा था । सैर करने के लिए जब यहाँ आकर घूम रहा था, वहीं कुबेर जी भी पुष्पक विमान पर चढ़कर खूब सैर करते थे । १६ सुमाली की दृष्टि उनपर भी पड़ी और मन में सोचने लगा कि वह एक महान हस्ती है । ऐसे ही अपने कुल में किस प्रकार होगा सोचने लगा और कैकसी से कहा—“पुत्री ! अभी काफी समय व्यतीत हो चुका है कोई वर ही नहीं आता है । क्या करूँ तुम्हारा यौवन ऐसे ही बीता जा रहा है । १७ अतः आज तुम विस्रवा ऋषि के पास जाकर करबद्ध होकर उनके चरणों की दासी के रूप में ऋतुदान की माँग करो; तब ऐसा ही पुत्र अवश्य प्राप्त होगा जिस प्रकार उनके वीर पुत्र हैं । इस प्रकार अपनी पुत्री को विस्रवा के पास भेजा । १८ कैकसी भी तुरन्त ही विस्रवा के पास गयी और सामने जाकर खड़ी रही । पृथ्वी की ओर नजरकर अपने पाँव से जमीन पर लिखने लगी । कैकसी की चेष्टा को देखकर विस्रवा ने भी प्रश्न किया कि तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो ? और यहाँ क्यों आयी हो ? १९ कैकसी लज्जित हुई । लज्जा के वशीभूत कैकसी ने विन्ती की कि आप स्वयं अपनी दृष्टि से ज्ञात करने की कृपा करें कि मैं क्या हूँ । यह विन्ती सुनकर तत्काल

सून्या बिनित्ति र झट् विचारु पनि गन्या
छोरा पाउन आइछस् भनि तहाँ
बेला दारुण पारि आज ऋतुदान्
दोटा पुत्र हुनन् भयंकर स्वरूप
यस्ता बात् गरि दान् दिया र ऋतुको
कुन् रीतुले अब पाउँ पुत्र बढिया
बिन्ती कैकसिले गरिन् उहि बखत्
तेस्ता पुत्र बुझाउँला म कसरी
सून्या बिनित्ति तहाँ दया पनि उठ्यो
तेस्रो पुत्र हुन्याछ राम्चरणको
पत्नी कैकसिलाइ येति ऋषिले
खूशी कैकसि भैगइन् ऋषि रह्या
जन्म्यो रावण पूर्ण गर्भ जब भो
उल्का आदि भया अनेक् तरहका
रावण्का पछि कुम्भकर्ण अति वीर्
जन्मी शूर्पणखा पछी गुण निधान्

मालुम् भयो सब् जसै ।
बोल्या ऋषीले तसै ॥ २० ॥
मागिस् म दिन्छू पनि ।
बेला सरीका भनी ॥
ती बात् जसै ता सुनिन् ।
यस्तो बहूतै गुनिन् ॥ २१ ॥
ख्वामित् पती भै पनि ।
यो झन् कठिन् भो भनी ॥
ती विश्रवाको अनि ।
दास् बुद्धिमान् खुप् भनी ॥ २२ ॥
दीया कृपा खुप् गरी ।
ध्यान्मा बहुत् मन् धरी ॥
शिर् दश् भुजा बीस् धरी ।
कामिन् भुमीखुप् गरी ॥ २३ ॥
जन्म्यो उसैका मनि ।
जन्म्या विभीषण् पनि ॥

विचार किया और सभी बातों का ज्ञान कर लिया । और कहा कि तुम
यहाँ पुत्र-प्राप्ति के लिए आयी हो । २० कठिन अवसर देखकर आज
तूने ऋतु-दान की माँग की है जिसे मैं देता हूँ । तेरे दो भयंकर स्वरूप
वाले बलिष्ठ पुत्र होंगे । इस प्रकार गहरी बात करके ऋतु-दान किया ।
कैकसी ने जब ऐसी बातें सुनीं तो कहने लगी कि ऐसे गुणी और उत्तम पुत्र
अब मैं किस प्रकार प्राप्त करूँगी । २१ उसी समय कैकसी ने ऐसा प्रश्न
किया स्वामिन् ! पति होने पर भी वैसे पुत्र मैं किस प्रकार प्रस्तुत
करूँगी, यह मन साक्षी नहीं देता है । ऐसी विनती सुनकर विश्रवा के
मन में भी दया उत्पन्न हुई और कहा कि रामचरण के दास एवं
अत्यंत बुद्धिमान तेरा तीसरा पुत्र भी होगा । २२ ऋषि ने पत्नी
कैकसी को यह सब कृपा प्रदान की । कैकसी प्रसन्न होकर चली
गयी और ऋषि अत्यन्त ध्यान-मग्न होकर बैठे रहे । जब गर्भ पूर्ण
हुआ, दस सिर और बीस भुजाएँ धारण कर रावण ने जन्म लिया ।
अनेक प्रकार का उलकापात हुआ और भूमि भी अत्यन्त कम्पित
हुई । २३ रावण के पश्चात् अतिवीर कुम्भकर्ण का जन्म हुआ । उसके
बाद शूर्पणखा ने जन्म लिया तत्पश्चात् गुणनिधान विभीषण भी उत्पन्न

शान्तामा बढिया विभीषण भया वस्थ्या ति शास्त्रै सुनी ।
 दुष्टात्मा अति कुम्भकर्ण हुन गो डूलेर खान्थ्यो मुनि ॥ २४ ॥
 बैह्री शूर्पणखा भई जगतमा दुष्टात्म भै दुल्दथी ।
 नक्कट्टी भइ गै पछी, हजुरका तेजले कहाँ वाँत्तथी ॥
 रावणको त बखान् कहाँ तक गरौं सब लोकको रोग् सरी ।
 लाग्यो रावण बढ्न रोज् भय दिंदै तीन् लोक वशीमा गरी ॥ २५ ॥

सर्वान्तर्यामि साक्षी हृदय हृदयमा आत्मरूपले रह्याका ।
 निर्मल् सर्वज्ञ पूर्ण प्रभु पनि नरको रूप ऐले भयाका ॥
 सोधनभो आज लीला गरिकन त सबै रावणादीहरूको ।
 विस्तार बिन्ती म गर्छु अरु पनि भगवान् ! तेज्हन्यो जो अरुको ॥ २६ ॥

ब्रह्म स्वरूप प्रभु भनेर हजूरलाई ।
 जानेर डुल्छु म अनुग्रह केहि पाई ॥
 यस्तो अगस्ति ऋषिले जब बिन्ति लाया ।
 साँचा कुरा प्रभुजिले ऋषिथ्यै बताया ॥ २७ ॥

माया छ यो सब जगत् भनि नित्य जानी ।
 आनन्द यस् विषयमा रतिभर् नमानी ॥

हुआ । विभीषण सर्वोत्तम एवं शान्तात्मा हुए और सदैव वे शास्त्रों का श्रवण करते रहते थे । २४ वहन शूर्पणखा जगत में दुष्टात्मा के रूप में घूमती फिरती थी । नाक कट जाने के पश्चात् प्रभु के तेज-प्रकाश में कहाँ जीवित रह सकती थी । रावण के बारे में कहाँ तक कहूँ । सर्वलोक के रोग के समान रावण के भय का विस्तार रोज होने लगा । इस प्रकार तीनों लोक उसके वशीभूत होने लगे । २५ सर्वान्तर्यामी साक्षी जिसके, हृदय में आत्मरूप धारण कर रहते हैं ऐसे सर्वज्ञ निर्मल एवं पूर्ण प्रभु भी अभी नर का रूप धारण किये हुए हैं । ऐसी लीलाएं करते हुए आज प्रश्न करने की कृपा की अतः रावण आदि तथा अन्य लोगों की शाक्ति का हरण करने के बारे में मैं विस्तार विनती करता हूँ । २६ आपको नम्रस्वरूप प्रभु जानकर आपके अनुग्रह को प्राप्तकर मैं इधर-उधर घूमता हूँ । जब अगस्ति ऋषि ने इस प्रकार की विनती की तो प्रभु जी ने ऋषि को सत्य वार्ता कह सुनायी । २७ सदैव इस जगत को मायारूपी जानकर तथा इस विषय में किंचित मात्र भी आनन्दित न होकर मेरे ही भजन करते रहने से सब पाप का हरण होता है तथा सरलता से

मेरो भजन् गरिरहोस् सब पाप हन्या ।

येही उपाय छ सहजसित पार तन्या ॥ २८ ॥

एकदिन् पुष्पकमा चढाकन कुबेर्
देखिन् कैकसिले र पुत्रसित गै
देख्यौ पुत्र ! कुबेरलाइ तिमिले
गर्छन् पुष्पकमा सयल् खुशि हुँदै
जस्तो यत्न गरेर हुन्छ तिमिले
सबको मालिक भै सयल् गर अनेक
रावण्ले इ वचन् सुनी जननिकै
हे मातर ! म बडै भएर रहूँला
यस्तो बात् तहिँ कैकसीसित गरी
गोकर्णेश्वरमा गई दृढ भई
रावण्का संग कुम्भकर्ण विभीषण्
ईश्वरलाइ गरौँ प्रसन्न भनि खुप्
तप् गर्दा हुँदि कुम्भकर्ण विरको
टेकी एक चरण् विभीषणजिको

आया पिताथ्यैँ जसै ।
क्यैँ भन्न लागिन् तसै ॥
सब् द्रव्यका छन् धनी ।
तेजस्विं देख्ते पनि ॥ २९ ॥
सो यत्न ऐले गरी ।
यस्तै यिनैले सरि ॥
साम्ने प्रतिज्ञा गन्यो ।
क्या आज चिन्ता पन्यो ॥ ३० ॥
तप् गर्न रावण् गयो ।
तप् गर्न लाग्दो भयो ॥
भाई दुवै ती गया ।
तिन्ले पनी मन् दिया ॥ ३१ ॥
ताहाँ अयुत् वर्ष गो ।
पाँचै हजार मात्र भो ॥

संसार तरने का यही एक उपाय है । २८ एक दिन वह पुष्पक विमान में चढ़कर जैसे ही अपने पिता के पास आया कैकसी ने उसे देखा और पुत्र के निकट जाकर कुछ कहने लगी । देखा पुत्र ! कुबेर को तुमने सब द्रव्यों का मालिक बना दिया है, प्रसन्न होकर पुष्पक में पर्यटन करता है । देखने में भी तेजस्वी प्रतीत होता है । २९ जिस प्रकार से भी हो तुम ऐसा यत्न करो कि सबके मालिक होकर इसी की तरह अनेकानेक पर्यटन करो । रावण ने माँ के ऐसे वचनों को सुनकर प्रतिज्ञा की, हे माता, मैं बड़ा ही होकर रहूँगा; आप व्यर्थ ही चिंतित क्यों होती हैं । ३० कैकसी के साथ इस प्रकार की बात कहकर रावण तप करने चला गया । गोकर्णेश्वर में जाकर दृढ़ता पूर्वक तप करने लगा । रावण के संग कुम्भकर्ण तथा विभीषण दोनों भाई भी गये । ईश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन लोगों ने भी अत्यंत मन लगाकर ध्यान किया । ३१ तपस्या करते हुए वीर कुम्भकर्ण को वहाँ अनेक वर्ष बीते । विभीषण जी को एक ही चरणों पर टेककर तपस्या करते हुए केवल पाँच हजार वर्ष बीते । रावण के वारे में कहाँ तक वर्णन किया जाय ? उसने तो अत्यंत एकाग्र होकर प्रतिदिन प्रभु जी का ध्यान मन में धरकर तपस्या

रावणको तब खान् कहाँतक गरौं ठूलो तपस्या गन्थो।
 खुप एकाग्र भएर रोज प्रभुजिका ध्यान्मा बहुत् मन् धन्यो ॥ ३२ ॥
 दश हजार जब दिव्य वर्ष बितिगो एक शिर तसै होम् गरी ।
 यस्तै रीतसितनौ त शिर पनि हुम्यो भक्ती त प्रभूमा धरी ॥
 नौ शिर होम् गरि शिर दशै पनि तहाँ दीनै तयार भो जसै ।
 ब्रह्मा आइ हटाइ वर दिन तयार हुनूभयो पो तसै ॥ ३३ ॥
 हे रावण ! वर माग दिन्छु अहिले इच्छा बमोजिम् भनी
 ब्रह्माबाट दया भयो र खुशि भै माग्यो तहाँ वर पनि ॥
 हे नाथ ! वर त अमर म पाउँ नमछुँ कवै वीरदेखी कसै
 मानिसको त डरै स मान्दिनै रती मेरा सदा छन् तसै ॥ ३४ ॥
 ब्रह्माले पनि लौ भनेर वरदान मागे बमोजिम् दिया
 काट्याका पनि शिर तयार गरि दिया जस्तै अगाडी थिया
 ब्रह्माजी तहि फेर विभीषणजिका साम्ने नजीकमा गया ।
 इच्छा क्या मनमा छ माग उहि वर दिन्छु स भन्दा भया ॥ ३५ ॥
 मागे वर खुशि भै विभीषणजिले हे नाथ ! निरन्तर मति
 धर्म तर्फ रहोस् अधर्मतिर ता केल्यै नलागोस् रती ॥

की । ३२ कि जब दस हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हुए तब एक सिर अपंग
 किया । इसी प्रकार प्रभु में भक्ति दर्शाकर शेष नौ सिरों को भी हवन
 कर दिया। तौ सिरों को हवन करने के पश्चात् जब दसवाँ सिर
 भी देने के लिए तैयार हुआ तब ब्रह्मा ने वहाँ आकर उसे हटाया और
 वरदान देने के लिए तैयार हुए । ३३ - हे रावण ! तू वर माँग ले, मैं
 तेरी इच्छा के मुताबिक अभी प्रदान करता हूँ । ब्रह्मा की इस दया;
 दृष्टि से प्रसन्न होकर उसने भी वर माँगा । हे नाथ ! मुझे आप ऐसा
 वरदान दें कि मैं अमर हो जाऊँ और किसी भी वीर के द्वारा न मरूँ ।
 मनुष्यों को तो मुझे किंचित मात्र भी भय नहीं है क्योंकि वे सब मेरे ही
 बंस में हैं । ३४ - ब्रह्माजी ने भी तथास्तु कहकर उसकी माँग के अनुसार
 वरदान दिया। जो सिर कट चुका था उसे भी पुनः पहले के समान
 ठीक कर दिया अर्थात् वना दिया । ब्रह्मा जी फिर वहीं पर विभीषण
 जी के निकट गये और कहने लगे कि मन में जो इच्छा हो माँग लो
 मैं तुम्हें वही वरदान दूँगा । ३५ - विभीषण जी ने भी प्रसन्न होकर वर
 माँगा - हे नाथ ! मेरा ध्यान निरन्तर धर्म की ओर रहे तथा मेरी
 बुद्धि कदाचित् भी अधर्म की ओर आकृष्ट न हो । ब्रह्मा जी ने भी

ब्रह्माले अधिकै दया गरि दिया होला तँलाई भनी ।
मागेनन् त्रपनी तहाँ गरिदिया कल्पान्त आयू पनि ॥ ३६ ॥

फेर कुम्भकर्ण विरका अगि जल्दि आई ।

आज्ञा भयो अब त दिन्छु म वर तँलाई ॥

क्या माग्दछस् भनि दया हुन गो जसै ता ।

जिह्वाविषे गयर वाणि बसिन् तसै ता ॥ ३७ ॥

वाणीले जब मोह खुप् सित भयो घत्को बिघत्को पनि ।
थाहा केहि भएन तेस्कन तहाँ यस्तो म मागू भनी ॥

माग्यो मूढ भएर येहि वरदान् निद्रा छ मैहना परोस् ।
एक् दिन मात्र मलाइ खान पिनका खातीर निद्रा टरोस् ॥ ३८ ॥

यस्तो वाक्य सुनेर तेहि वरदान् दीया प्रभूले जसै ।
सून्या त्यो वरदान देवगणले खूशी भया सब तसै ॥

जिह्वादेखि सरस्वती जब गइन् खेद् तेस् बखत्मा पन्यो ।
इच्छा ईश्वरकै रहेछ बलवान् भन्या विचार्यो गन्यो ॥ ३९ ॥

बाबू कैकसिको सुमालि खुशि भो पायो र यो सब खबर् ।
आयो जल्दि तहाँ प्रहस्तहर धेर सङ्ग्मा थिया वीर् जबर् ॥

अत्यधिक दया करते हुए उनका कल्याण किया और अन्य कोई वर न माँगने पर भी उसे वरदान दिया । ३६ पुनः वीर कुम्भकर्ण को, आगे शीघ्रतापूर्वक आकर आज्ञा देने की कृपा की कि अब तो मैं तुझे वरदान दूंगा । अतः क्या माँगते हो ऐसा कहने की कृपा हुई तो उसी समय जिह्वा के बीच में जाकर वाणी ने वास किया । ३७ वाणी ने जब मन-ब्रेमन अनेक प्रकार से अपने मोह के वशीभूत किया, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहा कि मैं अमुक वर माँगू । वरन् मूर्ख होकर ऐसा वरदान माँगा जिससे उसे छः महीने तक निद्रा आ जाये और केवल भोजन आदि के लिए मेरी एक दिन निद्रा टूटे । ३८ ऐसे वाक्यों को सुनकर प्रभु ने भी उसे वही वरदान दिया । देवगण भी उस वरदान के बारे में सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । जिह्वा से जब सरस्वती निकलकर चली गयीं उस समय उसे अत्यधिक खेद हुआ और सोचा कि ईश्वर की इच्छा ही बलवान है । ३९ कैकसी के दरबारियों को इसका आभास हुआ और यह सब समाचार लेकर अनेक जब्बर वीर साथ में लेकर भेदिये लोग वहाँ आये । रावण के सम्मुख जाकर प्रसन्नता-पूर्वक कहने लगे, हे पुत्र ! तुमने एक महान काम किया है । पहले तो विष्णु

रावणका अधि गै भन्यो खुशि हुँदै हे पुत्र ! खुप् काम् गन्यौ ।
 विष्णुको अधि डर् थियो अब गयो सन्ताप् तिमिले हन्यौ ॥ ४० ॥
 लङ्कामा अधि राज्य राक्षसहरू गथ्या बडा खुश् थिया ।
 वष्णुले गइ छिन्नभिन्न गरि सब् राक्षस् धपाईदिया ॥
 क्यारीं जोर् नपुगेर भागिकन सब् पाताल् गयाका थियौं ।
 तिम्रो आज सहाय पाइकन पो आई बताईदियौं ॥ ४१ ॥
 आज्काल् राज्य कुबेरको छ तिमिले मागी बलात्कार् गरी ।
 जुन् पाठ्ले गरि हुन्छ लेउ अहिले स्थान् छैन लका सरी ॥
 राजाको त हुँदैन बन्धु सितको बन्धुत्व धर्म पनि ।
 यो सन्देह नमान कत्ति कसरी लङ्का म लीऊं भनी ॥ ४२ ॥
 यस्तो बिनति सुमालिको सुनि भन्यो लंका कसोरी हर्छु ।
 दाज्यू हुन् पितृ तुल्य छन् तहिं बसुन् अन्तै बसूला बरु ॥
 यस्तो रावणको वचन् सुनि तहाँ साम्ने प्रहस्तै सन्यो ।
 रावणको मन फेर फिराउन बहुत् सिप् लाइ बिनती गन्यो ॥ ४३ ॥
 हे नाथ ! कश्यप पुत्रहुन् इ जति छन् द्यौता र राक्षसहरू ।
 लड्थ्या ती पनि ता भन्या त अरुको बिनती कहाँतक गर्छु ।

का डर था परन्तु अब तुमने सम्पूर्ण संताप को हरण कर लिया है । ४०
 आदिकाल में लंका में राक्षस आदि राज्य करते थे और बड़े खुश-
 रहते थे परन्तु विष्णु ने जाकर सबको छिन्न-भिन्न कर दिया और सब
 राक्षसों को भगा दिया । क्या किया जाय, शक्तिविहीन और लाचारी
 के कारण भागकर हम सब पाताल को चले गये थे, परन्तु आज
 तुम्हारा सहयोग पाकर यहाँ आकर ये सब वता दिया । ४१ आजकल
 कुबेर का राज्य है अतः तुम बल के प्रयोग से हो अथवा जिस उपाय
 से भी हो ले लो क्योंकि इस समय लंका के समान और कहीं स्थान
 नहीं है । राजा के बन्धुओं के साथ किसी प्रकार का बन्धुत्व नहीं
 होता है यद्यपि धर्म के अनुसार उसे निभाना ही पड़े । इसकी मन में
 किंचित मात्र भी शंका उत्पन्न न करो कि मैं लंका को किस प्रकार ले-
 लूँ । ४२ सुमाली की ऐसी विनती को सुनकर रावण कहने लगा कि लंका
 को कैसे हरण करूँ वहाँ भ्राता जी रहते हैं जो पितृ तुल्य है अतः वे
 वहीं रहें मैं कहीं अन्यत्र ही रह लूँगा । रावण के इस वचन को सुन
 प्रहस्त ने सामने अग्रसर होकर रावण के मन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से
 अत्यन्त चातुर्य पूर्वक विनती की । ४३ हे नाथ ! देवता एवं राक्षस आदि
 जितने भी हैं ये सब कश्यप-पुत्र हैं । वे भी तो परस्पर लड़ते थे तब अन्य लोगों

तस्मात् आज कुबेर छन् त पनि सो लङ्का खिन्या हो भनी
 हात् जोरी विनती गन्यो र सुनित्यो विन्ती त मान्यो पनि ॥४४॥
 बेसै विन्ति गरिस् भनी उहि बखत् दौडी त्रिकूटमा गयो
 छोड्यो दूत प्रहस्तलाइ र कुबेर लाई निकाल्दो भयो ॥
 बाबूको मतलब् बुझीकन कुबेर छोडेर कैलास् गयो
 तप गर्दा शिव खुश गराइ शिवथ्ये विन्ती ति गर्दा भयो ॥४५॥
 इच्छा माफिकको बनाउन कुशल जो विश्वकर्मा थियो
 तिन्ले बेस् अलकापुरी पनि कुबेर लाई बनाई दिया ॥
 दिक्पाल भै ति कुबेर र ह्या शिवजिले तिनमा दया खुप् गन्यो
 शम्भूको करुणा हुदा त अरु झन् आनन्द सागर पन्या ॥४६॥
 रावण राक्षस सब लिएर खुशि भै लङ्का सहरमा बस्यो
 तपको जोर् बलवान् जित्यो सब जगत् संताप सबमा पस्यो ॥
 विद्वज्जिह्व ठुलो निशाचर थियो तेसलाइ बैनी दियो
 ती मन्दोदरिलाइ आइ मयले दोयो र तेसले लियो ॥ ४७ ॥
 ती मन्दोदरिलाइ दीकन दियो शक्ती अमोघ खुश भई
 बीहा भो पछि कुम्भकर्ण विरको प्रह्लाद कुलमा गई ॥

के बारे में कहाँ तक विनती करूँ। यदि वहाँ कुबेर भी हों तथैपि
 उस लंका को तो लेना ही होगा। इस प्रकार हाथ जोड़कर विनती की
 और उसे सुनकर रावण ने मान भी लिया। ४४ यह कहते हुए कि तुमने
 ठीक ही कहा है उसी क्षण दौड़कर त्रिकूट को चला गया। दूत प्रहस्त आदि
 को छोड़कर, कुबेर को वहाँ से निष्कासित किया। कुबेर, पिता के आशय
 को समझकर उस स्थान को छोड़कर कैलाश चला गया। शिव जी
 को तप द्वारा प्रसन्न कर वे उससे विनती करने लगे। ४५ कुशल विश्व-
 कर्मा जो था उसने इच्छा के अनुरूप कुबेर के लिए अलकापुरी को
 सृजन कर दिया। कुबेर दिग्पाल होकर वहाँ रहा। शिव जी ने उन
 पर महान कृपा की। शम्भु की करुणा से वे और भी आनन्दसागर
 में डूब गये। ४६ रावण सब राक्षसों को लेकर प्रसन्नतापूर्वक लंका
 शहर में रहने लगा। तप के बल से बलवानों को जीता, सम्पूर्ण जगत
 में संताप छा गया। विद्वज्जिह्व एक भयंकर निशाचर था। उसने
 अपनी बहन मन्दोदरी को उसे (रावण को) दिया और उन्होंने भी
 स्वीकारा। ४७ उसे मन्दोदरी को देकर अत्यन्त प्रसन्न होकर एक
 अमोघ शक्ति भी प्रदान की। विर कुम्भकर्ण के विवाह के पश्चात्

शैलुष नाम हुन्या बहूत बलवान् । गन्धर्वराजं क्वै प्रीथियात् ।
 तिन्की छोरि थिइन् विभीषण बड़ा । जानेर छोरी दिया । ४८ ॥
 जन्म्यो रावणलाइ पुत्र बलवान् । जो जन्मदैको धरि ।
 लाग्यो रून् र शब्द भो अति ठुलो । खुप गर्जन्या मेघ सरि ॥
 मेघ शब्द गन्यो भनेर तहि नाम् । तेस्को हरह्यो मेघनादा ।
 यस्को बल यतिसम्मको छभनि यो । लागेन तेस्को त सांघ् ॥ ४९ ॥
 निद्राले पनि कुम्भकर्णकन खुप । पकड्यो संकस्मा पण्यो ।
 हे नाथ ! सुत्छु म ठाउँपाउँ भनियो । हात् जोरि विन्ती गन्यो ।
 तेस् बीच्मा तहि सुत्नलाइ बिढिया । गुफा तयारी गन्यो ।
 ताहीं गैकन कुम्भकर्ण विरको । खुप मस्त निद्रा पण्यो ॥ ५० ॥
 इन्द्रादी सब देव दैत्यहस्को । जो श्रीथियो सब हरि ।
 लाग्यो रावण नाश गराउन अनेक । रङ्गा उपाद्रव गरी ।
 पाया थाह कुबेरले र किन यो । गर्छस उपद्रव नगर ।
 भन्ना खातिर दूत पठाउनुभयो । बोलाक् चतुरो जबर ॥ ५१ ॥

प्रह्लाद-कूल में चले गये । वहाँ एक महा बलवान सैलूस नामक
 गन्धर्व राजा थे । उनकी एक कन्या थी । विभीषण को बड़ा समझ
 कर उस कन्या को दे दिया । ४८ रावण को एक बहुत बलवान पुत्र
 प्राप्त हुआ जो जन्म होते ही रोने लगा । अत्यन्त भयंकर शब्द
 निकला और मेघ के समान गर्जन करने लगा । मेघ के समान शब्द
 करनेवाले इस बालक का नाम मेघनाद रखा । यह अनुमान लगाना
 कठिन था कि इसकी शक्ति की सीमा कहाँ तक है । ४९ कुम्भकर्ण
 को निद्रा देने वशीभूत किया जिससे वह अत्यन्त संकट में पड़ा ।
 हे नाथ ! अब मैं सोता हूँ मुझे स्थान देने की कृपा करें । हाथ
 जोड़कर ऐसी विन्ती की । उसी क्षण सोने के लिए वहाँ एक सुन्दर
 गुफा का निर्माण कर दिया गया । वहाँ जाकर वीर कुम्भकर्ण अत्यन्त
 मस्त निद्रा में मग्न हो गया । ५० इन्द्र आदि देवों एवं दैत्यों की
 जो महानता थी सब हरण करके रावण उन सबको नष्ट करने के
 लिए अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा । कुबेर को जब यह मालम
 हुआ तब अपने एक चतुर दूत बोलाक को भेजा ताकि वह उसे
 (रावण को) जाकर कहे कि ऐसा क्यों करते हो, उपद्रव आदि मत
 करे । ५१ दूत ने जाकर जब उससे विन्ती की तब और भी स्रष्ट
 होकर अत्यन्त क्रोधित हो उठा । शीघ्रतापूर्वक जाकर उसने कुबेर
 को पराजित कर पुष्पक विमान की भी हरण किया । कुबेर को

दूत् गै विन्ति गन्यो त ज्ञन् विखुशिभै ऊठचो ठुलो रिस् गरी ।
 जल्दी गै ति कुबेरको जिति लग्यो पुष्पक् विमानै हरी ॥
 कुबेरलाइ जित्ती यमै पनि जित्यो जीत्यो वरूणै पनि ।
 पौंच्या स्वर्गविषे पनि खुशि हुँदै फेर् इन्द्र जित्छु भनी ॥ ५२ ॥
 एकू ठक्कर लडि इन्द्रिले त सहजै पक्डेर पाता कस्या ।
 हुर्मत् रावणको गयो खुशि भई सम्पूर्ण देवता वस्या ॥
 यो थाहा भइ मेघनाद रिसले आयो अगाडी सरी ।
 जीत्यो इन्द्रजिलाइ तेस् बखतमा भारी लडाईं गरी ॥ ५३ ॥
 रावणलाइ फुकाइ इन्द्रकन ली फर्केर लंका गयो ।
 जीत्यो इन्द्र र इन्द्रजित् भनि ठुलो नाम् ताहिदेखी भयो ॥
 ब्रह्मालाइ खबर् भयो र खुनका खातीर दौडी गया ।
 धेरै वर् दिइ मेघनादकन खुशी गर्दै फुकाउँदा भया ॥ ५४ ॥
 ब्रह्मा इन्द्रजिलाइ फोडकन फेर् जानू भयो धाममा ।
 लाग्यो रावण फेर् जगत् जितुंभनी संग्रामका काममा ॥
 कैलास् पर्वत यो ठुलो छ गह्रुंको होला कहाँ तक् भनी ।
 कैलास् हातमहाँ लिएर सहजै एकदिन् त तौल्यो पनि ॥ ५५ ॥

जीतकर यमराज एवं वरुण को भी जीता । इस प्रकार प्रसन्न होते हुए स्वर्ग में भी पहुँच गया और इन्द्र को भी जीत लेने की ठानी । ५२ एक ही बार लड़कर इन्द्र ने सरलता से पकड़कर उसे बाँध लिया । रावण की मर्यादा नष्ट होते देख सम्पूर्ण देवगण प्रसन्न हुए । यह मालूम होने पर मेघनाद क्रोधित होकर सामने आया । उस समय घमासान युद्ध के पश्चात् इन्द्र जी को पराजित किया । ५३ रावण को पाशमुक्त करके इन्द्र को भी साथ लेकर लंका लौट गया । इन्द्र को जीतने के कारण उसी समय से वह इन्द्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ब्रह्मा को जब यह मालूम हुआ तो अपने रक्त के लिए दौड़कर गये और मेघनाद को अनेक वरदान देकर प्रसन्न करते हुए अपनी ओर आकर्षित किया । ५४ ब्रह्मा इन्द्र जी को मुक्त कर पुनः स्वर्गधाम की ओर गये । रावण पुनः जगत विजय करने के लिए संग्राम की तैयारी में जुट गया । कैलाश पर्वत अत्यन्त विशाल है । यह जानने के लिए कि वह कितना भारी है, एक दिन कैलाश पर्वत को सरलता से अपने हाथ में लेकर तोल भी लिया । ५५ नंदीश्वर को क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोधित होकर शाप भी दिया कि मनुष्य एवं वानर तेरे

नन्दीश्वरकन रिस् उठ्यो र रिसले
 मानिस् वानर शत्रु भैकन सहज्
 ताहाँ - देखि त कार्तवीर्य सित गो
 पुग्थ्यो तिन्सित जोर् कहाँ सहजमा
 मेरो नाति भनी पुलस्त्य ऋषिले
 बन्धन्देखि फुकाइ बक्सनु हुँदा
 फेरी रावण बालि जित्छु भनि गो
 बालीले पनि पक्रि तेस्कन तहाँ
 काखीमा मिचि चार् समुद्र घुमि फेर्
 मैत्री गर्छु भनी मित्यारि गरि खुप्
 ई बाहेक् अरु वीर् सबै वश गन्थ्यो
 यस्ता वीर्हरु मारिबक्सनु भयो
 नारायण हुनुहुन्छ विष्णु भगवान्
 जो देखिन्छ कहिन्छ शास्त्रहरुले
 खामित्का अधि नाभिमा कमल भो
 वाणीले सँग अग्नि ता हजुरका

दीया सरापै पनि ।
 मारुन् तँलाई भनी ॥
 संग्राम खातिर् जसै ।
 पाता कस्या पो तसै ॥ ५६ ॥
 आएर बिन्ती गरी ।
 लाज् भै फिन्यो तेस् घरि ॥
 साथमा अनेक् वीर् गया ।
 खुप् काखि चेप्ता भया ॥ ५७ ॥
 छोड़ी दियाथ्या जसै ।
 लाज् मानि फक्यो तसै ॥
 तीन् लोकविषे छन् जति ।
 बिन्ती गरूँ यो कति ॥ ५८ ॥
 सब् यो चराचर् पनि ।
 नारायणै हो भनी ॥
 ब्रह्माजि ताहीं भया ।
 मुख् देखि निल्की गया ॥ ५९ ॥

शत्रु होकर तुझे सहज ही मार डालें । उसके पश्चात् वहाँ से कार्ति-
 वीर्य के साथ संग्राम हेतु प्रस्थान किया । बेचारे का कार्तिवीर्य से क्या
 जोर चल सकता था, उसे सहज ही बाँध दिया गया । ५६ जब
 पुलस्त्य ऋषि अपना पोता कहकर वहाँ आये और विनती करने के
 बाद उसे उस बन्धन से मुक्त कराया तब उस समय उसे अत्यन्त
 लज्जा हुई । रावण पुनः बालि पर विजय पाने के उद्देश्य से अनेक
 वीरों को अपने साथ लेकर गया । और बालि ने उसे वहाँ पकड़कर
 अपने बगल के नीचे कसकर दबा दिया । ५७ इस प्रकार अपने
 बगल के नीचे दबाते हुए वे चार समुद्र की परिक्रमा लगाकर वहाँ
 आये और पुनः उसे तब मुक्त किया तब उसने मित्रता का सम्बन्ध
 कायम करने की प्रार्थना की और बालि से तदनुसार मित्रता करने
 के पश्चात् लज्जित होकर लौट गया । इसके अतिरिक्त अन्य सभी
 वीरों को भी अपने वश में किया जो कि तीनों लोक में रहते हैं । आपने
 ऐसे वीरों को मारने की कृपा की है इससे अधिक क्या विनती करूँ । ५८
 भगवान् विष्णु नारायण और ये चराचर आदि जो भी दृष्टिगत होते
 हैं शास्त्रज्ञ लोग उन्हें भी नारायण कहते हैं । पहले श्रीमन् जी के
 नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए ।

बाहूदेखि लोकपाल हुन गया ई चन्द्र सूर्य तथा दिशाओं
 आँखादेखि भयां दिशाहरु भन्या कान देखि शब्द भनी।।
 सबको प्राण तयार भयो हजुरका प्राणदेखि मुक्ति भई।।
 नासादेखि त वैद्य अश्विनिकुमार वेदाङ्गमा पार गई।। ६०।।
 जङ्घा जानु उरु जघन यति शरीर देखि भुवलीक तिम हरुमि
 कोखादेखि त चार समुद्र हुन गो वर्णन कहाँतक गुरुग
 निस्क्या स्तन दुइदेखि इन्द्र रवरुण द्वै दिशिका पतिनि
 रेतदेखि त बालखिल्यहरु सब निस्क्या तपस्वी अति गदिश।।
 धर्माधर्म विवेकको इ यमराज ती लिङ्गदेखि भयां
 मृत्यु ता गुददेखि रुद्र त हजुर का रीसदेखि भयां।।
 हाड देखि जति पर्वतादिहरु छन् केश देखि सब मेघ पनि
 जो छन् औषधि रोम देखि ति भयां नख देखि सब स्वर पनि।। ६२।।
 विश्वात्मा हुनुहुन्छ नाथ ! पुरुष रूप माया त शक्ति लिन्या।
 खशी भैकन देवताकन सदा अमृत पियाईदिच्या ॥
 खामितकै त छ सृष्टि सब जति छ यो संसार चराचर धरी।
 बाँच्याको पनि देखिन्छ भगवान् ! आधार हजुरकै गरी ॥ ६३ ॥

वाणी के प्रभाव से आपके मुख से अग्नि निकलकर चला गया। ६१
 बाहों से लोकोपाल प्रकट हुए और आँखों से चन्द्र सूर्य तथा दिशाओं
 का ज्ञान हुआ तथा कान से शब्दों का उच्चारण हुआ। इन सब में
 प्राणों का संचार हुआ जिसमें श्रीमन् का प्राण मुख्य हुआ। नासक से
 वैद्य अश्विनी कुमार जो वेदाङ्ग में प्रवीण थे, हुए। ६०। जाँघ से
 उरु जघन की और शरीर से भू-लोक हुआ। बंगल से चार
 समुद्र का निर्माण हुआ, कहाँ तक वर्णन किया जाय? स्तन से दोनों
 दिशाओं के पति इन्द्र और वरुण उत्पन्न हुआ। बालू से बालखिल्य आदि
 निकले जो अत्यन्त तपस्वी थे। ६१। धर्म-अधर्म के विवेक का रक्षक
 यमराज लिंग द्वारा प्रकट हुआ। मृत्यु मल से उत्पन्न हुआ और रुद्र
 श्रीमन् के क्रोध से हुआ। हड्डियों से जितने पर्वत आदि हैं बने और
 केश से मेघ उत्पन्न हुआ। जो औषधि है वह शरीर के छिद्र से हुआ और
 नाखूनों से सब स्वर बने। ६२। हे नाथ! आप हैं पुरुष-रूपी विश्व-आत्मा हैं।
 मीया तो केवल शक्ति मात्र है। उसके बल पर प्रसन्न होकर देवताओं को
 आप सदा अमृत-पान कराते रहते हैं। जो कुछ भी इस संसार में ये चराचर
 हैं सब श्रीमन् की ही तो सृष्टि हैं। आप ही के आधार पर जीवितों

जस्तै दूधविषे रहन्छ भरिपुर् घीऊ उही रीत् गरी ।
सब चीजमा हजुरै पसी रहनुभो सर्वान्तरात्मा हरि ॥
हुन्छन् सूर्यहरू प्रकाश हजुरकै तेजले हजुर सब धनी ।
खामित् लाइतनाथ ! प्रकाश गरिदिन्या छैनन् अरुक्वैपनि ॥ ६४ ॥

ज्ञानी जन्हरू देख्छन् सकल रूप अज्ञानि अन्धा सरी ।
देख्छैनन् प्रभुलाइ मूढ हुनगै घुम्छन् विपत्ता परी ॥
योगी भैकन वेदशीर्षहरूले खोज्छन् त देख्छन् पनि ।
यस्ता रीत् सित यो चराचर विषे श्रीराम् रह्याछन् भनी ॥ ६५ ॥

बकवाद् गन्याँ प्रभु ! हजूरसित रिस् नमानी ।

रक्षा हवस् प्रभु ! अनुग्रहपात्र जानी ॥

चिन्मात्र अद्वितिय नित्य हजूरलाई ।

भज्छु निरन्तर टहल् गरी हर्ष पाई ॥ ६६ ॥

वाली सुग्रीव इन्द्र सूर्य-सुत हुन् भन्या सुन्याको त छुं-
कस्ता रीत्सित जन्म भो इ दुइको विस्तार् समेत् खोज्दछु ॥
विस्तार् सुन्न म पाउँ सब भनि हुकूम राम्को भएथ्यो जसै ।
विस्तार् खूशि भई अगस्ति ऋषिले बिन्ती गन्या सब तसै ॥ ६७ ॥
ब्रह्मा चार् सय कोशको गरि सभा सूमेरु माथी थिया ।
ईश्वरलाइ रिझाउनाकन तहाँ खुप् योगमा मन् दिया ॥

को भी देखा जाता है । ६३ सब चीजों में श्रीमन् ही विराजित हैं, सर्वान्तरात्मा हरि हैं । सूर्य तथा प्रकाश श्रीमन् ही के तेज से उत्पन्न हैं अतः आप ही इन सबके स्वामी हैं । अतः श्रीमन् को प्रकाश प्रदान करनेवाला और कोई नहीं है । ६४ ज्ञानीजन सबको हरि-रूप में देखते हैं परन्तु अज्ञानी जन अंधे के समान प्रभु को नहीं देखते हैं । मूर्ख बनकर विपत्तियों में घिरे घूमते रहते हैं । योगी होकर वेद शीर्ष आदि लोग ढूँढते हैं देखते कुछ नहीं हैं । इस रीति से चराचर में श्रीराम बसते हैं । ६५ ऐसी बकवास मैंने क्रोध रहित होकर श्रीमन् के साथ की है, अनुग्रह का पात्र जानकर श्रीमन् मेरी रक्षा करें । चित्त में नित श्रीमन् को रखकर मैं निरन्तर भजता रहूँ तथा सेवा करके मुझे हर्ष प्राप्त हो । ६६ वालि-सुग्रीव के इन्द्र और सूर्य के पुत्र होने के बारे में मैंने सुना तो है । किस प्रकार इन लोगों का जन्म हुआ सविस्तार जानना चाहता हूँ । श्रीराम ने जब सविस्तार वर्णन सुनने की आज्ञा दी तब अगस्ति ऋषि ने प्रसन्न होकर सम्पूर्ण

योगमा चित्त बढ्यो र भक्तिरसले आँसूको तर्हि वीर वानर बन्यो
 ब्रह्माका मनमा दया पनि उठ्यो मेरा नित्य नजीकमा रहु यहाँ
 ब्रह्माका इ वचन् सुनेर खुशि भै फल फूल खायर तेहि पर्वत विषे
 लाग्यो पानि पियास कूप नजिकै आफना छाइँविषे नजर् परिगयो
 आर्के वीर् सरि मानि तेहि कुपमा आर्को कोहि नदेखि फेरि झटपट्
 निस्क्यो बाहिर कूपदेखि त असल् लाग्यो खेद् मनमा कसो गरि भयाँ
 देख्या इन्द्रजिले र तेहि बिचमा पक्न्या इन्द्रजिले र वीर्य त गिरी
 ताहाँ वीर्य त एक कुमार् हुन गयो बालैदेखि भयो भनीकन रह्यो

आँसू खसाया जसै ।
 आश्चर्य मान्या तसै ॥ ६८ ॥
 बोल्या वचन्ले पनि ।
 कल्याण होला भनी ॥
 वाहीं नजीकमा रह्यो ।
 त्यो नित्य डुल्दो भयो ॥६९॥
 देख्यो र पाँच्यो तहाँ ।
 त्यो कूप हेर्दा महाँ ॥
 कूदी पसेथ्यो जसै ।
 उफ्रेर निस्क्यो तसै ॥ ७० ॥
 स्त्रीको स्वरूप पो बनी ।
 स्त्रीको स्वरूपको भनी ॥
 तिनमा बहुत् मन् भयो ।
 सब बाल देशमा गयो ॥७१॥
 बाल्मा गिन्याको पनि
 नाम् वालि वीर् भो भनी ॥

विस्तार वर्णन किया । ६७ ब्रह्मा चार सौ कोस दूर पर्वत में तपस्या कर रहे थे । ईश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से योग में अत्यन्त ध्यान दिया । योग में रुचि बढ़ी और भक्ति रस से जैसे ही अश्रु प्रवाह किया उन अश्रुओं से एक वीर वानर की सृष्टि हुई जिसे देखकर वे अत्यन्त आश्चर्य चकित हुए । ६८ ब्रह्मा के हृदय में दया भी उत्पन्न हुई और आपने कहा कि नित्य मेरे निकट रहो जहाँ तुम्हारा कल्याण होगा । ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर प्रसन्नता के साथ वहीं निकट रहने लगा । फल-फूल खाकर उसी पर्वत में वह घूमने लगा । ६९ जब उसे प्यास लगी निकट ही उसने कुँआ देखा और पहुँच गया । उस कुँए में जब झाँका तो उसे अपना प्रतिबिम्ब दिखाई दिया । उस प्रतिबिम्ब को दूसरा वीर सोचकर वह उस कुँए में जैसे ही कूद पड़ा वैसे ही किसी को वहाँ न देखकर शीघ्रता से बाहर निकल आया । ७० कुँए से बाहर निकल तो आया परन्तु सचमुच वह स्त्री का रूप धारण किए हुए था । मन में अत्यन्त खेद हुआ कि मैं किस प्रकार स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया हूँ । इन्द्र जी ने उसे देखा और उस पर उसी क्षण मन्त्र-मुग्ध हो गये । इन्द्र जी ने उसे पकड़ लिया और वीर्य पात होकर सब बाल देश (केशों में) में चला गया । ७१ उसी वीर्य से

माला काञ्चनि पुत्र जानि बढिया एक इन्द्रजीले दिया ।
बाबूको कहुणा बुझेर खुशि भै त्यो बालि वीरले लिया ॥७२॥
तेस् बीच्मा तहि सूर्य आयर नजर लाया उसै स्त्रीमहाँ ।
सूर्यको पनि वीर्यपात् हुन गयो ग्रीवाविषे पो तहाँ ॥
तेही बीज् पनि बेस्कुमार् जब बन्यो ग्रीवाविषे एक जसै ।
ग्रीवादेखि भयो भनेर तिनको सुग्रीव नाम् भो तसै ॥७३॥
सूर्यले पनि पुत्रलाइ बलवान् साहाय दिन्छू भनी ।
वीर् मध्ये बलवान् थिया र हनुमान् ज्यूलाइ दीया पनि ॥
सुग्रीव्का सँगमा रह्या ति हनुमान् श्रीसूर्य धाम्मा गया ।
वाली सुग्रीव दूइ पुत्र सहजै ती वानरीका भया ॥७४॥
वाली सुग्रीव दूइ पुत्र सँगमा ली सुत्न खातिर् गइन् ।
प्रातःकालविषे त फेरि अधि झै ती स्त्री पुरुषै भइन् ॥
स्त्री रूप् भैकन वालि सुग्रीव दुवै जन्म्या इ पुरुष् भया ।
ब्रह्मालाइ गरूँ प्रणाम् भनि दुवै छोरा सँगै ली गया ॥७५॥
ब्रह्मालाइ खबर् भयोर खुशि मन् तिनको गराया पनि ।
किष्किन्धापुरि दीन मन्सुव भयो आश्रित् अनाथ् हो भनी ॥

एक कुमार उत्पन्न हुआ जो केशों में गिरा था । बाल से उत्पन्न होने के कारण ही उसका नाम वीर बालि पड़ा । माला काञ्चनि का पुत्र जानकर इन्द्र जी ने उसे एक माला अर्पण की । पिता की कहुणा समझकर वीर बालि ने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया । ७२ उसी बीच सूर्य ने वहाँ आकर उस स्त्री पर दृष्टिपात किया । सूर्य का भी उसके ग्रीव (गरदन) पर वीर्यपात हुआ । उस वीर्य से भी जो ग्रीवा पर गिरा था एक उत्तम कुमार उत्पन्न हुआ । ग्रीवा से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम भी सुग्रीव पड़ा । ७३ सूर्य ने भी यह कहकर कि इस पुत्र को एक बलवान सहायक दूंगा, हनुमान जी को जो वीरों में अत्यन्त बलवान था, दे दिया । वह हनुमान श्री सूर्यधाम में जाकर सुग्रीव के साथ रहने लगे । बालि और सुग्रीव दो पुत्र इस प्रकार उस वानरी को प्राप्त हुए । ७४ वह बालि और सुग्रीव दोनों पुत्रों को साथ में लेकर सोने के लिए चली गयी । परन्तु प्रातः होते ही वह स्त्री पूर्ववत् पुरुष हो गयी । स्त्री रूप पाकर बालि और सुग्रीव दोनों उत्पन्न हुए और इसके पश्चात् वह पुनः पुरुष हो गया । इस तरह दोनों पुत्रों को साथ लेकर ब्रह्मा को प्रणाम करने के लिए चला गया । ७५

थीए एक तहि देवदूत बलवान् हाजिर र मर्जी पनि ।
 ब्रह्माको हुन गो लगेर गरिदे यस्लाइ राजा भनी ॥७६॥
 किष्किन्धा पुरिमा लगी तिलक दे खुप् राज सोख्मा परोस् ।
 सात् द्वीप्मा जति वानरादिहरू छन् तिनमा हुकूम यो गरोस् ॥
 ईश्वर नारायण भार हर्न भुमिको राम्चन्द्र हुनन् जसै ।
 तीनेलाइ सहाय दीनकन ता तत्पर हवस् यो तसै ॥७७॥
 किष्किन्धापुरिमा लगी तिलक दे भन्त्या हुकूम भो भनी ।
 तेस् ऋक्षाधिपलाइ लगीकन त झट् राजा बनाया पनि ॥
 त्यो ऋक्षाधिपका ति पुत्र दुइ हुन् वाली र सुग्रीव भनी ।
 सब् विस्तार गरीसक्याँ हजुरमा मालुम् थियो तापनि ॥७८॥
 किष्किन्धा तहिदेखि वानरकि भै सुग्रीवहरू छन् तहाँ ।
 सर्वेश्वर हुनुहुन्छ ता हजुरमा क्या धेर बताऊँ यहाँ ॥
 नित्यानन्द चिदात्म नाथ् ! हजुरले लीला स्वरूप यो धरी ।
 ब्रह्माजीकन खुश गराउनुभयो सम्पूर्ण भूभार हरी ॥७९॥

बाली र सुग्रीव दुवैकन धर्म जानी ।
 कीर्तन् गरोस् त गुण जन्म सबै बखानी ।

ब्रह्मा को यह समाचार सुनकर मन में खुशी हुई । आश्रित एवं अनाथ जानकर किष्किन्धापुरी देने की इच्छा की । एक बलवान देवदूत जो निकट ही बैठा हुआ था उसे ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि इसे ले जाकर राजा बना दो । ७६ किष्किन्धापुरी में ले जाकर तिलक कर दो ताकि यह राज्य कार्य में व्यस्त हो जाये । सात द्वीपों में जितने भी वानर आदि हैं उन पर यही शासन करे । श्री नारायण भू-भार हरण करने हेतु जब रामचन्द्र जी होकर आयेंगे उन्हीं को उस समय सहायता देने के लिए तत्पर रहें । ७७ किष्किन्धापुरी में ले जाकर तिलक कर देने की आज्ञा होने पर उस रिक्षाधिप को ले जाकर तुरन्त राजा बना दिया । उसी रिक्षाधिप के वे दो पुत्र बालि और सुग्रीव हैं । इस प्रकार जो कुछ मुझे मालूम था श्रीमन् की सेवा में सविस्तार वर्णन कर चुका हूँ । ७८ उसी समय से किष्किन्धा वानर का हो गया और वहीं सुग्रीव आदि हैं । प्रभु सर्वेश्वर हैं अतः इस विषय पर मैं अधिक क्या बताऊँ । नित्यानन्द तथा आत्मानाथ प्रभु ने अपना लीला-स्वरूप धारण किया । ब्रह्मा जी को भी खुश करने की कृपा की तथा सम्पूर्ण भू-भार का हरण किया । ७९ बालि और सुग्रीव दोनों धर्म को जानकर जन्म-गुण

सम्बन्ध केहि रघुनाथ सित पर्न जाई ।

पाप् छुट्छ धर्म पनि बढ्दछ तेसलाई ॥८०॥

वर्णन् या यति कर्मले हजुरको	हूँदैनथ्यो	तापनि ।
वर्णन् गछ जगत् यहाँ कि रघुनाथ	सब् ताप् हरौंला भनी ॥	
आर्को आज कथा कहन्छु रघुनाथ !	सीताजिलाई	पनि ।
रावणले हरि लीगयो त यहि हो	तेस्को इरादा भनी ॥८१॥	
रावणको र सनत्कुमार ऋषिको	एक् दिन् भयो भेट कहीं ।	
सोधयो रावणले परी चरणमा	क्यै बात् ऋषीथ्यै तहीं ॥	
ब्रह्मन् ! को बलवान् छ देवहरुमा	आधार कस्को गरी ।	
जित्छन् सब रिपुलाइ देवगणले	साम्ने अगाडी सरी ॥८२॥	
कस्को पूजन गर्दछन् द्विजहरु	जो योगि हुन् ती पनि ।	
कस्को ध्यानकन गर्दछन् सहजमा	संसार तरौंला भनी ॥	
यस्को निश्चय कत्ति पाइनेँ अनेक्	कस्तै विचारदा पनि ।	
ठूलो कुन् छ बताइबक्सनु हवस्	येही छ ठूलो भनी ॥८३॥	
सून्या प्रश्न सनत्कुमार ऋषिले	यस्ता डबल्को जसै ।	
जान्या रावणको र आशय उसै	माफिक् बताया तसै ॥	

सबकी व्याख्या करते हुए कीर्तन करें जिससे श्री रघुनाथ के संग कुछ संबंध स्थापित हो जाता और वह पाप से मुक्त हो जाता । ८० उसमें धर्म-वृद्धि होती । प्रभु का वर्णन इतने ही कर्म से नहीं होता था तथापि यहाँ जगत वर्णन करता है कि रघुनाथ पाप और ताप का हरण करेंगे । आज मैं एक अन्य कथा कहता हूँ रघुनाथ ! रावण सीता जी को हरण कर ले गया और यही उसका इरादा भी था । ८१ रावण और सनत्कुमार ऋषि की एक दिन कहीं भेंट हो गयी । रावण ने चरणों में पड़कर ऋषि से कुछ बात पूछी । ब्राह्मण ! देवों में से बलवान कौन है ? और किसके आधार से देवगण सामने अग्रसर होकर समस्त शत्रुओं को जीतेंगे ? ८२ योगी होने के लिए द्विज लोग किसका पूजन करते हैं, सहज संसार तरने की इच्छा से किसका ध्यान करते हैं । अनेक प्रकार से विचार करने पर भी मैं यह निश्चय नहीं कर सका कि कौन बड़ा है, अतः यह बताने की कृपा करें कि यही श्रेष्ठ है । ८३ जब सनत्कुमार ऋषि ने इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न को सुना तब रावण के आशय को जानकर उसी प्रकार बताया—सुनो रावण ! एक हरि के समान महान अन्य कोई नहीं

सून्यौ रावण ! एक् हरी सरि ठुलो मिल्दैन आर्को कवै ।
 द्यौताका तब दानवादिहसका आधार इनै हुन् सबै ॥८४॥
 जस्ले नाभिकमल् विषे त भगवान् ब्रह्माजि पैदा गरी ।
 ती-द्वारा जगतै बनाउनु भयो ठूला तिनै हुन् हरि ॥
 इन्द्रादीहरु जित्छन् रिपु सबै आधार यिनै हुन् हरि ।
 ध्यानले योगिहरू तिनैकन भजी जान्छन् सहज् पार् तरौ ॥८५॥
 रावणले इ वचन् सुन्यो र ऋषिका विन्ती गन्यो फेर तहाँ ।
 विष्णुले जति मार्दछन् रणमहाँ ती वस्न जान्छन् कहाँ ॥
 दोस्रो प्रश्न सुन्या तहाँ ति ऋषिले यस्ता प्रकारको जसै ।
 उत्तर फेरि दिया कृपा गरि तहाँ तेस्लाइ तिनले तसै ॥८६॥
 द्यौताले जाति मार्दछन् ति त अनेक स्वर्गादिको भोग् गरी ।
 कालान्तर पछि जन्म हुन्छ तिनको पृथ्वी तलमा झरी ॥
 जसलाई हरि मार्दछन् उ त तसै जान्छन् तुरुन्तै अनि ।
 मुक्तै भैकन बस्छ जन्म तसको हूँ दैन कैले पनि ॥८७॥
 यस्ता सत्य वचन् सुनी मन बुझ्यो रावण् भयो खुश अनि ।
 संग्राम् श्रीहरिथ्यै गरी तहि मरी मुक्तै म हुन्छू भनी ॥

है; देवों तथा दानव आदि के आधार सब वही हैं । ८४ जिसकी कृपा से भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल ने ब्रह्मा जी को पैदा किया उन्हीं के द्वारा जगत के सृजन का हेतु वही महान हरि है । इन्द्रादि भी अपने शत्रुओं पर उन्हीं हरि के ही आधार पर विजय प्राप्त करते हैं और योगी लोग उन्हीं का ध्यान एवं भजन करके सहज ही पार तर जाते हैं । ८५ रावण ने इन वचनों को सुना और पुनः ऋषि से विन्ती की । विष्णु द्वारा रण में जितने भी मारे जाते हैं वे रहने के लिए कहाँ जाते हैं । इस प्रकार का दूसरा प्रश्न सुनकर ऋषि ने उन्हें पुनः कृपापूर्वक उत्तर दिया । ८६ देवताओं द्वारा जितने भी मारे जाते हैं वे अनेक स्वर्गादि को भोग करते हुए कालान्तर में पृथ्वी तल पर जन्म लेते हैं । हरि जिसे मारते हैं वह तो तुरुन्त मुक्त हो जाता है और उसका कभी भी जन्म नहीं होता । ८७ ऐसे सत्य वचनों को सुनकर रावण के मन में सन्तोष हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी । यह सोचकर कि श्रीहरि के साथ संग्राम कर उनके द्वारा मारे जाने पर मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा निश्चय मन में कर दृढ़ संकल्प लिया जो ऋषि ने भी जान लिया और प्रसन्न होकर सनत्कुमार ऋषि ने उसे

यस्तो सुर् मनमा जसै दृढ गन्यो
 खूशी भै ति सनत्कुमार ऋषिले
 हे रावण ! सुन वत्स ! जो छ मनमा
 तिम्रो लौ परिपूर्ण हुन्छ मनमा
 रूप जस्तो हरिको छ भन्छु अहिले
 स्थावर् जङ्गम सूर्य चन्द्र पृथिवी
 ई रूप हुन् हरिका अनेक् तरहका
 पीताम्बर घनश्याम् त सूक्ष्म रूप हो
 यो रूप देखन मन्सुबा छ त हुनन्
 छोरा हुन् दशरथजिका भनि जगत्
 सीता लक्ष्मण साथमा लिइ पिता
 जानन् दण्डक वनमाहाँ भजिलिया
 यो विस्तार सनत्कुमार ऋषिका
 चीन्ह्यो खामितलाइ तेस् बखतमा
 श्रीरामचन्द्रसितै विरोध गरि तिनै
 संसार सागर पार तरेर सहजै
 यस्तो आशयले सिताकन हन्यो
 लक्ष्मी हुन् इ सिता भनीकन चिन्ह्यो

जान्या ऋषीले पनि ।
 आशीष दीया पनि ॥८८॥
 स्वाभीष्ट सिद्धी सबै ॥
 शंका नामान्या कबै ॥
 यस्ता हरी छन् भनी ।
 शेष दैत्य दानवपनि ॥८९॥
 यो रूप विराट् रूप हो ।
 देख्छु कृपैले छ यो ॥
 इक्ष्वाकु कुल्मा हरि ।
 भन्नन् तिराम्नामगरी ॥९०॥
 जीका हुकूमले गरी ।
 चीन्ह्या तिनै हुन् हरि ॥
 मुखदेखि जस्सै सुन्यो ।
 तेस्ले र यस्तो गुन्यो ॥९१॥
 का हातदेखी मरी ।
 जान्छु जहाँ छन् हरि ॥
 रावण त हो बुद्धिमान् ।
 मान्थ्यो कहाँ हो अजान् ॥९२॥

आशीष भी दिया । ८८ हे रावण ! सुनो वत्स, तुम्हारे मन में जो भी आकांक्षा है वह सब परिपूर्ण होगी, कभी मन में शंका न करो । हरि का रूप कैसा है ? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि हरि ऐसे हैं—ग्रह, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, देव, दानव आदि भी । ८९ ये रूप जो हरि का है अनेक प्रकार के ये रूप विराट् रूप हैं । पिताम्बर, घनश्याम आदि सूक्ष्म रूप, ये सब उन्हीं की कृपा से दिखायी देते हैं । यह रूप देखने की इच्छा यदि हो तो इक्ष्वाकु कुल में हरि का जन्म होगा । राम-नाम धारी को दशरथ जी का पुत्र जानकर जगत कहेगा । ९० सीता-लक्ष्मण को साथ में लेकर पिता जी की आज्ञा के फलस्वरूप राम दण्डकवन में जायेंगे । उनको ही हरि जानकर पहचानो । ऐसा विस्तार सनत्कुमार ऋषि के मुँह से सुनते ही उस समय उसने स्वामी को पहचाना और ऐसा मन में सोचा । ९१ श्रीरामचन्द्र जी का विरोध करके उन्हीं के हाथों मरकर संसार-सागर से पार तर कर सहज ही हरि जहाँ है वहीं जाऊँगा । इसी कारण सीता का हरण किया । रावण तो बुद्धिमान व्यक्ति है, सीता

जो यो कथाकन खुशी भइ पाठ गछन् ।
 सुन्छन् कहीं कहि सुनायर पाप हछन् ॥
 खुप् आयु वढ्छ तिनको अति सौख्य हुन्छन् ।
 धन् लाभ हुन्छ बहुतै जब नित्य सुन्छन् ॥९३॥

एक् दिन् नारदजी डुली सकल लोक आया नजीक्मा जसै ।
 देख्यो रावणले र पाउ परि एक विन्ती गन्यो यो तसै ॥
 हे सर्वज्ञ मुने ! लडाकि बलिया वीर् छन् कहाँ सो कही ।
 पाऊलागु हवस् गन्यो विनति यो खुप् लड्न इच्छा भई ॥९४॥
 रावणका इ वचन् सुनेर मुनिले मन्ले विचार खुप् गरी ।
 भन्छन् को भनुं छैन वीर अरु ता याहाँ तिमिले सरी ॥
 तिम्रो मन्सुब पूर्ण गर्न सकन्या वीर् श्वेतद्वीपमा गया ।
 मिलछन् जाउ तहीं नजाउ कहि लौ खुप् लड्न मगसूब् भया ॥९५॥

जो विष्णुको पूजन नित्य गछन् ।
 जो विष्णुका बाहुलिदेखि मछन् ॥
 तेस्ता महात्मा तहि बस्न जान्छन् ।
 त्रैलोक्यका वीर् तति तुच्छ मान्छन् ॥९६॥

को लक्ष्मी जानकर पहचान लिया । वह अन्जान-कहाँ हो सकता था । ९२ जो इस कथा को प्रसन्नतापूर्वक पाठ करता है तथा कहीं सुनता है और कहीं इसे सुनाता है उसके पापों को हरते है, उसकी आयु में वृद्धि होती है तथा अत्यन्त सुख पाता है । धन का भी नित्य उसे लाभ होता है । ९३ एक दिन नारद जी सकल लोकों का भ्रमण कर जैसे ही उनके निकट आये रावण उन्हें देखते ही तुरन्त उनके पाँवों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा । हे सर्वग्य मुने ! लडाकू बलिष्ठ वीर कहाँ हैं, बताने की कृपा करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें; मुझे लड़ने की अत्यन्त इच्छा हो रही है । ९४ रावण के इस वचन को सुनकर मुनि ने मन में गम्भीरता से विचार कर कहा कि किसको बताऊँ, तुम्हारे समान तो यहाँ और कोई वीर नहीं है । तुम्हारी मंशा पूर्ण कर सकनेवाला वीर श्वेतद्वीप में चला गया है । अतः वहीं जाओ, मिल जायेगा । और कहीं न जाओ, यदि सचसुच ही तुम्हें लड़ने की इच्छा हो । ९५ जो विष्णु का पूजन नित्य करते हैं जो विष्णु की बाहों द्वारा मरते हैं, वे महात्मा वहीं रहने के लिए जाते हैं । त्रिलोक के वीरों को तो वे बहुत ही तुच्छ मानते हैं । ९६ नारद के इस वचन को सुनकर शीघ्रता

नारदका इ वचन् सुनीकन त झट्	पुष्पक् विमान्मा चढी ।
श्वेतद्वीप् पनि पुग्दछु भनि चल्यो	रावण् त तेसै घडी ॥
श्वेतद्वीप नजीक् पुगेपछि विमान्	पुष्पक् नचलन्या भयो ।
ओल्यो पुष्पकदेखि हिक्मत थियो	पैदल् दगुदै गयो ॥९७॥
श्वेतद्वीप पुगी प्रवेश गरुं भनी	मन्सुब् गरेथ्यो जसै ।
धायी सुन्दर नारि घेरि चहुँओर्	आश्चर्य मान्यो तसै ॥
अर्कीले पनि देखि पत्रिकन सब	वृत्तान्त सोझी भई ।
अर्कीले अझ अर्कीले धरिलिंदा	चैत्यो वहाँ पो गई ॥९८॥
उम्क्यो स्त्रीहरुदेखि बल्ल र यहाँ	आश्चर्य मान्यो पनि ।
मछुँ मै पनि विष्णुदेखि र यहाँ	आएर बस्छु भनी ॥
जल्दी मर्न निमित्त खुप् छल गरी	सीताजिलाई हन्यो ।
लंकामा लागि मातृवत् जननिको	सेवा पनी खुप् गन्यो ॥९९॥
राम् नाम्ले परमेश्वरै हुनुभयो	मालुम् छ सब्का पनि ।
क्या विन्ती गरुं धेरु हजुर् त सबका	साक्षी जगत्का पनि ॥
मेरो येहि चरित्र गायर रहोस्	यो लोक संसार भनी ।
गर्नुहुन्छ यहाँ अनेक् तरहका	संसारि लीला पनि ॥१००॥

से पुष्पक विमान में सवार होकर श्वेतद्वीप ही पहुँचूंगा, ऐसा सोचकर रावण उसी क्षण चल पड़ा। श्वेतद्वीप के निकट पहुँचने के पश्चात् पुष्पक विमान चलना बन्द हो गया। अतः पुष्पक से उतरा—साहसी था अतः पैदल ही दौड़ता हुआ गया। ९७ श्वेतद्वीप पहुँचकर उसमें प्रवेश करने की इच्छा करते ही सुन्दर नारियों ने आकर उसे चारो ओर से घेर लिया, यह देख उसे आश्चर्य हुआ। दूसरी भी उसे पकड़ कर सब वृत्तान्त पूछने लगीं। इस प्रकार सभी के एक के बाद एक द्वारा पकड़ लेने पर उसे वहाँ जाने पर पश्चाताप हुआ। ९८ बड़ी कठिनता से उन स्त्रियों से छुटकारा मिला और उसे बहुत ही आश्चर्य भी हुआ। मैं भी विष्णु द्वारा ही मरूँगा अतः यहीं आकर रहता हूँ ऐसा सोचकर तुरन्त ही मरने के लिए अत्यन्त छल द्वारा सीता जी का हरण किया। लंका में ले जाकर मातृ व जननी की सेवा भी लगन से की। ९९ राम-नाम के द्वारा परमेश्वर का जन्म हुआ, यह सबको ज्ञात ही है अधिक क्या विन्ती करूँ; श्रीमन् सबके साक्षी और जगतपति हैं। वेही मेरे चरित्र का गान करते हुए यह लोक-संसार में रहें। वे यहाँ अनेक प्रकार की सांसारिक लीला भी करते हैं। १०० इसी रीति से

येही रीत् सित रामको स्तुति गरी
 संसारी सरि भै अनेक् विषय-भोग्
 फक्यो पुष्प विमान् कुबेर् सित गई
 फक्या नाथ ! म कुबेरका हुकुमले
 पैलहे रावणले जित्तीकन लियो
 ऐलहे श्रीरघुनाथले जितिलिदा
 खुप् यो योग्यभय अझै पनि तँजा
 आउनु तईले यहाँ जब त राम्
 हुकूम् येति कुबेरले पनि गन्या
 मंजूर सोहि हुकूम् गरीकन फिन्या
 पुष्पक्को विनती सुनेर रघुनाथ्
 ऐले जा तँ म सम्झुंला त उ बखत्
 पुष्पक्लाइ बिदा दिया र रघुनाथ्
 जस्का राज्यमहाँ बुढा पछि रही
 यस्तो राज् प्रभुले गन्या सकलको
 श्रीराम्का तहि राज्यमा पनि ठुलो

खुश् भै अगस्ती गया ।
 श्रीराम गर्दा भया ॥
 राम्कै हजूरमा गयो ।
 यो बिनित गर्दो भयो ॥१०१॥
 सेवा उसैको गरिस् ।
 उन्का अधीन्मा परिस् ॥
 सेवा प्रभूकै गरी ।
 वैकुण्ठ जान्छन् हरि ॥१०२॥
 ख्वामित् पुग्याथ्याँ जसै ।
 खुश् भै हजूरमा तसै ॥
 जीको हुकूम् भो पनि ।
 चाँडो तँ आएस् भनी ॥१०३॥
 ले राज्य को भोग् गन्या ।
 बालक् न कैल्यै मन्या ॥
 आनन्दमै काल् गयो ।
 आश्चर्य एक दिन् भयो ॥१०४॥

अगस्ति प्रसन्न होकर राम की स्तुति करते हुए चले गये । श्रीराम सांसारिक मनुष्यों के समान अनेक प्रकार के विषय-भोग आदि करने लगे । कुबेर के पास जो पुष्पकविमान था लौटकर पुनः राम ही के पास चला गया और कहने लगा कि हे नाथ ! मैं कुबेर की आज्ञा से आपके पास लौट आया हूँ । १०१ पहले रावण के जीतने के कारण उसे दिया गया और उसी की सेवा की । अभी श्री रघुनाथ जीत लेने पर उनके अधीन हो गया । अब अति योग्य होकर अभी तू जाकर प्रभु की सेवा कर । तू यहाँ तब आना जब राम रूपी हरि वैकुण्ठ को चले जायें । १०२ मैं जैसे ही पहुँचा कुबेर की इतनी आज्ञा हुई । स्वामी ! मैं उसकी आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रसन्नता से श्रीमन् के पास लौट आया । पुष्पक की ऐसी विनती सुनकर श्री रघुनाथ की भी आज्ञा हुई—अभी तो तू चला जा, मैं जिस समय तुझे स्मरण करूँगा तू उसी समय तुरन्त आना । १०३ इस प्रकार पुष्पक को विदाकर रघुनाथ राज भोगने लगे । जिसके राज्य में वृद्धाओं को पीछे रखकर बालकों की कभी मृत्यु नहीं हुई । प्रभु द्वारा ऐसे राज्य का सञ्चालन किया गया जिसमें सकल जनों का समय आनन्दमय व्यतीत हुआ । श्रीराम के भी उसी राज्य में एक दिन

ब्राह्मणको लड़िका मरेछ र पिता
 देख्या श्री रघुनाथले तब विचार
 क्यालेयो विधिभो भनीकन विचार
 तप् गथ्यो तहि शूद्र जङ्गलविषे
 तप् गर्दा जब शूद्र मारिदिनु भो
 ब्राह्मण खूशि भया, गयो परमधाम्
 यस्तै रीत् सित पालना गरि लिदा
 कोटी लिङ्ग पनि स्थलै स्थलविषे
 संसारको सुख भोग् गराउनु भयो
 येही गायर लोक तरुन् भनि गन्या
 सीता मात्र थिइन् प्रिया प्रभुजिकी
 शिक्षा खातिर गादिमा बसि अने क
 दशहज्जार जब वर्ष राज्गरि बित्या
 सीताले रघुनाथका चरणमा
 खामित् ! नित्य हजूरका चरणमा
 पछन् आयर पाउमा म सित खुप्
 रुँदा रह्याछन् कहीं ।
 राख्या प्रभूले तहीं ॥
 गर्दा भयो याद् जसै ।
 उस्लाइ मान्या तसै ॥ १०५ ॥
 ऊठ्यो लडीका अनि ।
 त्यो शूद्र चाहीं पनि ॥
 दुःखी भएनन् कहीं ।
 थाप्या प्रभूले तहीं ॥ १०६ ॥
 सीताजिलाई पनि ।
 स्थापन् कथाको पनि ॥
 राजषिको चाल् धरी ।
 राज्का अनेक्काम् गरी ॥ ७ ॥
 काल् ता यसं बीच यहाँ ।
 बिन्ती गरिन् एक तहाँ ॥
 दासी म हूँ तापनि ।
 ब्रह्मादि चौता पनि ॥ १०८ ॥

अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना घटी । १०४ एक ब्राह्मण के लड़के की मृत्यु हुई थी और श्री रघुनाथ ने उसके पिता को रोते विलाप करते देख अपने मन में विचार किया और सोचने लगे कि यह सब कुछ क्यों और कैसे हुआ । तब उन्हें याद आया कि एक जंगल में एक शूद्र तप करता था और श्रीराम ने उसे मारा था । १०५ तप करते हुए उस शूद्र के श्रीराम द्वारा मारे जाने के कारण, अब वह मृत लड़का जी उठा, यह देख वह ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न हुआ और इस प्रकार वह शूद्र बन्धु परमधाम को चला गया । ऐसे ही रीति से लोगों का पालन करने के कारण कहीं कोई भी दुखी नहीं हुआ । प्रभु ने स्थान-स्थान में कोटि लिंगों की स्थापना भी की । १०६ सीता जी को भी संसार के सुख भोग कराने की कृपा की । इसी कथा की स्थापना करके और इसीका गान करते हुए लोक को संसार तर जाने की बात कही गयी है । माता सीता प्रभु जी की प्रिया हुई । राजश्री का वेश धारण कर शिक्षा हेतु गद्दी पर बैठ अनेक प्रकार के कार्य किये । १०७ जब राज्य करते हुए दस हजार वर्ष व्यतीत हुए— इसी बीच में सीता ने श्री रघुनाथ के चरणों में एक विनती की, हे स्वामी ! प्रभु की नित चरण की दासी होते हुए भी ब्रह्मा आदि

गछन् बिनति हजूर् अघी गइदिया आफै प्रभू राम् पनि ।
 पाऊ लाग्नु हुन्या छ युक्ति यहि हो वैकुण्ठ जान्या भनी ॥
 भन्छन् बिनति गन्याँ हजूर् सित सबै ब्रह्मादिको मत् पनि ।
 जस्तो गर्न उचीत हो उहि हवस् छवामित् ! जनायाँ भनी ॥९॥
 सीताले बिनती गरिन् र रघुनाथ् ज्यूको हुकुम् भो तहाँ ।
 बेस् भन्छन् सब गर्नु पर्दछ यसो बैकुण्ठ जाँदा महाँ ॥
 लोकको एक् अपवाद् लगायर तिमी लाई बडो वन्महाँ ।
 लान्छू त्याग् पनि गछुँजानु तिमिले वाल्मीकि आश्रम जहाँ ॥११०॥
 ऐले गर्भ छ जन्मनन् दुइ कुमार वीर् वीर् तिमिले पनि ।
 लोकको यो अपवाद मेटछ अब ता पस्छ म नीया भनी ॥
 याही आयर लोकका बिचमहाँ न्यार्यै पसौली जसै ।
 फाट्निन् धरति र ताहिँबाट तिमिले बैकुण्ठ जानू तसै ॥१११॥
 यस्रीत्लेतिमि जाउली जब अघी क्यै काल् बसी मै पनि ।
 आऊँला किन बस्तछू कहिसक्याँ यै सुर् छ मेरो भनी ॥
 जानाको यहि सूर निश्चय गरी श्रीमान् सभामा गया ।
 हाम्रो यश् अपयेश के छ दुनियाँ मा येहि सोद्धा भया ॥११२॥

देवगण भी आकर मेरे पाँव पड़ते हैं । १०८ प्रभु राम स्वयं ही यदि आगे चले जाते तो पाँव पड़कर प्रभु से विनती करते और इसी उपाय द्वारा बैकुण्ठ को जाते । सब ब्रह्मादि की ओर से मैंने प्रभु से विनती की है अतः स्वामी जो आप उचित समझें उसे बताने की कृपा करें । १०९ सीता ने ऐसी विनती की और श्री रघुनाथ जी की भी आज्ञा हुई कि सही कहते हैं—अब वही करना होगा—बैकुण्ठ जाने के पहले लोगों पर एक अपवाद थोपकर तुम्हें बियाबान वन में ले जाकर परित्याग करूँ और तुम वाल्मीकि के आश्रम में चली जाओ । ११० सीता इस समय गर्भिणी हैं और दो वीर कुमारों को जन्म देंगी, लोक के इस अपवाद को मिटाने के लिए अब न्याय हेतु प्रवेश करता हूँ । यहीं आकर जब तुम लोक के बीच न्याय पाने के लिए प्रवेश करोगी, वैसे ही धरती फट जायेगी और वहीं से तुम बैकुण्ठ चली जाना । १११ इस रीति से तुम जाओगी और मैं कुछ समय तक रहकर आऊँगा । मैं यहाँ क्यों रहना चाहता हूँ यह मैं बता चुका हूँ और यही मेरा विचार है । जाने का निश्चय कर श्रीराम सभा में चले गये । दुनिया में यश-अपयश क्या है यही सब प्रश्न करने लगे । ११२ सबने विनती की कि

सब्ले बिनति पनी गन्या हजुरमा बोलछन् यशैयश् भनी ।
 एकाले पछि क्याभन्योकि महाराज् एक सुन्छु अप्यश् भनी ॥
 रावण्ले वनमा हरी लगिगयो कयै दिन् त राखयो पनि ।
 यस्ती हुन् इ सिता उनैकन घरै ल्याए छ चोखी भनी ॥११३॥

यस्ती स्त्री पनि चोखि हो भनि यहाँ राजै त राखछन् भन्या ।
 चोखी कुन् रहली यहाँ अब उपर् सम्पूर्ण वेश्यै बन्या ॥
 भन्छन् अप्यश येहि मात्र भनि यो बिनती गरेथ्यो जसै ।
 लक्षमण् जी कनडाकिल्याउन हुकूम दीया प्रभूले तसै ॥११४॥

हुकूम्ले रघुनाथका हजुरमा लक्षमण् पुग्याथ्या जसै ।
 सुन्नैलाइ कठिन हुन्या अति कठोर हुकूम भयो यो तसै ॥
 हे भाई ! इ सिताजिलाइ अहिले त्याग् गर्न मैले पन्यो ।
 चोखी जानिलिदा त दुर्यश बहुत लोकले मलाई गन्यो ॥११५॥

सीतालाइ चढाइ जल्दि रथमा वाल्मीकि आश्रम जहाँ ।
 हो ताहीं नजिकै गएर वनमा छाडेर आऊ यहाँ ॥
 उत्तर केहि गन्यौ भन्या त तिमिले मान्यौ म ऐले मन्याँ ।
 भाई ! भोलि बिहान लानु वनमा हुकूम यै हो गन्याँ ॥११६॥

प्रभु में यश ही यश व्याप्त है । परन्तु एक ने बाद में कहा कि महाराज ! मुझे तो एक अपयश सुनायी देता है । रावण ने वन में हरण करके जिसे ले जाकर कुछ दिन रखा था वैसी स्त्री जो सीता है, उसको पवित्र मानकर वापस ले आये । ११३ ऐसी स्त्री को भी पवित्र कहकर राज दरबार में रख लिया जाता है तो फिर अब आगे सम्पूर्ण वेश्या बनने पर कौन पवित्र रहेगी । अतः ऐसे अपयश मात्र को सुनकर यह विनती करते ही प्रभु ने लक्षमण को बुला लाने की आज्ञा दी । ११४ श्री रघुनाथ की आज्ञा के अनुसार लक्षमण जैसे ही उनके सम्मुख पहुँचे थे वैसे ही सुनने में अति कठोर एवं कठिन आदेश देने की कृपा की । हे भाई ! मुझे इसी समय सीता जी को त्याग करना है क्योंकि पवित्र जानकर अपना लेने पर लोगों ने मुझ पर अपयश लगाया । ११५ सीता को अविलम्ब रथ में चढ़ाकर वाल्मीकि-आश्रम के निकट वन में छोड़कर चले आओ । यदि तुमने मुझसे प्रतिवाद किया तो तुम जानो कि मैं अभी मरा । अतः भाई ! कल सुबह होते ही वन में ले जाना, यही मेरी तुम्हें आज्ञा है । ११६ लक्षमण ने जब यह आदेश सुना तो वे एक महान संकट में पड़ गये । प्रातःकाल उठे और एक उत्तम

लक्ष्मणले जब यो हुकूमकन सुन्या ठूलो सकस्मा परी ।
 प्रातःकालमहाँ उठेर बढिया एक् रथ तयारी गरी ॥
 सीतालाइ चढाइ जल्द वनमा छोडेर आया पनि ।
 लागिन् गर्न विलाप सिताजि वनमा छाड्या मलाई भनी ॥११७॥
 रुन्धिन्वाल्मिकिशिष्यलेसुनिकह्या वाल्मीकिजीथ्यै गई ।
 सुन्या वाल्मिकिले र पूजन गन्या सीताजिको याद भई ॥
 ल्याया आश्रममा र लोकजननी सीता इनै हुन् भनी ।
 स्त्री जन्लाइ लगाइ खुपसित गन्या सेवासिताको अनि ॥११८॥
 ती विप्रपत्निहरुले पनि लक्ष्म जानी ।
 पूजा सिताकन गन्या अति भाग्य मानी ॥
 सीतापती पनि विरक्त भएर सुख भोग् ।
 छोडी मुनी सरि भया मनले लिई योग् ॥११९॥

अथ रामगीता

लीला मेरि भनी सुनीकन तरून् ई लोक संसार भनी ।
 लोकैका हितका निमित्त भगवान् मानिस् स्वरूपका वनी ॥
 लीला गर्नुभयो र वृद्धहरुले जो गर्दथ्या सो गरी ।
 सत्कामै गरि दिन् बिताउनु भयो वाधा सबैको हरी ॥१२०॥

रथ तैयार किया । सीता जी को उसी में चढाकर वन में ले गये और छोड़कर चले आये । सीता जी वन में अपने को छोड़ी गयी जानकर विलाप करने लगीं । ११७ वाल्मीकि महर्षि के शिष्य ने उनके रुदन को सुनकर तुरन्त वाल्मीकि जी के पास जाकर सूचना दी । यह सुन कर सीता जी को याद करके पूजन क्रिया और जाकर उन्हें आश्रम में ले आये । लोकजननी सीता यहीं हैं ऐसा जानकर उनकी सेवा में स्त्रियों को लगा दिया । ११८ उन विप्र-पत्नियों ने भी लक्ष्मी जानकर तथा सौभाग्य मानकर सीता जी की पूजा की । सीतापति श्रीराम भी विरक्त होकर सुख-भोगों को त्यागकर मुनि के समान हो गये और मन में योग ले लिया । ११९ इस लोक में संसार इन लीलाओं को सुनकर कहता है कि लोकहित के निमित्त भगवान ने मनुष्य का स्वरूप धारण कर लीलायें कीं और वृद्धों द्वारा किए गये कर्मों के समान सत्कार्य करते हुए दिन व्यतीत किये; यही सबके हरि थे । १२० लक्ष्मण जी प्रभु के पास ही थे । उन्होंने प्रश्न किया कि सबसे महान

साथमा लक्ष्मणजी थिया प्रभुजिथ्यै
सोध्या लक्ष्मणले र सब् कहनुभो
ब्रह्मस्वै विष हो भनी नृगजिको
बूझ्यो चित्त र फेरि लक्ष्मणजिले
हे नाथ् ! ज्ञान स्वरूप देहहरुका
भूभार् हर्नुभयो अनेक् तरहका
लीला हो इ त आत्मरूपि भगवान्
यो लीला त दया निमित्त हुनगो
यस्ता मालिक जानि पाउ तलमा
संसार रूपि गभीर् समुद्र सहजै
सोही युक्ति बताइ बक्सनु हवस्
पुग्याछू पछि धाममा सहजमा
लक्ष्मणका इ वचन् सुनेर रघुनाथ्
आपना भक्त ति भाइ लक्ष्मणजिको
तत्त्व-ज्ञान पनी तहीं दिनुभयो
भन्छन् लोकहरुलाई तर्न सजिलो
कुन् हो ठुलो विष् भनी ।
विस्तार् प्रभूले पनि ॥
विस्तार् सुनाथ्या जसै ।
कयै सोधन लाग्या तसै ॥२१॥
आत्मा अधीन् भै पनि ।
यस् आकृतीका बनी ॥
भक्तै फगत् जान्दछन् ।
यस्तो पनी मान्दछन् ॥१२२॥
खवामित् ! पन्याको म छु ।
कुन् पाठले तर्दछु ॥
जुन् पाठले यो तरी ।
आनन्दको भोग् गरी ॥१२३॥
मूखै हँसीलो गरी ।
सम्पूर्ण सन्ताप् हरी ॥
जुन्लाइ वेद्ले पनि ।
साँघू छ येही भनी ॥१२४॥

विष कौन है । प्रभु ने तब विस्तारपूर्वक बताने की कृपा की कि ब्रह्मस्व-
ही महान विष है । इस प्रकार नृग जी के बारे में विस्तारपूर्वक सुना
और मन में सन्तोष करने के पश्चात् पुनः लक्ष्मण जी कुछ और पूछने
लगे । १२१ हे नाथ ! ज्ञानरूपी देह आदि आत्माओं के अधीन
होने पर भी ऐसी आकृति धारण कर अनेक प्रकार के भू-भार हरण
करने की कृपा की । केवल भक्त लोग ही जानते हैं कि यही तो आत्मिक
भगवान की लीला है । ये भी माना जाता है कि ये लीला दया के
निमित्त की गयी । १२२ ऐसे मालिक जानकर हे स्वामी ! मैं आपके
चरणतल में पड़ा हूँ । संसार रूपी गम्भीर समुद्र किस पाठ के द्वारा
सहज ही तर सकते हैं वही युक्ति सिखाने की कृपा करें ताकि उसी पाठ
के द्वारा आनन्द भोगकर सहज ही उस स्थान पर पहुँच सकूँ । १२३
लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर रघुनाथ प्रसन्न मुद्रा में अपने भक्त
व भाई लक्ष्मण जी के सम्पूर्ण ताप का निवारण कर तत्त्वज्ञान आदि
ही बताने की कृपा की । जिनके बारे में वेदों में भी कहा गया है कि
यही मनुष्यों के लिए एक सरल साधना है । १२४ इस वर्णाश्रम
की क्रियायें जो कुछ भी हैं उन्हें पहले करके दशेन्द्रियों एवं मन को

ई वर्णाश्रमका क्रिया जति त छन् तिन्लाइ पैलहे गरी ।
 दश् इन्द्रीय र मन् जितेर गुरुका साम्ने अगाडी परी ॥
 आत्मज्ञान मिलोस् भनेर गुरुको सेवा निरन्तर गन्या ।
 आत्मज्ञान् पनि मिल्छ येहि रितले संसार कतीले तन्या ॥१२५॥

फल् इच्छा गरि कर्म गछं यदि ता फेर देह यस्तै लिई ।
 त्यो फल् भोग् पनि गछं गछंअरु फेर कर्म बहुत् मन् दिई ॥
 तेस्को फेर पनि बन्छ देह करले येसै जगत्मा परी ।
 यस्तै रीत्सित घुम्छ त्यो भुवनमा अत्यन्त चक्रैसरी ॥१२६॥

अज्ञानै छ घुमाउन्या सकलको शत्रू सरीको यहाँ ।
 ज्ञानैले गरि नष्ट हुन्छ पनि सो लीनू यही मन्महाँ ॥
 अज्ञान्को र इ कर्मको छ कति फेर तस्मात् क्रियाले गरी ।
 अज्ञान् नष्ट हुँ दैन छैन अरु थोक् ऊपाययै ज्ञान् सरी ॥१२७॥

अज्ञान् नष्ट हवस् न राग् न त छुटोस् अज्ञानका कर्मले ।
 कर्मै गछं त घुम्छ यै जगतमा त्यै कर्मका धर्मले ॥
 तस्मात् ज्ञान विचार गर्नु जनले ज्ञान्ले कती पार् भया ।
 ज्ञान् छाडीकन कर्मले जनहरू संसारपार् को गया ॥१२८॥

जीतकर गुरु के सम्मुख आगे जाकर निरन्तर गुरु की सेवा करते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति की कामना करने से आत्मज्ञान भी मिल जाता है और इसी रीति से अनेक लोगों ने संसार तर लिया । १२५ यदि फल की इच्छा करके कर्म को करते हैं तो ऐसी देह को धारण करके भी उस फल का भोग करते हैं और अत्यन्त मन लगाकर अन्य कर्मों को भी करते हैं जिसके प्रभाव से इसी जगत में उन्हें पुनः देह प्राप्त होती है । इसी रीति से चक्र के समान वह जग में घूमता रहता है । १२६ अज्ञान ही शत्रु के समान है जो सबके मन को घुमाता रहता है । अतः मन में यह समझ लेना कि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है और इन कर्मों का कितना महत्व है—मात्र क्रिया को करने से अज्ञान नष्ट नहीं होता है, अतः ज्ञान के समान अन्य कोई उपाय नहीं है । १२७ अज्ञान-कर्मों से न तो अज्ञानता ही नष्ट होती है और न ही रोग से छुटकारा मिलता है । कर्म ही सब कुछ करता है, कर्म के ही धर्म से प्राणी इस जगत में घूमता रहता है । अतः लोग यह विचार कर लें कि ज्ञान के द्वारा कितने लोग तर गये । ज्ञान को छोड़कर कर्म के ही द्वारा संसार में कौन लोग तर गये । १२८ वेद भी कहता है कि

विद्यालाइ सहाय कर्म छ ठुलो भन्छन् इ वेद्ले पनि ।
तस्मात् कर्म अवश्य गर्नु जनले साहाय होला भनी ॥
ऋषयो पनि भन्दछन् त ति भनून् साहाय कोही रती ।
विद्यालाइ त चाँ हिदैँ न नुझ यो विस्तार बताऊँ कति ॥१२९॥
हुन्छन् कर्म त देह गेहहरुमा परा अभीमान् भई ।
विद्या हुन्छ त जो छ तेहि अभिमान् देहादिमा को गई ॥
विद्याको र इ कर्मको त छ विरोध साहाय हुन्थ्यो कहाँ ।
विद्यै एक छ समर्थ मुक्ति दिनमा यै जान्नु सब्ले यहाँ ॥१३०॥
बाजीका श्रुति तैत्तिरीय कहिन्या श्रुतीहरूले पनि ।
भन्छन् येहि कुरा सहाय अरुको खोज्दैँ विद्या भनी ॥
तस्मात् कर्म विरोधि जानि जनले सब् कर्म छाडीदीनू ।
विद्यै मात्र ठुलो बुझेर यसमा यो मन् लगाई लीनू ॥१३१॥
जो यो तत्त्वमसी छ वाक्य यसको वाक्यार्थ जानी लीनू ।
यस्मा तीन् पद छन् ति तीन पदका तात्पर्यमा ' मन् दिनु ॥
तत्को अर्थ परात्म हो ति पदमा त्वं भन्नु जीवात्म हो ।
इन्को ऐक्य बुझाउन्या असि छ पद रात्दिन् विचार गर्नुयो ॥१३२॥

विद्या का सहायक कर्म ही है । अतः लोग अवश्य ही कर्म करें ताकि वह सहायक बन सके । कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि विद्या (ज्ञान) को किंचित मात्र भी सहायक की आवश्यकता नहीं होती है । —इसी विस्तार को समझो और कहाँ तक बताऊँ । १२९ कर्म तो देह होता है और देह में अभिमान व्याप्त हो जाता है । और विद्या जो है उसी अभिमान-युक्त देहादि में जाकर जब मिल जाती है तो परस्पर विरोध होता है । इस प्रकार विद्या और कर्म के परस्पर विरोध में एक दूसरे के कहाँ सहायक हो सकते हैं । विद्या ही एक मुक्ति दे सकने में समर्थ है, यही सब लोग जान लें । १३० श्रुतियों को सुननेवाले लोग भी यही बात कहते हैं । विद्या (ज्ञान) को छोड़कर अन्य किसी का सहारा नहीं ढूँढते हैं । अतः कर्म को विरोधी जानकर लोगों को चाहिए कि सबकर्मों को छोड़ दें और केवल विद्या को ही महान समझकर इसी में मन को लीन करें । १३१ जो ये तत्त्वमसी वाक्य हैं इसके वाक्यार्थ को जान लेना चाहिए । इसमें तीन पद विद्यमान हैं । उन तीनों पदों का तात्पर्य मन को अर्पण करना है । तत् का अर्थ परात्मा है, उस पद में, “त्वम्” कहना जीवात्मा है । इनको एक ही बोध करने वाले “असि” जो पद में हैं उसीका रात दिन ध्यान करना । १३२

मायाले त बन्यो शरीर सब यो आखीर् छ मन्या पनि ।
 देख्नु पञ्च महाभुत छ सबमा यस्ता प्रकारको बनी ॥
 संसारको सुख दुःख साधन स्वरूप देखिन्छ जो देह यो ।
 सूक्ष्मोपाधि भनी कहिन्छ सबले यो नाम् यसैको त हो ॥१३३॥
 दश इन्द्रिय र मन अपञ्चकृत भूत् यो सोह्र जम्मा छ जो ।
 स्थूलोपाधि भनी कहिन्छ सबको मूल भोग साधन् छ यो ॥
 यसै स्थूल उपाधि भित्र छ सदा इन्को वियोग् भो जसै ।
 स्थूलोपाधि गलेर जान्छ सबको टिकतै एक् क्षण् कसै ॥१३४॥
 जीव ता मुक्त छ शुद्ध निर्मल फटिक् जस्तो उपाधी गरी ।
 सो निर्मल पनि हुन्छ सङ्ग गुणले उस्तै उपाधी सरि ॥
 ईनै द्वइ उपाधिदेखि बुझ जव होला फरक् जीव् जसै ।
 तस्सै मुक्त हुन्याछ छैन नहिं ता आर्को उपायै कसै ॥१३५॥
 राताका संगमा रह्या स्फटिक ठीक् देखिन्छ रातै सरि ।
 तस्तै आत्म पनी उपाधि संग भै हुन्छन् उपाधी सरि ॥
 आत्मामा छ उपाधि केहि न फटिक् मा क्यै छ रातो कतै ।
 झूटै मात्र छ त्यो झलक् यहि विचार खुप् राखनु जत्ताततै ॥१३६॥

माया से ही शरीर का सृजन हुआ है और अन्त में यह सब मृत्यु को प्राप्त होता है । देखना, इन सबों में पंचमहाभूत व्याप्त है । इस प्रकार संसार के सुख दुःख, साधन-स्वरूप इस देह में दृष्टिगोचर होता है । सर्व इसे “स्थूलोपाधि” कहते हैं और इसका यही तो नाम है । १३३ दशइन्द्रिय और मन और पञ्चभूत—ये कुल सोलह है और इन सबको “सूक्ष्मोपाधि” कहते हैं और इनका साधन ही मूल भोग है । इस स्थूलोपाधि के अन्दर सदा ही इनका वियोग होता रहता है सबका स्थूलोपाधि गलकर विलीन हो जाता है क्षण भर भी नहीं टिकता है । १३४ जीव तो शुद्ध, निर्मल एवं फटिक के समान मुक्त उपाधि युक्त है । अतः सद्गुणों के प्रभाव से उसी उपाधि के समान निर्मल भी होता है । इन दोनों उपाधियों के द्वारा समझने पर जीव को हम पृथक् जब अनुभव करेंगे तब ही मुक्ति प्राप्त होगी अन्यथा और कोई उपाय नहीं है । १३५ रात्रि के संग में रहने पर स्फटिक भी ठीक उसी रात्रि के समान दिखायी देता है, उसी प्रकार आत्मा भी उपाधि के संग उपाधि के समान हो जाता है । आत्मा ही उपाधि है जैसे स्फटिक में कहीं भी लाल दाग नहीं होता है केवल वह चमक झूठी है यही मन में समझ लो । १३६ जागृत-स्वप्न-सुसुप्ति-वृत्तियाँ ये ही बुद्धि के तीन अंश है । भ्रम से ही

जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति वृत्ति तिन छन्
 झुट्टै देखिलिइन्छ नित्य सुखरूप
 जानी वृत्ति निरोध गरेर जनले
 आत्मा भित्र उपाधिलाइ त झुटा
 आत्मा हो सुख रूप दुःख रूपको
 अज्ञानले गरि मात्र सत्य रूपले
 ज्ञानले लीन् पनि हुन्छ डोरिकन साँप्
 तेस्तै ईश्वरमा अनेक तरहका
 अध्यास् हुन्छ चिदात्ममा इ सबको
 इच्छादी पनि बुद्धि धर्म बुझनू
 आत्मासाक्षि छ यो पृथक् इ सबमा
 जस्तै घुस्तछ अग्नि लोहहरुमा
 यै आत्माकन चिहनु पछि गुरुका
 आत्मालाइ चिन्ह्यो भन्या बुझिलिन्
 तस्मात् आत्म विचार गर्नु जनले
 अज्ञान् नष्ट गराउनाकन अवर

यस् बुद्धिका ई पनि ।
 यस् ब्रह्म रूपमा भनी ॥
 यो आत्म जानी लिन् ।
 जानेर छोडी दिन् ॥१३७॥
 संसार छ उस्मा कहाँ ।
 झल्कन्छ आत्मामहाँ ॥
 बुझनू छ जस्तो फगत् ।
 देखिन्छ नाना जगत् ॥१३८॥
 जो छन् अहंकारका ।
 छैनन् कुनै सारका ॥
 सबमा घुस्याको पनि ।
 तस्तै प्रकारको बनी ॥१३९॥
 वेदका वचनले गरी ।
 त्यो भुक्त भो तेस् घरि ॥
 यस् रूपको हूँ भनी ।
 छैनन् उपायै पनि ॥१४०॥

इस ब्रह्म-रूप में नित्यसुख का रूप धारण किया जाता है। इन वृत्तियों को रोककर लोग इस आत्मा को पहचान लें। आत्मा के अन्दर उपाधि को झूठ जानकर इसे छोड़ दो। १३७ आत्मा सुख का रूप है—उसमें दुःख-रूपी संसार कहाँ है। अज्ञानता के कारण आत्मा में सब कुछ सत्य-रूप झलकता है। ज्ञान सर्प को भी समेटकर ले लेता है, केवल इसे समझ रखो। वैसे ही ईश्वर में यह जगत् अनेक प्रकार का दिखायी देता है। १३८ इन सबको जो अभिमान है उसे आत्मा के अन्दर पहचानने का अभ्यास होता है। इच्छा आदि भी बुद्धि-धर्म भी जानना जिसका कोई सार नहीं है। आत्मा साक्षी है कि इन सबमें यह अलग है और सबमें व्याप्त भी है। जिस प्रकार अग्नि लोहा में व्याप्त हो जाता है। १३९ गुरु के वेद-वचनों के द्वारा इसी आत्मा को पहचानना चाहिए। आत्मा को पहचानने से यह समझ लेना कि वह उसी क्षण मुक्त हो गया। अतः लोगों को यह विचार करना चाहिए कि आत्मा का रूप इस प्रकार का है और अज्ञान नष्ट करने के लिए अन्य कोई उपाय भी नहीं। १४० आत्मा को इस प्रकार पहचाना जाता है कि वह पहले एकान्त में जाकर बैठ जाये, दशइन्द्रियों को वश में कर मन को

आत्मा यस् रितले चिह्नित पहिले
 दश इन्द्रिय जितेर मन् पनि जिती
 जानोस् जो छ जगत् प्रकाश सकल यो
 येही तत्त्व बुझी त पूर्ण रूपको
 ओङ्कार वाचक हो सबै जगतको
 ज्ञानोत्तर हुन सकछ वाचक कहाँ
 आत्मामा जब लीन् भया अउम तीन्
 आत्मै मात्र रहन्छ तेस् बखतमा
 सोही आत्म म हूँ भनी दृढ भयो
 जीवन् मुक्त भनी कहिन्छ जन त्यो
 सब् इन्द्रिय शमन् गरेर बलवान्
 अभ्यास् गर्नु समाधिमा त सहजै
 येही पूर्ण अनन्त आत्मरूपको
 जो प्रारब्ध छ सो बुझेर बलियो
 येही रीत्सित दिन् विताउँछ भन्या
 संसारका सब दुःख छोडिकन त्यो

एकान्तमा गै वसोस् ।
 आत्मै विचारमा परोस् ॥
 हो आत्म सत्ता भनी ।
 होइन्छ आफू पनि ॥१४१॥
 अज्ञान् अवस्थामहाँ ।
 लीन् हुन्छ आत्मै महाँ ॥
 विश्वादि साक्षी सहित् ।
 निर्मल उपाधीरहित् ॥१४२॥
 ज्ञान्का विचारले जसै ।
 पदेन तापमा कसै ॥
 कामादिको नाश गरी ।
 देखिन्छ साम्ने हरि ॥१४३॥
 ध्यान् नित्य गदँ रहोस् ।
 ई दुःख सुख सब सहोस् ॥
 यो देह छुट्ला जसै ।
 लीन् हुन्छ मैमा तसै ॥१४४॥

जीतकर आत्मा के विचार में लीन हो जाये । सकल लोक यह जान ले कि जो जगत में प्रकाश है वही आत्मसत्ता है । इन्ही तत्वों को समझ करके ही तो स्वयं भी पूर्णरूप को प्राप्त होता है । १४१ सर्वजगत को अज्ञान अवस्था में कहे जाने वाला शब्द ओंकार है । ज्ञान का उत्तर अर्थात् वाचक आत्मा में कैसे लीन हो सकता है । जब आत्मा में लीन हो जाता है तब अ-ऊ-म इन तीन विश्व के साक्षी-सहित उस समय केवल 'आत्मा' ही उपाधि-रहित निर्मल रहती है । १४२ जैसे ही ज्ञान द्वारा विचार करने से यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं ही वह आत्मा हूँ । तब कहा जाता है कि जीव जीवनमुक्त हो जाता है और वह मनुष्य कदापि ताप से पीड़ित नहीं होता है । सब इन्द्रियों को एकाग्र एवं सशक्त करके कामादि को नाश करते हुए समाधि में अभ्यास करनेवाला सहज ही अभ्यास करता हुआ मैं दिखता हूँ । १४३ हमेशा इसी आत्मरूप का ध्यान करते रहो और जो कुछ भी कठिन और सरल अर्थात् जो कुछ भी सुख-दुःख तुम्हें मिलेगा उसे साहस के साथ सहन करो । इसी तरह यदि तुम सम्पूर्ण समय व्यतीत कर लोगे तो एक दिन संसार के सारे दुःखों को छोड़कर तुम्हारा शरीर मुक्त

आदीमा न त अन्त्यमा न बिचमा
 पूर्णानन्द हुँदैन जान्नु सबले
 तस्मात् यो विधि छोडि गर्नु जनले
 त्यो मैमा मिलिजान्छ जल् जलधिमा
 आत्मा मात्र छ सत्य यो सब जगत्
 डोरी सर्प बुझ्या सरी बिबुझमा
 जान्नु जानिइएन यो भनि भन्या
 सेवा गर्नु र जान्दछन् नतर ता
 वेद्को सार रहस्य यो सब कह्याँ
 कोटी जन्म सहस्रका सकल पाप्
 तस्मात् भाइ ! विचार यो सब जगत्
 मैमा भक्ति सदा लगायर रहू
 मेरो येहि सगुण् स्वरूपकन खुशी
 वा निर्गुण् परिपूर्ण आत्मरूपमा
 ती दूवै मइ तुल्य हुन् ति मइ हुन्
 गर्छन् सब् भुवनै पवित्र तिनले

यो देहधारी बनी ।
 यो सत्य बात् हो भनी ॥
 आत्मै विचार खुप् गरी ।
 पाँचेर मील्या सरि ॥४५॥
 झुट्टै छ झूटो पनि ।
 देखिन्छ साँचो भनी ॥
 मेरा चरणमा परी ।
 टर्दैन कस्तै गरी ॥१४६॥
 जो यो विचार गर्दछन् ।
 तिन्का सहज् टर्दछन् ॥
 झूटो चटक झैं भनी ।
 आनन्द रूपी बनी ॥१४७॥
 मानी भजन् जो गरुन् ॥
 लाएर यो मन् धरुन् ॥
 ती मै सरीका बनी ।
 कुल्ची दिंदामा पनि ॥१४८॥

हो जायेगा और मुझमें लीन हो जाओगे । १४४ प्रारम्भ में, न तो अन्त में न बीच में, यह देहधारी बनकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त नहीं होता और यह सत्य बात मानकर सब लोग इसे जान लें । इसलिए इस विधि को सर्वजन त्यागकर आत्मा में गम्भीरता से विचार करें । वैसे ही लोग मुझमें विलीन हो जाते हैं जिस प्रकार जल जलधि में पहुँच कर । १४५ यह सर्वजगत झूठा है, केवल आत्मा ही सत्य है । जैसे डोरी को सर्प समझने के समान अज्ञानता में सच ही दिखायी देता है । यदि ज्ञान की बात ज्ञात न कर सकने पर मेरे चरणों में (भक्ति द्वारा) पड़कर सेवा करेगा । तभी उसे सर्वज्ञान प्राप्त होगा अन्यथा वह किसी प्रकार तर नहीं सकता । १४६ वेदों का सार-रहस्य सब कुछ कह चुका हूँ । जो इसे विचार करता है, उसके कोटि जन्मों के सहस्र सकल पाप सहज ही विनाश हो जाते हैं । इसलिए भाई ! इस जगत को झूठे जादू के समान समझकर सदा मेरी भक्ति में मन लगाकर और अनन्त-रूपी बनकर रहना । १४७ मेरे इन सद्गुणों से पूर्णस्वरूप को प्रसन्नता से भजन करें अथवा निर्गुण गायें । परिपूर्ण आत्मरूप में ले जाकर इस मन को रखें । वे दोनों मेरे ही समान हैं और वह मैं ही हूँ । अतः वे जो मेरे समान बन सम्पूर्ण भुवन को अपने पाँव से कुचल देने पर

श्रद्धा भक्ति रहोस् गुरु चरणमा मेरा वचन्मा पनि ।
 यस्लाई श्रुतिसार् बुझीकन पढोस् मूल तत्त्व यै हो भनी ॥
 यस्ता रीत्सित यो पढ्या पनि भन्या अज्ञानको नाश गरी ।
 मै रै रूप बनिजान्छ जान्छ सहजै संसार सागर् तरी ॥१४९॥

इति रामगीता

एक् दिन् श्रीयमुनाजिका तिरमहाँ बस्य्या मुनीश्वरहरू ।
 भार्गव्मा च्यवनै थिया इ संगमा बस्य्या थिया जो अरू ॥
 आया श्रीरघुनाथका हजुरमा आपत्ति छुट्नु भनी ।
 आदर् खुप् रघुनाथबाट रहँदा खुश भो ऋषीगण पनि ॥१५०॥
 सेवक् ब्राह्मणको म हूँ अति कृपा गर्नुभयो धन्य हो ।
 सेवक्लाइ अह्लाइ वक्सनुहवस् कुन् काम् छ छा छ जो ॥
 सेवक् हूँ सब सिद्ध गर्छु भनि यो राम्को हुकूम भो जसै ।
 आपत् बिन्ति गन्या तहाँ च्यवनले राम्का हजूरमा तसै ॥१५१॥
 हे नाथ ! क्वै मधुनाम दैत्य शिवका प्यारा महात्मा थिया ।
 तिन्लाई शिवले त्रिशूल पनि अमोघ् खशी हुँदामा दिया ॥
 रावणकी बहिनी थि कुम्भिनसि एक् बीहा गन्याको थियो ।
 जन्म्यो पुत्र त लोक कण्ठक सब चाल् राक्षसैको लियो ॥१५२॥

पवित्र हो जाते हैं । १४८ गुरु-चरणों में तथा मेरे वचन में श्रद्धा भक्ति रहें इसे श्रुति-सार समझकर पढ़ें और इसे मूल तत्त्व समझें । इस रीति से पढ़ने से भी अज्ञानता का नाश होकर मेरा ही रूप धारण कर लेता है और संसार-सागर से सहज ही तर जाता है । १४९ एक दिन यमुना जी के तीर पर रहनेवाले मुनीश्वर आदि जो भार्गव तथा च्यवन ऋषियों के साथ थे, श्री रघुनाथ की सेवा में आये ताकि उनको विपत्ति से छुटकारा प्राप्त हो । रघुनाथ के द्वारा अत्यन्त आदर-सत्कार मिलने पर वे ऋषिगण प्रसन्न हुए । १५० ब्राह्मणों का मैं सेवक हूँ । आप लोगों ने अति कृपा की है जिसके लिए अति धन्यवाद ! सेवक को आदेश देने की कृपा करें कि क्या काम है और क्या इच्छा है । सेवक हूँ सब कुछ सिद्ध कर दूंगा, कहते हुए जब राम की आज्ञा हुई तब च्यवन ने श्रीराम के समक्ष विपत्तियों के बारे में विनती की । १५१ हे नाथ ! मधु नामक कोई एक दैत्य शिव का बहुत प्यारा भक्त था । उसे शिव ने अत्यन्त प्रसन्न होकर एक अमोघ त्रिशूल प्रदान किया था । रावण की बहिन कुम्भिनखी के साथ विवाह किया था ।

तेस्को नाम लवण छ राक्षसि छ चाल्
 आपद् सब ऋषिलाइ गछ रघुनाथ्
 यो आपत्ति छुटोस् भनी हजुरमा
 तेस्को ताप नमान्नु माछु अहिले
 यै बीचमा सब भाइलाइ रघुनाथ्
 माछौ कण्टक तेस् लवणकन ऋषी
 हात् जोरी विनती गन्या भरतले
 ताहीं फेर विनती गन्या अति उचित्
 लक्ष्मणले पनि काम् गन्या अघि बडा
 दुःखै भोग भरतजिले पनि गन्या
 ख्वामित् ! आज हुकूम भया त खुशि भै
 राम् ठाकुर बहुतै खुशी हुनुभयो
 यस्तो हुकूम भो बहुत् खुशि भई
 गादी आज म दिन्छु राज् पछि गन्या
 पैले जल्दि त मारिहाल लवणै
 वाण्मा मुख्य जउन्थियो उहि झिकी

तेस्ले त्रिशूल् त्यै लिई ।
 बाधा अनेकन् दिई ॥
 आयौ भन्याथ्या जसै ।
 यस्तो हुकूम भो तसै ॥५३॥
 ले सोध्नुभो को गई ।
 का प्राणदाता भई ॥
 ख्वामित् ! म जान्छु भनी
 शत्रुघ्नजिले पनि ॥१५४॥
 साथै हजुरमा गई ।
 योगी सरीका भई ॥
 जान्छु म ऐले तहाँ ।
 यो बिनित सुन्दामहाँ ॥५५॥
 शत्रुघ्नलाई तहाँ ।
 पूरी बनाई तहाँ ॥
 लैजाउ यो वाण् पनि ।
 दिनूभयो वाण्पनि ॥१५६॥

उससे लोककण्टक नामक पुत्र का जन्म हुआ और उसका सम्पूर्ण व्यवहार राक्षस के समान था । १५२ उसका नाम लवण है, व्यवहार राक्षस का है । वह उसी त्रिशूल को लेकर सब ऋषियों को सता रहा है । हे रघुनाथ ! अनेक बाधा उत्पन्न कर रहा है । अतः इन आपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके पास आये हैं । ऐसी विनती सुनते ही आज्ञा हुई कि आप उससे भयभीत न हों, अभी मैं उसका वध करता हूँ । १५३ इसी बीच रघुनाथ ने सब भाइयों से प्रश्न किया कि कौन जायेगा और उस कण्टक लवण को मारकर ऋषियों का प्राणदाता बनेगा । भरत ने हाथ जोड़कर विनती की, स्वामी ! मैं जाता हूँ । उसी समय शत्रुघ्न ने भी अति उचित विनती की । १५४ पहले श्रीमन् के साथ जाकर लक्ष्मण ने भी अनेक महान कार्य किये । इसी प्रकार भरत ने भी योगी के समान बनकर दुःख भोग किया । स्वामी ! आज्ञा देने की कृपा करें । मैं अति प्रसन्नतापूर्वक अभी वहाँ जाता हूँ । इस विनती को सुनकर राम ठाकुर अत्यन्त प्रसन्न हुए । १५५ अत्यन्त प्रसन्न होकर शत्रुघ्न को यह आज्ञा दी, आज मैं तुम्हें गद्दी देता हूँ, बाद में वहाँ नगर बनाकर राज करना । सर्वप्रथम इस वाण को लेकर जाओ और लवण का वध शीघ्र ही कर डालो ।

अतीं क्या दिनुभो कि भाइ ! शिवको त्रिशूल छ तेस्का घरै ।
 पूजा नित्य गरेर जान्छ वनमा आहार खातिर परै ॥
 तेस्ले त्यो शिवको त्रिशूल लिन भनी जानै नपावस् घरै ।
 फिर्दामा तहिं लड्नु हाशु यहि शर् मर्ला र गिल्पा परै ॥१५७॥
 पायो त्यो शिवको त्रिशूल लिन भन्या तेसै त्रिशूलले गरी ।
 सब्को नष्ट गराउन्याछ यहि सुर राख्नु विचार खुप् गरी ॥
 यो मान्या पछि तेस् मधुवनमहाँ एक बेस् वनाऊ शहर ।
 जस्मा बस्न मिलोस् भनी सकलले खुप् बस्न मानून रहर् ॥१५८॥
 तेस्को नाम् मथुरा हुन्याछ नगरी त्यै राजधानी गरी ।
 राज् गर्नु तिमिले अनेक् तरहका सब्का विपत्ती हरी ॥
 एकलै गै अघि मार राक्षस पछी आऊँछ सेना पनि ।
 तीस् चालीस हजार राज् गर तहाँ राम्ले दिया राज् भनी ॥१५९॥
 आशीर्वाद दिइ साथ जाऊ ऋषिका भन्या हुकूम भो जसै ।
 हुकूम माफिक काम् गन्या सँग गई शत्रुघ्नजीले तसै ॥
 राक्षस् मार्नुभयो तुरुन्त र तहाँ पूरी मथरा बनी ।
 हुकूम माफिक राज् गर्या तहिं बसी शत्रुघ्नजीले पनि ॥१६०॥

बाणों में जो मुख्य था वही निकालकर देने की कृपा की । १५६ भाई ।
 तुम्हें क्या शिक्षा दूँ—उसके घर में शिव का त्रिशूल है, नित्य पूजा
 करके आहार के लिए वह वन में जाता है । अतः वह उस शिव के
 त्रिशूल को लेने घर न जाने पावे—लौटते समय वहीं उसके साथ लड़ना
 और इसी बाण से प्रहार करना तभी वह धराशायी हो जायेगा । १५७
 यदि उसे शिव के उस त्रिशूल को लेने का अवसर मिल गया तब
 उसी त्रिशूल से सबको नष्ट करेगा । इस बात का खूब विचार
 तथा ध्यान रखना । इसे मारने के पश्चात् उसी वन में एक उत्तम शहर
 का सृजन करो जिसमें लोग रहने के लिए उत्सुक होकर रहने लगे । १५८
 उसका नाम मथुरा नगरी होगा, उसे ही राजधानी बनाकर अनेक प्रकार
 के लोगों की विपत्तियों का हरणकर तुम राज करना । अकेले आगे
 जाकर राक्षस को मार डालो पीछे-पीछे तीस चालीस हजार सेनायें
 भी आ जायेंगी । और वहीं राम का दिया राज्य करना । १५९
 आशीर्वाद देकर ऋषि के साथ जाने के लिए जैसे ही आज्ञा हुई वैसे
 ही आज्ञानुसार शत्रुघ्न जी ने ऋषि के साथ जाकर कार्य किया ।
 तुरन्त राक्षस का वध किया और वहीं मथुरा नगरी की स्थापना हुई ।
 आज्ञानुसार शत्रुघ्न जी ने भी वहीं रहकर राज्य किया । १६० सीता जी

सीताका पनि दूइ पुत्र सुकुमार जम्ल्याह पैदा भया ।
 वाल्मीकी ऋषिले ति पुत्र दुइको नाम्-कर्म गर्दा भया ॥
 जेठाको कुश नाम् धरचा लव भनी जुन् चाहि कान्छा थिया ।
 तिनको नाम धरचा क्रमैसित अनेक् शास्त्रै पढाई दिया ॥१६१॥
 वेलैमा व्रतबन्ध कर्म पनि भो वेदार्थ जानून् भनी ।
 लाग्या वेद् पनि पढ्न शास्त्रहसको तात्पर्य जान्न्या पनि ॥
 उत्तम् निर्मल सूर्य-वंश बिचमा पैदा भयाका थिया ।
 यो अभ्यास थिएन भन्नु त उसै फोसो कुरा पो थिया ॥१६२॥

वाल्मीकिले सकल राम-चरित्रलाई ।
 गान् गर्न काव्य रितले कविता बनाई ॥
 गान् गर्दथ्या खुशि भएर पढाइदीया ।
 त्यो गाउँदा त्रिभुवनै वश पारिलीया ॥१६३॥

जम्ल्याहा दुइ भाइ सुन्दर कुमार हात्मा सितारा लिई ।
 पूरा सुर सित गाउँथ्या दुइ जना ताल् सुर मिलार् दिई ॥
 खुश हुन्थ्या ऋषिगण सबैति वनका सूनेर तेस् गानले ।
 प्यारो खुप् सित गर्दथ्या ति दुइको ठूला भनी मानले ॥१६४॥

यै रीतले रामचरित्र गाई ।
 सम्पूर्णको मन् पनि खुश गराई ॥

के भी दो जुड़वे सुकुमार पुत्र पैदा हुए । वाल्मीकि ऋषि ने उन दोनों पुत्रों का नामकरण किया । ज्येष्ठ का नाम 'कुश' रखा और जो कनिष्ठ था उसका नाम 'लव' रखा । क्रम-से उनके नाम रखे गये और उन्हें अनेक शास्त्रों की शिक्षा दी गयी । १६१ वेदार्थ आदि जानने के लिए समय से ही उनका व्रतबन्ध कर्म भी किया गया । वेदों का मनन करने लगे और शास्त्रों के तात्पर्य वे जान गये । उत्तम एवं निर्मल सूर्यवंश कुल के बीच पैदा हुए थे । वैसे कहने का अभ्यास नहीं था, यद्यपि ये बातें व्यर्थ ही थीं । १६२ वाल्मीकि ने सकल रामचरित्र का गान करने हेतु काव्यरीति से कविता बनायी । प्रसन्न होकर उसका गान करते थे । अतः पढ़कर उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया । उसे गाकर त्रिभुवन को अपने वश में कर लिया । १६३ दोनों जुड़वे सुकुमार भाई हाथों में सितार लेकर पूरे स्वर से एवं सुरों को मिलाकर गाते घूमते थे । वन के वे ऋषिगण उस गान को सुनकर प्रसन्न होते थे और उन दोनों को महान समझकर प्यार से आदर करते थे । १६४ इसी रीति

वाल्मीकिकै आश्रममा रहन्थ्या ।

गथ्या सधैं वाल्मिकि जो त भन्थ्या ॥१६५॥

यै बीचमा सब अश्वमेधहस गरा राम्ले अनेक् दान् दिया ।
 सीताजी वनमा थिइन् र सुनकी सीता बनाईलिया ॥
 ब्रह्मर्षी र बडा बडा पृथिविका राजाहरू ती पनि ।
 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब तहि पुग्या हेरौं तमासा भनी ॥१६६॥
 वाल्मीकी ऋषिका संगैति कुशलव् हिंड्थ्याति जान्थ्या जहाँ ।
 पाया फुसंत सोध्नको र कुशले सोध्या कुरा क्यै तहाँ ॥
 हे सर्वज्ञ गुरो ! कउन् तरहले बन्धन् विषे पर्दछन् ।
 कुन् पाठ्ले सब बन्धनै पनि सहज् तोडेर पार् तर्दछन् ॥१६७॥
 बाँधिन्छन् यहि रीतले यति गन्या संसार तछन् भनी ।
 यस्को तत्त्व बताइ बक्सनु हवस् जानूं म मूढो पनि ॥
 यस्तो प्रश्न सुन्या जसै ति कुशको ती वाल्मिकीले पनि ।
 यस्को तत्त्व बुझाइ बक्सनुभयो बाँधिन्छ यस्ले भनी ॥१६८॥
 यस् जीब्ले बिहकै बिचार नगरी मंत्री अहङ्कार लिंदा ।
 मन्त्रीले जति आफुमा गुण थिया जीवमा मिलार्दिंदा ॥

से रामचरित्र का गान करते हुए सम्पूर्ण जन के मनो को भी प्रसन्न करते थे । वाल्मीकि के ही आश्रम में रहते थे । वाल्मीकि जी जो कहते थे, सदैव वही करते थे । १६५ इसी बीच में राम ने अश्वमेध यज्ञ करके अनेक दान दिये । सीता जी वन में थीं अतः सोने की सीता बनायी । बड़े-बड़े ब्रह्मर्षि एवं पृथ्वी के बड़े-बड़े राजाओं और अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब वहाँ तमाशा देखने पहुँचे । १६६ कुश और लव वाल्मीकि ऋषि के संग, जहाँ वे जाते थे वहीं चल पड़ते थे । प्रश्न करने का अवसर मिला और कुश ने कुछ बात पूछी—हे सर्वज्ञ गुरु ! किस प्रकार से लोग बन्धन में पड़ जाते हैं । कौन सा पाठ करने से सभी बन्धनों को सहज ही तोड़कर जीव पार तर जाता है । १६७ जिस रीति को करने से बन्धन में फँस जाते हैं और जिसको करने से संसार से तर जाते हैं इसके विषय में जो तत्व हैं, बताने की कृपा करें ताकि मेरे ऐसे मूर्ख भी इसे जान सकें । वाल्मीकि ने भी कुश के ऐसे प्रश्न को सुनकर बन्धन में बँध जाने के बारे में जो तत्व थे, सविस्तार समझाने की कृपा की । १६८ इस जीव द्वारा किसी बात पर विचार किये बिना, अहंकार मंत्री की मंत्रणा से उसमें जो भी गुण

मन्त्रीका वशमा परेर यहि जीव मै हूँ अहङ्कार भनी ।
 लाग्यो भन्न भन्या गिन्यो विषयमा बाँधिन्छ यो जीव पनि ॥१६९॥
 जो छन् सत्त्व रजस् तमस्त्रिगुण यी रूप हुन् अहंकारका ।
 यी तीनै मनले विचार गरिलिंदा छैनन् कुनै सारका ॥
 इच्छा सत्त्व विषे धन्या पनि भन्या ऐश्वर्य भोग्छन् पनि ।
 संसारकै व्यवहार बढ्छ रजले स्त्री पुत्र मेरा भनी ॥१७०॥
 जो ता छन् तमगुणमा खुशि हुन्या तेस्ता त कीरा भई ।
 फिर्छन् नित्य विपत्तिमा सुख सयेल् मिल्दैन काहीं गई ॥
 जो यो तीन गुणलाइ तुच्छ बुझि खुप् आत्मै विचार गर्दछन् ।
 सब् बन्धन्हरुलाइ तोडि सहजै संसार तिनै तर्दछन् ॥१७१॥

तस्मात् अहङ्कारकन तुच्छ मानी ।
 आत्मा म हूँ पूर्ण भनेर जानी ॥
 आत्मै विचारमा तिमि चित्त देऊ ।
 साँचो भन्याँ यो तिमि जानिलेऊ ॥१७२॥
 वाल्मीकिदेखी यति तत्त्व पाई ।
 ज्ञान भैगयो ती कुशवीरलाई ॥

थे उसी जीव में मिला देता है और मन्त्री के ही वश में आकर अपने को अहंकारी बनाता है । विषय आदि में उसी अहंकार के कहने से ही लग जाने से यह जीव भी बन्धन में बँध जाता है । १६९ सत्त्व, रज एवं तम ये त्रिगुण इसी अहंकार के रूप हैं । इन तीनों के बारे में मन में विचार करने से इनमें कोई तथ्य दिखायी नहीं देता । सत्त्व, विषय की ओर इच्छा करने पर ही ऐश्वर्य का भोग करता है । रजोगुण से संसार के व्यवहार में वृद्धि होती है और स्त्री पुत्र को अपना बताता है । १७० जो तम गुण में प्रसन्न होता है वैसे लोग तो कीड़े होते हैं । नित्य विपत्तियों से घिरे रहते हैं, कहीं भी सुख-शान्ति नहीं मिलती है । जो इन तीन तुच्छ गुणों को समझकर अपनी आत्मा में गम्भीरतापूर्वक विचार करता है वह सब बन्धनों को तोड़कर सहज ही संसार से तर जाता है । १७१ इसलिए अहंकार को तुच्छ समझकर आत्मा को स्वतः पूर्ण जानकर आत्मिक विचार में तुम अपने चित्त को लगाओ—ये मैंने सत्य वर्णन किया है, अतः तुम इसे जान लेना । १७२ वाल्मीकि द्वारा इन तत्त्वों को पाकर उस वीर कुश को ज्ञान का बोध हो गया । नित्य वे मुक्त ही थे, तथापि संसार में वे कार्य करते रहे । १७३ एक

मुक्तै थिया नित्य तथापि याहाँ ।
 गदैरह्या कार्य त लोकमाहाँ ॥१७३॥

एक् दिन् बाल्मिकिले त अति दिनुभो हे पुत्र हो ! गाउँछौ ।
 तिम्नो गान् सुनि खूशि हुन्छ दुनियाँ अत्यन्त यश् पाउँछौ ॥
 श्रीराम्का पनि गान सुन्नकन मन् आयो र गाऊ भनी ।
 लाया गाउन यो भन्या दुइ जना मीलेर गाया पनि ॥१७४॥
 गान्ले खुश् भइ केहि बक्सिस भयो बक्सिस् भयाको जति ।
 चीज्छन् सब् तृण झैं गरेर तिमिले केही नलीया रती ॥
 अर्ती बाल्मिकिदेखि पाइ कुशलव् अत्यन्त खूशी भई ।
 लाग्या गाउन दूइ भाइ ऋषिका साम्ने अगाडी गई ॥१७५॥
 सून्या तेहि अपूर्व गान् र रघुनाथ् ज्यूका पनी मन् गयो ।
 मेरो मन् पनि गानले हरिलिया को हुन् इ भन्न्या भयो ॥
 साम्ने डाकि म सुन्छु फेरियहि गान् भन्न्या इरादा धरी ।
 राजा पण्डित वृद्ध जन्हरु बहुत् राखी सभा खुप् गरी ॥१७६॥
 गान् सुन्छु अब डाक याहिति कुमार आऊन् सभामा भनी ।
 हुकूम् भो र हुकूमले दुइ कुमार आया सभामा पनि ॥
 देख्या मूर्ति कुमारका र सबले आश्चर्य मान्या पनि ।
 कस्का हुन् इ कुमार कसो गरि भया रामै सरीका भनी ॥१७७॥

दिन बाल्मीकि ने शिक्षा देने की कृपा की । हे पुत्रो ! तुम लोग गाते हो । तुम्हारा गान सुनकर दुनिया के लोग प्रसन्न होंगे और तुम अत्यन्त यश प्राप्त करोगे । श्रीराम को भी गान सुनने का मन हुआ और आकर उन्हें गाने के लिए कहा और उन दोनों जनों ने मिलकर गाया । १७४ गान सुनकर प्रसन्न होकर कुछ उपहार देंगे । उपहार में जो भी वस्तु होगी, सबको तृण समझकर कुछ भी न लेना । बाल्मीकि की इस शिक्षा को पाकर कुश और लव अत्यन्त प्रसन्न हुए और आगे चलते हुए दोनों भाई गान करने लगे । १७५ उस अपूर्व गान को सुनकर रघुनाथ का मन भी उस ओर आकृष्ट हुआ । ऐसे गान से मेरे मन को हर लेने वाले ये बालक कौन है ? सामने बुलाकर यही गान मैं पुनः सुनूंगा ! ऐसा मन में निश्चय कर राजाओं, पंडितों तथा अनेक वृद्धजनों को बुलाकर सभा का आयोजन किया । १७६ वे कुमार सभा में आ जायें और अब यहीं उनके गान का श्रवण करता हूँ । ऐसी आज्ञा को सुनकर दोनों कुमार सभा में आये । इन कुमारों की मूर्ति देखकर सभी आश्चर्य में

रामैका सरि वस्त्र भूषण भया
चिन्हैलाइ कठिन् हुन्याछ यहि बात्
लाग्या गाउन भाइ दूइ जब ता
गान् सुन्दा बहुतै खुशी हुनुभयो
हूकूम ताहिं भरतजिलाई दिनुभो
दस् हज्जार रुपियाँ लगीकन दिया
दस् हज्जार रुपियाँ दिया तपनि त्यो
जाहाँ वाल्मिकिजी थिया उहिं गया
जान्या श्रीरघुनाथले इ त सिता-
त्यै वीचमा प्रभुले हुकूम दिनुभयो
हे भाई तिमि जल्दि जाइ अहिले
सीताजी र ति वाल्मिकीकन लिई
सीतालाइ नियाँ म दिन्छु अहिले
आफन् दोष अफालि निर्मल भई
हूकूम श्रीरघुनाथको यति हुँदा
वाल्मीकी ऋषिको परी चरणमा

राम्चन्द्र कुन् हुन् भनी ।
सब् बोल्न लाग्या पनि ॥
गान्धार सुरले गरी ।
तैलोक्यका नाथ हरि ॥१७८॥
लौ देउ खिल्लत् भनी ।
जल्दी भरतले पनि ।
सब् तृण सरीको गरी ।
धन् छोडि तेसै घरि ॥१७९॥
जीका कुमार् हुन् भनी ।
शत्रुघ्नलाई पनि ॥
वाल्मीकिजी छन् जहाँ ।
दौडेर आऊ यहाँ ॥१८०॥
सीताजि नीयाँ पसून् ।
खुश भै सिताजी बसून् ॥
शत्रुघ्न जल्दी गया ।
सब् बिनति गर्दा भया ॥१८१॥

पड़ गये और कहने लगे कि ये कुमार किसके हैं जो राम के समान दिखते हैं । १७७ यदि राम के समान वस्त्र-आभूषणों से सुसज्जित होते तो राम कौन हैं, पहचानना भी कठिन होता । यही चर्चा सब लोग करने लगे । जब दोनों भाई गान्धर्व स्वरों में गाने लगे । सुमधुर गान सुनकर त्रैलोक्यनाथ हरि अत्यन्त प्रसन्न हुए । १७८ उसी समय भरत जी को आज्ञा दी कि उन्हें यह पुरस्कार दे दो । भरत ने भी शीघ्रता से दस हजार मुद्रा ले जाकर दीं । दस हजार मुद्रा देने पर भी उसे तृण बराबर समझकर उस धन को वहीं छोड़कर उसी समय वे कुमार, जहाँ वाल्मीकि मुनि थे, चले गये । १७९ श्रीरघुनाथ ने तो जान लिया कि ये कुमार सीता जी के हैं । उसी वीच प्रभु ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी— हे भ्रात ! तुम शीघ्र वाल्मीकि जी के यहाँ जाओ और वाल्मीकि जी एवं सीता को साथ में लेकर शीघ्र यहाँ आओ । १८० मैं सीता को न्याय प्रदान करूँगा । अब परीक्षा देने के लिए सीता जी अपने दोषों का परित्यागकर निर्मल एवं प्रसन्न होकर रहें । श्रीरघुनाथ की ऐसी आज्ञा पाकर शत्रुघ्न तुरन्त चले गये और वाल्मीकि ऋषि के चरणों में पड़कर विनती करने लगे । १८१ विनती सुनकर राम का जो आशय था, मुनि ने वह जान लिया और तुरन्त उत्तर

सून्या बिनति र जुन्त आशयथियो राम्को उ जानी लिया ।
 पस्लिन् भोलिनियाँ सिताभनि तहाँ उत्तर् तुरुन्ते दिया ॥
 उत्तर् वाल्मिकिदेखि पाइकन ता शत्रुघ्न फर्की गया ।
 श्रीराम्चन्द्रजिका पुगी हजुरमा त्यो बिनति गर्दा भया ॥१८२॥
 सूनूभो जब उत्तरा ति ऋषिको ताहीं प्रभूले पनि ।
 पस्छिन् भोलिसितानियाँभनि हुकूम भो लोक जानून् भनी ॥
 हुकूम येति सुन्या र लोक पनि सब् हेरौं तमासा भनी ।
 ब्राह्मण् क्षत्रिय वैश्य शूद्र जति छन् आया महर्षी पनि ॥१८३॥
 आया वाल्मिकिताहिं तेहि बिचमा सीताजिलाई लिई ।
 सीताजी पनि यज्ञमा पुगिगइन् श्रीराममा मन् दिई ।
 सीताजीकन देखि लोकहरु सब् बेस् भो बहुत् बेस् भनी ।
 लाग्या बोलन तहाँ तसै बखतमा तीवाल्मिकीजी पनि ॥१८४॥
 श्रीराम्जीसित बिनति गर्दछु भनी राम्का अगाडी सन्या ।
 सीताजी अति शुद्ध छन् भनि बहुत् विन्ती हजूरमा गन्या ॥
 छोरे हुन् कुश लव् पनी हजुरका विन्ती कहाँतक् गरुँ ।
 क्यै शंका मनमा रह्या हजुरमा गछू शपथ् मै बरु ॥१८५॥
 बोल्याँ केहि झुटो भन्या हजुरमा बोल्यो झुटो वात् भनी ।
 निष्फल् आज गरुन् प्रभू जतिथिया मेरा तपस्या पनि ॥

दिया कि कल सीता परीक्षा देंगी । वाल्मीकि से उत्तर पाकर शत्रुघ्न लौट गये और श्रीरामचन्द्र जी की सेवा में उपस्थित होकर वह विनती करने लगे । १८२ जब प्रभु ने भी ऋषि के उत्तरों को सुनने की कृपा की तभी सीता द्वारा कल परीक्षा दिये जाने की सूचना से लोगों को अवगत कराने की आज्ञा हुई । ऐसी आज्ञा को सुनकर सर्वलोकजन भी कौतुक देखने के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी थे तथा महर्षि-गण, सभी चले आये । १८३ कुछ क्षणों के पश्चात् सीता जी को लेकर महर्षि वाल्मीकि भी वहाँ आ गये । सीता जी भी श्रीराम में ध्यान धर-कर यज्ञ के निकट पहुँच गयीं । सीता जी को देख सर्वजन परस्पर कहने लगे कि यह बहुत ही उत्तम हुआ । १८४ उसी समय वाल्मीकि भी श्रीराम से विनती करने के लिए उनके आगे आये । विनती करते हुए कहने लगे कि सीता जी अति शुद्ध हैं । कुश-लव भी आप ही के पुत्र हैं । इस विषय पर कहाँ तक विनती करूँ । श्रीमन् अपने मन में किंचित् मात्र भी शंका न रखें, इसके लिए मैं शपथ देता हूँ । १८५ यदि

सून्या वाल्मिकिको शपथ् र रघुनाथ्
मेरो संशय छैन कत्ति मनमा
लंकामा पनि एक् नियाँ अघि दिंदा
ऐले पो अपवाद् गन्या र जनले
अर्काले अपवाद् गन्या भनि उसै
तेस्तै भो त पनी रिसानि नहवस्
मेरै पुत्र त हुन् दुवै इ कुश लव्
सीताजी पनि शुद्ध छन् सब बुझ्याँ
हूकूम् यो रघुनाथको हुन गयो
सीताजी त तयार् भइन् तस बखत्
ब्रह्मादीहरु लोकपाल्हरु सबै
ब्रह्मादीहरुका अगाडि ति सिता
जस्तो भक्ति छ रामका चरणमा
साँची छू त मलाइ जान अहिले
यस्तो वाणि सिताजिको पृथिविले
बेस् सिंहासन एक् तयार गरि सिता

ज्यूको हुकूम् यो भयो ।
साँचो शपथ् हुन्छ यो ॥८६॥
जीतिन् र सीता लियाँ ।
सो मेट्न् छाडीदियाँ ।
साँचै सिता त्याग् गन्या ।
यस्मा क्षमापन्गन्या ॥८७॥
जम्ल्याह पैदा भया ।
सन्देह मेरा गया ॥
हूकूम् भयो तापनि ।
पस्छू म नीयाँ भनी ॥१८८॥
आया सीता छन् जहाँ ।
क्यै बोल्न लागिन् तहाँ ॥
मेरो उ जानीलिउन् ।
बाटो भुमीले दिउन् ॥१८९॥
सूनी सकीथिन् जसै ।
जीलाइ राखिन् तसै ।

मैंने श्रीमन् से कुछ भी असत्य कहा है तो मेरे असत्य से जो भी मेरी तपस्या है उसे आज आप निष्फल कर दें । वाल्मीकि की शपथ को सुनकर रघुनाथ की यह आज्ञा हुई कि मेरे मन में कुछ भी संशय नहीं है, यह शपथ सब सत्य है । १८६ पहले लंका में भी एक बार परीक्षा लेने पर सीता सफल उतरीं और सीता को साथ ले आया । परन्तु उसके बाद लोक द्वारा अपवाद किये जाने के कारण उसे मिटाने हेतु परित्याग किया । और अन्य लोगों के द्वारा अपवाद किये से ही मैंने सीता का त्याग किया । ऐसा होने पर आप कृपया क्रोधित न हों और इसके लिए मुझे क्षमा करें । १८७ कुश-लव ये दोनों मेरे ही तो पुत्र हैं जो जुड़वे उत्पन्न हुए । सीता जी भी शुद्ध हैं । मैं सब समझ गया और मेरा सन्देह भी दूर हो गया । ऐसा रघुनाथ द्वारा कहे जाने पर सीता जी परीक्षा के लिए इस समय भी तत्पर हो गयीं । १८८ सीता जहाँ थीं वहाँ ब्रह्मादि एवं लोकपाल सब आ गये । ब्रह्मादि के सम्मुख सीता कुछ कहने लगीं कि मेरी जैसी भक्ति राम के चरण में है उसे जान ले और मैं सच्ची हूँ तो मुझे जानने के लिए भूमि मुझे अभी मार्ग दे । १८९ सीता जी की ऐसी वाणी जब पृथ्वी ने सुनी तो एक सुन्दर सिंहासन प्रकट कर सीता जी को उसी में

त्थै सिंहासनमा बसी जननिले औदास्य मन्मा लिङ्गम् ।
 सीताजीकन जानलाइ वढिया बाटो भुमीले दिङ्गम् ॥१९०॥
 यस् रीत्ले जननी सीता जब गइन् खुप् मोहमा लोक् पन्था ।
 इन्द्रादिहरुले त खु खुप्शि हुँदै वेस् पुष्पवृष्टी गन्था ॥
 सीताको तर्हि शोक् गन्थाप्रभुजिले संसारि जस्ता भई ।
 ब्रह्मादीहरुले बुझाउनुभयो साम्ने अगाडी गई ॥१९१॥
 बूझीबक्सनु भो र शोक् पर गरी बाँकी रह्याका थिया ।
 सब् सम्पूर्ण गरेर नान् दिनुभयो ब्राह्मण् तहाँ सब् थिया ॥
 जो ता यज्ञमहाँ थिया जनहरू धन्ले ति पूर्ण भया ।
 बीदा बक्सनुभो र देशि जति हुन् बीदा हुँदै सब् गया ॥१९२॥
 सीताजी सितको वियोग् जब भयो श्रीराम् विरक्तै भया ।
 यज्ञस्थान्कन छोडि पुत्र सँग ली जल्दी अयोध्या गया ॥
 कौसल्या जननी पनी खुशि भइन् श्रीराम आया भनी ।
 लक्षण् अन्त्य निहारि ज्ञानकि कथा चर्चा गरिन् वेस् भनी ॥१९३॥
 कौसल्या रामलाई त्रिभुवन पतिका नाथ् रमानाथ जानी ।
 कुन् पाठ्ले बन्ध छुट्ला भनिकन मनमा खुप् ठुलो पीर मानी ॥

रख लिया । उसी सिंहासन पर बैठकर जननी सीता ने अपने मन में उदासीनता का अनुभव किया । तदनन्तर भूमि ने सीता जी को जाने के लिए एक सुगम मार्ग खोल दिया । १९० इसी रीति से जब सीता चली गयीं, सब लोग अत्यन्त मोह में पड़ गये । इन्द्रादि ने अत्यन्त प्रसन्न होते हुए उत्तम पुष्पवृष्टि की । वहीं प्रभु जी ने सांसारिक मनुष्य की भाँति सीता के लिए शोक किया और ब्रह्मादि ने आगे आकर प्रभु को समझाया । १९१ सबको समझाकर, शोक को दूर करके जो भी कार्य शेष थे, सब पूर्ण किये और जो ब्राह्मण वहाँ थे उन्हें दान आदि दिये । यज्ञ में जो लोग थे उन्हें धन से पूर्ण कर दिया । बन्धु-बान्धव जो भी थे सबको विदा देने की कृपा की । इस प्रकार सब विदा होकर चले गये । १९२ सीता जी से जब वियोग हुआ, श्रीराम पर विरक्ति छा गयी । यज्ञ स्थान को छोड़कर पुत्रों को साथ में लेकर तुरन्त अयोध्या चले गये । जननि कौशल्या श्रीराम के आ जाने पर प्रसन्न हुई । लक्ष्मण की ओर ध्यान से देखकर ज्ञान की चर्चा की । १९३ कौशल्या राम को त्रिभुवन पति के नाथ रमानाथ अत्यन्त जानकर क्लेषयुक्त मन से यह जानने के लिए कि किस विधि से बंधन से छुटकारा प्राप्त

आइन् पाऊ परी फेर विनति पनि	गरिन् रामजीका चरणमा ।
कुन्पाठलेबधछुट्छन् यतिमकन्	कहू आज आयाँ शरणमा ॥१४॥
यस्तो विन्ती सुनी खुपखुशि पनि	हुनुभो बन्ध छुट्नुया उपाई ।
सबभन्दा येहि ठूलो भनि कहनुभयो	भक्तियोग् माइलाई ॥
भक्तीयोग्मा पनि जो त्रिगुण	रहितकी भक्ति छन् सोहि गर्नु ।
गङ्गाजीका प्रवाहै सरि गरि यस	मन्लाइ मैमाथि धर्नु ॥१५॥
मै माथी चित्त धर्न्या जनहरु सहजै	भक्तिमान् होइजान्छन् ।
चार छन् मुक्ती ति चारैकन पनि	तिनले तृण् सरीका त मान्छन् ॥
मै माथी चित्त धर्न्या भनिकन	बुझिल्यौ साधना गर्नमाहाँ ।
तेस्को वर्णन् म गछू अब सब बुझिल्यौ	सब खुलस्ता छ याहाँ ॥१६॥
इच्छा काहिं नराखनू विषयमा	सब धर्म थाम्नू पनि ।
सत् काम् गर्नु विचार राखनु मनमा	हिंसा घटीया भती ॥
मेरो दर्शन गर्नु खुप् स्तुति पुजा	गर्नु स्मरण् खुप् गरी ।
पाऊमा परि दण्डवत् गरिलिनू	जान्छन् यसैले तरी ॥१७॥
सब प्राणीहरुमा म छू यति विचार	राखनू असङ्गी भई ।
साँचो बोल्नु, बड़ा मिल्या चरणमा	पर्नु तुरुन्तै गई ॥

होगा, राम के पास आकर उनके पाँव में पड़कर विनती करने लगीं । किस पाठ के द्वारा बन्धन मुक्त होता है, बस यही आज मुझे बता दें । इसीलिए शरण में आयी हूँ । १९४ राम ऐसी विनती सुन अत्यन्त प्रसन्न हुए और बंधन से छुटकारा पाने का उपाय जो सबसे महान् है, उसे भक्तियुक्त माता को बताने की कृपा की । भक्तियोग में भी जो त्रिगुण-रहित भक्ति है उसे ही करना । मन को, गंगा के प्रवाह के समान बनाकर मुझपर ही लगाना । १९५ मुझ पर मन लगानेवाले जन सहज ही भक्ति से युक्त हो जाते हैं । मुक्ति चार प्रकार की है । फिर भी उन चारों को तृण के समान मानकर मुझ पर चित्त लगाने के लिए साधना को समझते हुए त्यागकर उसके सम्बन्ध में मैं यहाँ वर्णन करता हूँ । जो त्रिकुल स्पष्ट है उसे समझ लो । १९६ अन्य किसी विषय की ओर इच्छा को प्रेरित न होने देना । सब धर्मों का पालन करना, मन में हिंसा को बहुत ही क्षुद्र समझकर सदैव सत्कार्य करना । मेरे दर्शन करना तथा ध्यान से स्मरण करके पूजा एवं स्तुति भी करना । पाँव में नतमस्तक होकर दण्डवत करना जिसके फलस्वरूप संसार से तरण हो जायगा । १९७ मैं सब प्राणियों में व्याप्त हूँ, यही विचार निस्संकोच

गर्नु दुःखि-उपर् दया सम भया तिनमा त मैत्री पनि ।
 सेवा गर्नु यमादिको पनि असल् बाटा यिनै हुन् भनी ॥१९८॥
 वेदान्तैकन सुन्नु गर्नु खुशि भै कीर्तन् पनी नामको ।
 सज्जन्को सतसङ्ग गर्नु-दिन दिन् सोझो भई कामको ॥
 मेरो देह भन्याउन्या अति ठुलो छोड्नु अहङ्कार पनि ।
 यो मन् शुद्ध गराइ बुझ्नु जति छन् सब् धर्म मेरा पनि ॥१९९॥
 जस्तै गन्ध रहन्छ फूलहरूमा फूलमा रह्याको पनि ॥
 वायुका वशमा परीकन उडी आऊँछ नाक्मा पनि ॥
 तेस्तो योग विषे दियो मन भन्या त्यै योग वायु बनी ।
 गन्धै झैं गरि मन् उडायर सहज् ल्याऊँछ मैमा अनि ॥२००॥
 सर्वात्मा म छु जो त येति नबुझी पूजा फकत् गर्दछन् ।
 तीदेखी खुश हुन्न कत्ति ति गरुन् व्यर्थ शरीर् हर्दछन् ॥
 पूजा गर्नु त तेहि हो उ नगन्या तिनले पुजा कुन् गन्या ।
 मृत्युको भय हुन्छ तिनकन सदा संसारमा ती पन्या ॥२०१॥
 सर्वात्मा म छु येति जानि सब् जीव् लाई नमस्कार् गरुन् ।
 जीवात्मा परमात्म एक् बुझि सदा अन्तःकरणमा धरुन् ॥

अपने मन में रखना । सब बोलना, वडों से मिलने पर तुरन्त चरण पर पड़ जाना; दुखियों पर दया करना और शत्रु होने पर भी उनसे मित्रता रखना, यम आदि की सेवा करना भी एक उत्तम मार्ग समझना । १९८ वेद आदि का श्रवण करना, प्रसन्न होकर सदैव उस नाम का कीर्तन करना, सज्जनों की संगत करना तथा प्रतिदिन कर्तव्य के प्रति निष्ठावान् रहना । मेरा देह अतिमहान् है, कहकर अहंकार न करना । इस मन को शुद्ध करके सब धर्मों को जो भी हों अपना ही समझना । १९९ जिस प्रकार फूल तथा फलों की सुगंध वायु के वशीभूत होकर उड़ते हुए नाक में आ जाती है, उसी प्रकार जिस योग विषय की ओर ध्यान दिया जाता है वही योग वायु भी महक के समान ही मन को उड़ाकर सहज ही मुझमें ले आती है । २०० सर्वात्मा तो मैं हूँ और जो इसे बिना समझे पूजा नहीं करते हैं उससे मैं किंचित् भी प्रसन्न नहीं होता हूँ । ऐसे लोग अपने शरीर को व्यर्थ ही गँवाते हैं । वही तो पूजा है और उसे भी न किया तो उसने कौन सी पूजा की । ऐसे लोग जब संसार में आते हैं तो सदैव मृत्यु से भयभीत रहते हैं । २०१ सर्वात्मा मैं हूँ, यही जानकर सब जीवों को नमस्कार करना । जीवात्मा तथा परमात्मा को एक

मातर् ! मार्गं त तर्नलाइ सजिलो यै हो छ यस्तै गरी ।
 संसारका कति पार् गया सहजमा संसार सागर् तरी ॥२०२॥
 याहाँलाइ त ज्ञन् सहज् छ म त हँ पुत्रै र पुत्रै भनी ।
 संझी मात्र दिनु हवस् यति गन्या छुट्नुन् इ बन्धन् पनि ॥
 कौसल्या रघुनाथको यति हुकूम सूनिन् र मुक्तै भइन् ।
 कैकेयी पनि देह छोडि दशरथ् जीका हजूरमा गइन् ॥२०३॥

तस्तै सुमित्रा दशरथ्कि रानी ।

संसारका सौख् पनि तुच्छ जानी ॥

प्रारब्धका बन्धनलाइ तोडी ।

पौचिन् पतीथ्यै यहि देह छोडी ॥२०४॥

पापात्मा अति दुष्ट शत्रु सबका तीन् कोटि गन्धर्व छन् ।
 ई सब्लाइ मराउनु अब पन्यो बढ्नुन् नमान्या त ज्ञन् ॥
 यस् सुरले रघुनाथका हजुरमा एक दिन् युधाजित् गया ।
 पान्या बिन्ति भरत् गई हुकुमले गन्धर्व मारदा भया ॥२०५॥

पूरी एक तहिं पुष्करावति बनी पुष्कर् त राजा भया ।
 अर्की तक्षशिला पुरी बनि तहाँ राज् तक्ष गर्दा भया ॥

ही समझकर सदैव अपने अन्तःकरण में ध्यान रखना । हे माता !
 यही सब मार्ग हैं जिसके द्वारा संसार से सरलतापूर्वक तर सकते है ।
 संसार के कितने ही लोग इस प्रकार सहज ही संसारसागर से पार हो
 गये । २०२ माता ! आपके लिए तो और भी सरल है,—मुझे अपना
 पुत्र और पुत्री जानकर केवल स्मरण मात्र यदि करती है तो इन बन्धनों
 से मुक्ति मिल जायेगी । रघुनाथ के इन वचनों को कौशल्या ने सुन
 लिया और मुक्ति प्राप्त की । कैकेयी भी देह त्यागकर दशरथ जी के
 पास चली गयीं । २०३ उसी प्रकार दशरथ की रानी सुमित्रा संसार के
 सर्वसुख-भोगों को जानकर प्रारब्ध के उन समस्त बन्धनों को तोड़कर शरीर
 यहीं त्यागकर पति के पहुँच पास गयीं । २०४ अत्यन्त दुष्ट शत्रु पापात्मा
 गन्धर्वों की संख्या तीन कोटि है इन सबको अब मार डालना होगा,
 अन्यथा इनकी संख्या में और वृद्धि होगी । इस विचार से एक दिन
 पुधाजित रघुनाथ के समक्ष गये और विनती की । इस पर आज्ञा-
 नुसार भरत ने जाकर गन्धर्वों का संहार कर डाला । २०५ वहीं
 एक पुष्करावति पुरी की स्थापना भी हुई, और उस पुरी का राजा
 पुष्कल हुआ । दूसरी तक्षशिला पुरी बनी जहाँ तक्ष राज करने लगे ।

छोरा पुष्कर तक्षलाइ तिमिले
 फर्की श्रीरघुनाथका हजुरमा
 लक्ष्मण्लाइ पनी हुकूम तहि भयो
 छारालाइ लगेर पश्चिम मुलुक-
 पश्चिममा अति दुष्ट भिल्लहरु छन्
 दूई पूरि बनाउनु पनि तहाँ
 राजा अंगद चित्रकेतु इ दुवै-
 छोरालाइ रजाई दीकन तिभी
 हुकूम श्रीरघुनाथको यति हुँदा
 जो जो हुन् अति दुष्ट भिल्लहरु सब
 पूरी दूइ बनाइ लक्ष्मणजिले
 छोरालाइ र जल्द लक्ष्मण गया
 एकदिन् काल ऋषि झै भएर रघुनाथ
 आया श्रीरघुनाथजिका पुरिमहाँ
 पाँच्या द्वार तलक् जसै प्रभुजिका
 द्वारमा एक ऋषि छन् खडा भनि गई

राज् गर्नु याहीं भनी ।
 पाँच्या भरतजी पनि ॥२०६॥
 भाई ! तिमिले पनि ।
 मा राज्य देऊ भनी ॥
 तिन्लाइ संहार गरी ।
 रत्नादि दौलत् भरी ॥२०७॥
 लाई बनाया तहाँ ।
 आया तुरुन्तै यहाँ ॥
 लक्ष्मण तुरुन्तै गया ।
 तिन्लाइ मार्दा भया ॥२०८॥
 ताहीं रजाई दिया ।
 जाहाँ रघुनाथ थिया ॥
 ज्यूलाइ भेट्छु भनी ।
 चिन्दैन कोही पनि ॥२०९॥
 चौकी त लक्ष्मण थिया ।
 हाजिर् पुन्याई दिया ॥

पुत्र पुष्कल तथा तक्ष को वहीं राज्य करने की अनुमति देकर भरत लौटकर पुनः रघुनाथ के पास पहुँच गये। २०६ उसी समय (भगवान् राम ने) लक्ष्मण जी को भी आज्ञा दी—भाई ! तुम भी अपने पुत्र को ले जाकर पश्चिम देश का राज्य दे दो। पश्चिम में अति दुष्ट मल्ल आदि हैं, उनका संहारकर रत्न आदि से भरपूर कर दो नगरियों की स्थापना करो। २०७ अंगद एवं चित्रकेतु इन दोनों को वहाँ का राजा बनाओ; और पुत्र को राज्य देकर तुम तुरन्त यहाँ लौट आओ। श्रीरघुनाथ की इतनी आज्ञा होने पर लक्ष्मण तुरन्त चले गये और जितने भी अति दुष्ट मल्ल आदि थे उन सबों का वध किया। २०८ दो नगरियों की स्थापना कर लक्ष्मण जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर तुरन्त जहाँ रघुनाथ थे, चले आये। एक दिन काल ऋषि का रूप धारणकर रघुनाथ से भेंट करने के लिए आया। उसने यह सोचा कि श्रीरघुनाथ जी की नगरी में उसे कोई पहचान नहीं पायेगा। २०९ जब द्वार तक पहुँचा, उस समय प्रभु जी के रक्षक के रूप में लक्ष्मण वहाँ थे। द्वार पर एक ऋषि के आने की सूचना तुरन्त जाकर रघुनाथ को दे दी। ये समाचार सुनकर प्रभु जी ने उन्हें तुरन्त ले आने की आज्ञा दी। लक्ष्मण भी शीघ्रता

हाजिर् सूनि हुकूम भयो प्रभुजिको ल्याऊ तुरुन्तै भनी ।
 लक्ष्मणले पनि जल्दि गै हजुरमा ल्याया इनै हुन् भनी ॥२१०॥
 पौंच्या श्रीरघुनाथका हजुरमा काल विप्ररूपले जसै ।
 'त्वं वर्धस्व' भनेर आशिष दिया श्रीरामलाई तसै ॥
 सत्कार श्रीरघुनाथले पनि गन्या पैल्यै कुशल क्षेम गरी ।
 तिनको आशय बुझनलाई हरिले सोध्या अगाडी सरी ॥२११॥

कुन् काम गर्नु छ र जल्दि आई ।

भेट गर्नुभो आज यहाँ मलाई ॥

हूकूम प्रभुको जब येति पाया ।

ती काल पुरुषले पनि बिनति लाया ॥२१२॥

हे नाथ ! चरणमा अहिले म पर्छु ।

एकान्त बक्स्या हुँदि बिनति गर्छु ॥

मेरा कुरा कोहि नसुन्न पाउन् ।

सुन्नन् त मारीदिनु दूर जाउन् ॥२१३॥

ती कालपुरुषको यति बिनति सूनी ।

बेसै इ भन्छन् भनि भित्र गूनी ॥

हूकूम भयो लक्ष्मणलाई ताहाँ ।

कोही नआउन् अब भित्र याहाँ ॥२१४॥

से जाकर (ऋषिरूपी) काल को प्रभु के सम्मुख ले आये । २१० जैसे विप्र रूप काल श्रीरघुनाथ की सेवा में पहुँचे वैसे ही श्रीराम को "त्वं वर्धस्व" कहकर आशीर्वाद दिया । श्रीरघुनाथ ने भी प्रथम उनका स्वागत सत्कार किया और उनके आने का आशय समझने के लिए सर्वप्रथम कुशल-क्षेम पूछा । २११ कौन सा कार्य शीघ्र करना है, जिस हेतु यहाँ आकर आज आपने मुझसे भेंट करने की कृपा की । जब प्रभु की इतनी आज्ञा पायी तो उस काल पुरुष ने विनती की । २१२ हे नाथ ! मैं चरण में उपस्थित हूँ, यदि आप एकान्त का अवसर देने की कृपा करें तो कुछ विनती करूँ । मेरी वार्ता अन्य कोई न सुनने पाये । यदि कोई सुन लेगा तो उसके जीवन हरण कर लूँगा । अतः दूर ही रहना चाहिए । २१३ उस काल-पुरुष की यह विनती सुनकर तथा अन्तरात्मा में यह जानकर कि ये ठीक ही कहते हैं, लक्ष्मण को आदेश देने की कृपा की कि अब यहाँ अन्दर किसीका प्रवेश न होने पाये । २१४ यदि कोई अन्दर आता है तो वह ये जान ले कि उसे मरना है । वह अत्यन्त संकट में फँस जायेगा । एकान्त यहाँ

क्वै आउनन् भित्त त मर्न जानन् ।
 अत्यन्त गोता विहकै ति खानन् ॥
 एकान्ततक् कोहि यहाँ नआउन् ।
 यो उदि सब्ले तिभिदेखि पाउन् ॥२१५॥
 सून्यो हुकूम् येति र काल बोल्यो ।
 आपना सबै आशय ताहि खोल्यो ॥
 हे नाथ् ! म हूँ काल् सवलाइ हन्या ।
 मालुम् छ यो सब् किन विन्ति गन्या ॥२१६॥
 ब्रह्माजिको विन्ति लिएर आयाँ ।
 खुप् भाग्यले दर्शन आज पायाँ ॥
 ब्रह्माजिको विन्ति म आज गर्छु ।
 होला हुकूम् जो उहि शीर धर्छु ॥२१७॥
 सृष्टीदेखि अगाडि पूर्ण रूपले आत्मा स्वरूप् एक् थियो ।
 नारायण् जलशायि रूप त पाछी यै सृष्टि खातिर् लियो ॥
 ख्वामित्का तहि नाभिका कमलमा एक्लै म पैदा भयाँ ।
 सृष्टी गर्न हुकूम् हुँदा हुकुमले लोक् सृष्टि गर्दै गयाँ ॥२१८॥
 जसले दुःख दिया प्रजाकन तिनै- लाई म मारुँ भनी ।
 युग् युग्मा अवतार् समेत् लिनुभयो यस्तै अगाडी पनि ॥

कोई भी न आये । ऐसी आज्ञा की जानकारी सब लोग तुमसे प्राप्त करें । २१५ यह आज्ञा सुनने के पश्चात् काल ने अपना सम्पूर्ण आशय सविस्तार वर्णन किया । हे नाथ ! मैं सबका हरण करनेवाला हूँ । ये सबको मालूम है । अतः क्या विनय करूँ । २१६ मैं ब्रह्मा जी का संदेश लेकर आया हूँ और अत्यन्त सौभाग्य से आज आपके दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ । आज मैं आपके सम्मुख ब्रह्मा जी की विनति प्रस्तुत करता हूँ; जो आज्ञा होगी उसे ही शिरोधार्य करूँगा । २१७ (ब्रह्मा जी का कथन है—) आप सृष्टि के पूर्व आत्मस्वरूप एक ही पूर्णरूप थे । जल में विराजमान नारायण का रूप तो इसी सृष्टि के निमित्त बाद में आपने धारण किया है, स्वामी के नाभि से निकले हुए कमल से मैं अकेला ही उत्पन्न हुआ । उपरांत सृष्टि रचने की आज्ञा हुई, और तदनुसार मैं लोक-सृष्टि करता गया । २१८ प्रजाओं को जिन्होंने सताया उन्हें मारने के निमित्त युग-युग में अवतार भी लेने की कृपा की । इसी प्रकार पहले भी अवतरित होते रहे । अभी भी यह अवतार पृथ्वी के भार हरने के लिए ही

ऐले यो अवतार् पनी पृथिविकै
 भूको भार् पनि टारिबक्सनुभयो
 एघारै म हजार वर्ष रहुँला
 सोही वर्ष गणीतले गनिलिदा
 बस्नैको अरु मन् छ पो त भगवान् !
 याहाँ आउन मन् भया बखत भो
 ब्रह्माको विनती सुनेर रघुनाथ्
 साम्ने बात्चित गर्नुभो पनि बहुत्
 दुर्वासा यहि बीचमा तहिँ गया
 लक्ष्मण् द्वारमहाँ थिया र ऋषिले
 लक्ष्मण्लाइ तहाँ भन्या त ऋषिले
 लक्ष्मण्लाइ कठिन् भयो कठिनले
 भित्तै जान हुँदैन जाउँ कसरी
 जुन् काम् खातिर आज आउनु भयो
 लक्ष्मण्ले यति ती मुनीकन तहाँ
 दुर्वासा ऋषि हुन् बडा त पनि खुप्

भार् हर्न खातिर् धरी ।
 सब् दुष्ट संहार् गरी ॥२१९॥
 जाँदा हुकूम् जो भयो ।
 एघार हज्जार गयो ॥
 इच्छा हजूरको हवस् ।
 लौ जल्दि पाल्नुहवस ॥२०॥
 हाँसी तिनै कालका ।
 सब् जानकै चालका ॥
 राम्लाइ भेट्छु भनी ।
 तिन्लाइ भेट्या पनि ॥२२१॥
 हाजिर् गराऊ भनी ।
 बिन्ती लगाया पनि ॥
 विस्तार् कहाँतक् गरूँ ।
 सो पूर्ण गर्छु बरु ॥२२२॥
 बिन्ती गन्याथ्या जसै ।
 रीसाइ बोल्या तसै ॥

आपने लिया है । भू-भार को भी सब दुष्टों का संहार के करने बाद हरण करने की कृपा की । २१९ आते समय यह आज्ञा देने की कृपा की थी कि मैं ग्यारह हजार वर्ष रहूँगा । गणित के अनुसार उक्त वर्षों की गणना करने पर ग्यारह हजार का युग पूरा हो गया । अतः भगवन् ! यहाँ रहने की और इच्छा तो नहीं है ? बताने की कृपा करें । यदि यहाँ से चलने की इच्छा हो तो समय हो गया है तुरन्त चलने की कृपा करें । २२० ब्रह्मा की इन बातों को सुनकर रघुनाथ जी हँसते हुए उस काल के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे उनके वास्तव में जाने का संकेत हुआ । इसी बीच दुर्वासा ऋषि राम से भेंट करने के लिए वहाँ आये । द्वार पर लक्ष्मण जी थे, अतः ऋषि की उन्हीं के साथ भेंट हुई । २२१ ऋषि ने लक्ष्मण जी से श्रीराम के समीप ले चलने के लिए कहा । लक्ष्मण जी को कठिनाई अनुभव हुई । अतः असमंजस के साथ उन्होंने इस प्रकार विनती की कि महाराज ! अन्दर जाने के लिए निषेध है । अतः किस प्रकार जाया जाये और इस सम्बन्ध में मैं कहाँ तक विस्तार करूँ । जिस कार्य के लिए आपने यहाँ आने की आज कृपा की है उसे मैं ही पूर्णकर्ता हेतु प्रस्तुत हूँ । २२२ लक्ष्मण ने मुनि से जैसे ही इतनी

लैजाऊ अझ रामका चरणमा
 लैजान्नौ त मलाइ भित्त त कुलै-
 सून्या येति वचन् र लक्ष्मणजिले
 कुल्कोनाश्नहवस् कुशल सब रहून्
 ऐले भित्त त जान निश्चय पन्थो
 लक्ष्मण भित्त गया जहाँ प्रभुथिया
 द्वारमा हाजिर छन् ऋषी भनि तहाँ
 ती काल्लाइ बिदा गरेर रघुनाथ
 दुर्वासासित भेट भयो जब तहाँ
 सोध्नु भो ऋषिलाइ आउनु भयो
 इच्छा भोजनमा थियो ति ऋषिको
 भोजन् बक्सनुभो र भोजन गरी
 यै बीचमा ताहि संझि बक्सनुभयो
 लक्ष्मण्लाइ कसोरि माहँ अहिले
 सन्ताप् श्रीरघुनाथमा जब पन्थो
 मारीबक्सनुहोस् मलाइ भगवान् !

वाहीं शरण् पर्दछु ।
 को भस्म झन् गर्दछु ॥२२३॥
 मन्मा विचार्यो गन्या ।
 क्या हुन्छ मै एक मन्या ॥
 यस्तो विचार्यो खुप् गरी ।
 त्रैलोक्यका नाथहरि ॥२४॥
 बिनती गन्याथ्या जसै ।
 बाहीर आया तसै ॥
 राम्ले नमस्कार गरी ।
 कस्तो इरादा धरी ॥२२५॥
 सो बिनति गर्दा भया ।
 ऋषी खुशी भै गया ॥
 राम्ले प्रतिज्ञा पनि ।
 यै हो विपत्ती भनी ॥२२६॥
 लक्ष्मण् चरणमा पन्थो ।
 यो ताहि बिनती गन्या ॥

विनती की थी, वैसे ही दुर्वासा ऋषि अत्यन्त क्रोधित होकर कहने लगे कि अभी ही मुझे राम के चरणों में ले जाओ, वहीं शरण पड़ूंगा। यदि मुझे अन्दर नहीं ले जाओगे तो मैं सम्पूर्ण वंश को (शाप से) भस्म कर दूँगा। २२३ इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया— मेरे जैसे एक के मरने से क्या हो जायेगा, सब कुशल से रहें, वंश का नाश न हो। ऐसा विचारकर उसी समय अन्दर जाने का निश्चय किया और लक्ष्मण जहाँ प्रभु त्रैलोक्यनाथ हरि थे, अन्दर चले गये। २२४ द्वार में ऋषि की उपस्थिति की सूचना देते हुए विनती करते ही, उस काल को विदा देकर श्रीरघुनाथ बाहर निकल आये। जब दुर्वासा जी से भेंट हुई तो राम ने नमस्कार करते हुए ऋषि से प्रश्न करने की कृपा की कि आप किस विचार को लेकर यहाँ पधारे हैं। २२५ उस ऋषि का विचार भोजन की ओर था अतः विनती की कि भोजन देने की कृपा करें। तदनुसार ऋषि भोजन कर प्रसन्न होकर चले गये। इसी समय राम को प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ और सोचने लगे कि लक्ष्मण को कैसे मालूम हो? यह एक महान् विपत्ति आ गयी है। २२६ जब रघुनाथ को यह संताप हुआ तो लक्ष्मण ने तुरन्त चरण में पड़कर यह विनती की कि भगवन् !

ठूलो भन्नु छ धर्म हो उहि रहोस्
 यस्को निश्चय गर्नलाइ हुनगो
 सब्ले विन्ति गन्या बुझी हजुरमा
 मारीहाल्नु त योग्यछैन अधिराज्
 ज्यान् हर्नु र वियोग गर्नु इ बरा-
 लक्ष्मण्लाइ पनी विदा दिनुभयो
 लक्ष्मण्जी सरयू गया तस बखत्
 प्राणायाम् तिरमा गरीकन गया
 यस् रीत्ले नरलोक छोडिकन ती
 भेट्ना-खातिर शेषका हजुरमा
 लक्ष्मण्जी सितको वियोग् जब भयो
 साह्रै दिक्क भएर मन्त्रिहरुथ्यै
 जान्छु लक्ष्मण छन् जता म त उता
 राजा भैकन जो प्रजाहरु इ छन्
 जस्सै येति हुकूम सुन्या भरतले
 यस्ता विन्ति गन्या तहाँ भरतले

बिन्ती गन्या यो जसै ।
 ठूलो सभा एकू तसै ॥२२७॥
 त्याग् मात्र गर्नु हवस् ।
 ज्यान् आज इन्को रहोस् ॥
 बर् हुन् भन्याथ्या जसै ।
 श्रीरामजीले तसै ॥२२८॥
 राम्का चरण्मा परी ।
 जाहाँ रहन्थ्या हरि ॥
 लक्ष्मण् जसै ता गया ।
 ब्रह्मादि जस्मा भया ॥२२९॥
 दुःखी सरीका बनी ।
 यस्तो हुकूम भो पनि ॥
 यो राज् भरतले गरून् ।
 यिन्को सबै ताप् हरून् ॥२३०॥
 मूर्छित् सरीका भई ।
 राम्का हजूरमा गई ॥

मुझे मार डालने की कृपा करें। धर्म ही महान् है, अतः प्रतिज्ञा का पालन करने की कृपा करें। जैसे ही यह विनती की गयी, तब इसे निश्चित करने के लिए एक विराट सभा का आयोजन हुआ। २२७ सबने विचार-विमर्श करने के पश्चात् विनती की कि श्रीमन् ! केवल निर्वासित करने की कृपा करें। हे अधिराज ! इन्हें मार डालना उचित नहीं है, अतः आज इनके प्राण रहने दें। प्राणों का हरण करना तथा पृथक करना दोनों ही समान कहे जाते हैं। ऐसे कथन को सुनकर श्रीराम जी ने लक्ष्मण जी को विदा किया। २२८ उस समय राम के चरण में नतमस्तक होकर लक्ष्मण जी सरयू की ओर चले गये। नदी के तट पर प्राणायाम् करके जहाँ हरि थे, उसी धाम को चले गये। इस प्रकार नरलोक को छोड़कर जैसे ही लक्ष्मण परमधाम पहुँचे, ब्रह्मादि शेष की सेवा में भेंट करने के लिए एकत्र हो गये। २२९ जब लक्ष्मण जी के साथ वियोग हुआ तब भगवान् राम ने अति दुखी होकर, अत्यन्त व्यथित होकर, मन्त्रियों को ऐसी आज्ञा दी कि मैं तो जहाँ लक्ष्मण गये हैं, वहीं जाता हूँ। यह राज्य अब भरत करें। वे ही राजा होकर इन सब प्रजाजनों के तापों को दूर करें। २३० जब भरत ने इस

बस्थ्याँ ख्वामितलाइ छोडि म कहाँ
छोरै छन् अधिराज् प्रभू ! हजुरका
जेठा पुत्र हजूरका इ कुश वीर्
उत्तरमा बसि राज् गरी इ लवले
दूई भाइ चलाउँछन् इ जति छन्
दूत् जाउन् मथुरा विषे किन उसै
सूनून् लक्ष्मणको पनी ति समचार
साथै जान हजूरका चरणमा
यस्तो बिनति हजूरमा भरतले
पाया थाह र ताप् भयो मनमहाँ
बिनती एक वशिष्ठले तहिं गन्या
रुन्छन् सब् दुनियाँ यहाँ हजुरको
सुन्नूभो तहिं यो वशिष्ठ ऋषिले
ठाकुरको पनि खुप् दया हुन गयो

तीन् लोक बक्स्या पनि ।
राज्का इनै हुन् धनी ॥२३१॥
राज् कोसलैमा गरुन् ।
सम्पूर्णको ताप् हरुन् ॥
सब् राज्यको काम् यहाँ ।
शत्रुघ्न बस्थन् तहाँ ॥२३२॥
पौंच्या परम् धाम् भनी ।
दौडेर आऊन् पनि ॥
गर्दा प्रजाले पनि ।
जानन् कि छोडी भनी ॥२३३॥
लान्छन् कि छोड्छन् भनी ।
पाउन् प्रसाद् ई पनि ॥
बिनती गन्याको जसै ।
ती सब् प्रजामा तसै ॥२३४॥

आज्ञा को सुना तब मूर्च्छित के समान उन्होंने राम की सेवा में उपस्थित होकर ऐसी विनती की कि यदि मुझे तीनों लोक भी देने की कृपा करें तब भी मैं श्रीमन् को छोड़कर कहाँ रहता? अधिराज प्रभु श्रीमन् के पुत्र हैं वे ही इस राज्य के स्वामी हैं। २३१ श्रीमन् के ज्येष्ठ पुत्र वीर कुश कोशला में राज्य करें। उत्तर में रहकर कुमार लव सम्पूर्ण लोक के ताप को हरे। ये दोनों भाई राज्य के सम्पूर्ण कार्य जो भी हों, संचालन करेंगे। मथुरा में जहाँ शत्रुघ्न रहते हैं, दूत को भेजा जाये। २३२ लक्ष्मण के परमधाम को चले जाने का समाचार भी सुन लें और आपके प्रस्थान होने की सूचना से भी अवगत हो जायें, ताकि वे तुरन्त दौड़कर आपके चरणों में आ सकें। भरत द्वारा श्रीराम की सेवा में ऐसी विनती करने पर प्रजाओं को भी उनके छोड़कर जाने की बात का पता चल गया और वे सब मन में अत्यन्त पीड़ित हुए। २३३ उसी समय वशिष्ठ जी ने विनती की कि वे सबको अपने साथ लेते जायेंगे अथवा सबको छोड़ देंगे। श्रीमन् का प्रसाद प्राप्त करने के लिए यहाँ सारा लोक रुदन करेगा। वशिष्ठ जी के द्वारा की गयी इस विनती को सुनने पर उन सब प्रजाओं के ऊपर ठाकुर (राम को) को बहुत दया आयी। २३४ बताओ, क्या इच्छा है? सब पूर्ण करूंगा। ऐसी आज्ञा होने पर सबने साथ जाने के लिए प्रभु से विनती की, और

इच्छा क्या छ बताउ पूर्ण गरँला भन्न्या हुकूम भो पनि ।
 सब्ले बिनति गन्या प्रभू सित तहाँ सब् साथ जान्छौं भनी ॥
 इच्छा पूर्ण हवस् भनी हुकुम भो सब् ती प्रजा खुश् भया ।
 उत्तर कोसलमा दुवै ति कुश लव राज् गर्न खातिर गया ॥२३५॥
 केही दूत् मथुरा तरफ् प्रभुजिले जल्दी पठाईदिया ।
 दूत् पाँच्या रघुनाथका हुकुमले शत्रुघ्न जाहाँ थिया ॥
 दूत् देखी समचार सुन्या प्रभुजिको शत्रुघ्न जीले जसै ।
 छोरालाइ रजाई दी प्रभुजिथ्यै ती जान आँट्याँ तसै ॥२३६॥
 जेठा पुत्र सुबाहुलाइ मथुरा नै राजधानी दिया ।
 युप्लाई विदिशा दिया र ति गया जाहाँ रघुनाथ् थिया ॥
 जल्दी गैकन पाउमा परि तहाँ यो बिनति लाया पनि ।
 साथै जान भनेर आज रघुनाथ् आयाँ हजूरमा भनी ॥२३७॥
 लौ मध्याह्न हुँदा तयार् भइ रह्या यस्तो हुकूम भो तहाँ ।
 आया राक्षस ऋक्ष वानरहरू सब् एति सुन्दा महाँ ॥
 जान्छौं आज सँगै प्रभो ! हजुरका यै बिनति सब्ले गन्या ।
 सुग्रीवजी पनि बिनति गर्न रघुनाथ्- जीका अगाडी सन्या ॥३८॥
 अङ्गदलाइ रजाई दीकन यहाँ जाँलाँ म साथै भनी ।
 आयाको छु दयानिधान् ! हजुरमा यो बिनति लाया पनि ॥

प्रभु ने सबकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया । वे सब प्रजाजन भी प्रसन्न हुए । उत्तर कोशल में वे दोनों कुश और लव राज्य करने के निमित्त चले गये । २३५ कुछ दूतों को प्रभु जी ने मथुरा की ओर तुरंत भेज दिया । रघुनाथ जी की आज्ञा से दूत शत्रुघ्न के समक्ष पहुँचे । जैसे ही शत्रुघ्न जी ने दूत के द्वारा प्रभु जी का समाचार सुना, उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर प्रभु जी के साथ जाने की तैयारी की । २३६ ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु को मथुरा की राजधानी सौंप दी । और यूप को विदिशा सौंपने के पश्चात् वे शीघ्र रघुनाथ के पास चले गये । तुरन्त जाकर पाँवों में पड़कर यह विनती की कि—हे रघुनाथ ! मैं आज आपके साथ जाने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ । २३७ मध्याह्न होने पर तैयार रहने की आज्ञा दी गयी । यह सुनते ही सब राक्षस, रिक्ष तथा वानर आदि आ पहुँचे और सबने सेवा में यही विनती की कि प्रभु ! हम भी सब साथ ही चलेंगे । सुग्रीव जी भी रघुनाथ जी के सम्मुख विनती करने हेतु अग्रसर हुए । २३८ उन्होंने अनुरोध किया कि अंगद को राज देकर मैं

सुग्रीवको अरुको ति ऋक्षहरुको बिनती सुन्याथ्या जसै ।
 प्यारा भक्त जहाँ विभीषण थिया ताहाँ गया राम् तसै ॥२३९॥
 ताहाँ गैकन यो हुकूम पनि भयो बस्नु' तिमिले यहीं ।
 प्रारब्धै बलवान छ जान सबको छुट्तेन सो ता कहीं ॥
 जाहाँसम्म रहन्छभूमि तहि तक् राज् गर्नु याहीं बसी ।
 शिक्षा गर्नु सबै प्रजाकन बहुत् अन्यायिलाई कसी ॥२४०॥
 यस्को उत्तर छैन चुप् रहु भनी हुकूम भएथ्यो जसै ।
 तेसै ठाउँ महाँ तुरुन्त हनुमान् जीलाइ देख्या तसै ॥
 हुकूम भो हनुमानलाइ हनुमान् ! चीरञ्जिवी भै रह्या ।
 मेरो जुन् छ हुकूम उ गर्न सब दिन् अत्यन्त तत्पर भया ॥२४१॥
 बुद्धीमान् तहि जास्बवान् पनिथिया जालाँ म साथै भनी ।
 तिन्लाई पनि यो हुकूम हुन गयो बस्नु तिमिले पनि ॥
 द्वापरमा कछु युद्ध गर्नु तिमिथ्यै पन्याँछ सोही गरी ।
 स्वर्गमा तिमि जाउला पछि भन्या ऐले त यस्तै परी ॥२४२॥
 यस्ता रीत् सित जो अह्लाउनु थियो सो सब् अह्लाई वरी ।
 सब् प्राणीहरु साथमा हिंड भनी हुकूम भयो तेस् घरी ॥

भी साथ जाऊँगा । अतः दयानिधान, मैं श्रीमन् की सेवा में आया हूँ । इस प्रकार सुग्रीव तथा अन्य रिक्ष आदिकों का कथन सुनने के बाद राम, उनके परम भक्त विभीषण जहाँ थे, वहाँ चले गये । २३९ वहाँ जाकर आज्ञा देने की कृपा की कि तुम यहीं रहना । समय अत्यन्त बलवान है, अतः कहीं भी सबको छुटकारा नहीं मिलता । इसे जानो । जब तक धरती रहेगी तब तक यहीं रहकर रास करना । सब प्रजाजनों को शिक्षा देना और अन्यायियों को अनुशासित करना । २४० इसका कोई उत्तर नहीं है ! अतः जैसे ही चुप रहने के लिए आज्ञा देने की कृपा की, उसी स्थान पर तुरन्त हनुमान जी को उपस्थित पाया । हनुमान को आज्ञा दी कि हे हनुमान ! चिरंजीवी होकर रहो और मैं जो कहूँ उसका पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहना । २४१ बुद्धिमान जामवंत भी साथ ही जाने के उद्देश्य से वहाँ आ गये थे परन्तु उन्हें भी वहाँ रहने की आज्ञा हुई, कहा कि द्वापरयुग में तुम्हारे साथ युद्ध करना होगा और उसके समापन होने पर तुम स्वर्ग को जाओगे, अतः अभी इसी प्रकार रहो । २४२ इस रीति से जो कुछ भी बताना था, सब कहने के पश्चात् सब प्राणियों को साथ में चलने की आज्ञा दी । श्रीरघुनाथ की आज्ञा सुनकर

हूकूम श्रीरघुनाथको जब सुन्या आनन्द मानी तब ।
आफना परिवार लिएर सँगमा जम्मा भए ती सब ॥२४३॥

आफना पुरोहित ति वशिष्ठलाई ।

हूकूम भयो मङ्गल गर्नलाई ॥

मङ्गल अनेकन् ऋषिले गराया ।

राम् स्वर्ग जानाकन निस्क आया ॥२४४॥

सीताजिले रूप अधिको छिपाइन् ।

लक्ष्मी भई वाम्तिर बस्न आइन् ॥

दक्षिण् तरफ् भूमि बसिन् हरीका ।

सब ताहि आया भुवनै भरीका ॥२४५॥

शस्त्रास्त्र सब ती पनि रूप धर्दै ।

हिंड्दा तहाँ मंगल शब्द गर्दै ॥

गायत्रि चार वेद् पनि ताहि आया ।

रूप धारि मंगल यश शब्द गाया ॥२४६॥

जो ता अयोध्या पुरवासि थीया ।

तिन्ले सँगै सब परिवार लीया ॥

बालो बुढो कोहि रहेन ताहाँ ।

सबको गयो मन् उहि राममाहाँ ॥२४७॥

सुग्रीव्हरू वानर मुख्य आया ।

सब पाप छूटयो भनि हर्ष पाया ॥

सब आनन्दित हुए और अपने-अपने परिवारों को साथ लेकर वे सब एकत्रित हुए । २४३ अपने पुरोहित वशिष्ठ को मंगल करने के लिए आज्ञा दी । ऋषि ने भी अनेक प्रकार से मंगल किया । भगवान् राम ने स्वर्ग जाने के लिए प्रस्थान किया । २४४ सीता जी ने पहले के रूप का त्याग किया और लक्ष्मी बनकर बाँयों ओर बैठने के लिए आ गयीं । हरि के दक्षिण की ओर धरती विराजमान् हुई । भुवन भर के सब प्राणी वहीं आ गये । २४५ शस्त्रास्त्र भी सब रूप धारण करते हुए मंगल-शब्दों का उच्चारण करते हुए चले । गायत्री तथा चार वेद सभी आये और रूप धारणकर मंगल-यश का गान करने लगे । २४६ जो अयोध्यापुरी के निवासी थे, उन्होंने सब परिवारों को साथ ले लिया । बाल-वृद्ध कोई भी वहाँ शेष नहीं रहा । सभी के मन भगवान् राम में समा गये । २४७ सुग्रीव तथा वानर आदि मुख्य रूप से आये और यह

जो लोक थियो रामसित जान गैगो ।

गुलुजार् अयोध्या पनि शून्य भैगो ॥२४८॥

छोडी शहर क्यै गइ भूमिमाहाँ ।

देख्या प्रभूले सरयू र ताहाँ ॥

आफनो विराट् रूपकन संजिलीया ।

आफै त सबका पनि नाथ थीया ॥२४९॥

ब्राह्मा ऋषी देव र सिद्ध आया ।

आकाश विमान्ले भरि छुट्टि छाया ॥

श्रीराम् उपर खुपसित पुष्पवृष्टि ।

सब गर्न लाग्या उहि लाइ दृष्टि ॥२५०॥

गाऊँछन् कहि नाचूतछन् प्रभुजिकै

यश् मात्र कीर्तन् गरी ।

यै बीचमा रघुनाथ पस्या सरयुमा

सबका अगाडी सरी ॥

ब्रह्माको पनि ताहि औसर पन्यो

हात् जोरि बिनती गरचा ।

सबको ताप अब गैगयो सकल लोक

आनन्द सागर पन्या ॥२५१॥

खवामित्ले अब विष्णुको रूप लिने

बेला भएथ्यो भनी ।

पाण्या बिनति र होइ बक्सनु भयो

श्रीराम् चतुर्भुज पनि ॥

जो शत्रुघ्न भरत् थिया दुइ जना

ती शंख चक्रै बनी ।

खवामित्का तहि बाहुमा बसिगया

बस्य्या यहीं हो भनी ॥२५२॥

जानकर कि सब पापों से छुटकारा मिला, अत्यन्त हर्षित हुए । राम के साथ जो जानेवाले थे, सब साथ चले गये । रमणीक अयोध्या में निस्तब्धता छा गयी । २४८ शहर छोड़कर कुछ दूर चले जाने के बाद प्रभु ने सरयू के दर्शन किये और वहाँ अपने विराट् रूप का स्मरण किया, जो स्वयं ही सबके नाथ थे । २४९ ब्रह्मा, ऋषि, देव तथा सिद्ध लोग भी आये । आकाश विमानों से घिर गया । श्रीराम के ऊपर महान् पुष्प वृष्टि की गयी । सब लोग उन्हीं की ओर दृष्टि लगाये थे । २५० सब लोग प्रभु के यश का कीर्तन और नृत्य करते हैं । इसी बीच श्रीरघुनाथ ने सबके समक्ष आगे बढ़कर सरयू में प्रवेश किया । ब्रह्मा को भी वही अवसर प्राप्त हुआ और हाथ जोड़कर विनती की । सबका ताप अब हरण हो गया है तथा सकललोक आनन्दसागर में मग्न है । २५१ श्रीमन् द्वारा अब विष्णु का रूप धारण करने का समय हो गया है । ऐसी विनती करने पर चतुर्भुज श्रीराम ने हँसने की कृपा की । शत्रुघ्न और भरत दोनों शंख और चक्र बन गये और स्वामी की बाँहों में विराजमान

ब्रह्माण्डै सब देवगण् खुशि भया
 ब्रह्मालाइ हुकूम् गन्या प्रभुजिले
 हे ब्रह्मन् जति जन् थिया शहरमा
 आया सब् परिवार् लिएर सँगमा
 यिन्लाई शुभ लोक देउ तिमिले
 आफ्ना सब् परिवारले सँग रही
 ब्रह्माले प्रभुको हुकूम् यति सुनी
 सब्लाई सुखभोग गर्नकन एक
 ती लोकले पनि खुश् भएर सरयू-
 जुन् सान्तातिक लोक हो उहि पुगी
 सुग्रीव् सूर्यविषे गई मिलिगया
 भूभार् यै रितले हरेर रघुनाथ्
 येती मात्र कह्या सदाशिवजिले
 जस्ले यस्कन पाठ गर्छ मनले
 तिन्का जन्म सहस्रका जति त छन्
 सब् षट्शास्त्र बताउँछन् पढिलिया

यो रूप देख्या जसै ।
 सब् प्राणि खातिर् तसै ॥
 सब् साथ छान्छौं भनी ।
 लाग्या पछाडी पनि ॥२५३॥
 सत् लोकमा बास् गरुन् ।
 आनन्दमा ई परुन् ॥
 हुकुम् शिरोपर् लिया ।
 लोकै खटाई दिया ॥२५४॥
 मा स्नान सब्ले गर्या ।
 आनन्दमा ती पन्या ॥
 अंशै हुनाले गरी ।
 वैकुण्ठ पाँच्या हरि ॥२५५॥
 ती पार्वतीथ्यै पनि ।
 अत्यन्त खूशी बनी ॥
 पाप् भस्म हुन्छन् भनी ।
 तछन् दुनीयाँ पनि ॥२५६॥

हो गये, क्योंकि उनका वही स्थान था । २५२ ब्रह्मा के सब देवगण उस रूप को देखकर प्रसन्न हुए । प्रभु जी ने सब प्राणियों के लिए ब्रह्मा को आज्ञा दी । हे ब्रह्मा ! शहर में जो लोग थे सब साथ चलने के लिए सब परिवारों को साथ लेकर पीछे-पीछे चले आये हैं । २५३ इन्हें तुम शुभ लोक दे देना जिसमें ये सब जन रहें । अपने सब परिवारों के संग रह कर आनन्द में मग्न रहें । प्रभु की इस आज्ञा को सुनकर ब्रह्मा ने इसे शिरोधार्य किया । सबको सुख भोग करने हेतु एक लोक ही की सृष्टि कर दी । २५४ उस लोक में भी सबने प्रसन्न होकर सरयू में स्नान किया । जो सांतातिक (वंश उत्पन्न करनेवाले) जन थे, वहाँ पहुँचकर आनन्द में मग्न हो गये । सुग्रीव सूर्य का अंश होने के कारण उसीमें जाकर विलीन हो गये । इस रीति से भू-भार को हरण करके श्रीरघुनाथ वैकुण्ठपुरी पहुँचे । २५५ सदाशिव ने पार्वती जी से कहा कि जो मन से इस राम-चरित्र को अत्यन्त महान् समझकर इसका पाठ करता है उनके सहस्र जन्मों के पाप जो कुछ भी हों, सब भस्म हो जाते हैं । सब षट्शास्त्रों का कथन है कि इसके पाठ से संसार से तरण हो जाता है । २५६ शम्भु द्वारा पार्वती को अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रेमपूर्वक कही गयी ये सब बातें

शम्भूले पार्वतीथ्यैं खुशि भइ बहुतै प्रेम पूर्वक् कह्याको ।
 संसार् पार् तर्नलाइ सबकन सजिलो साँघु झैं भै रह्याको ॥
 जानी यसलाइ जो ता जनहरु बहुतै प्रेमले पाठ गछन् ।
 संसार्का सौख्य सब् भोग् गरिकन दुनियाँ सब् सहज् पार तछन् ॥

॥ श्री उत्तरकाण्ड समाप्त ॥

सबके लिए संसारपार तरने के लिए एक सरल मार्ग रूप हैं । इसे जानकर जो लोग अत्यन्त प्रेम से पाठ करते हैं, संसार के सब सुखों को भोगकर संसार से तर जाते हैं । २५७

॥ भानुभक्त विरचित नेपाली रामायण समाप्त ॥

